

प्रकाशक—
श्रीमन्त शेठ शितावराय लक्ष्मीचन्द्र
जैन-साहित्योद्धारक फंड कार्यालय
अमरावती (वरार)



मुद्रक—
१-१९ फार्म-सरस्वती मुद्रणालय,
अमरावती, म. प्र.
शेष-रघुनाथ दिपाजी देसाई
न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेस,
६ केलेवाडी, गिरगाँव, बम्बई ४.

THE
ṢATKHAṆḌĀGAMA
OF
PUṢPADANTA AND BHŪTABALI
WITH
THE COMMENTARY DHAVALĀ OF VĪRASENA

VOL. XI

Vedanāksetravādhāna-Vedanākālavādhāna Anuyogadwāras

Edited

with translation, notes and indexes

BY

Dr. HIRALAL JAIN, M. A., LL. B., D. LITT.

ASSISTED BY

**Pandit Balchandra
Siddhānta Shāstri**

with the cooperation of

Dr. A. N. UPADHYE, M. A., D. LITT.

Published by

**Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra,
Jaina Sāhitya Uddhāraka Fund Kāryālaya,
AMRAVATI (Berar)**

1955

Price Rupees Twelve Only

Published by—

**Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra,
Jaina Sahitya Uddharaka Fund Karyalaya,
AMRAVATI (Berar).**



Printer:—

**Forms 1-19 Saraswati Printing Press,
Amraoti, M. P.**

**Rest—R D Desai,
New Bharat P. Press,
6, Kelewadi, Girgaon, Bombay 4.**

विषय-सूची



	पृष्ठ
१ प्राक्-कथन	६
१	
प्रस्तावना	
१ विषय-परिचय	७
२ विषयसूची	१४
३ शुद्धिपत्र	१९
२	
मूल, अनुवाद और टिप्पण	
१ वेदनाक्षेत्रविधान	१—७४
२ वेदनाकालविधान	७५—३६८
३	
परिशिष्ट	
१ सूत्रपाठ	
वेदनाक्षेत्रविधानका सूत्रपाठ	१
वेदनाकालविधानका सूत्रपाठ	४
२ अवतरण-गाथासूची	१५
३ ग्रन्थोल्लेख	१५
४ पारिभाषिक शब्द-सूची	१५



प्राक्-कथन

पदखंडागम भाग १० के प्रकाशनके पश्चात् इतने शीघ्र प्रस्तुत भाग ११ को पाकर पाठक प्रसन्न होंगे, और प्रकाशनसम्बन्धी पूर्व विलम्बके लिये हमें क्षमा करेंगे, ऐसी आशा है।

इस भागके प्रथम १९ फार्म अर्थात् पृष्ठ १ से १५२ तक पूर्वानुसार सरस्वती प्रेस, अमरावतीमें छपे हैं; और शेष समस्त भाग न्यूभारत प्रेस, बम्बई, में छपा है। इस कारण यदि पाठकोको टाइप, कागज व मुद्रण आदिमें कुछ द्विरूपता व दोष दिखाई दे तो क्षमा करेंगे। यदि बम्बईमें मुद्रणकी व्यवस्था न की गई होती तो अभी और न जाने कितने काल तक इस भागके पूरे होनेकी प्रतीक्षा करनी पड़ती।

बम्बईमें इसके मुद्रणकी व्यवस्था करा देनेका श्रेय श्रद्धेय पं० नाथूरामजी प्रेमीको है। इस कार्यमें हमें उनका औपचारिक रूपमात्रसे नहीं, किन्तु यथार्थतः तन, मन और धनसे सहयोग मिला है जिसके लिये हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ हैं। उनकी बड़ी तीव्र अमिलाया और प्रेरणा है कि धवलशास्त्रका सम्पादन-प्रकाशन-कार्य जितना शीघ्र हो सके पूरा कर देना चाहिये, और इसके लिये वे अपना सब प्रकार सहयोग देनेके लिये तैयार हो गये हैं।

इस कार्यकी शेष सब व्यवस्था पूर्ववत् स्थिर रही है जिसके लिये हम धवलकी हस्तलिखित प्रतियोंके स्वामियोंके तथा सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी व व्यवस्थापक समितिके अन्य सदस्योंके उपकृत हैं।

सहारनपुरनिवासी श्री रतनचंद्रजी मुल्तार और उनके भ्राता श्री नेमिचन्द्रजी वकील इन सिद्धान्त ग्रंथोंके स्वाध्यायमें असाधारण रुचि रखते हैं, यह हम पूर्वमें भी प्रकट कर चुके हैं। यही नहीं, वे सावधानीपूर्वक समस्त मुद्रित पाठपर ध्यान देकर उचित संशोधनोकी सूचना भी भेजनेकी कृपा करते हैं जिसका उपयोग शुद्धिपत्रमें किया जाता है। इस भागके लिये भी उन्होंने अपने संशोधन भेजनेकी कृपा की। इस निस्पृह और शुद्ध धार्मिक सहयोगके लिये हम उनका बहुत उपकार मानते हैं।

पाठक देखेंगे कि भाग १२ वॉ भी प्रायः इसके साथ ही साथ प्रकाशित हो रहा है, जिससे पूर्वविलम्बका हमारा समस्त अपराध क्षम्य सिद्ध होगा।

विषय-परिचय



वेदना महाधिकारके अन्तर्गत जो वेदानिक्षेपादि १६ अनुयोगद्वार है उनमेंसे आदिके ४ अनुयोगद्वार पुस्तक १० मे प्रकाशित हो चुके हैं। प्रस्तुत पुस्तकमें उनसे आगेके वेदनाक्षेत्रविधान और वेदनाकालविधान ये २ अनुयोगद्वार प्रकाशित किये जा रहे हैं।

५ वेदनाक्षेत्रविधान

द्रव्यविधानके समान इस अनुयोगद्वारमें भी पदमीमासा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व, ये तीन अनुयोगद्वार हैं। यहाँ प्रारम्भमे श्री वीरसेन स्वामीने क्षेत्रविधानकी सार्थकता प्रगट करते हुए प्रथमत नाम, स्थापना, द्रव्य व भावके भेदसे क्षेत्रके ४ भेद बतला कर उनमेंसे नोआगमद्रव्यक्षेत्र (आकाश) को अधिकारप्राप्त बतलाया है। ज्ञानावरणादि आठ कर्म रूप पुद्गल द्रव्यका नाम वेदना है। समुद्घातादि रूप विविध अवस्थाओमे सकोच व विस्तारको प्राप्त होनेवाले जीवप्रदेश उक्त वेदनाका क्षेत्र है। प्रकृत अनुयोगद्वारमें चूँकि इसी क्षेत्रकी प्ररूपणा की गई है, अतएव 'वेदनाक्षेत्रविधान' यह उसका सार्थक नाम है।

(१) पदमीमांसा—जिस प्रकार द्रव्यविधान (पु. १०) के अन्तर्गत पदमीमासा अनुयोगद्वारमें द्रव्यकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि कर्मोंकी वेदनाके उत्कृष्ट, अनुकृष्ट, जघन्य व अजघन्य तथा देशामर्शकभावसे सूचित सादिअनादि पदोकी प्ररूपणा की गई है, ठीक उसी प्रकारसे यहाँ इस अनुयोगद्वारमें भी उन्हीं १३ पदोकी क्षेत्रकी अपेक्षा प्ररूपणा की गई है। उससे यहाँ कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है (देखिए द्रव्यविधानका विषयपरिचय प्रस्तावना पृ. २-४)।

(२) स्वामित्व अनुयोगद्वारमें उत्कृष्ट पद विषयक स्वामित्व और जघन्य पद विषयक स्वामित्व, इस प्रकार स्वामित्वके २ भेद बतलाकर प्रकरण वश यहाँ जघन्य व उत्कृष्टके विषयमें निश्चित पद्धतिके अनुसार नामादि रूप निक्षेपविधिकी योजना की गई है। इसमें नोआगमद्रव्य-जघन्यके ओघ और आदेशकी अपेक्षा मुख्यतया २ भेद बतलाकर फिर उनमेंसे भी प्रत्येकके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा ४-४ भेद बतलाये हैं। उनमें ओघकी अपेक्षा एक परमाणुको द्रव्य-जघन्य कहा गया है। कर्मक्षेत्रजघन्य और नोकर्मक्षेत्रजघन्यके भेदसे क्षेत्रजघन्य दो प्रकारका है। इनमें सूक्ष्म निगोद जीवकी जघन्य अवगाहनाका नाम कर्मक्षेत्रजघन्य और एक आकाशप्रदेशका नाम नोकर्मक्षेत्रजघन्य बतलाया है। एक समयको कालजघन्य और परमाणुमें रहनेवाले एक स्निग्धत्व आदि गुणको भावजघन्य कहा गया है। आदेशत तीन प्रदेशवाले स्कन्धकी अपेक्षा दो प्रदेशवाला स्कन्ध द्रव्यजघन्य, तीन आकाशप्रदेशोमे अधिष्ठित द्रव्यकी अपेक्षा दो आकाशप्रदेशोंमें अधिष्ठित द्रव्य क्षेत्रजघन्य, तीन समय परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो

समय परिणत द्रव्य कालजघन्य, तथा तीन गुण-परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो गुण-परिणत द्रव्य भावजघन्य है। इसी प्रकारसे आदेशकी अपेक्षा इन द्रव्यजघन्यादिके भेदोकी आगे भी कल्पना करना चाहिये। जैसे—चार प्रदेशवाले स्कन्धकी अपेक्षा तीन प्रदेशवाला तथा पाँच प्रदेशवाले स्कन्धकी अपेक्षा चार प्रदेशवाला स्कन्ध आदेशकी अपेक्षा द्रव्यजघन्य है, इत्यादि। यही प्रक्रिया उत्कृष्टके सम्बन्धमें भी निर्दिष्ट की गयी है। विशेष इतना है कि यहाँ ओघकी अपेक्षा महास्कन्धको द्रव्य-उत्कृष्ट, लोकाकाशको कर्मक्षेत्र-उत्कृष्ट, आकाशद्रव्यको नोकर्मक्षेत्र-उत्कृष्ट, अनन्त लोकोको काल-उत्कृष्ट, और सर्वोत्कृष्ट वर्णादिको भाव-उत्कृष्ट कहा गया है।

आगे इस अनुयोगद्वारमें ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंकी क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य वेदनाये किन किन जीवोके कौन कौनसी अवस्थाओमें होती है, इस प्रकार इन वेदनाओके स्वामियोकी विस्तारसे प्ररूपणा की गयी है। उदाहरणस्वरूप क्षेत्रकी अपेक्षा ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वेदनाके स्वामीकी प्ररूपणा करते हुए बतलाया गया है कि एक हजार योजन प्रमाण आयत जो महामत्स्य स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य तटपर स्थित है, वहा वेदना-समुद्रातको प्राप्त होकर जो तनुवातबलयसे सलग्न है तथा जो मारणान्तिकसमुद्रातको करते हुए तीन विग्रहकाण्डकोको करके अनन्तर समयमें नीचे सातवीं पृथिवीके नारकियोमें उत्पन्न होनेवाला है उसके ज्ञानावरण कर्मकी क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना होती है। इस उत्कृष्ट वेदनासे भिन्न ज्ञानावरणकी क्षेत्रकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट वेदना है। इसी प्रकारसे दर्शनावरण आदि शेष कर्मोंकी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट वेदनाओकी प्ररूपणा की गयी है। वेदनीय कर्मकी क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना लोकपूरण केवलिसमुद्रातको प्राप्त हुए केवलीके कही गयी है।

ज्ञानावरणकी क्षेत्रत. जघन्य वेदना ऐसे सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवके बतलायी है जो ऋजुगतिसे उत्पन्न होकर तद्भवस्थ होनेके तृतीय समयमें वर्तमान व तृतीय समयवर्ती आहारक है, जघन्य योगवाला है, तथा सर्वजघन्य अवगाहनासे युक्त है। इस जघन्य क्षेत्रवेदनासे भिन्न अजघन्य क्षेत्रवेदना कही गयी है। इसी प्रकारसे शेष कर्मोंकी भी क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य व अजघन्य वेदनाकी यहाँ प्ररूपणा की गयी है।

(३) अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारमें आठो कर्मोंकी उक्त वेदनाओंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा जघन्यपदविषयक, उत्कृष्टपदविषयक व जघन्य-उत्कृष्टपदविषयक, इन ३ अनुयोगद्वारोके द्वारा की गयी है। प्रसंग पाकर यहाँ (सूत्र ३०-९९मे) मूलग्रन्थकर्ताने सब जीवोंमें अवगाहनादण्डककी भी प्ररूपणा कर दी है।

६ वेदनाकालविधान

इस अनुयोगद्वारमें पहिले नामकाल, स्थापनाकाल, द्रव्यकाल, समाचारकाल, अद्वाकाल, प्रमाणकाल और भावकाल, इस प्रकार कालके ७ भेदोका निर्देश कर इनके और भी उत्तरभेदोको बतलाते हुए तदव्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यकालके प्रधान और अप्रधान रूपसे २ भेद बतलाये हैं। इनमे जो काल शेष पांच द्रव्योंके परिणमनमे हेतुभूत है वह प्रधानकाल कहा गया है। यह

प्रधानकाल कालाणु स्वरूप होकर संख्यामें लोकाकाशप्रदेशोके बराबर, रत्नराशिके समान प्रदेश-प्रचयसे रहित, अमूर्त एवं अनादि-निधन है। अप्रधानकाल सचित्त, अचित्त और मिश्रके मेदसे तीन प्रकारका बतलाया है। इनमें दंशकाल (डासोका समय) व मशककाल (मच्छरोंका समय) आदिको सचित्तकाल, धूलिकाल, कर्दमकाल, वर्षाकाल, शीतकाल व उष्णकाल आदिको अचित्त-काल; तथा सदश शीतकाल आदिको मिश्रकालसे नामांकित किया गया है।

समाचारकाल लौकिक और लोकोत्तरके मेदसे दो प्रकार है। वन्दनाकाल, नियमकाल, स्वाध्यायकाल, व ध्यानकाल आदिरूप लोकोत्तर समाचारकाल तथा कर्षणकाल (खेत जोतनेका समय) लुननकाल व वपनकाल (बोनेका समय) आदि रूप लौकिक समाचारकाल कहा जाता है। वर्तमान, अतीत व अनागत रूप काल अद्वाकाल तथा पल्योपम व सागरोपम आदि रूप काल प्रमाणकाल नामसे प्रसिद्ध है।

वेदनाद्रव्यविधान और क्षेत्रविधानके समान इस अनुयोगद्वारमें भी पदमीमासा, स्वामित्व और अल्पवहुत्व ये ही तीन अनुयोगद्वार हैं।

(१) पदमीमांसा अनुयोगद्वारमें ज्ञानावरणादि कर्मोंकी वेदनाओंके उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट आदि उन्हीं १३ पदोंकी प्ररूपणा कालकी अपेक्षा ठीक उसी प्रकारसे की गयी है जैसे कि द्रव्य-विधानमें द्रव्यकी अपेक्षासे और क्षेत्रविधानमें क्षेत्रकी अपेक्षासे वह की गयी है। यहाँ उससे कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है।

(२) स्वामित्व—पिछले उन दोनो अनुयोगद्वारोंके समान यहाँ भी इस अनुयोगद्वारको उत्कृष्ट पदविषयक और अनुत्कृष्ट पदविषयक इन्हीं दो मेदोंमें विभक्त किया गया है। प्रकरणवश यहाँ भी प्रारम्भमें क्षेत्रके विधानके समान जघन्य और उत्कृष्टके विषयमें नामादि रूप निक्षेपविधिकी योजना की गयी है। तत्पश्चात् ज्ञानावरणादि कर्मों सम्बन्धी कालकी अपेक्षा होनेवाली उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट एवं जघन्य-अजघन्य वेदनाओंके स्वामियोंकी प्ररूपणा की गयी है। उदाहरणार्थ, ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वेदनाके स्वामीका कथन करते हुए यह बतलाया है कि जो संज्ञी पचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीव सत्र पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो चुका है, साकार उपयोगसे युक्त होकर श्रुतोपयोगसे सहित है, जागृत है, तथा उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य सकलेश-स्थानोसे अथवा कुल मध्यम जातिके सकलेश परिणामोसे सहित है, उसके ज्ञानावरण कर्मकी कालकी उत्कृष्ट वेदना होती है। उपर्युक्त विशेषताओसे संयुक्त यह जीव कर्मभूमिज (१९ कर्म-भूमियोंमें उत्पन्न) ही होना चाहिये, भोगभूमिज नहीं; कारण कि भोगभूमियोंमें उत्पन्न जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त वह चाहे अकर्मभूमिज (देव-नारकी) हो, चाहे कर्मभूमिप्रतिभागज (स्वयंप्रभ पर्वतके बाह्य भागमें उत्पन्न) हो; इसकी कोई विशेषता यहाँ अभीष्ट नहीं है। इसी प्रकार वह सख्यातवर्षायुष्क (अर्द्धाई द्वीप-समुद्रो तथा कर्मभूमि प्रतिभागमें उत्पन्न) और असख्यातवर्षायुष्क (देव-नारकी) इनमेंसे कोई भी हो सकता है। वह देव होना

चाहिये, मनुष्य होना चाहिये, तिर्यच होना चाहिये अथवा नारकी होना चाहिये, इस प्रकारकी गतिजन्य विशेषताके साथ ही यहाँ वेदजनित विशेषताकी भी कोई अपेक्षा नहीं की गयी है। वह जलचर भी हो सकता है, थलचर भी हो सकता है, और नभचर भी हो सकता है, इसकी भी विशेषता यहाँ नहीं ग्रहण की गयी।

इस उत्कृष्ट वेदनासे भिन्न वेदना अनुत्कृष्ट वतलार्थी गई है। इसी प्रकारसे यथासम्भव जेप कर्मोंकी कभी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट वेदनाओकी विग्रहतासे प्ररूपणा की गयी है। आयु कर्मकी कालत उत्कृष्ट वेदनाका निरूपण करते हुए यह स्पष्ट किया है कि उत्कृष्ट देवायुके बन्धक मनुष्य सम्यग्दृष्टि ही होते हैं, किन्तु उत्कृष्ट नारकायुके बन्धक मनुष्य पर्याप्त मिथ्यादृष्टिके साथ संज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यच मिथ्यादृष्टि भी होते हैं। देवोंकी उत्कृष्ट आयुका बन्ध १५ कर्मभूमियोमें ही होता है, कर्मभूमिप्रतिभाग और भोगभूमियोमें उत्पन्न जीवोंके उसका बन्ध सम्भव नहीं है। उत्कृष्ट नारकायुका बन्ध १५ कर्मभूमियोके साथ कर्मभूमिप्रतिभागमें भी उत्पन्न जीवोंके होता है, भोगभूमियोमें उसका बन्ध नहीं होता। इस उत्कृष्ट देवायु और नारकायुके बन्धक सख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य व तिर्यच उसके बन्धक नहीं होते। तीनों वेदोंमेंसे किसी भी वेदके साथ उत्कृष्ट आयुका बन्ध हो सकता है, उसका किसी वेदविशेषके साथ विरोध सम्भव नहीं है, यह जो मूल ग्रन्थकारद्वारा सामान्य कथन किया गया है उसका स्पष्टीकरण करते हुए श्री वीरसेन स्वामीने कहा है कि वेदसे अभिप्राय यहाँ भाववेदका रहा है। कारण कि अन्यथा द्रव्य स्त्रीवेदसे भी उत्कृष्ट नारकायुका बन्ध हो सकता है, किन्तु वह “आ पचमी त्ति सिंहां इत्थीओ जति छट्ठिपुढवि त्ति” इस सूत्र (मूलाचार १२-११३) के विरुद्ध होनेसे सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त द्रव्यस्त्रीवेदके साथ उत्कृष्ट देवायुका भी बन्ध सम्भव नहीं है, क्योंकि, उसका बन्ध निर्ग्रन्थ लिंगके साथ ही होता है, परन्तु द्रव्यस्त्रियोंके वस्त्रादि त्यागरूप भावनिर्ग्रन्थता सम्भव नहीं है।

कालकी अपेक्षा सब कर्मोंकी जघन्य वेदनाकी प्ररूपणा करते हुए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मकी यह वेदना छद्मस्थ अवस्थाके अन्तिम समयको प्राप्त जीवके (क्षीणकपायके अन्तिम समयमें) वतलायी गयी है। वेदना, आयु, नाम व गोत्रकी कालत जघना वेदना अयोग-केवलीके अन्तिम समयमें होती है। मोहनीय कर्मकी उक्त वेदना सूक्ष्मसाम्यरावके अन्तिम समयमें होती है। अपनी अपनी जघन्य वेदनासे भिन्न सब कर्मोंकी कालत अजघन्य वेदना कही गयी है।

(३) अल्पबहुत्व—अनुयोगद्वारमें क्रमशः जघन्य पद, उत्कृष्ट पद और जघन्य-उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा आठों कर्मोंकी कालवेदनाके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है। इस प्रकार इन ३ अनुयोगद्वारोंके समाप्त हो जानेपर प्रस्तुत वेदनाकालविधान अनुयोगद्वारा समाप्त हो जाता है। आगे चलकर उसकी प्रथम चूलिका प्रारम्भ होती है।

चूलिका १

इस चूलिकामे निम्न ४ अनुयोगद्वार हैं—स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा, निपेकप्ररूपणा, आत्राधा-काण्डकप्ररूपणा और अल्पबहुत्व । (१) स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणामें चौदह जीवसमासोके आश्रयसे स्थितिबन्धस्थानोके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है । अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेसे जघन्य स्थितिको कम करके एक अकके मिला देनेपर जो प्राप्त हो उतने स्थितिस्थान होते हैं । इस अल्पबहुत्वको देशामर्गक मूचित कर श्री वीरसेन स्वामीने यहाँ अल्पबहुत्वके अव्वोगाढअल्पबहुत्व और मूलप्रकृतिअल्पबहुत्व ये दो भेद बतला कर स्वस्थान-परस्थानके भेदसे विस्तारपूर्वक प्ररूपणा की है । अव्वोगाढअल्पबहुत्वमे कर्मविशेषकी अपेक्षा न कर सामान्यतया जीवसमासोके आधारसे जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिबन्ध, स्थितिबन्धस्थान और स्थितिबन्धस्थानविशेषका अल्पबहुत्व बतलाया गया है । परन्तु मूलप्रकृतिअल्पबहुत्वमे उन्हीं जीवसमासोके आधारसे ज्ञानावरणादि कर्मोकी अपेक्षा कर उपर्युक्त जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिबन्धादिके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है ।

आगे जाकर “ वच्यते इति बन्धः, स्थितिश्चासौ बन्धश्च स्थितिबन्धः, तस्य स्थान विशेषः स्थितिबन्धस्थानम्, अथवा बन्धन बन्धः, स्थितेर्बन्धः स्थितिबन्धः, सोऽस्मिन् तिष्ठतीति स्थितिबन्धस्थानम् ” इन दो निरुक्तियोके अनुसार स्थितिबन्धस्थानका अर्थ आत्राधास्थान करके पूर्वोक्त पद्धतिके ही अनुसार अव्वोगाढअल्पबहुत्वमे स्वस्थान-परस्थान स्वरूपसे जघन्य व उत्कृष्ट आत्राधा, आत्राधास्थान और आत्राधास्थानविशेषके अल्पबहुत्वकी सामान्यतया तथा मूलप्रकृतिअल्पबहुत्वमें इन्हींके अल्पबहुत्वकी कर्मविशेषके आधारसे प्ररूपणा की गयी है । तत्पश्चात् जघन्य व उत्कृष्ट आत्राधा, आत्राधास्थान और आत्राधाविशेष, इन सबके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा पूर्वोक्त पद्धतिके ही अनुसार सम्मिलित रूपमे एक साथ भी की गयी है ।

तत्पश्चात् “ स्थितयो बध्यन्ते एभिरिति स्थितिबन्धः, तेषां स्थानानि अवस्थाविशेषा स्थितिबन्धस्थानानि ” इस निरुक्तिके अनुसार स्थितिबन्धस्थानपदसे स्थितिबन्धके कारणभूत सक्लेश व विशुद्धि रूप परिणामोकी व्याख्या प्ररूपणा, प्रमाण व अल्पबहुत्व इन ३ अनुयोगद्वारोंसे की गयी है । सक्लेश-विशुद्धिस्थानोंका अल्पबहुत्व स्वयं मूलग्रन्थकर्ता भट्टारक भूतबलिके द्वारा चौदह जीवसमासोंके आधारसे किया गया है । तत्पश्चात् स्थितिबन्धकी जघन्य व उत्कृष्ट आदि अवस्थाविशेषोंके अल्पबहुत्वका भी वर्णन मूलसूत्रकारने स्वयं ही किया है^१ ।

(२) निपेकप्ररूपणा—सजी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि पर्याप्त आदि विविध जीव ज्ञानावरणादि कर्मोंके आत्राधाकालको छोडकर उत्कृष्ट स्थितिके अन्तिम समय पर्यन्त प्रथमादिक समयोंमें किस प्रमाणसे द्रव्य देकर निपेकरचना करते हैं, इसकी प्ररूपणा इस अधिकारमें प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अवहार, भागाभाग और अल्पबहुत्व, इन ६ अनुयोगद्वारोंके द्वारा विस्तारसे की गई है ।

१ यह अल्पबहुत्व श्वेताम्बर कर्मप्रकृति ग्रन्थकी आचार्य मलयगिरि विरचित सस्कृत टीकामें भी यत् किञ्चित् भेदके साथ प्रायः ज्योंका त्यों पाया जाता है (देखिये कर्मप्रकृति गाथा १, ८०-८१ की टीका) । इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य भी कुछ प्रकरण अनूदित जैसे उपलब्ध होते हैं ।

(३) आवाधाकाण्डकप्ररूपणामे यह बतलाया गया है कि पंचेन्द्रिय संज्ञी आदि जीव आयुकर्मको छोड़कर शेष ७ कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिसे आवाधाके एक एक समयमें पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र नीचे आकर एक आवाधाकाण्डकको करते है । उदाहरणार्थ विवक्षित जीव आवाधाके अन्तिम समयमें ज्ञानावरणादिकी उत्कृष्ट स्थितिको भी बाधता है, उससे एक समय कम स्थितिको बाधता है, दो समय कम स्थितिको भी बाधता है, तीन समय कम स्थितिको भी बाधता है, इस क्रमसे जाकर उक्त समयमें ही पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्रसे हीन तक उत्कृष्ट स्थितिको बाधता है । इस प्रकार आवाधाके अन्तिम समयमें जितनी भी स्थितियाँ बन्धके योग्य हैं उन सबकी एक आवाधाकाण्डक संज्ञा निर्दिष्ट की गयी है । इसी क्रमसे आवाधाके द्विचरमादि समयोके विवक्षित द्वितायादिक आवाधाकाण्डकोंको भी समझना चाहिये । यह क्रम जघन्य स्थिति प्राप्त होने तक चालू रहता है । यहाँ श्री वीरसेन स्वामीने चौदह जीवसमासोंमें आवाधास्थानों और आवाधाकाण्डकशलाकाओंके प्रमाणकी भी प्ररूपणा की है ।

यहाँ आयु कर्मके आवाधाकाण्डकोंकी प्ररूपणा न करनेका कारण यह है कि अमुक आवाधामें आयुकी अमुक स्थिति बाँधती है, ऐसा कोई नियम अन्य कर्मोंके समान आयुकर्मके विषयमें सम्भव नहीं है । कारण कि पूर्वकोटिके त्रिभागको आवाधा करके उसमें तेनीस सागरोपम प्रमाण [उत्कृष्ट] आयु बाँधती है, उससे एक समय कम भी बाँधती है, दो समय कम भी बाँधती है, तीन समय कम भी बाँधती है, यहाँ तक कि इसी आवाधामें क्षुद्रभवप्रहण मात्र तक आयुस्थिति बाँधती है । यही कारण है कि यहाँ आयुके आवाधाकाण्डकोंकी प्ररूपणा नहीं की गयी ।

(४) अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारमें मूलसूत्रकार द्वारा चौदह जीवसमासोंमें ज्ञानावरणादि ७ कर्मों तथा आयु कर्मकी जघन्य व उत्कृष्ट आवाधा, आवाधास्थान, आवाधाकाण्डक, नाना-प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर, एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर, एक आवाधाकाण्डक, जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तथा स्थितिबन्धस्थान, इन सबके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा विगद रूपसे की गयी है^१ । आगे चलकर यहाँ श्री वीरसेन स्वामीने इस अल्पबहुत्वके द्वारा मूचित स्वस्थान व परस्थान अल्पबहुत्वोकी भी प्ररूपणा बहुत विस्तारसे की है ।

चूलिका २

इस चूलिकाके अन्तर्गत स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंकी प्ररूपणामें जीवसमुदाहार, प्रकृति-समुदाहार और स्थितिसमुदाहार ये ३ अनुयोगद्वार निर्दिष्ट किये गये हैं ।

(१) जीवसमुदाहारमें यह बतलाया है कि जो जीव ज्ञानावरणादि रूप ध्रुवप्रकृतियोंके बन्धक हैं वे दो प्रकार होते हैं—सातबन्धक, और असातबन्धक । इसका कारण यह है कि

१ तुलनाके लिये देखिये कर्मप्रकृति १-८६ गाथाकी आचार्य मलयगिरिविरचित संस्कृत टीका ।

साता व असाता वेदनीयके बन्धके बिना उक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव नहीं है। इनमें जो सातबन्धक है वे तीन प्रकार हैं—चतु स्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और द्विस्थानबन्धक। असातबन्धक भी तीन प्रकार ही हैं—द्विस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और चतुस्थानबन्धक। इनमें साताके चतुस्थानबन्धक सर्वविशुद्ध (अतिशय मंदकपायी), उनसे उसीके त्रिस्थानबन्धक संक्लिष्टतर होते हैं। असाताके द्विस्थानबन्धक सर्वविशुद्ध, इनसे त्रिस्थानबन्धक संक्लिष्टतर, और इनसे भी उसके चतुस्थानबन्धक संक्लिष्टतर, होते हैं। साताके चतुस्थानबन्धक जीव उक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिको, त्रिस्थानबन्धक अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिको, तथा द्विस्थानबन्धक उत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हैं। असाताके द्विस्थानबन्धक उपर्युक्त प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिको, त्रिस्थानबन्धक अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थितिको, तथा चतुस्थानबन्धक उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके साथ ही असाताकी भी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हैं। तत्पश्चात् साता व असाताके चतुस्थानबन्धक व द्विस्थानबन्धक आदि जीवोंमें ज्ञानावरणकी जघन्य आदि स्थितियोंको बाँधनेवाले जीव कितने हैं, तथा ज्ञानोपयोग व दर्शनोपयोगसे बंधनेवाली स्थितियों कौन कौनसी हैं, इत्यादि बतलाकर छह यंत्रोंके अधस्तन व उपरिम भागोंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है।

(२) प्रकृतिसमुदाहारमें प्रमाणानुगम और अल्पबहुत्व ये दो अनुयोगद्वार हैं इनमें प्रमाणानुगमके द्वारा ज्ञानावरणादि कर्मोंकी स्थितिके बन्धके कारणभूत स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंके प्रमाणकी प्ररूपणा तथा अल्पबहुत्वके द्वारा उक्त आठों कर्मोंके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है।

(३) स्थितिसमुदाहारमें प्रगणना, अनुकृष्टि और तीव्र-मंदता ये तीन अनुयोगद्वार हैं। इनमें प्रगणनाके द्वारा ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंकी जघन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त पाये जानेवाले स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंकी सख्या और उनके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गयी है। अनुकृष्टिमें उपर्युक्त जघन्य आदि स्थितियोंमें इन्हीं स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंकी समानता व असमानताका विचार किया गया है। तीव्र-मंदता अनुयोगद्वारमें जघन्य स्थिति-आदिके आधारसे स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंके अनुभागकी तीव्रता व मंदताका विवेचन किया गया है। इस प्रकार द्वितीय चूल्काके समाप्त हो जानेपर प्रस्तुत वेदनाकालविधान अनुयोगद्वार समाप्त होता है।

विषय-सूची

क्रम	विषय	पृष्ठ
	५ वेदनाक्षेत्रविधान	
१	वेदनाक्षेत्रविधानमें जातव्य पदमीमासा आदि ३ अनुयोगद्वारोका उल्लेख	१
२	क्षेत्रके सम्बन्धमें नामादि निक्षेपोकी योजना (पदमीमासा)	२
३	पदमीमासामें क्षेत्रकी अपेक्षा ज्ञानावरणकी वेदना सम्बन्धी उत्कृष्ट-अनुकृष्ट आदि १३ पदोका विचार	३
४	शेष कर्मोंके उक्त पदोंका विचार (स्वामित्व)	११
५	स्वामित्वके जघन्य व उत्कृष्ट पदविषयक २ भेदोंका निर्देश	॥
६	जघन्यके विषयमें नामादि निक्षेपोकी योजना	॥
७	उत्कृष्टके विषयमें नामादि निक्षेपोकी योजना	१३
८	क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामीकी प्ररूपणा	१४
९	क्षेत्रत अनुकृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामीकी अनेक विकल्पोंमें प्ररूपणा	२३
१०	अनुकृष्ट क्षेत्रविकल्पोंके स्वामियोंका प्ररूपणा आदि ६ अनुयोगद्वारोंके द्वारा निरूपण ।	२७
११	दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तरायकी उत्कृष्ट व अनुकृष्ट क्षेत्रवेदनाकी प्ररूपणा ज्ञानावरणीयके समान व्रतलाकर वेदनीय कर्मकी उत्कृष्ट वेदनाके स्वामीका निरूपण ।	२९
१२	वेदनीय कर्मकी अनुकृष्ट क्षेत्रवेदनाके स्वामीकी प्ररूपणा करते हुए प्ररूपणा आदि ६ अनुयोगद्वारोंके द्वारा अनुकृष्ट क्षेत्रभेदोंके स्वामियोंका निरूपण	३०
१३	वेदनीय कर्मके ही समान आयु, नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट क्षेत्रवेदना व्रतला कर क्षेत्रत ज्ञानावरणीयकी जघन्य वेदनाके स्वामीका निरूपण	३३
१४	वेदनीय सम्बन्धी अनुकृष्ट क्षेत्रवेदनाके स्वामियोंकी अनेक भेदोंमें प्ररूपणा करते हुए चौदह जीवसमासोंमें क्रमशः वृद्धिको प्राप्त होनेवाले अवगाहनाभेदोंकी प्ररूपणा (अल्पवहुत्व)	३६
१५	अल्पवहुत्वप्ररूपणामें जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्य-उत्कृष्ट पदविषयक ३ अनुयोग- द्वारोंका उल्लेख ।	५३
१६	जघन्य पदकी अपेक्षा आठों कर्मोंसम्बन्धी जघन्य क्षेत्रवेदनाकी परस्पर समानताका उल्लेख ।	॥
१७	उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि कर्मोंकी क्षेत्रवेदनाका अल्पवहुत्व ।	५४
१८	जघन्य-उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा उक्त वेदनाका अल्पवहुत्व ।	५५
१९	मूल सूत्रोंद्वारा सब जीवोंमें अवगाहनाभेदोंके अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा ।	५६

२०	एक सूक्ष्म जीवकी अपेक्षा दूसरे सूक्ष्म जीवकी, सूक्ष्म जीवकी अपेक्षा बादर जीवकी तथा बादर जीवकी अपेक्षा सूक्ष्म जीवकी अवगाहना सम्बन्धी गुणाकारविशेषोका उल्लेख ।	६९
२१	सदृष्टिद्वारा अवगाहनाभेदोके स्वामियोका निर्देश ।	७१
६ वेदनाकालविधान		
१	वेदनाकालविधानमे ज्ञातव्य ३ अनुयोगद्वारोका उल्लेख करते हुए कालके ७ मूल-भेदोका उल्लेख करते हुए कालके ७ मूलभेदो एवं उत्तर भेदोका स्वरूप ।	७५
२	पदमीमासा आदि उक्त ३ अनुयोगद्वारोका नामोल्लेख (पदमीमासा)	७७
३	पदमीमासामे कालकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयवेदना सम्बन्धी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट आदि १३ पदोकी प्ररूपणा	७८
४	शेष ७ कर्मोंकी कालवेदनाके उक्त १३ पदोका विचार (स्वामित्व)	८५
५	स्वामित्वके जघन्य व उत्कृष्ट पदविषयक २ भेदोका निर्देश	"
६	जघन्यके विषयमें नामादि निक्षेपोकी योजना	"
७	उत्कृष्टके विषयमे नामादि निक्षेपोकी योजना	८६
८	कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामीकी प्ररूपणा	८८
९	कालकी अपेक्षा अनेक भेदोमे विभक्त अनुत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामियोकी प्ररूपणा	९१
१०	प्ररूपणा आदि ६ अनुयोगद्वारोके द्वारा उक्त अनुत्कृष्ट स्थानविकल्पोके स्वामियोकी प्ररूपणा ।	१०८
११	ज्ञानावरणीयके ही समान शेष ६ कर्मोंकी भी उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट वेदना बतलाकर आयु कर्मकी उत्कृष्ट कालवेदनाके स्वामीका निरूपण ।	११२
१२	कालकी अपेक्षा आयु कर्म सम्बन्धी अनुत्कृष्ट वेदनाकी प्ररूपणा ।	११६
१३	कालकी अपेक्षा जघन्य ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामीका विवेचन ।	११८
१४	कालकी अपेक्षा अजघन्य ज्ञानावरणीयवेदनाके स्वामिभेदोकी प्ररूपणा ।	१२०
१५	दर्शनावरणीय और अन्तराय सम्बन्धी जघन्य व अजघन्य वेदनाओकी ज्ञानावरणसे समानताका उल्लेख ।	१३२
१६	कालकी अपेक्षा जघन्य वेदनीयवेदनाके स्वामीका निर्देश ।	"
१७	वेदनीयकी अजघन्य वेदनाके स्वामीकी प्ररूपणा ।	१३३
१८	आयु, नाम और गोत्र सम्बन्धी जघन्य-अजघन्य कालवेदनाओकी वेदनीयवेदनासे समानताका उल्लेख ।	१३४
१९	कालकी अपेक्षा जघन्य व अजघन्य मोहनीयवेदनाओके स्वामियोका उल्लेख (अल्पबहुत्व)	१३५

- २० अल्पबहुत्व प्ररूपणामे जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्य-उत्कृष्ट पदविषयक ३ अनुयोग-
द्वारोका निर्देश । १३६
- २१ जघन्य पदकी अपेक्षा आठो कर्मोंकी जघन्य वेदना सम्बन्धी परस्पर समानताका
उल्लेख । १३७
- २२ उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा आठो कर्मोंकी वेदनाका अल्पबहुत्व । "
- २३ जघन्य-उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा उक्त कर्मवेदनाका अल्पबहुत्व । १३८

प्रथम चूलिका

- २४ मूलप्रकृति-स्थितिवन्धकी प्ररूपणामें स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणा, निपेकप्ररूपणा,
आवाधाकाण्डकप्ररूपणा और अल्पबहुत्व, इन ४ अनुयोगद्वारोका निर्देश करके
उनकी आवश्यकताका दिग्दर्शन । १४०

(स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणा)

- २५ चौदह जीवसमासोंमें स्थितिवन्धस्थानोका अल्पबहुत्व । १४२
- २६ इस अल्पबहुत्वद्वारा सूचित चार प्रकारके अल्पबहुत्वमेंसे स्वस्थान अव्योगाद
अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा । १४७
- २७ परस्थान अव्योगादअल्पबहुत्व । १४८
- २८ स्वस्थान मूलप्रकृतिअल्पबहुत्व । १५०
- २९ चौदह जीवसमासोंमें आठो कर्मोंका परस्थान अल्पबहुत्व । १५४
- ३० व्युत्पत्तिविशेषसे स्थितिवन्धस्थानका अर्थ आवाधास्थान करके उनकी प्ररूपणा,
प्रमाण और अल्पबहुत्वके द्वारा व्याख्या । १६२
- ३१ प्रस्तुत अल्पबहुत्व प्ररूपणामें स्वस्थान अव्योगादअल्पबहुत्व । १६३
- ३२ परस्थान अव्योगादअल्पबहुत्व । १६४
- ३३ स्वस्थान मूलप्रकृतिअल्पबहुत्व । १६६
- ३४ परस्थान मूलप्रकृतिअल्पबहुत्व । १६९
- ३५ उपर्युक्त दोनो अल्पबहुत्वदण्डकोंकी सम्मिलित प्ररूपणामें स्वस्थान अव्योगाद-
अल्पबहुत्व १७७
- ३६ परस्थान अव्योगादअल्पबहुत्व १७९
- ३७ स्वस्थान मूलप्रकृतिअल्पबहुत्व १८२
- ३८ परस्थान मूलप्रकृतिअल्पबहुत्व १९०
- ३९ चौदह जीवसमासोंमें सक्लेश-विशुद्धिस्थानोका अल्पबहुत्व २०५
- ४० जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अल्पबहुत्व २२५

(निपेकप्ररूपणा)

- ४१ अनन्तरोपनिधा द्वारा पचेन्द्रिय सज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीवोंमें ज्ञानावरण, दर्शना-
वरण, वेदनीय और अन्तराय कर्मोंकी निपेकरचनाका क्रम २३८

४२	उपर्युक्त जीवोंमें मोहनीय कर्मकी निषेकरचनाका क्रम ।	२४२
४३	पंचेन्द्रिय संज्ञी सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीवोंमें आयु कर्मकी निषेकरचनाका क्रम	२४५
४४	पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तोंमें नाम व गोत्रकी निषेकरचनाका क्रम	२४६
४५	पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि अपर्याप्तोंमें सात कर्मोंकी निषेकरचनाका क्रम	२४७
४६	पंचेन्द्रियादिक अपर्याप्तो तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्तोंमें आयुकी निषेकरचनाका क्रम ।	२४८
४७	पंचेन्द्रिय असंज्ञी, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तोमें आयुको छोड़कर शेष सात कर्मोंकी निषेकरचनाका क्रम ।	२४९
४८	उपर्युक्त जीवोंमें आयु कर्मकी निषेकरचनाका क्रम ।	२५१
४९	उपर्युक्त अपर्याप्तोंमें तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्तोमें सात कर्मोंकी निषेकरचनाका क्रम	२५२
५०	परम्परोपनिधाके द्वारा विविध जीवोंमें निषेकरचनाक्रमकी प्ररूपणा	२५३
५१	श्रेणिरूपणासे सूचित अवहार, भागाभाग और अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारोकी प्ररूपणा ।	२५८
(आवाधाकाण्डकप्ररूपणा)		
५२	पंचेन्द्रिय संज्ञी व असंज्ञी आदि जीवोंमें आयुको छोड़कर शेष सात कर्मोंके आवाधाकाण्डक करनेका नियम ।	२६७
५३	आयुर्कर्मसम्बन्धी आवाधाकाण्डकप्ररूपणा नु करनेका कारण ।	२६९
(अल्पबहुत्व)		
५४	पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य-उत्कृष्ट आवाधा आदिका अल्पबहुत्व ।	२७०
५५	पंचेन्द्रिय संज्ञी व असंज्ञी पर्याप्त जीवोंमें जघन्य व उत्कृष्ट आवाधा आदिका अल्पबहुत्व ।	२७३
५६	पंचेन्द्रिय संज्ञी व असंज्ञी अपर्याप्तो तथा शेष चतुरिन्द्रियादि पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोंमें आयुसम्बन्धी जघन्य आवाधा आदिका अल्पबहुत्व ।	२७५
५७	पंचेन्द्रिय असंज्ञी आदि पर्याप्त-अपर्याप्तोंमें सात कर्मोंकी आवाधा आदिका अल्पबहुत्व ।	२७६
५८	एकेन्द्रिय बादर व सूक्ष्म पर्याप्त-अपर्याप्तोंमें सात कर्मोंकी आवाधा आदिका अल्पबहुत्व ।	२७८
५९	श्री वीरसेन स्वामीके द्वारा प्रकृत अल्पबहुत्व सूचित स्वस्थान-परस्थान अल्पबहुत्वोंमेंसे स्वस्थान अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा ।	२७९
६०	परस्थान अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा ।	२८७
६१	प्रकृत अल्पबहुत्व सम्बन्धी विषम पदोंकी पंजिका ।	३०३

द्वितीय चूलिका

- ६२ इस चूलिकाके अन्तर्गत स्थितिवन्धाध्यवसायप्ररूपणामें जीवसमुदाहार, प्रकृति-समुदाहार और स्थितिसमुदाहार, इन तीन अनुयोगद्वारोका निर्देश । ३०८
- ६३ प्रकृत चूलिकाकी अनावश्यकताविषयक शंका और उसका परिहार । ”
(जीवसमुदाहार)
- ६४ ज्ञानावरणादि ध्रुवप्रकृतियोंके बन्धक जीवोंके साताबन्धक व असाताबन्धक इन दो भेदोंका निर्देश । ३११
- ६५ साताबन्धकोंके ३ भेद । ३१२
- ६६ असाताबन्धकोंके ३ भेद । ३१३
- ६७ उक्त भेदोंमें सर्वविशुद्ध व सकल्लिष्टतर अवस्थाओका निर्देश । ३१४
- ६८ साताके चतुःस्थानबन्धकादिकोंमें तथा असाताके द्विस्थानबन्धकादिकोंमें जघन्य स्थिति आदिके बंधनेका नियम । ३१६
- ६९ ज्ञानावरणादि ध्रुवप्रकृतियोंके स्थितिविशेषोंको आधार करके उनमें स्थित जीवोंकी प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अवहार, भागाभाग और अल्पबहुत्व इन ६ अनुयोगद्वारोके द्वारा प्ररूपणा । ३२०
- ७० ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके द्वारा बंधने योग्य स्थितियोंका उल्लेख । ३३२
- ७१ छह यवोंके अधस्तन व उपरिम भागोंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा । ३३४
- ७२ साताके व असाताके चतुःस्थानादिबन्धकोंका अल्पबहुत्व । ३४१
(प्रकृतिसमुदाहार)
- ७३ प्रकृतिसमुदाहारमें प्रमाणानुगम और अल्पबहुत्व इन दो अनुयोगद्वारोका निर्देश करके प्रमाणानुगमके द्वारा ज्ञानावरणादिके स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंकी प्रमाण-प्ररूपणा । ३४६
- ७४ उक्त स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंका अल्पबहुत्व । ३४७
(स्थितिसमुदाहार)
- ७५ स्थितिसमुदाहारमें प्रगणना, अनुकृष्टि और तीव्र-मन्दतम इन ३ अनुयोगद्वारोंका निर्देश । ३४९
- ७६ प्रगणना द्वारा ज्ञानावरणीयादि कर्मोंकी जघन्य स्थिति आदि सम्बन्धी स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंकी गणना । ३५०
- ७७ अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधाके द्वारा उक्त स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंकी प्ररूपणा । ३५२
- ७८ श्रेणिप्ररूपणासे सूचित अवहार, भागाभाग और अल्पबहुत्वके द्वारा उपर्युक्त स्थानोंकी प्ररूपणा । ३५८
- ७९ अनुकृष्टि द्वारा उक्त स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंकी समानता-असमानताका विचार । ३६२
- ८० तीव्र-मन्दता द्वारा उपर्युक्त स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंके अनुभाग सम्बन्धी तीव्रता व मन्दताका विचार । ३६६

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	१२	वेदनानिक्षेपविधान	वेदनाक्षेत्रविधान
२	२२	वह आकाश है	वह क्षेत्र है
३	३०	पदणावायाभावादो	पदणोवायाभावादो
७	६	विसेसाभादो	विसेसाभावादो
७	१२	उक्कसा	उक्कस्सा
१०	११-१४	सुत्तत्था	सुत्तत्थो
१४	११	मो ण	मोत्तूण
२५	१	एवमगेगास-	एवमेगेगास-
२६	७	”	”
२७	१	वणा	परूवणा
३०	९	पुविल्ल	पुव्विल्ल
४८	१	वड्ढावेदव्वा	वड्ढावेदव्वा
९३	६	ट्टिदिबंधट्टाणाणि लब्भंति	ट्टिदिबंधट्टाणाणि ण लब्भंति
९३	२४	पंचेन्द्रियोंमें पाये	पंचेन्द्रियोंमें नहीं पाये
९६	१४	तदियसमओ	विदियसमओ
९६	३१	तृतीय समय	द्वितीय समय
९७	१७	स्थितिसंतकर्म	स्थितिसत्कर्म
९७	२१	”	”
१००	१३	णापुणरुत्तट्टाणं	ण पुणरुत्तट्टाणं
१००	२६	समय देखा	समय कम देखा
१००	३१	अपुनरुक्त	पुनरुक्त
१००	३२	ताप्रतौ 'सेसफालीहिंतो ण पुणरुत्तट्टाणं'	× × ×
१०४	१३	दुसमयूण-	समयूण- ^२
१०४	३२	दो समय	एक समय
१०४	३३	× × ×	२ अ-आ-काप्रतिषु 'दुसमयूण' इति पाठः ।
१०९	२३	शतपृथक्त्व तक	शतपृथक्त्व स्थिति तक
१२७	४	छेदभागहारो ।	छेदभागहारो होदि ।

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१२७	१९	अब इस छेदभागहारको कहते हैं ।	इसका छेदभागहार होता है ।
१३१	५	पुव्वत्तंसं	पुव्वुत्तंसं
१३९	५	असंखेज्जगुणाओ	संखेज्जगुणाओ'
१३९	१२	योगहारं' संगतो-	-योगहारं' संगतो-
१३९	१७	असंख्यातगुणी	संख्यातगुणी
१३९	२६	१ अ-आ काप्रतिपु	१ प्रतिपु 'असंखेज्जगुणाओ' इति पाठः- २-अ-आ-का प्रतिपु
१४०	७	समत्ते	समत्तं
१४७	११	संखेज्जगुणो	असंखेज्जगुणो
१४७	२६	संख्यातगुणो	असंख्यातगुणो
१४७	३१	२ ताप्रतिपाठोऽयम् । प्रतिपु 'असंखेज्जगुणो'	२ ताप्रतौ 'संखेज्जगुणो'
१५०	१९	उसीसे उसीके...अधिक है ।	× × ×
१५२	१५	स्थितिवन्धस्थान	स्थितिवन्धस्थानविशेष
१६२	५	तस्स	तस्य
१६४	१	[एवं सण्णिपंचिदिय-]	[सण्णिपंचिदिय-]
१६८	६	एव	उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । एवं
१६८	२१	हैं । इसी	हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । इसी
१७७	३२	है स्व—स्थान	है—स्वस्थान
१९०	२७	चतुरिन्द्रिय	वादर एकेन्द्रिय
१९१	११	तेइदियपज्जत्तयस्स	तेइदिय अपज्जत्तयस्स'
१९१	२७	त्रीन्द्रिय पर्याप्तक	त्रीन्द्रिय अपर्याप्तक
१९१	३३	× × ×	प्रतिपु 'तेइदियपज्ज०' इति पाठः ।
१९२	२५	पर्याप्तक	अपर्याप्तक
१९२	२८	आवाधास्थान	आवाधास्थानविशेष
१९७	६	वादरेइंदिय	वेइंदिय
१९७	२१	वादर एकेन्द्रिय	द्वीन्द्रिय
२०७	२३	संक्लेशस्थानोंकी	विशुद्धि परिणामोंकी
२१०	४	अपज्जयस्स	अपज्जत्तयस्स
२२०	२८	५१३	५१३
२२२	१५	कध '...असंखेज्जगुणतं	कधं '...संखेज्जगुणत्तं
२२२	३०	असंख्यातगुणे	संख्यातगुणे

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२२२	३१	१ अ-आ-काप्रतिषु 'संखेज्जागुणस्त,	१ ताप्रतौ
२२७	२४	२५	२५
२२८	३१	आबाहा	अबाहा
२२९	६	असंखेज्जगुणो	असंखेज्जगुणो'
२२९	१३	अपज्जयस्स	अपज्जत्तयस्स
२३३	१७	एकेन्द्रियके	त्रीन्द्रियके
२३६	१८	असंख्यात	असंयत
२३६	२५	संखी पंचेन्द्रिय	संखी मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय
२४१	१४	क्षपित-गुणित-घोलमान	क्षपितघोलमान व गुणितघोलमान
२४५	२२	तीस	तेतीस
२५२	८	-मुहुत्तयाबाधं	-मुहुत्तमाबाधं
२६२	२४	हे ।	हे { (१६×१२×४)×१-(१६×१२)=४
२८०	६	कम्माणमाथाहाट्टाणा	कम्माणमाबाहाट्टाणाणि
२८०	८	असंखेज्जगुणाणि	संखेज्जगुणाणि
२८०	२४	असंख्यातगुणे	संख्यातगुणे
२८०	३२	१ मप्रतिपाठोऽयम् ।... इति पाठः ।	१ मप्रतौ 'असंखेज्जगुणाणि' इति पाठः ।
२८१	१	असंखेज्जगुणो	संखेज्जगुणो'
२८१	१७	असंख्यातगुणा	संख्यातगुणा
२८१	३३		१ प्रतिषु 'असंखेज्जगुणो' इति पाठः ।
२८६	९	असंखेज्जगुणो	संखेज्जगुणो'
२८६	२४	असंख्यातगुणा	संख्यातगुणा
२८६	३३	× × ×	१ अ-आ-काप्रतिषु 'असंखेज्जगुणो' इति पाठः ।
३०२	१०	विसेसाहिओ । मोहणीयस्त	विसेसाहिओ । [चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्टिदिबंघो विसेसाहिओ ।] मोहणीयस्स
३०२	२७	हे । मोहनीयका	हे । [चार कम्मोका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।] मोहनीयका
३०३	२६	समय तक	समय कम
३०५	१५	उत्पत्तिका	अनुत्पत्तिका
३०६	१९	घन्य	जघन्य
३०८	९	अणिआग-	अणिओग-
टि० ३१३ ३३		कर्षं त्रिस्थानगत	कर्षः स त्रिस्थानगत :

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
टि० ३१४	२२	सर्वविशुद्धा रसं	सर्वविशुद्धा जन्तवस्ते परावर्तमानशुभ- प्रकृतीनां चतुःस्थानगतं रसं
टि० ३१५	२८	ते तास-	त तासां
३१५	३०	१, ८१	१, ९१
३२९	२६	३३६-४	३३६×४
३३२	८	पढमासु	अपढमासु ^२
३३२	२४	प्रथम	अप्रथम
३३२	३१	२ अणगारप्पाउग्गा	२ प्रतिपु 'पढमासु' इति पाठः । ३ अणगारप्पाउग्गा
३३५	१३	असंख्यातगुणे	संख्यातगुणे
३३५	२५	तेस्योऽपि. ...३।	यह टिप्पण नं. १ का अंश है जो टिप्पण २ के अन्तर्गत छप गया है ।
३३६	२१	देख	देव
३३६	२५	होना है ।	अशुभ होना है ।
३३८	११	अंतोकोडाकोडिआबाधूणा	अंतोकोडाकोडी आबाधूणा
टि० ३३९	३०	स्थितिर्डायस्थिति	स्थितिर्दायस्थिति-
३४८	३	ट्टिदि वंघंताण	ट्टिदिघंघट्टाणाण
३४८	१७	शंका-नाम	किन्तु नाम
३४९	१८	संख्यातगुणे	असंख्यातगुणे
३५२	८	कदो	कुदो
३५९	१५	रिज्जंति त	रिज्जति । तं
३५९	१७	रूपेणु	रूपेपु
३६२	२१	अजघन्य	जघन्य
३६३	३	णिव्वग्गणकंदयं ^१	णिव्वग्गणकंदयं
३६३	६	वदियसंडं	तदियसंडं
३६७	३१	समुदहारे	समुदाहारे

वेयणखेत्तविहाणणिओगहारं
वेयणकालविहाणणिओगहारं



सिरि-भगवंत-पुष्पदंत-भूदबलि-पणीदो .

छवखंडागमो

सिरि-वीरसेणाहरिय-चिरइय-धवला-टीका-समणिणदो

तस्स चउत्थे खंडे वेयणाए

वेदणाखेत्तविहाणाणिओगद्वारं

वेयणखेत्तविहाणे ति तत्थ इमाणि तिणिण अणिओगद्वाराणि
णादव्वाणि भवंति ॥ १ ॥

वेदणाणिक्खित्तल्लियाखेत्तं णिक्खिविदव्वं । किमड्डं खेत्तणिक्खिवो कीरदे ?
अवगदंखेत्तट्ठाणपडिसेहं कादूण पयदखेत्तट्ठपरूवणड्डं । उक्तं च—

अवगयणिवारणड्डं पयदस्स परूवणाणिमित्तं च ।

संसयविणासणड्डं तच्चत्यवहारणड्डं च ॥ १ ॥

वेदनानिक्षेपविधान यह जो अनुयोगद्वार है उसमें ये तीन अनुयोगद्वार
ज्ञातव्य हैं ॥ १ ॥

वेदनामें निश्चित क्षेत्रका यहां निक्षेप करना चाहिये ।

शंका — क्षेत्रका निक्षेप किसलिये करते हैं ?

समाधान— अप्रकृत क्षेत्रस्थानका प्रतिषेध करके प्रकृत क्षेत्रकी अर्थप्ररूपणा
करनेके लिये क्षेत्रका निक्षेप करते हैं । कहा भी है—

अप्रकृतका निवारण करनेके लिये, प्रकृतकी प्ररूपणा करनेके लिये, संशयको
नष्ट करनेके लिये, और तत्त्वार्थका निश्चय करनेके लिये निक्षेप किया जाता है ॥ १ ॥

तत्थ खेत्तं चउच्चिहं णामखेत्तं इवणखेत्तं दव्वखेत्तं भावखेत्तं चेदि । तत्थ णाम-
इवणखेत्ताणि सुगमाणि । दव्वखेत्तं दुविहमागम-णोआगमदव्वखेत्तभेएण । तत्थ आगम-
दव्वखेत्तं णाम खेत्तपाहुडजाणगो अणुवजुत्तो । णोआगमदव्वखेत्तं तिविहं जाणुगसरीर-भविय-
तव्वदिरित्तभेदेण । तत्थ जाणुगसरीर-भवियणोआगमदव्वखेत्ताणि सुगमाणि । तव्वदिरित्तं-
णोआगमखेत्तमागासं । तं दुविहं लोगागासमलोगागासमिदि । तत्थ-लोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन्
जीवादयः पदार्थाः स लोकस्तद्विपरीतस्त्वलोकः । कधभागासस्स खेत्तववएसो ? क्षीयन्ति
निवसन्त्यास्मिन् जीवादय इति आकाशस्य क्षेत्रत्वोपपत्तेः । भावखेत्तं दुविहं आगम-णोआगम-
भावखेत्तभेएण । तत्थ खेत्तपाहुडजाणगो उव्वजुत्तो आगमभावखेत्तं । सव्वदव्वाणमप्पयणो
भावो णोआगमभावखेत्तं । कधं भावस्स खेत्तववएसो ? तत्थ सव्वदव्वावट्ठाणादो ।

एत्थ णोआगमदव्वखेत्तेण अहियारो । अट्ठविहकम्मदव्वस्स वेयणं ति सण्णा । वेयणाए
खेत्तं वेयणाखेत्तं, वेयणाखेत्तस्स विहाणं वेयणाखेत्तविहाणमिदि पंचमस्स अणिओगहारस्य
गुणणामं । इदिसदो ववच्छेदफलो । तत्थ वेयणखेत्तविहाणे इमाणि तिण्णि अणिओगहाराणि

क्षेत्र चार प्रकार है— नामक्षेत्र, स्थापनाक्षेत्र, द्रव्यक्षेत्र और भावक्षेत्र ।
उनमें नामक्षेत्र और स्थापनाक्षेत्र सुगम हैं । द्रव्यक्षेत्र आगम और नोआगम द्रव्य-
क्षेत्रके भेदसे दो प्रकार है । उनमें क्षेत्रप्राभृतका जानकार उपयोग रहित जीव आगम-
द्रव्यक्षेत्र कहलाता है । नोआगमद्रव्यक्षेत्र श्वायकशरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्तके
भेदसे तीन प्रकार है । उनमें श्वायकशरीर और भावी नोआगमद्रव्यक्षेत्र सुगम हैं । तद्व्य-
तिरिक्त नोआगमद्रव्यक्षेत्र आकाश है । वह दो प्रकार है— लोकाकाश और अलोका-
काश । इनमें जहाँ जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं या जाने जाते हैं वह लोक है ।
उससे विपरीत अलोक है ।

शंका— आकाशकी क्षेत्र संज्ञा कैसे है ?

समाधान— 'क्षीयन्ति अस्मिन्' अर्थात् जिसमें जीवादिक रहते हैं वह आकाश
है, इस निरुक्तिके अनुसार आकाशको क्षेत्र कहना उचित ही है ।

भावक्षेत्र आगम और नोआगम भावक्षेत्रके भेदसे दो प्रकार है । उनमें क्षेत्र-
प्राभृतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावक्षेत्र है । सब द्रव्योंका अपना अपना
भाव नोआगमभावक्षेत्र कहलाता है ।

शंका— भावकी क्षेत्र संज्ञा कैसे हो सकती है ?

समाधान— उसमें सब द्रव्योंका अवस्थान होनेसे भावकी क्षेत्र संज्ञा बन
जाती है ।

यहाँ नोआगमद्रव्यक्षेत्रका अधिकार है । आठ प्रकारके कर्मद्रव्यकी वेदना
संज्ञा है । वेदनाका क्षेत्र वेदनाक्षेत्र, वेदनाक्षेत्रका विधान वेदनाक्षेत्रविधान । यह पांचवें
अनुयोगद्वारका गुणनाम है । सूत्रमें स्थित 'इति' शब्द व्यवच्छेद करनेवाला है ।
उस वेदनाक्षेत्रविधानमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं ।

१ प्रतिष्ठा 'अव्यतिरिक्त वि' ताप्रती 'तव्वदिरित्त [म] वि' इति पाठः । २ प्रतिष्ठा 'दव्वस्स कम्मवेयणा ति' इति पाठः ।

हवति । एत्थ अहियारा तिण्णि चैव किमडं परूविज्जंति ? ण, अण्णेसिमेत्थ-संभवाभावादो । कुदो ? [ण] संखा-द्वाण-जीवसमुदाहारणमेत्थ संभवो, उक्कस्साणुक्कस्स-जहण्णाजहण्णेभेद-मिण्णसामित्ताणिओगदारे एदेसिमतम्भावादो । ण ओज-जुम्माणिओगदारस्स वि संभवो, तस्स पदमीमांसाए पवेसादो । ण गुणगाराणिओगदारस्स वि संभवो, तस्स अप्पाबहुए पवेसादो । तम्हा तिण्णि चैव अणिओगदाराणि होति ति सिद्धं ।

पदमीमांसा सामित्तं अप्पाबहुए त्ति ॥ २ ॥

पढमं चैव पदमीमांसा किमडमुच्चदे ? ण, पदेसुं अणवगएसु सामित्त्पाबहुआणं परूवणोवायाभावादो^१ । तदणंतरं सामित्ताणिओगदारमेव किमडं वुच्चदे ? ण, अणवगए पदप्पमाणे तदप्पाबहुगाणुववत्तीदो । तम्हा एसेव अहियारविण्णासक्कमो इच्छियव्वो, णिरवज्जत्तादो ।

पदमीमांसाए णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो किं उक्कस्सा कि- मणुक्कस्सा किं जहण्णा किमजहण्णा ? ॥ ३ ॥

शंका— यहाँ केवल तीन ही अधिकारोंकी प्ररूपणा किसलिये की जाती है ।

समाधान— नहीं, क्योंकि, और दूसरे अधिकार यहाँ सम्भव नहीं हैं । कारण कि संख्या, स्थान और जीवसमुदाहार तो यहाँ सम्भव नहीं हैं, क्योंकि, इनका अन्तर्भाव उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य व अजघन्य भेदसे भिन्न स्वामित्वअनुयोगद्वारमें होता है । ओज-युग्मानुयोगद्वार भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, उसका प्रवेश पदमीमांसामें है । गुणकार अनुयोगद्वार भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, उसका प्रवेश अप्पाबहुत्वमें है । इस कारण तीन ही अनुयोगद्वार हैं, यह सिद्ध है ।

पदमीमांसा, स्वामित्व और अप्पाबहुत्व, ये तीन अनुयोगद्वार यहाँ ज्ञातव्य हैं ॥ २ ॥

शंका— पदमीमांसाको पहिले ही किसलिये कहा जाता है ?

समाधान— चूंकि पदोंका ज्ञान न होनेपर स्वामित्व और अप्पाबहुत्वकी प्ररूपणा की नहीं जा सकती, अत एव पहिले पदमीमांसाकी प्ररूपणा की जा रही है ।

शंका— उसके पश्चात् स्वामित्व अनुयोगद्वारको ही किसलिये कहते हैं ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, पदप्रमाणका ज्ञान न होनेपर उनका अप्पाबहुत्व बन नहीं सकता । इस कारण निर्दोष होनेसे उक्त अधिकारोंके इसी विन्यासक्रमको स्वीकार करना चाहिये ।

पदमीमांसामें— ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है, और क्या अजघन्य है ? ॥ ३ ॥

एत्थ णाणावरणग्गहणेण सेसकम्माणं पडिसेहो कदो । दव्व-काल-भावादिपडिसेहडं खेत्तिणिदेसो कदो । एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, तेण अण्णाओ णव पुच्छाओ एदेण सूचिदाओ । तम्हा णाणावरणीयवेयणा किमुक्कस्सा, किमणुक्कस्सा, किं जहण्णा, किमजहण्णा, किं सादिया, किमणादिया, किं धुवा, किमद्धुवा, किमोजा, किं जुम्मा, किमोमा, किं विसिद्धा, किं णोम-णोविसिद्धा त्ति वत्तव्वं । एवं णाणावरणीयवेयणाए विसेसाभावेण सामण्णरूवाए सामण्णं विसेसाविणाभावि त्ति कट्टु, तेरस पुच्छाओ परूविदाओ । एदेणेव सुत्तेण सूचिदाओ अण्णाओ तेरसपदविसयपुच्छाओ वत्तव्वाओ । तं जहा — उक्कस्सा णाणावरणीयवेयणा किमणुक्कस्सा, किं जहण्णा, किमजहण्णा, किं सादिया, किमणादिया, किं धुवा, किमद्धुवा, किमोजा, किं जुम्मा, किमोमा, किं विसिद्धा, किं णोम-णोविसिद्धा त्ति वारस पुच्छाओ उक्कस्सपदस्स हवंति । एवं सेसपदानं पि वारस पुच्छाओ पादेक्कं कायव्वाओ । एत्थ सव्वपुच्छासमासो एग्गूण-सत्तरिसदमेत्तो । १६९ । तम्हा एदम्हि देसामासियसुत्ते अण्णाणि तेरस सुत्ताणि दड्ढव्वाणि त्ति ।

उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा जहण्णा वा अजहण्णा वा ॥४॥

एदं पि^१ देसामासियसुत्तं । तेणेत्थ सेसणवपदाणि वत्तव्वाणि । देसामासियत्तादो चेव भेसतेरससुत्ताणेमेत्थ अंतभावो वत्तव्वो । तत्थ ताव पढमसुत्तपरूवणा कीरदे । तं जहा —

सूत्रमें ज्ञानावरण पदका ग्रहण करके शेष कर्मोंका प्रतिषेध किया गया है । द्रव्य, काल और भाव आदिका प्रतिषेध करनेके लिये श्लेषका निर्देश किया है । यह पृच्छासूत्र देशामर्शक है, इसलिये इसके द्वारा अन्य नौ पृच्छाएं सूचित की गई हैं । इस कारण ज्ञानावरणकी वेदना क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है, क्या अजघन्य है, क्या सादिक है, क्या अनादिक है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है, क्या ओज है, क्या युग्म है, क्या ओम है, क्या विशिष्ट है, और क्या नोम-नोविशिष्ट है, ऐसा कहना चाहिये । इस प्रकार सामान्य चूंकि विशेषका अविनाभावी हैं अतः विशेषका अभाव होनेसे सामान्य स्वरूप ज्ञानावरणीयवेदनाके विषयमें इन तेरह पृच्छाओंकी प्ररूपणा की गई है । इसी सूत्रसे सूचित अन्य तेरह पद विषयक पृच्छाओंको कहना चाहिये । यथा — उत्कृष्ट ज्ञानावरणवेदना क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है, क्या अजघन्य है, क्या सादिक है, क्या अनादिक है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है, क्या ओज है, क्या युग्म है, क्या ओम है, क्या विशिष्ट है, और क्या नोम-नोविशिष्ट है, ये वारह पृच्छाएं उत्कृष्ट पदके विषयमें होती हैं । इसी प्रकार शेष पदोंमेंसे भी प्रत्येक-पदके विषयमें वारह पृच्छाएं करना चाहिये । यहां सब पृच्छाओंका जोड़ एक सौ उनत्तर (१६९) मात्र होता है । इसी कारण इस देशामर्शक सूत्रमें अन्य तेरह सूत्रोंको देखना चाहिये ।

उक्त वेदना उत्कृष्ट भी है, अनुत्कृष्ट भी है, जघन्य भी है, और अजघन्य भी है ॥४॥

यह भी देशामर्शक सूत्र है । इसलिये यहां शेष नौ पदोंको कहना चाहिये । देशामर्शक होनेसे ही इस सूत्रमें शेष तेरह सूत्रोंका अन्तर्भाव कहना चाहिये । उनमें पहिले प्रथम सूत्रकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—ज्ञानावरणीयकी वेदना

णाणावरणीयवैयणा खेत्तदो सिया उक्कसा, अड्डरञ्जुण मुक्कमारणंतियमहामञ्छम्मि उक्कस्स-
खेत्तुवलभादो । सिया अणुक्कस्सा, अणत्थ अणुक्कस्सखेत्तदंसणादो । सिया जहण्णा,
तिसमयआहारय-तिसमयतम्भवत्थसुहुमाणिगोदम्हि जहण्णखेत्तुवलभादो । सिया अजहण्णा,
अणत्थ अजहण्णखेत्तदंसणादो । सिया सादिया, पज्जवड्डियणए अवलंबिज्जमाणे सव्वखेत्ताणं
सादित्तुवलभादो । सिया अणादियाँ, दव्वड्डियणए अवलंबिज्जमाणे अणादित्तदंसणादो ।
सिया धुवा, दव्वड्डियणयं पडुच्च णाणावरणीयखेत्तस्स सव्वलोगस्स धुवत्तुवलभादो । सिया
अड्डुवा, पज्जवड्डियं पडुच्च अड्डुवत्तदंसणादो । सिया ओजा, कत्थ वि खेत्तविसेसे कलि-
तेजोजसंखाविसेसाणमुवलभादो । सिया जुम्मा, कत्थ वि खेत्तविसेसे कद-चादरजुम्माणं
संखाविसेसाणमुवलभादो । सिया ओमा, कत्थ वि खेत्तविसेसे परिहाणिदंसणादो । सिया
विसिद्धा, कत्थ वि वड्डिदंसणादो । सिया णोम-णोविसिद्धा, कत्थ वि वड्डि-हाणीहि विणा
खेत्तस्स अवट्ठाणदंसणादो । १३ ।

संपहि विदियसुत्तत्थो उच्चदे । तं जहा— उक्कस्सणाणावरणीयवैयणा जहण्णाँ
अणुक्कस्सा च ण होदि, पड्डिवक्खत्तादो । सिया अजहण्णा, जहण्णादो उवरिमा-
सेसखेत्तवियप्पावड्डिदे अजहण्णे उक्कस्सस्स वि संभवादो । सिया सादिया,

क्षेत्रकी अपेक्षा कथंचित् उत्कृष्ट है, क्योंकि, आठ राजुओंमें मारणान्तिक समुद्घातको करनेवाले महामत्स्यके उत्कृष्ट क्षेत्र पाया जाता है । कथंचित् वह अनुत्कृष्ट है, क्योंकि, महामत्स्यको छोड़कर अन्यत्र अनुत्कृष्ट क्षेत्र देखा जाता है । कथंचित् वह जघन्य है, क्योंकि, त्रिसमयवर्ती आहारक व त्रिसमयवर्ती तद्भवस्थ सूक्ष्म निगोद जीवके जघन्य क्षेत्र पाया जाता है । कथंचित् वह अजघन्य है, क्योंकि, उक्त सूक्ष्म निगोद जीवको छोड़कर अन्यत्र अजघन्य क्षेत्र देखा जाता है । कथंचित् वह सादिक है, क्योंकि, पर्यायार्थिक नयका आश्रय करनेपर सब क्षेत्रोंके सादिता पायी जाती है । कथंचित् वह अनादिक है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयका आश्रय करनेपर अनादिपना देखा जाता है । कथंचित् वह ध्रुव है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय कर्मका क्षेत्र जो सब लोक है वह ध्रुव देखा जाता है । कथंचित् वह अध्रुव है, क्योंकि, पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा उक्त क्षेत्रके अध्रुवपना भी देखा जाता है । कथंचित् वह ओज है, क्योंकि, किसी क्षेत्रविशेषमें कलिओज और तेजोज संख्या-विशेष पायी जाती हैं । कथंचित् वह युग्म है, क्योंकि, किसी क्षेत्रविशेषमें कृतयुग्म और चादरयुग्म ये विशेष संख्यायें पायी जाती हैं । कथंचित् वह ओम है, क्योंकि, किसी क्षेत्रविशेषमें हानि देखी जाती है । कथंचित् वह विशिष्ट है, क्योंकि, कहींपर वृद्धि देखी जाती है । कथंचित् वह नोम-नोविशिष्ट है, क्योंकि, कहींपर वृद्धि और हानिके बिना क्षेत्रका अवस्थान देखा जाता है (१३) ।

अब द्वितीय सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है—उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय-
वेदना जघन्य और अनुत्कृष्ट नहीं है, क्योंकि, वे उसके प्रतिपक्षभूत हैं । कथंचित् वह अजघन्य भी है, क्योंकि, जघन्यसे ऊपरके समस्त विकल्पोंमें रहनेवाले अजघन्य पदमें उत्कृष्ट पद भी सम्भव है । कथंचित् वह सादिक भी है, क्योंकि, अनुत्कृष्ट

१ प्रतिपु 'अद्ध' इति पाठः । २ ताप्रती 'अणादि' इति पाठः ।

३ अ काप्रत्यो 'जहण्णा अजहण्णा', ताप्रती 'जहण्णाजहण्णा' इति पाठः ।

अणुककस्सादो उक्कस्सखेत्तुप्पत्तीए । सिया अद्धुवा, उक्कस्सपदस्स सव्वकालमवट्ठाणा-
मावादो । सिया कदजुम्मा, उक्कस्सखेत्तम्मि वादरजुम्म-कलि-तेजो जसंखाविसेसाणमणु-
वलंभादो । सिया णोम-णोविसिद्धा, वड्ढिदे हाइदे च उक्कस्सत्तविरोहादो । एवं उक्कस्स-
णाणावरणीयवेयणा पंचपदप्पिया ॥ ५ ॥

अणुककस्सणाणावरणीयवेयणा सिया जहण्णा, उक्कस्सं मोत्तूण सेसहेट्ठिमा-
सेसवियप्पे अणुककस्से जहण्णस्स [वि] संभवादो । सिया अजहण्णा, अणुककस्सस्स अजहण्णा-
विणाभावित्तादो । सिया सादिया, उक्कस्सादो अणुककस्सुप्पत्तीदो अणुककस्सादो^१ वि
अणुककस्सविसेसुप्पत्तिदंसणादो च । अणादिया ण होदि, अणुककस्सपदविसेस्स विवक्खिय-
त्तादो । अणुककस्ससामण्णम्मि अप्पिदे वि अणादिया ण होदि, उक्कस्सादो अणुककस्स-
पदपदिदं पडि सादित्तदंसणादो । ण च णिच्चण्णिगोदेसु अणादित्तं लब्भदि, तत्थ अणुककस्स-
पदाणं पल्लट्ठेण सादित्तुवलंभादो । सिया अद्धुवा, अणुककस्सेककपदविसेसस्स सव्वदा
अवट्ठाणामावादो । सामण्णे अस्सिदे वि धुवत्तं णत्थि, अणुककस्सादो उक्कस्सपदं पडिवज्ज-
माणजीवदंसणादो । सिया ओजा, कत्थ वि पदविसेसे अवट्ठिददुविहविसमसंखुवलंभादो ।
सिया जुम्मा, कत्थ वि अणुककस्सपदविसेसे दुविहसमसंखदंसणादो । सिया ओमा, कत्थ

क्षेत्रसे उत्कृष्ट क्षेत्रकी उत्पत्ति है । कथंचित् वह अद्युव भी है, क्योंकि, उत्कृष्ट पद सर्वदा
नहीं रहता । कथंचित् वह कृतयुग्म भी है, क्योंकि, उत्कृष्ट क्षेत्रमें वादरयुग्म, कलिओज
और तेजो ज रूप विशेष संख्यायें नहीं पायी जातीं । कथंचित् वह नोम-नोविशिष्ट भी है
क्योंकि, वृद्धि और हानिके होनेपर उत्कृष्टपनेका विरोध है । इस प्रकार उत्कृष्ट
ज्ञानावरणीयवेदना पांच (५) पद स्वरूप है ।

अनुत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् जघन्य है, क्योंकि, उत्कृष्टको छोड़कर
शेष सब नीचेके विकल्प रूप अनुत्कृष्ट पदमें जघन्य पद भी सम्भव है । कथंचित्
वह अजघन्य भी है, क्योंकि, अनुत्कृष्ट अजघन्यका अविनाभावी है । कथंचित् वह
सादिक भी है, क्योंकि, उत्कृष्ट पदसे अनुत्कृष्ट पदकी उत्पत्ति है, तथा अनुत्कृष्टसे भी
अनुत्कृष्टविशेषकी उत्पत्ति देखी जाती है । वह अनादिक नहीं है, क्योंकि, यहां
अनुत्कृष्ट पदविशेषकी विवक्षा है । अनुत्कृष्ट सामान्यकी विवक्षा करनेपर भी वह अनादि
नहीं हो सकती, क्योंकि, उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट पदमें गिरनेकी अपेक्षा सादिपना देखा जाता
है । यदि कहा जाय कि नित्य निगोद जीवोंमें उसका अनादिपना पाया जाता है, सो भी ठीक
नहीं है; क्योंकि, उनमें भी अनुत्कृष्ट पदोंके पलटनेसे सादिपना पाया जाता है । कथंचित्
वह अद्युव भी है, क्योंकि, सर्वदा एक अनुत्कृष्ट पदविशेष रह नहीं सकता । सामान्यका
आश्रय करनेपर भी ध्रुवपना सम्भव नहीं है, क्योंकि, अनुत्कृष्टसे उत्कृष्ट पदको प्राप्त होने-
वाले जीव देखे जाते हैं । कथंचित् वह ओज भी है, क्योंकि किसी पदविशेषमें अवस्थित
दोनों प्रकारकी विषम संख्या पायी जाती है । कथंचित् वह युग्म भी है, क्योंकि,
किसी अनुत्कृष्ट पदविशेषमें दोनों प्रकारकी सम संख्या देखी जाती है । कथंचित् वह

१ प्रति 'सका' इति पाठः । २ ताप्रतौ 'पंचपदसिया' इति पाठः । ३ ताप्रतौ 'अणुकक [स्ता] दो' इति पाठः ।

वि हाणीदो' समुपपण्णअणुक्कस्सपदुवलंभादो । सिया विसिद्धा, कत्थ वि वड्डीदो अणुक्कस्स-
पदुवलंभादो । सिया गोम-गोविसिद्धा, अणुक्कस्स-जहण्णम्मि अणुक्कस्सपदविसेसे वा अप्पिदे
वड्ढि-हाणीणमभावादो । एवं णाणावरणाणुक्कस्सवेयणा णवपदप्पिया | ९ | एवं तदियसुत्त-
परूवणा कदा ।

संपहि चउत्थसुत्तपरूवणा कीरदे । तं जहा— जहण्णा णाणावरणीयवेणा सिया
अणुक्कस्सा, अणुक्कस्सजहण्णस्स ओघजहण्णेण विसेसाभादो । सिया सादिया, अजहण्णादो
जहण्णपदुप्पत्तीए । सिया अद्दुवा, सासदभावेणँ अवड्ढाणाभावादो । अणादिय-धुवपदाणि णत्थि,
जहण्णक्खेत्तविसेसम्मि अणादिय-धुवत्ताणुवलंभादो । सिया जुम्मा, चदुहि अवहिरिज्जमाणे
णिरग्गतदंसणादो । सिया गोम-गोविसिद्धा, तत्थ वड्ढि-हाणीणमभावादो । एवं जहण्णक्खेत्त-
वेयणा पंचपयारा सरूवेण छप्पयारा वा | ५ | एवं चउत्थसुत्तपरूवणा कदा ।

संपहि पंचमसुत्तपरूवणा कीरदे । तं जहा— अजहण्णा णाणावरणीयवेयणा सिया
उक्कसा, अजहण्णुक्कस्सस्स ओघुक्करसादो पुघत्ताणुवलंभादो । सिया अणुक्कस्सा,
तदविणाभावादो । सिया सादिया, पल्लहणेण विणा अजहण्णपदविसेसाणभवड्ढाणाभावादो ।
सिया अद्दुवा । कारणं सुगमं । सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा ।

ओम भी है, क्योंकि, कहींपर हानिसे भी उत्पन्न अनुत्कृष्ट पद पाया जाता है । कथंचित्
घह विशिष्ट भी है, क्योंकि, कहींपर वृद्धिसे अनुत्कृष्ट पद पाया जाता है । कथंचित् वह
नोम-नोविशिष्ट भी है, क्योंकि, अनुत्कृष्ट जघन्यमें अथवा अनुत्कृष्ट पदविशेषकी
विवक्षा करनेपर वृद्धि और हानि नहीं पायी जाती है । इस प्रकार ज्ञानावरणकी अनुत्कृष्ट
वेदना नौ (९) पदात्मक है । इस प्रकार तीसरे सूत्रकी अर्थप्ररूपणा की गई है ।

अथ चतुर्थ सूत्रकी अर्थप्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—जघन्य ज्ञानावरणीय-
वेदना कथंचित् अनुत्कृष्ट है, क्योंकि, अनुत्कृष्ट जघन्य ओघजघन्यसे भिन्न नहीं है ।
कथंचित् वह सादिक भी है, क्योंकि, अजघन्यसे जघन्य पद उत्पन्न होता है ।
कथंचित् वह अधुव भी है, क्योंकि, उसका सर्वदा अवस्थान नहीं रहता । अनादि
और धुव पद उसके नहीं हैं, क्योंकि, जघन्य क्षेत्रविशेषमें अनादि एवं ध्रुवपना नहीं
पाया जाता । कथंचित् वह युग्म है, क्योंकि, उसे चारसे अपहृत करनेपर शेष कुछ
नहीं रहता । कथंचित् वह नोम-नोविशिष्ट है, क्योंकि, उसमें वृद्धि और हानिका
अभाव है । इस प्रकार जघन्य क्षेत्रवेदना पांच (५) प्रकार अथवा अपने रूपके साथ
छह प्रकार है । इस प्रकार चतुर्थ सूत्रकी प्ररूपणा की है ।

अथ पांचवें सूत्रकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—अजघन्य ज्ञाना-
वरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट है, क्योंकि, अजघन्य उत्कृष्ट ओघउत्कृष्टसे पृथक् नहीं
पाया जाता । कथंचित् वह अनुत्कृष्ट भी है, क्योंकि, वह उसका अविनाभावी है ।
कथंचित् वह सादिक भी है, क्योंकि, पलटनेके बिना अजघन्य पदविशेषोंका अवस्थान
नहीं है । कथंचित् वह अधुव भी है । इसका कारण सुगम है । कथंचित्
वह ओज भी है, युग्म भी है, ओम भी है, और विशिष्ट भी है । इसका कारण सुगम

सुगमं । सिया णोम-णोविसिद्धा, णिरुद्धपदविसेसत्तादो । एवमजहण्णा णवभंगा दसभंगा वा | ९ | । एसो पंचमसुत्तथो ।

सादिया णाणावरणवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया अण्डुवा । ण [अणादिया] ङ्हुवा, सादियस्स अणादिय-धुवत्तविरोहादो । सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा, सिया णोम-णोविसिद्धा । एवं सादिय-वेयणाए दस भंगा एक्कारस भंगा वा | १० | । एसो छट्सुत्तथो ।

अणादियणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया । कथमणादियवेयणाए सादित्तं ? ण, वेयणाए सामण्णावेक्खाए अणादियम्मि उक्कस्सादिपदोवेक्खाए सादियत्तविरोहाभावादो । सिया धुवा वेयणा, सामण्णस्स विणासाभावादो । सिया अण्डुवा, पदविसेसस्स विणासदंसणादो । अणादियत्तम्मि सामण्णविवक्खाए समुप्पण्णम्मि कथं पदविसेससंभवो ? ण, संगंतोक्खित्त-असेसविसेसम्मि सामण्णम्मि अप्पिदे तदविरोहादो । सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया है । कथंचित् वह नोम-नोविशिष्ट भी है, क्योंकि, यहां पदविशेषकी विवक्षा है । इस प्रकार अजघन्य वेदनाके नौ (९) या दस भंग होते हैं । यह पांचवें सूत्रका अर्थ है ।

सादिकहानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् जघन्य, कथंचित् अजघन्य, और कथंचित् अध्रुव भी है । वह [अनादि व] ध्रुव नहीं है, क्योंकि, सादि पदके अनादि व ध्रुव होनेका विरोध है । कथंचित् वह ओज, कथंचित् युग्म, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट भी है । इस प्रकार सादि वेदनाके दस (१०) भंग अथवा ग्यारह भंग होते हैं । यह छठे सूत्रका अर्थ है ।

अनादिहानावरणवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् जघन्य, कथंचित् अजघन्य और कथंचित् सादिक भी है ।

शंका—अनादि वेदना सादि कैसे हो सकती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सामान्यकी अपेक्षा वेदनाके अनादि होनेपर भी उत्कृष्ट आदि पदविशेषकी अपेक्षा उसके सादि होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

कथंचित् वह वेदना ध्रुव है, क्योंकि, सामान्यका कभी विनाश नहीं होता । कथंचित् वह अध्रुव भी है, क्योंकि, पदविशेषका विनाश देखा जाता है ।

शंका—सामान्य विवक्षासे अनादित्वके होनेपर पदविशेषकी सम्भावना ही कैसे हो सकती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अपने भीतर समस्त विशेषोंको रखनेवाले सामान्यकी विवक्षा होनेपर उसमें कोई विरोध नहीं है ।

कथंचित् वह ओज, कथंचित् युग्म, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और

ओमा, सिया विसिद्धा, सिया गोम-गोविसिद्धा । एवमणादिया वेयणा बारसभंगा तेरसभंगा वा [१२] । एसो सत्तमसुत्तथो ।

धुवणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया अद्धुवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा, सिया गोम-गोसिद्धा । एवं धुवपदस्स बारस भंगा तेरस भंगा वा [१२] । एसो अद्धमसुत्तथो ।

अद्धुवणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा, सिया गोम गोविसिद्धा । एवमद्धुवपदस्स दस भंगा एक्कारस भंगा वा [१०] । एसो णवमसुत्तथो ।

ओजणाणावरणीयवेयणा उक्कस्स-जहण्णपदेसु णत्थि, कदजुम्मे तेसिमव-
द्धाणादो । तदो सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया । सिया अणादिया ।
कुदो ? सामण्णविवक्खादो । सिया धुवा, सामण्णविवक्खादो चैव । सिया अद्धुवा,
विसेसविवक्खाए । दच्चविहाणे अणादिय-धुवत्तं किण्ण परूविर्द ? ण, तत्थ सामण्ण-

कथंचित् नोम-नोविशिष्ट भी है । इस प्रकार अनादिवेदनाके बारह (१२) भंग अथवा तेरह भंग होते हैं । यह सातवें सूत्रका अर्थ है ।

ध्रुवज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् जघन्य, कथंचित् अजघन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् अध्रुव, कथंचित् ओज, कथंचित् युग्म, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट भी है । इस प्रकार ध्रुव पदके बारह (१२) अथवा तेरह भंग होते हैं । यह आठवें सूत्रका अर्थ है ।

अध्रुवज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् जघन्य, कथंचित् अजघन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् ओज, कथंचित् युग्म, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट भी है । इस प्रकार अध्रुव पदके दस (१०) अथवा ग्यारह भंग होते हैं । यह नौवें सूत्रका अर्थ है ।

ओजज्ञानावरणीयवेदना उत्कृष्ट और जघन्य पदोंमें नहीं होती, क्योंकि, उनका अवस्थान कृतयुग्म राशिमें है । इसलिये वह कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् अजघन्य व कथंचित् सादि है । वह कथंचित् अनादि भी है, क्योंकि, सामान्यकी विवक्षा है । कथंचित् वह ध्रुव भी है, क्योंकि, उसी सामान्यकी ही विवक्षा है । कथंचित् वह विशेषकी विवक्षासे अध्रुव भी है ।

शंका—द्रव्यविधानमें अनादि और ध्रुव पदोंकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ?

विवक्खाभावादो । सामण्णविवक्खाए पुण संतीए तत्थ वि एदे दो भंगा वत्तच्चा । सिया ओमा, सिया विसिद्धा, सिया गोम-गोविसिद्धा । एवमोजस्स णव भंगा दस भंगा वा । ९ । एसो दसमसुत्तत्थो ।

जुम्भणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्हुवा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा, सिया गोम-गोविसिद्धा । एवं जुम्मस्स एक्कारस चारस भंगा वा । ११ । एसो एक्कारसमसुत्तत्थो ।

ओमणाणावरणीयवेयणा सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया । सिया अणादिया, ओमत्तसामण्णविवक्खाए । सिया धुवा तेणेव कारणेण । सिया अद्हुवा । सामण्णविवक्खाए अभावेण दच्चविहाणे ओमस्स अणादिय-धुवत्तं ण परूविदं । सिया ओजा, सिया जुम्मा । एवमोमपदस्स अड्ड णव भंगा वा । ८ । एसो चारसमसुत्तत्था ।

विसिद्धणाणावरणीयवेयणा सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्हुवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा । एवं विसिद्ध-पदस्स अड्ड भंगा णव भंगा वा । ८ । एसो तेरसमसुत्तत्था ।

समाधान — नहीं, क्योंकि, वहां सामान्यकी विवक्षाका अभाव है। यदि सामान्यकी विवक्षा अभीष्ट हो तो वहां भी इन दो पदोंको कहना चाहिये।

वह कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट भी है। इस प्रकार ओज पदके नौ (९) भंग अथवा दस भंग होते हैं। यह दसवें सूत्रका अर्थ है।

युग्मज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् जघन्य, कथंचित् अजघन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् ध्रुव, कथंचित् अध्रुव, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट भी है। इस प्रकार युग्म पदके ग्यारह (११) अथवा बारह भंग होते हैं। यह ग्यारहवें सूत्रका अर्थ है।

ओमज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् अजघन्य व कथंचित् सादि भी है। वह कथंचित् अनादि भी है, क्योंकि, ओमत्व सामान्यकी विवक्षा है। इसी कारणसे, वह कथंचित् ध्रुव भी है। कथंचित् वह अध्रुव भी है। सामान्यकी विवक्षा न होनेसे द्रव्यविधानमें ओमके अनादि और ध्रुव पद नहीं कहे गये हैं। वह कथंचित् ओज और कथंचित् युग्म भी है। इस प्रकार ओम पदके आठ (८) अथवा नौ भंग होते हैं। यह बारहवें सूत्रका अर्थ है।

विशिष्टज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् अजघन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् ध्रुव, कथंचित् अध्रुव, कथंचित् ओज और कथंचित् युग्म भी है। इस प्रकार विशिष्ट पदके आठ (८) अथवा नौ भंग होते हैं। यह तेरहवें सूत्रका अर्थ है।

१ ताप्रतौ 'एक्कारस' इति पाठः । २ ताप्रतौ 'सिया अद्हुवा सामण्णविवक्खाए अभावेण ।' इति पाठः ।

गोम-गोविसिद्धा णाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया । सिया अणादिया । कुदो ? गोम-गोविसिद्धत्त-विवक्खाए । सिया धुवा तेणेव कारणेण । सिया अद्धुवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा । एवं दस भंगा एक्कारस भंगा वा [१०] । एसो चौदसमसुत्तथो ।

एदेसिं भंगाणमंकाविण्णासो — | १३ | ५ | ९ | ५ | ९ | १० | १३ | १३ | १० | ९ | ११ | ८ | ८ | १० | ।

एवं सत्तणं कम्मणं ॥ ५ ॥

जहा णाणावरणीयस्स पदमीमांसा कदा तहा सेससत्तणं कम्मणं पदमीमांसा कायव्वा । एवमंतोखित्तोजाणियोगहारपदमीमांसा समत्ता ।

सामित्तं दुविहं जहणपदे उक्कस्सपदे ॥ ६ ॥

तत्थ जहणं चउत्विहं णाम-द्ववणा-दव्व-मावजहणमिदि । णामजहणं द्ववणा-जहणं च सुगमं । दव्वजहणं दुविहं आगमदव्वजहणं णोआगमदव्वजहणं चेदि । तत्थ जहणपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमदव्वजहणं । णोआगमदव्वजहणं तिविहं, जाणुग-

नोम-नोविशिष्टज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुकृष्ट, कथंचित् जघन्य, कथंचित् अजघन्य व कथंचित् सादि भी है । कथंचित् वह अनादि भी है, फ्योकि, नोम-नोविशिष्टत्व सामान्यकी विवक्षा है । इसी कारणसे वह कथंचित् ध्रुव भी है । वह कथंचित् अध्रुव, कथंचित् ओज और कथंचित् युग्म भी है । इस प्रकार नोम-नोविशिष्ट पदके दस (१०) भंग अथवा ग्यारह भंग होते हैं । यह चौदहवें सूत्रका अर्थ है ।

इन भंगोंका अंकाविन्यास इस प्रकार है— १३ + ५ + ९ + ५ + ९ + १० + १३ + १३ + १० + ९ + ११ + ८ + ८ + १० = १३१ ।

इसी प्रकार सात कर्मोंकी पदमीमांसा सम्बन्धी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ ५ ॥

जिस प्रकार ज्ञानावरणीयकी पदमीमांसा की है उसी प्रकार शेष सात कर्मोंकी पदमीमांसा करना चाहिये । इस प्रकार ओजानुयोगद्वारगर्भित पदमीमांसा समाप्त हुई ।

स्वामित्व दो प्रकार है— जघन्य पदरूप और उत्कृष्ट पदरूप ॥ ६ ॥

उनमें जघन्य पद चार प्रकार है— नामजघन्य, स्थापनाजघन्य, द्रव्यजघन्य और भावजघन्य । इनमें नामजघन्य और स्थापनाजघन्य सुगम है । द्रव्यजघन्य दो प्रकार है— आगमद्रव्यजघन्य और नोआगमद्रव्यजघन्य । इनमें जघन्य प्राभृतका आत्मकार उपयोग रहित जीव आगमद्रव्यजघन्य कहा जाता है । नोआगमद्रव्यजघन्य

सरीर-भविष्य-तत्त्वदिरित्तणोआगमद्वजहणभेदेण । जाणुगसरीरं भविष्यं गदं । तत्त्वदिरित्तं णोआगमद्वजहणं दुविहं— ओघजहणमादेसेण जहणं चेदि । तत्थ ओघजहणं चउव्विहं — दव्वदो खेत्तदो कालदो भावदो चेदि । तत्थ दव्वजहणमेगो परमाणू । खेत्तजहणं दुविहं कम्म-णोकम्मखेत्तजहणभेदेण । तत्थ सुहुमणिगोदस्स जहणिया ओगाहणा कम्मखेत्तजहणं । णोकम्मखेत्तजहणभेगो आगासपदेसो । कालजहण-भेगो समओ । भावजहणं परमाणुम्हि णिद्धत्तादिगुणो । आदेसजहणं पि दव्व-खेत्त-काल-भावभेदेहि चउव्विहं । तत्थ दव्वदो आदेसजहणं उच्चदे । तं जहा— तिपदेसियं खंधं ददूण दुपदसियखंधो आदेसदो दव्वजहणं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । तिपदेसोगाढदव्वं ददूण दुपदेसोगाढदव्वं खेत्तदो आदेसजहणं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । तिसमयपरिणदं ददूण दुसमयपरिणदं दव्वमादेसदो कालजहणं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । तिगुणपरिणदं दव्वं ददूण दुगुणपरिणदं दव्वं भावदो आदेसजहणं ।

भावजहणं दुविहं आगम-णोआगमभावजहणभेदेण । तत्थ जहणपाहुडजाणओ उवजुत्तो आगमभावजहणं । सुहुमणिगोदजीवलद्धिअपज्जत्तयस्स जं सव्वजहण णाणं तं

तीन प्रकार है—ज्ञायकशरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त । इनमें ज्ञायकशरीर और भावी अवगत हैं । तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यजघन्य दो प्रकार है—ओघजघन्य और आदेशजघन्य । इनमें ओघजघन्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है । उनमें द्रव्यजघन्य एक परमाणु है । क्षेत्रजघन्य कर्मक्षेत्रजघन्य और नोकर्मक्षेत्रजघन्यके भेदसे दो प्रकार है । उनमें सूक्ष्म निगोद जीवकी जघन्य अवगाहना कर्मक्षेत्रजघन्य है । नोकर्मक्षेत्रजघन्य एक आकाशप्रदेश है । एक समय कालजघन्य है । परमाणुमें रहनेवाला स्निग्धत्व आदि गुण भावजघन्य है ।

आदेशजघन्य भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे चार प्रकार है । उनमें द्रव्यसे आदेशजघन्यको वतलाते हैं । वह इस प्रकार है—तीन प्रदेशवाले स्कन्धको देखकर दो प्रदेशवाला स्कन्ध आदेशसे द्रव्यजघन्य है । इसी प्रकार शेष स्कन्धोंमें (चार प्रदेशवालेकी अपेक्षा तीन प्रदेशवाला, पांच प्रदेशवालेकी अपेक्षा चार प्रदेशवाला स्कन्ध इत्यादि) भी ले जाना चाहिये । तीन प्रदेशोंको अवगाहनकरनेवाले द्रव्यकी अपेक्षा दो प्रदेशोंको अवगाहन करनेवाला द्रव्य क्षेत्रकी अपेक्षा आदेशजघन्य है । इसी प्रकार शेष प्रदेशोंमें भी ले जाना चाहिये । तीन समय परिणत द्रव्यको देखकर दो समय परिणत द्रव्य आदेशसे कालजघन्य है । इसी प्रकार शेष समयोंमें भी ले जाना चाहिये । तीन गुण परिणत द्रव्यको देखकर दो गुण परिणत द्रव्य भावसे आदेशजघन्य है ।

भावजघन्य आगमभावजघन्य और नोआगमभावजघन्यके भेदसे दो प्रकार है । उनमें जघन्य प्राभृतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावजघन्य है । सूक्ष्म निगोद जीव लब्ध्यपर्याप्तकका जो सबसे जघन्य ज्ञान है वह नोआगमभावजघन्य है ।

णोआगमभावजहणं । एत्थ ओघजहणखेत्तेण पयदं, णाणावरणीयखेत्तेसु सव्वजहणखेत्त-
गहणादो । सव्वजहणखेत्तमेगो आगासपदेसो ति एत्थ ण घेत्तव्वं, णाणावरणीयखेत्तेसु
तदभावादो ।

उक्कस्सं चउव्विहं णाम-ड्ववणा-दव्व-भावुक्कस्सभेएण । तत्थ णाम-ड्ववणुक्कस्साणि
सुगमाणि । दव्वुक्कस्सं दुविहं आगम-णोआगमदव्वुक्कस्सभेएण । तत्थ उक्कस्सपाहुड-
जाणगो अणुवज्जुत्तो आगमदव्वुक्कस्सं । णोआगमदव्वुक्कस्सं त्तिविहं जाणुगसरीर-भविय-
तव्वदिदित्तिणोआगमदव्वुक्कस्सभेदेण । जाणुगशरीर-भवियणोआगमदव्वुक्कस्साणि सुगमाणि ।
तव्वदिदित्तिणोआगमदव्वुक्कस्सं दुविहं— ओघुक्कस्समादेसुक्कस्सं चेदि । तत्थ ओघुक्कस्सं
चउव्विहं— दव्वदो खेत्तदो कालदो भावदो चेदि । तत्थ दव्वदो उक्कस्सं महाखंधो ।
खेत्तुक्कस्सं दुविहं— कम्मवखेत्तं णोकम्मवखेत्तमिदि । कम्मखेत्तुक्कस्सं लोगागासं । णोकम्म-
वखेत्तुक्कस्सं आगासदव्वं । कालदो उक्कस्समणंता लोगा । भावदो उक्कस्सं सव्वुक्कस्स-
वण्ण गंध-रस-पासा । आदेसुक्कस्सं पि चउव्विह— दव्वदो खेत्तदो कालदो भावदो चेदि ।
तत्थ दव्वदो एगपरमाणुं ददट्टण दुपदेसियक्खंधो आदेसुक्कस्स । दुपदेसियक्खंधं ददट्टण
तिपदेसियक्खंधो वि आदेसुक्कस्सं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । खेत्तदो एयक्खेत्तं ददट्टण

यहां ओघजघन्य क्षेत्र प्रकृत है, क्योंकि, ज्ञानावरणीयके क्षेत्रोंमें सर्वजघन्य
क्षेत्रका ग्रहण है । यहां सर्वजघन्य क्षेत्ररूप एक आकाशप्रदेशको नहीं लेना चाहिये,
क्योंकि, ज्ञानावरणीयके क्षेत्रोंमें उसका (सर्वजघन्य क्षेत्रका) अभाव है ।

उत्कृष्ट नामउत्कृष्ट, स्थापनाउत्कृष्ट, द्रव्यउत्कृष्ट और भावउत्कृष्टके भेदसे चार
प्रकार है । उनमें नामउत्कृष्ट और स्थापनाउत्कृष्ट सुगम हैं । द्रव्यउत्कृष्ट आगमद्रव्यउत्कृष्ट
और नोआगमद्रव्यउत्कृष्टके भेदसे दो प्रकार है । उनमें उत्कृष्ट प्राभृतका जानकार
उपयोग रहित जीव आगमद्रव्यउत्कृष्ट है । नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट श्वायकशरीर, भावी
और तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यउत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकार है । इनमें
श्वायकशरीर और भावी नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट सुगम हैं । तद्व्यतिरिक्त नोआगम-
द्रव्यउत्कृष्ट दो प्रकार है— ओघउत्कृष्ट और आदेशउत्कृष्ट । इनमें ओघउत्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र,
काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है । उनमें द्रव्यसे उत्कृष्ट महास्कन्ध है । क्षेत्रकी
अपेक्षा उत्कृष्ट दो प्रकार है— कर्मक्षेत्र और नोकर्मक्षेत्र । लोकाकाश कर्मक्षेत्रउत्कृष्ट
है । आकाश द्रव्य नोकर्मक्षेत्रउत्कृष्ट है । अनन्त लोक कालसे उत्कृष्ट हैं । भावसे
उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श हैं ।

आदेशउत्कृष्ट भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है । इनमें
एक परमाणुको देखकर दो प्रदेशवाला स्कन्ध द्रव्यसे आदेशउत्कृष्ट है । दो प्रदेशवाले
स्कन्धको देखकर तीन प्रदेशवाला स्कन्ध भी आदेश उत्कृष्ट है । इसी प्रकार शेष
स्कन्धोंमें भी ले जाना चाहिये । क्षेत्रकी अपेक्षा एक क्षेत्रप्रदेशको देखकर दो क्षेत्रप्रदेश

दोक्तेत्तपदेसा आदेसदो उक्कस्सं खेत्तं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । कालदो एगसमयं ददूण दोसमया आदेसुक्कस्सं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । भावदो एगगुणञ्जुत्तं ददूण'दुगुणञ्जुत्तं दव्वमादेसुक्कस्सं । एवं सेसेसु वि णेदव्वं । भावुक्कस्सं दुविहं— आगम-णोआगमभावुक्कस्स-भेदेण । तत्थ उक्कस्सपाहुडजाणगो उवञ्जुत्तो आगमभावुक्कस्सं । णोआगमभावुक्कस्सं केवलणाणं । एत्थ ओघखेत्तुक्कस्सेण अहियारो, अप्पिदकम्मखेत्तेसु उक्कस्सखेत्तग्गहणादो । ओघुक्कस्समागासदव्वं, तस्स गहणं किण्ण कदं ? ण, कम्मखेत्तेसु तदभावादो । एगं सामित्तं जहण्णपदे, अण्णेगमुक्कस्सपदे, एवं दुविहं चैव सामित्तं होदि; अण्णस्सासंभवादो ।

सामित्तेण उक्कस्सपदे णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो उक्कस्सिया कस्स ? ॥ ७ ॥

जहण्णपदपडिसेहण्डं उक्कस्सपदणिहेसो कदो । णाणावरणग्गहणं सेसकम्मपडिसेहफलं । खेत्तग्गहणं दव्वादिपडिसेहफलं । पुच्चाणुपुच्चिं मो ण पच्छाणुपुच्चीए उक्कस्सखेत्तस्स परूवणा किमहं कीरदे ? ण, महल्लारिवाडीए परूवण्डं कीरदे ।

आदेशकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्र है । इसी प्रकार शेष प्रदेशोंमें भी ले जाना चाहिये । कालकी अपेक्षा एक समयको देखकर दो समय आदेशउत्कृष्ट है । इसी प्रकार शेष समयोंमें भी ले जाना चाहिये । भावकी अपेक्षा एक गुण युक्त द्रव्यको देखकर दो गुण युक्त द्रव्य आदेशउत्कृष्ट है । इसी प्रकार शेष गुणोंमें भी ले जाना चाहिये ।

भावउत्कृष्ट आगमभावउत्कृष्ट और नोआगमभावउत्कृष्टके भेदसे दो प्रकार है । उनमें उत्कृष्ट प्राभृतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावउत्कृष्ट है । नोआगमभाव-उत्कृष्ट केवलज्ञान है । यहां ओघक्षेत्रउत्कृष्टका अधिकार है, क्योंकि, त्रिवक्षित कर्मक्षेत्रोंमें उत्कृष्ट क्षेत्रका ग्रहण किया गया है ।

शंका—ओघउत्कृष्ट आकाश द्रव्य है, उसका ग्रहण क्यों नहीं किया ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, कर्मक्षेत्रोंमें आकाशद्रव्यका अभाव है ।

एक स्वामित्व जघन्य पदमें और दूसरा एक उत्कृष्ट पदमें, इस प्रकारसे दो प्रकारका ही स्वामित्व है, क्योंकि, इनके अतिरिक्त अन्य स्वामित्वकी सम्भावना नहीं है ।

स्वामित्वसे उत्कृष्ट पदमें ज्ञानावरणीयवेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है ? ॥ ७ ॥

जघन्य पदके प्रतिषेधके लिये सूत्रमें उत्कृष्ट पदका निर्देश किया है । ज्ञानावरणका ग्रहण शेष कर्मोंका प्रतिषेध करता है । क्षेत्र पदके ग्रहणका फल द्रव्य आदिका प्रतिषेध करना है ।

शंका—पूर्वानुपूर्वीको छोड़कर पश्चादानुपूर्वीसे उत्कृष्ट क्षेत्रकी प्ररूपणा किसालिये की जाती है ?

जो मच्छो जोयणसहस्सिओ सयंभुरमणसमुदस्स बाहिरिल्लए
तडे अच्छिदो ॥ ८ ॥

जो मच्छो जोयणसहस्सिओ ति एदेण सुत्तवयणेणंगुलस्स असंखेज्जिदिभागमार्दि
कादूण जा उक्कस्सेण पदेसूणजोयणसहस्स ति आयामेण जे ढिदा मच्छा तेसिं पडिसेहो
कदो । उस्सेह-विकखंभेहि महामच्छासरिसलद्धमच्छेसु गहिदेसु वि ण कोच्छि दोसो अत्थि,
तदो तेसिं गहणं किण्ण कीरदे ? ण एस दोसां, महामच्छायाम-विकखंभुस्सेहेसु अणवगएसु
लद्धमच्छायामविकखंभुस्सेहाणं अवगमोवायाभावादो । ण महामच्छायामो अण्णदो अत्रगम्मदे,
सुत्तभूदस्स एदम्हादो जेह्दस्स अण्णस्सासंभवादो । महामच्छस्स आयामो जोयणसहस्सं
१००० । एदस्स विकखंभुस्सेहा केत्तिया होति ति उत्ते, उच्चदे — एसो महामच्छो
पंचजोयणसदविकखंभो ५०० पंचासुत्तरवीसदुस्सेहो २५० । सुत्तेण विणा कधमेदं णव्वदे ?

समाधान— नहीं, महान् परिपाटीसे प्ररूपणा करनेके लिये पञ्चादानुपूर्वीसे
प्ररूपणा की जा रही है। (अर्थात् उद्देश्यके अनुसार यद्यपि पहिले जघन्य पदकी प्ररूपणा
करना चाहिये थी, तथापि विस्तृत होनेसे पहिले उत्कृष्ट पदकी प्ररूपणा की जा रही है।)

जो मत्स्य एक हजार योजनकी अवगाहनावाला स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य
तटपर स्थित है ॥ ८ ॥

‘जो मत्स्य एक हजार योजनकी अवगाहनावाला है’ इस सूत्रांशसे, जो मत्स्य
अंगुलके असंख्यातवें भागको आदि लेकर उत्कर्षसे एक प्रदेश कम हजार योजन प्रमाण
तक आयामसे स्थित है, उनका प्रतिषेध किया गया है।

शंका— उत्सेध और विष्कम्भकी अपेक्षा महामत्स्यके सदृश पाये जानेवाले
मत्स्योंका ग्रहण करनेपर भी कोई दोष नहीं है, अतः उनका ग्रहण क्यों नहीं करते ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जब तक महामत्स्यके आयाम,
विष्कम्भ और उत्सेधका परिज्ञान न हो जावे तब तक प्राप्त मत्स्योंके आयाम, विष्कम्भ
और उत्सेधका परिज्ञान होना किसी प्रकारसे सम्भव नहीं है। महामत्स्यका आयाम
किसी अन्य सूत्रसे नहीं जाना जाता है, क्योंकि, इस सूत्रसे ज्येष्ठ प्राचीन सूत्रभूत
कोई अन्य वाक्य सम्भव नहीं है।

महामत्स्यका आयाम एक हजार (१०००) योजन प्रमाण है। इसके विष्कम्भ
और उत्सेधका प्रमाण कितना है, ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हैं कि उस महामत्स्यका
विष्कम्भ पांच सौ (५००) योजन और उत्सेध दो सौ पचास (२५०) योजन मात्र है।

शंका— यह सूत्रके विना कैसे जाना जाता है ?

आइरियपरंपरागयपवाइज्जंतुवदेसादो । ण च महामच्छविकखंभुस्सेहाणं सुत्तं णत्थि चेवे त्ति णियमो, देसामासिएण ' जोयणसहस्सिओ ' त्ति उत्तेण सूचिदत्तादो । एदे विकखंभुस्सेहा महामच्छस्स सव्वत्थ सरिसा । मुह-पुच्छेसु विकखंभुस्सेहाणं पमाणमेतियं होदि त्ति, एदेहिंतो पुघभूदविकखंभुस्सेहाणं परूवयसुत्त-वक्खाणाणमणुवलंभादो जोयणसहस्सणिदेसण्ण-हाणुववत्तीदो च ।

के वि आइरिया महामच्छो मुह-पुच्छेसु सुदूठु सण्हओ त्ति भणंति । एत्थतणमच्छे ददूठुण एदं ण घडदे, कहल्लिमच्छगेसुं वियहिचारदंसणादो । अधवा एदे विकखंभुस्सेहा समकरणसिद्धा त्ति के वि आइरिया भणंति । ण च सुदूठु सण्णमुहो महामच्छो अण्णेगंजोयण-सदोगाहणतिर्मिगिलादिगिलणखमो, विरोहादो । तम्हा वक्खाणग्ग्मि उत्तविकखंभुस्सेहा चेव महामच्छस्स घेत्तव्वा । अधवा मज्झपदेसे चेव उत्तविकखंभुस्सेहो मच्छो घेत्तव्वो, आदि-मज्झवसाणेसु एदम्हादो तिगुणं विपुंजमाणस्स उक्कस्सखेतुप्पत्तिं पडि विरोहाभावादो । ' सयंभुरमणसमुद्दस्से ' त्ति सव्वदीव-समुद्दवाहिरसमुद्दस्स गहणहं । सव्ववाहियो समुद्दो चेव

समाधान— वह आचार्यपरम्पराके प्रवाह स्वरूपसे आये हुए उपदेशसे जाना जाता है । और महामत्स्यके विष्कम्भ व उत्सेधका ज्ञापक सूत्र है ही नहीं, ऐसा नियम भी नहीं है, क्योंकि, 'जोयणसहस्सिओ त्ति' अर्थात् एक हजार योजनवाला इस देशामर्शक सूत्रवचनसे उनकी सूचना की गई है ।

ये विष्कम्भ और उत्सेध महामत्स्यके सब जगह समान हैं । मुख और पूंछमें विष्कम्भ एवं उत्सेधका प्रमाण इतने मात्र ही है, क्योंकि, इनसे भिन्न विष्कम्भ और उत्सेधकी प्ररूपणा करनेवाला सूत्र व व्याख्यान पाया नहीं जाता, तथा इसके बिना हजार योजनका निर्देश बनता भी नहीं है ।

महामत्स्य मुख और पूंछमें अतिशय सूक्ष्म है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं । किन्तु यहांके मत्स्योंको देखकर यह घटित नहीं होता, तथा कहीं कहीं मत्स्योंके अंगोंमें व्याभिचार देखा जाता है । अथवा, ये विष्कम्भ और उत्सेध समकरणसिद्ध हैं, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं । दूसरी बात यह है कि अतिशय सूक्ष्म मुखसे संयुक्त महामत्स्य एक सौ योजनकी अवगाहनावाले अन्य तिमिगल आदि मत्स्योंके निगलनेमें समर्थ नहीं हो सक्ता, क्योंकि, उसमें विरोध आता है । अत एव व्याख्यानमें महामत्स्यके उपर्युक्त विष्कम्भ और उत्सेधको ही ग्रहण करना चाहिये ।

अथवा, उक्त विष्कम्भ और उत्सेध महामत्स्यके मध्य प्रदेशमें ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि आदि, मध्य और अन्तमें इससे तिगुणे फैलनेवालेके उत्कृष्ट क्षेत्रकी उत्पत्तिके प्रति कोई विरोध नहीं है ।

' सयंभुरमणसमुद्दस्स ' इस पदके द्वारा द्वीप-समुद्रोंमें सबसे बाह्य समुद्रका ग्रहण किया गया है ।

४२	उपर्युक्त जीवोंमें मोहनीय कर्मकी निपेकरचनाका क्रम ।	२४२
४३	पंचेन्द्रिय संज्ञी सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीवोंमें आयु कर्मकी निपेक- रचनाका क्रम	२४५
४४	पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तोंमें नाम व गोत्रकी निपेकरचनाका क्रम	२४६
४५	पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि अपर्याप्तोंमें सात कर्मोंकी निपेकरचनाका क्रम	२४७
४६	पंचेन्द्रियादिक अपर्याप्तों तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्तोंमें आयुकी निपेक- रचनाका क्रम ।	२४८
४७	पंचेन्द्रिय असंज्ञी, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तोंमें आयुको छोड़कर शेष सात कर्मोंकी निपेकरचनाका क्रम ।	२४९
४८	उपर्युक्त जीवोंमें आयु कर्मकी निपेकरचनाका क्रम ।	२५१
४९	उपर्युक्त अपर्याप्तोंमें तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्तोंमें सात कर्मोंकी निपेक- रचनाका क्रम	२५२
५०	परम्परोपनिधाके द्वारा विविध जीवोंमें निपेकरचनाक्रमकी प्ररूपणा	२५३
५१	श्रेणिरूपणासे सूचित अवहार, भागाभाग और अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा ।	२५८
(आत्राधाकाण्डकप्ररूपणा)		
५२	पंचेन्द्रिय संज्ञी व असंज्ञी आदि जीवोंमें आयुको छोड़कर शेष सात कर्मोंके आवाधा- काण्डक करनेका नियम ।	२६७
५३	आयुर्कर्मसम्बन्धी आत्राधाकाण्डकप्ररूपणा नु करनेका कारण ।	२६९
(अल्पबहुत्व)		
५४	पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य-उत्कृष्ट आत्राधा आदिका अल्पबहुत्व ।	२७०
५५	पंचेन्द्रिय संज्ञी व असंज्ञी पर्याप्त जीवोंमें जघन्य व उत्कृष्ट आत्राधा आदिका अल्पबहुत्व ।	२७३
५६	पंचेन्द्रिय संज्ञी व असंज्ञी अपर्याप्तों तथा शेष चतुरिन्द्रियादि पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोंमें आयुसम्बन्धी जघन्य आत्राधा आदिका अल्पबहुत्व ।	२७५
५७	पंचेन्द्रिय असंज्ञी आदि पर्याप्त-अपर्याप्तोंमें सात कर्मोंकी आत्राधा आदिका अल्पबहुत्व ।	२७६
५८	एकेन्द्रिय वादर व सूक्ष्म पर्याप्त-अपर्याप्तोंमें सात कर्मोंकी आत्राधा आदिका अल्पबहुत्व ।	२७८
५९	श्री वीरसेन स्वामीके द्वारा प्रकृत अल्पबहुत्व सूचित स्वस्थान-परस्थान अल्पबहुत्वोंमेंसे स्वस्थान अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा ।	२७९
६०	परस्थान अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा ।	२८७
६१	प्रकृत अल्पबहुत्व सम्बन्धी विषम पदोंकी पंजिका ।	३०३

सत्तमभागम्मि पंचसुण्णाणुवलंभादो । ण च एदमहादो रज्जुविकखंभो ऊणो होदि, रज्जुखम्भं-
तरभूदस्स चउच्चिसजोयणमेत्तवादरुद्धक्खेत्तस्स वज्जमुवलंभादो । ण च तेत्तियमेत्तं पक्खित्ते
पंचसुण्णाणो फिट्ठंति, तद्धानुवलंभादो । तग्हा सयलदाव-सायरविकखंभादो चाहि केणिएण
वि क्खेत्तेण होदव्व । सयंभुरमणसमुद्वंभंतरे डिदमहामच्छो जलचरो कथं तस्स वाहिरिल्लं
तडं गदो ? ण एस दोसो, पुच्चवइरियदेवपओगेण तस्स तत्थ गमणसंभवादो ।

वेयणसमुग्घादेण समुहदो ॥ ९ ॥

वेयणावसेण जीवपदसाणं विकखभुस्मेहेहि तिगुणविपुंजणं वेयणासमुग्घादो णाम ।
ण च एस णियमो सव्वेसिं जीवपदेसा वेयणाए तिगुणं चेव विपुंजंति त्ति, किंतु सगविकखं-
भादो तरतमसरूवेण डिदवेयणावसेण एग दोपदेसादीहि वि वड्ढी होदि । ते वेयणसमुग्घादा
एत्थ ण गहिदा, उक्कस्सेण खेत्तेण अहियारादो । महामच्छो चेव किमिदि वेयणसमुग्घादा
णीदो ? महल्लोगाहणत्तादो, जलयरस्स थले विवत्तस्स उण्हेण दज्जमाणंगस्स संचिय-
वहुपावकम्मस्स महावेयणुप्पत्तिदंसणादो च ।

तिर्यग्लोकका विस्तार इतने मात्र ही हो, सो भी नहीं है; क्योंकि, जगश्रेणिके
सातवें भागमें पांच शून्य नहीं पाये जाते । और इससे राजुविष्कम्भ हीन भी नहीं है,
क्योंकि, राजुके अन्तर्गत चौथीस योजन प्रमाण वायुरुद्ध क्षेत्र बाह्यमें पाया जाता है ।
दूसरे, उतने मात्र क्षेत्रको मिलानेपर पांच शून्य नष्ट भी नहीं होते, क्योंकि, वैसा पाया
नहीं जाता । इसी कारण समस्त छीपसमुद्र सम्बन्धी विस्तारके बाहिर भी कुछ क्षेत्र
होना चाहिये ।

शंका—स्वयंभूरमण समुद्रके भीतर स्थित महामत्स्य जलचर जीव उसके
बाह्य तटको कैसे प्राप्त होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, पूर्वके वैरी किसी देवके प्रयोगसे
उसका वहां गमन सम्भव है ।

वेदनासमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त हुआ ॥ ९ ॥

वेदनाके वशसे जीवप्रदेशोंके विष्कम्भ और उत्लेघकी अपेक्षा तिगुणे प्रमाणमें
फैलनेका नाम वेदनासमुद्घात है । परन्तु सयके जीवप्रदेश वेदनाके वशसे तिगुणे
ही फैलते हैं, ऐसा नियम नहीं है । किन्तु तरतम रूपसे स्थित वेदनाके वशसे अपने
विष्कम्भकी अपेक्षा एक दो प्रदेशादिकोंसे भी वृद्धि होती है । परन्तु उन वेदनासमुद्-
घातोंका यहां ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि, यहां उत्कृष्ट क्षेत्रका अधिकार है ।

शंका—महामत्स्यको ही वेदनासमुद्घातको क्यों प्राप्त कराया है ?

समाधान—क्योंकि, एक तो उसकी अन्नगाहना बहुत अधिक है, दूसरे जलचर
जीवको स्थलमें रखनेपर उष्णताके कारण अंगोंके संतप्त होनेसे बहुत पापकर्मोंके
संचयको प्राप्त हुए उसके महा वेदनाकी उत्पात्ति देखी जाती है ।

कायलेस्सियाए लग्गो ॥ १० ॥

कायलेस्सिया णाम तदियो वादवलओ । कधं तस्स एसा सण्णा ? कागवण्णत्तादो सो कागलेस्सिओ णाम । एत्थ अघकायलेस्सा ण घेत्तत्त्वा, तत्थ अंघत्तवैण्णाणुवलंभादो । लोगवड्डिवसेण लोगनाडीदो परदो संखेज्जजोयणाणि ओसरिय ड्ढिटतदियवादे लोगणालीए अम्भंतरड्ढिटमहामच्छो कधं लग्गदे ? सच्चभेदं महामच्छस्स तदियवादेण संपासो णत्थि त्ति । किंतु एसा सत्तमी सामीवे^१ वट्टदि । न च सप्तमी सामीप्ये^२ असिद्धा, गगायां घोषः प्रतिवसतीत्यत्र सामीप्ये सप्तम्युपलंभात्^३ । तेण काउलेस्सियाए छुत्तदेसो काउलेस्सिया त्ति गहिदो । तीए काउलेस्सियाए जाव लग्गदि ताव वेयणासमुग्घादेण समुहदो त्ति उत्तं होदि । भावत्थो—पुव्ववेरियदेवेण महामच्छो सयंभुरमणवाहिरवेइयाए वाहिरे भागे लोगणालीए समीवे पादिदो । तत्थ तिक्खवेयणावसेण वेयणसमुग्घादेण समुहदो जाव लोगणालीए वाहिरपरंतो लग्गो त्ति उत्तं होदि ।

जो तनुवातवलयेस स्पृष्ट है ॥ १० ॥

काकलेइयाका अर्थ तीसरा वातवलय है ।

शंका—उसकी यह संज्ञा कैसे है ?

समाधान—तनुवातवलयका काकके समान वर्ण होनेसे उसकी काकलेइया संज्ञा है ।

यहां अंधकाकलेइया (काला स्याह काकवर्ण) का ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, उसमें अंधत्त्व अर्थात् काला स्याह वर्ण नहीं पाया जाता ।

शंका—लोकनालीके भीतर स्थित महामत्स्य लोकविस्तारानुसार लोकनालीके आगे संख्यात योजन जाकर स्थित तृतीय वातवलयसे कैसे संसक्त होता है ?

समाधान—यह सत्य है कि महामत्स्यका तृतीय वातवलयसे स्पर्श नहीं होता, किन्तु यह सप्तमी विभक्ति सामीप्य अर्थमें है । यदि कहा जाय कि सामीप्य अर्थमें सप्तमी विभक्ति असिद्ध है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ' गंगामें घोष (ग्वालवसति) वसता है ' यहां सामीप्य अर्थमें सप्तमी विभक्ति पायी जाती है । इसलिये कापोतलेइयासे स्पृष्ट प्रदेश भी कापोतलेइया रूपसे ग्रहण किया गया है । उस कापोतलेइयासे जहां तक संसर्ग है वहां तक घेदनासमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त हुआ, यह उसका अभिप्राय है ।

भावार्थ—पूर्वके वैरी किसी देवके द्वारा महामत्स्य स्वयंभुरमण समुद्रकी बाह्य घेदिकाके वाहिर भागमें लोकनालीके समीप पटक गया । वहां तीव्र वेदनाके वश घेदनासमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त होकर लोकनालीके बाह्य भाग पर्यन्त वह संसक्त होता है, यह अभिप्राय है ।

१ ताप्रती ' अद्धनायलेस्सा ' इति पाठ । २ ताप्रती ' अन्वत्त ' इति पाठः ।

३ ताप्रती ' समीवे ' इति पाठ । ४ ताप्रती ' ण च सप्तमी सामीप्ये ' इति पाठः ।

५ ताप्रती ' सप्तम्युपलंभादो ' इति पाठः । ६ प्रतिपु ' पुचीदो ' ; ताप्रती पुची (पत्ति) दो इति पाठः ।

७ प्रतिपु ' समुग्घादो ' इति पाठः ।

पुणरवि मारणंतियसमुग्घादेण समुहदो तिण्णि विग्गहकंद-
याणि कादूण ॥ ११ ॥

महामच्छे लोणालीए वायव्वदिसाए पुव्ववेरियदेवसंबंधेण दक्खिणुत्तरायामेण पदिदो । तत्थ मारणंतियसमुग्घादेण समुहदो । तेण महामच्छेण वेयणसमुग्घादेण मारणंतियसमुग्घादं करंतेण तिण्णि विग्गहकंदयाणि कदाणि । विग्गहो णाम वक्कत्तं, तेण तिण्णि कंदयाणि कदाणि । तं जहा— लोणालीवायव्वदिसादो कंदुज्जुवाए गईए सादिरेयअद्धरज्जुमेत्तमागदो दक्खिणदिसाए । तंमगं कंदयं । पुणो तत्तो वलिट्ठूण कंदुज्जुवाए गईए एगरज्जुमेत्तं पुव्वदिसमागदो' । तं त्रिदियं कंदयं । पुणो तत्तो वलिट्ठूण अधो छरज्जुमेत्तद्धाणमुजुगदीए गदो । तं तदिय कंदयं । एव तिण्णि कंदयाणि कादूण मारणंतिय-समुग्घादं गदो । चत्तारि कंदए किण्ण कराविदो ? ण, तसेसु दो विग्गहो मोत्तूण तिण्णि-विग्गहाणमभावादो । तं कथं णव्वदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो ।

से काले अधो सत्तयाए पुठवीए णेरइएसु उप्पज्जिहिदि ति
तस्स णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो उक्कस्सा ॥ १२ ॥

फिर भी जो तीन विग्रह करके मारणान्तिकसमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त हुआ है ॥ ११ ॥

महामत्स्य लोकनालीकी वायव्य दिशामें पूर्वके चरि देवके सम्बन्धसे दक्षिण-उत्तर आयाम स्वरूपसे गिरा । वहां वह मारणान्तिकसमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त हुआ । वेदनासमुद्घातके साथ मारणान्तिकसमुद्घातको करनेवाले उक्त महामत्स्यने तीन विग्रहकाण्डक किये । विग्रहका अर्थ वक्रता है, उससे तीन काण्डक किये । वे इस प्रकारसे— लोकनालीकी वायव्य दिशासे वाणके समान ऋजुगतिसे साधिक अर्ध राजु मात्र दक्षिण दिशामें आया । वह एक काण्डक हुआ । फिर वहांसे मुड़कर वाण जैसी सीधी गतिसे एक राजु मात्र पूर्व दिशामें आया । वह द्वितीय काण्डक हुआ । फिर वहांसे मुड़कर नीचे छह राजु मात्र मार्गमें ऋजुगतिसे गया । वह तृतीय काण्डक हुआ । इस प्रकार तीन काण्डकोंको करके मारणान्तिकसमुद्घातको प्राप्त हुआ ।

शंका—चार काण्डकोंको क्यों नहीं कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, त्रसोमें दो विग्रहोंको छोड़कर तीन विग्रह नहीं होते ।

शंका—वह कैसे ज्ञात होता है ?

समाधान—वह इसी सूत्रसे ज्ञात होता है ।

अनन्तर समयमें वह सातवीं पृथिवीके नारकियोंमें उत्पन्न होगा, अतः उसके ज्ञानावरणीयवेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥ १२ ॥

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-काप्रत्यो 'पुव्वदिसावसमागदो', ताप्रतौ 'पुव्वदिसाव (ए) समागदो' इति पाठ ।

२ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-काप्रत्यो: 'त तदियकडयाणि', ताप्रतौ 'त तदियकड [य] । या (ता) णि' इति पाठ ।

सत्तमपुढविं मोत्तूण हेहा णिगोदेसु सत्तरज्जुमेत्तद्धाणं गंतूण किण्ण उप्पाइदो ? णिगोदेसुप्पज्जमाणस्स अइतिव्वेयणाभावेण सरीरतिगुणवेयणसमुग्घादस्स अभावादो । जदि एवं तो पुव्विल्लविकखंभुस्सेहेहितो वेयणाए जहा विकखंभुस्सहा दुगुणा होंति तहा कादूण णिगोदेसु किण्ण उप्पाइदो ? ण, वड्ढिदक्खेत्तादो परिहीणखेत्तस्स सादिरेयवड्ढुगुणत्तुवलंभादो । जदि वि वारुणदिसादो एगरज्जुमेत्तं पुव्वदिसाए गंतूण पुणो हेहा सत्तरज्जुअद्धाणं गंतूण पुणो दक्खिणेण आहुड्ढरज्जुओ गंतूण सुहुमणिगोदेसु उप्पजदि तो वि पुव्विल्लखेत्तादो एदस्स खेत्तं विसेसहीणं चेव, विकखंभुस्सेहाणं तिगुणत्ताभावादो । सुहुमणिगोदेसु उप्पज्जमाणस्स महामच्छस्स विकखंभुस्सेहा तिगुणा ण होंति, दुगुणा विसेसाहिया वा होंति त्ति कथं णव्वेद ? अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु से काले उप्पज्जिहिदि त्ति सुत्तादो णव्वेद । संतकम्मपाहुडे पुण णिगोदेसु उप्पाइदो, णेरइएसु उप्पज्जमाणमहामच्छो व्व सुहुमणिगोदेसु

शंका—सातवीं पृथिवीको छोड़कर नीचे सात राजु मात्र अध्वान जाकर निगोद जीवोंमें क्यों नहीं उत्पन्न कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, निगोद जीवोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवके आतिशय तीव्र वेदनाका अभाव होनेसे विवक्षित शरीरसे तिगुणा वेदनासमुद्घात सम्भव नहीं है ।

शंका—यदि ऐसा है तो वेदनासमुद्घातमें पूर्वोक्त विष्कम्भ और उत्सेधसे जिस प्रकार दुगुणा विष्कम्भ व उत्सेध होता है वैसा करके निगोद जीवोंमें क्यों नहीं उत्पन्न कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उसके वृद्धिगत क्षेत्रकी अपेक्षा हानिको प्राप्त क्षेत्र साधिक आठगुणा पाया जाता है ।


यद्यपि पश्चिम दिशासे एक राजु मात्र पूर्व दिशामें जाकर, फिर नीचे सात राजु अध्वान जाकर, फिर दक्षिणसे साढ़े तीन राजु जाकर सूक्ष्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न होता है, तो भी पूर्वके क्षेत्रसे इसका क्षेत्र विशेष हीन ही है, क्योंकि, इसमें विष्कम्भ और उत्सेध तिगुणे नहीं हैं ।

शंका—सूक्ष्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यका विष्कम्भ और उत्सेध तिगुणा नहीं होता, किन्तु दुगुणा अथवा विशेष अधिक होता है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—“ नीचे सातवीं पृथिवीके नारकियोंमें वह अनन्तर कालमें उत्पन्न होगा ” इस सूत्रसे जाना जाता है ।

सत्कर्मप्राभृतमें उसे निगोद जीवोंमें उत्पन्न कराया है, क्योंकि, नारकियोंमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यके समान सूक्ष्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न होनेवाला महामत्स्य

उप्पज्जमाणमहामच्छो वि तिगुणसरिीरबाह्ल्लेण मारणंतियसमुग्घादं गच्छदि ति । ण च एदं जुज्जदे, सत्तमपुढवीणेरइएसु असादवहुलेसु उप्पज्जमाणमहामच्छवेयणा-कसाएहितो सुहुमणिगोदेसु उप्पज्जमाणमहामच्छवेयण-कसायाणं सरिसत्ताणुववत्तीदो । तदो एसो चेव अत्थो पहाणो ति घेतत्त्वो । 'लोगणालीए अंतो सत्तमपुढवीए सेडिच्चो अत्थि ति' एदेण सुत्तेण णव्वदे, अण्णहा तिण्णि विग्गहप्पसंगादो । से काले उप्पज्जिहिदि' ति किमद्वं उच्चदे ? ण, णेरइएसुप्पण्णपढमसमए उवसंहरिदपढमदंडस्स य उक्कस्सखेत्ताणुववत्तीदो । एत्थ संदिट्ठी—



सादिरेयमद्धरज्जुपमाणं के वि आइरिया

एवं होदि^३ ति भणंति । तं जहा— अवरदिसादो मारणंतियसमुग्घादं कादूण पुव्वदिस-मागदो जाव लोगणालीए अंतं पत्तो ति । पुणो विग्गहं करिय हेट्ठा छरज्जुपमाणं गंतूण पुणरवि विग्गहं करिय वारुणदिसाए अद्धरज्जुपमाणं गंतूण अवहिट्ठाणम्मि उप्पण्णस्स खेतं होदि ति । एदं ण घडदे, उववादट्ठाणं वोलेदूण गमणं णत्थि ति पवाइज्जंतउवदेसेण सिद्धत्तादो ।

भी विचक्षित शरीरकी अपेक्षा तिगुणे बाह्यसे मारणान्तिकसमुद्घातको प्राप्त होता है । परन्तु यह योग्य नहीं है, क्योंकि, अत्यधिक असाताका अनुभव करनेवाले सातवीं पृथिवीके नारकियोंमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यकी वेदना और कषायकी अपेक्षा सूक्ष्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यकी वेदना और कषाय सदृश नहीं हो सकती । इस कारण यही अर्थ प्रधान है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । “लोकनालीके अन्तमें सातवीं पृथिवीका श्रेणिवद्ध है” इस सूत्रसे जाना जाता है, क्योंकि, इसके बिना तीन विग्रहोंका प्रसंग आता है ।

शंका—अनन्तर कालमें उत्पन्न होगा, यह किसलिये कहते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, नारकियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें प्रथम षण्डका उपसंहार हो जानेसे उसका उत्कृष्ट क्षेत्र नहीं बन सकता ।

यहां संदृष्टि—(मूलमें देखिये) ।

साधिक साडे सात राजुका प्रमाण इस (निम्न) प्रकार होता है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं । यथा—“पश्चिम दिशासे मारणान्तिकसमुद्घातको करके लोकनालीका अन्त प्राप्त होने तक पूर्वदिशामें आया । फिर विग्रह करके नीचे छह राजु मात्र जाकर पुन विग्रह करके पश्चिम दिशामें आध राजु प्रमाण जाकर अवधिस्थान नरकमें उत्पन्न होनेपर उसका उत्कृष्ट क्षेत्र होता है ।” किन्तु यह घटित नहीं होता, क्योंकि, वह ‘उपपादस्थानका अतिक्रमण करके गमन नहीं होता’ इस परम्परागत उपदेशसे सिद्ध है ।

१ अप्रती ‘उप्पज्जदि’, ताप्रती ‘उप्पज्जहिदि’ इति पाठः । २ ताप्रती ‘सादिरेयमद्धरज्जुपमाणं’ इति पाठः । ३ प्रतिष्ठ ‘होति’ इति पाठ ।

एत्थ उवसंहारो उच्चदे । तं जहा— एगरज्जुं ठविय सादिरेयअद्धडमरूवेहि गुणेदूण पुणो तिगुणिदविकखंभेण | १५०० | तिगुणिदउस्सेहगुणिदेण | ७५० | गुणिदे णाणावरणीयस्स उक्कस्सखेत्तं होदि ।

तव्वदिरित्ता अणुक्कस्सा ॥ १३ ॥

उक्करसमहामच्छक्खेत्तादो वदिरित्तं खेत्तं तव्वदिरित्तं णाम । सा अणुक्कस्सा खेत्तवेयणा । सा च असंखेज्जवियप्पा । तिस्से सामी किण्ण परूविदो ? ण, उक्कस्ससामी चेव अणुक्करसरस वि सामी होदि त्ति पुधसामित्तपरूवणाकरणादो, सेसवियप्पाणं पि एदम्हादो चेव सिद्धीदो च । तं जहा—मुहम्मि एगागासपदेसेणूणुक्कस्सोगाहणमहामच्छेण पुव्ववेरियदेवसंबंधेण लोगणालीए वायव्वदिमार णिवदिय वेयणसमुग्घादेण पुव्वविकखं-भुस्सेहेहितो तिगुणविवखंभुस्सेहे आवण्णेण मारणतियसमुग्घादेण तिण्णि कंदयाणि कादूण सत्तमपुढविं पत्तेण अणुक्कस्सुक्कस्सक्खेत्त कदं । तेण एदस्स अणुक्कस्सुक्कस्सक्खेत्तस्स महामच्छो चेव सामी । पुणो मुहपदेसे दोहि आगासपदेसेहि ऊणओ महामच्छो वेयण-समुग्घादण समुहदो होदूण तिण्णि विग्गहकडयाणि कादूण मारणंतियसमुग्घादेण सत्तम-पुढविं गदो विदियअणुक्कस्सक्खेत्तस्स सामी होदि । पुणो तीहि आगासपदेसेहि परिहीणमुहो

यहां उपसंहार कहते हैं । वह इस प्रकार है—एक राजुको स्थापित करके साधिक साढ़े सात रूपोंसे गुणित करके पश्चात् तिगुणे उत्सेध ($250 \times 3 = 750$) से गुणित तिगुणे विष्कम्भ ($500 \times 3 = 1500$) के द्वारा गुणित करनेपर ज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट क्षेत्र होता है ।

महामत्स्यके उपर्युक्त उत्कृष्ट क्षेत्रसे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना है ॥ १३ ॥

उत्कृष्ट महामत्स्यक्षेत्रसे भिन्न क्षेत्र तद्व्यतिरिक्त है । वह अनुत्कृष्ट क्षेत्रवेदना है । वह असंख्यात विकल्प रूप है ।

शंका—उसके स्वामीकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ?

समाधान—महीं, क्योंकि, उत्कृष्टका स्वामी ही चूंकि अनुत्कृष्टका भी स्वामी होता है, अतः उसके स्वामित्वकी पृथक् प्ररूपणा नहीं की गई है, तथा शेष विकल्प भी इसीसे सिद्ध होते हैं । यथा—मुखमें एक प्रदेशसे हीन उत्कृष्ट अवगाहनासे संयुक्त, पूर्ववरी देवके सम्यन्धसे लोकनालीकी वायव्य दिशामें गिरकर वेदनासमुद्घातसे पूर्व विष्कम्भ व उत्सेधकी अपेक्षा तिगुणे विष्कम्भ व उत्सेधको प्राप्त, तथा मारणान्तिक-समुद्घातसे तीन काण्डकोंको करके सातवीं पृथिवीको प्राप्त हुआ महामत्स्य अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट क्षेत्रको करता है । इस कारण इस अनुत्कृष्ट-उत्कृष्ट क्षेत्रका महामत्स्य ही स्वामी है ।

पुन. मुखप्रदेशमें दो आकाशप्रदेशोंसे हीन महामत्स्य वेदनासमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त होकर तीन विग्रहकाण्डकोंको करके मारणान्तिकसमुद्घातसे सातवीं पृथिवीको प्राप्त होता हुआ द्वितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्रका स्वामी होता है । फिर तीन

महामच्छो पुञ्चविहिणा चैत्र मारणंतियसमुग्घादेण सत्तमपुढविं गदो तदियखेतस्स सामी । मुहम्मि चत्तारिआगासपदेसूणमहामच्छो मारणंतियसमुग्घादेण सादिरेयअद्धडमरज्जुआयदा चउत्थखेतस्स सामी । एवमेदेण कमेण महामच्छमुहपदेसे ऊणे करिय-संखेज्जपदरंगुलमेत्ता अणुक्कस्सकखेतवियप्पा उप्पादंवा । •

एत्थतणसव्वपच्छिमखेतं केण सरिसं होदि त्ति वुत्ते वुच्चदे — ओधुक्कस्सोगाहण-महामच्छस्स वेयणसमुग्घादेण तिगुणविकखंभुस्सेहे गंतूण पदेसूणद्धडमरज्जुण मुक्कमारणतियस्स खेत्तेण सरिसं होदि । पुणो वि महामच्छमुहवियप्पे अस्सिदूण पदेसूणद्धडमरज्जुणं मारणंतियं मेल्लाविय संखेज्जपदरंगुलमेत्तखेत्ताणं सामित्तरूवणा कायव्वा । एत्थ अंतिमकखेतवियप्पो केण सरिसो होदि त्ति उत्ते, उच्चदे— ओधुक्कस्सोगाहणामहामच्छस्स पुञ्चविहाणेण दुपदे-सूणद्धडमरज्जुण मुक्कमारणंतियस्स खेत्तेण सरिसो । पुणो एदं मारणंतियखेत्तायामं धुव कादूण महामच्छमुहवियप्पे अस्सिदूण संखेज्जपदरंगुलमेत्तखेत्ताणं सामित्तरूवणं कायव्वं । पुणो एत्थ सव्वपच्छिमवियप्पो तिपदेसूणद्धडमरज्जुणं मुक्कमारणंतियखेत्तेण सरिसो ।

आकाशप्रदेशोंसे हीन मुखवाला महामत्स्य पूर्व विधिसे ही मारणान्तिकसमुद्घातसे सातवीं पृथिवीको प्राप्त होकर तृतीय अनुत्कृष्ट क्षेत्रका स्वामी होता है । मुखमे चार आकाशप्रदेशोंसे हीन महामत्स्य मारणान्तिकसमुद्घातसे साधिक साढ़े सात राजु मात्र आयामसे युक्त होता हुआ चतुर्थ अनुत्कृष्ट क्षेत्रका स्वामी होता है । इस प्रकार इस क्रमसे महामत्स्यके मुखप्रदेशोंको हीन करके संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण अनुत्कृष्ट क्षेत्रके विकल्पोंको उत्पन्न कराना चाहिये ।

शंका—यहांका सबसे अन्तिम क्षेत्र किसके सदृश होता है ?

समाधान—इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि यह क्षेत्र सामान्योक्त उत्कृष्ट अवगाहनावाले और वेदनासमुद्घातसे तिगुणे विष्कम्भ व उत्सेधको प्राप्त होकर एक प्रदेश कम साढ़े सात राजु तक मारणान्तिकसमुद्घातको करनेवाले महामत्स्यके क्षेत्रके सदृश होता है ।

फिरसे भी महामत्स्यके मुख सम्बन्धी विकल्पोंका आश्रय करके प्रदेश कम साढ़े सात राजु तक मारणान्तिकसमुद्घातको छुड़ाकर संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण क्षेत्रोंके स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये ।

शंका—यहां अन्तिम विकल्प किसके सदृश होता है ?

समाधान—इस प्रकार पूछनेपर उत्तर देते हैं कि वह क्षेत्र ओद्योक्त उत्कृष्ट अवगाहनासे संयुक्त और पूर्व विधिके अनुसार दो प्रदेशोंसे हीन साढ़े सात राजु तक मारणान्तिकसमुद्घातको छोड़नेवाले महामत्स्यके क्षेत्रके सदृश होता है ।

फिर इस मारणान्तिकक्षेत्रके आयामको अवस्थित करके महामत्स्यके मुख-विकल्पोंका आश्रय कर संख्यात प्रतरांगुल मात्र क्षेत्रोंके स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये । यहां सबसे अन्तिम विकल्प तीन प्रदेश कम साढ़े सात राजु तक मारणान्तिक

एवमेवेगासपदेसूणाओ कमेण मारणंतिंयं मेलाविय अणुक्कस्सखेत्ताणं सामित्तपरूवणं कायव्वं । सत्तमपुढविं मारणंतिंयं मेल्लमाणजीवाणं मारणंतिंयखेत्तायामो सव्वेसिं किण्णसरिसो ? ण, मारणंतिंयं मेल्लिदूर्णं पुणो मूलसरीरं पविसिय कालं करेताणं मारणंतिंयखेत्तायामाणमणेगवियप्पत्तं पडि विरोहाभावादो । समुप्पत्तिक्खेत्तमपाविय कयमारणंतिंयसमुग्घाद्-जीवा पल्लट्टिय मूलसरीरं पविस्सति त्ति कधं णव्वदे ? पवाइज्जंतउवदेसादो । सुहुमणिगोदेसु उप्पज्जमाणमहामच्छे अस्सिदूण किण्ण सामित्तं उच्चेदं ? ण, तेसु तिक्खवेयणा-कसायविवज्जिएसु एककसराहेण महामच्छुक्कस्समारणंतिंयखेत्तादो अणेगरज्जुमेत्तखेत्तपदे-सूणेसु महामच्छुक्कस्सखेत्तादो पदेसूणादिखेत्तवियप्पाणुवलंभादो । सुहुमणिगोदेसुप्पज्जमाण-महामच्छस्स उक्कस्समारणंतिंयखेत्तसमाणं सत्तमपुढविंहि समुप्पज्जमाणमहामच्छमारणंतिंय-खेत्तप्पट्टि हेट्टिमखेत्तवियप्पा सुहुमणिगोदेसु सत्तमपुढवीए च उप्पज्जमाणमहामच्छे अस्सिदूण उप्पादेदव्वा । अहवा, महामच्छं चेव एगादिएगुत्तरागासपदेसकमेण पुरदो समुद्घातको छोइनेवाले महामत्स्यके क्षेत्रके सदश होता है । इस प्रकार एक एक आकाशप्रदेशकी हीनताके क्रमसे मारणान्तिकसमुद्घातको छोड़ाकर अनुत्कृष्ट क्षेत्रोंके स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये ।

शंका—सातवीं पृथिवीमें मारणान्तिकसमुद्घातको करनेवाले सब जीवोंके मारणान्तिकक्षेत्रोंका आयाम समान क्यों नहीं होता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मारणान्तिकसमुद्घातको करके फिर मूल शरीरमें प्रवेश कर मृत्युको प्राप्त होनेवाले जीवों सम्बन्धी मारणान्तिकक्षेत्रोंके आयामोंके अनेक विकल्प रूप होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

शंका—उत्पत्तिक्षेत्रको न पाकर मारणान्तिकसमुद्घातको करनेवाले जीव पलटकर मूल शरीरमें प्रविष्ट होते हैं, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—वह पर-परगत उपदेशसे जाना जाता है ।

शंका—सूक्ष्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्योंका आश्रय करके स्वामित्वकी प्ररूपणा क्यों नहीं की जाती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तीव्र वेदना व कपायसे रहित होनेके कारण एक साथ पूर्वोक्त महामत्स्य के उत्कृष्ट मारणान्तिकक्षेत्रकी अपेक्षा अनेक राजु प्रमाण क्षेत्र-प्रदेशोंसे हीन उक्त निगोद जीवोंमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्योंमें, सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्य के उत्कृष्ट क्षेत्रसे एक प्रदेश कम दो प्रदेश कम इत्यादि क्षेत्रविकल्प नहीं पाये जाते ।

सूक्ष्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यके उत्कृष्ट मारणान्तिकक्षेत्रके समान सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न होनेवाले महामत्स्यके मारणान्तिकक्षेत्रको आदि लेकर अधस्तन क्षेत्रके विकल्पोंको सूक्ष्म निगोद जीवोंमें और सातवीं पृथिवीमें भी उत्पन्न होनेवाले महामत्स्योंका आश्रय करके उत्पन्न करना चाहिये । अथवा,

१ अ काप्रसो 'मेल्लिदोण', ताप्रसो 'मेल्लिदो ण' इति पाठ ।

ओसारिय अणुक्कस्सखेत्ताणं परूवणा कायव्वा । एवं णेदव्वं जाव वेयणसमुग्घादेण समुहद-
महामच्छेत्तं ति ।

पुणो एदेण खेत्तेण कम्हि महामच्छे मारणंतियखेत्तं सरिसमिदि उत्ते उच्चदे, तं
जहा— जो महामच्छे वेयणसमुग्घादेण विणा मूलायामेण सह णवजोयणसहस्साणि
मारणंतियं मेल्लिदि, तस्स खेत्तं सरिसं होदि । पुणो पुविल्लं मोत्तूण इमं धेत्तूण खेत्तस्स
सामित्तपरूवणं कायव्वं । तं जहा— मुहम्मि एगागासपदेसेण ऊणमहामच्छेण णवजोयण-
सहस्साणि मुक्कमारणंतिए मेल्लिविय अणंतरेहेड्डिमअणुक्कस्समारणंतियखेत्तं होदि । एवमेगे-
गासपदेसं^१ मुहम्मि ऊणं करिय णवजोयणसहस्साणि मारणंतियं मेल्लिविय संखेज्जपदरं-
गुलमेत्तखेत्ताणं सामित्तपरूवणं कायव्वं । एवं परिहाइदूण ड्ढिदपच्छिमखेत्तेण ओधुक्कस्सो-
गाहणाए पदेसूणणवजोयणसहस्साणि मुक्कमारणंतियमहामच्छेत्तं सरिसं होदि ? एवं
जाणिदूण पदेसूणादिकमेण सेसखेत्ताणं पि सामित्तपरूवणं कायव्वं जाव महामच्छस्सद्धाणु-
क्कस्सोगाहणे ति । पुणो पदेसूणुक्कस्सोगाहणमहामच्छे तदणंतरेहेड्डिमअणुक्कस्सखेत्त-
सामी । एवमेगेणं खेत्तपदेसं णिरंतरं ऊणं करिय णेयव्वं-जाव वादरवणप्फादिकाइयपत्तय-

महामत्स्यको ही एकको आदि लेकर एक अधिक आकाशप्रदेशके क्रमसे आगे बढ़ाकर
अनुत्कृष्ट क्षेत्रोंकी प्ररूपणा करना चाहिये । इस प्रकार वेदनासमुद्घातसे समुद्घातको
प्राप्त महामत्स्यके क्षेत्र तक ले जाना चाहिये ।

शंका— इस क्षेत्रसे कौनसे महामत्स्यका क्षेत्र सदृश है ?

समाधान - इस शंकाका उत्तर कहते हैं । वह इस प्रकार है—जो महामत्स्य
वेदनासमुद्घातके विना मूल आयामके साथ नौ हजार योजन मारणान्तिकसमुद्घातको
करता है उसका क्षेत्र इस क्षेत्रके सदृश होता है ।

अब पूर्वके क्षेत्रको छोड़कर व इसे ग्रहण कर स्वामित्वकी प्ररूपणा करना
चाहिये । वह इस प्रकार है—मुखमें एक आकाशप्रदेशसे हीन होकर नौ हजार योजन
मारणान्तिकसमुद्घातको करनेवाले महामत्स्यका अनन्तर अधस्तन अनुत्कृष्ट मारणा-
न्तिकक्षेत्र होना है । इस प्रकार एक एक आकाशप्रदेशको मुखमें कम करके नौ हजार
योजन मारणान्तिकसमुद्घातको कराकर संख्यात प्रनरांगुल मात्र क्षेत्रोंके स्वामित्वकी
प्ररूपणा करना चाहिये । इस प्रकार हीन होकर स्थित अन्तिम क्षेत्रसे ओघोक्त उत्कृष्ट
अवगाहनामें एक प्रदेश कम नौ हजार योजन मारणान्तिकसमुद्घातको करनेवाले
महामत्स्यका क्षेत्र सदृश होता है । इस प्रकार एक प्रदेश कम, दो प्रदेश कम इत्यादि
क्रमसे महामत्स्यके अध्वानमें उत्कृष्ट अवगाहना तक शेष क्षेत्रोंके भी स्वामित्वकी प्ररूपणा
जानकर करना चाहिये । पुनः एक प्रदेश कम उत्कृष्ट अवगाहनावाला महामत्स्य उससे
अनन्तर अधस्तन अनुत्कृष्ट क्षेत्रका स्वामी होता है । इस प्रकार एक एक क्षेत्रप्रदेशको
निरन्तर कम करके वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त

१ अप्रतौ ' -मेगेगाणसपदेस', ताप्रतौ ' -मेगेगाणसपदेस- ' इति पाठ । २ प्रतिष्ठा ' खेत्तस्स '
इति पाठः ।

सरिरउक्कस्सोगाहणं पत्तमिदि । पुणो ततो एगेगपदेसूणं करिय णेद्व्वं जाव वेइंदिय-
णिव्वत्तिपज्जत्तउक्कस्सोगाहणं पत्तमिदि । पुणो ततो णिरंतरं पदेसूणादिकमेण णेद्व्वं जाव
चउरिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणं पत्तमिदि । पुणो ततो पदेसूणादिकमेण णेद्व्वं
जाव तेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणं पत्तमिदि । पुणो एगेगपदेसूणादिकमेण
णेद्व्वं जाव तेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स अजहण्णमणुक्कस्समेगघणंगुलोगाहणं पत्तमिदि ।
एवं णिरंतरकमेण एगेगपदेसूणं करिय णेयव्वं जाव सुहुमणिगोदलद्धिअपज्जत्तजहण्णोगाहणं
पत्तमिदि । एवमसंखेज्जसेडिमेत्ताणमणुक्कस्सखेत्तवियप्पाणं सामित्तपरूवणा कदा ।

संपहि एदेसिं खेत्तवियप्पाणं जे सामिणो जीवा तेसिं परूवणाए कीरमाणाए तत्थ
छअणियोगद्दाराणि णादव्वाणि भवति । तत्थ परूवणा उच्चदे । तं जहा — उक्कस्सए ठाणे
अत्थि जीवा । एवं णेद्व्वं जाव जहण्णट्ठाणे त्ति । वणा गदा ।

उक्कस्सए ट्ठाणे जीवा केत्तिया ? असंखेज्जा । एवं तसकाइयपाओग्गखेत्त-
वियप्पेसु असंखेज्जजीवा त्ति वत्तव्वं । थावरकाइयपाओग्गेसु वि असंखेज्जलोगा । णवरि
वणप्फइकाइयपाओग्गेसु अणंता । एवं पमाणपरूवणा गदा ।

सेडी अवहारो च ण सक्कदे णेदुमुवदेसाभावादो । णवरि एइंदिएसु जहण्णट्ठाण-
होने तक ले जाना चाहिये । फिर उसमेंसे एक एक प्रदेश कम करके द्वीन्द्रिय
निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये । फिर उसमेंसे
निरन्तर एक प्रदेश कम, दो प्रदेश कम इत्यादि क्रमसे चतुरिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी
उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये । फिर उसमेंसे प्रदेश हीनादिके
क्रमसे त्रीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये ।
फिर उसमेंसे एक एक प्रदेश हीनादिके क्रमसे त्रीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी अजघन्य-
अनुत्कृष्ट एक घनांगुल मात्र अवगाहनाके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये । इस
प्रकार निरन्तर क्रमसे एक एक प्रदेश हीन करके सूक्ष्म निगोद लब्धपर्याप्तककी
जघन्य अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये । इस प्रकार असंख्यात श्रेणि
मात्र अनुत्कृष्ट क्षेत्र सम्बन्धी विकल्पोंके स्वामित्वकी प्ररूपणा की गई है ।

अब इन क्षेत्रविकल्पोंके जो जीव स्वामी हैं उनकी प्ररूपणा करते समय वहाँ
छह अनुयोगद्वार द्वातव्य हैं—[प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अवहार, भागाभाग और
अल्पबहुत्व] । उनमें प्ररूपणा अनुयोगद्वारको कहते हैं । वह इस प्रकार है—उत्कृष्ट
स्थानमें जीव हैं । इस प्रकार जघन्य स्थान तक ले जाना चाहिये । प्ररूपणा समाप्त हुई ।

उत्कृष्ट स्थानमें जीव कितने हैं ? वे वहाँ असंख्यात हैं । इस प्रकार त्रसकायिकों-
के योग्य क्षेत्रविकल्पोंमें असंख्यात जीव हैं, ऐसा कहना चाहिये । स्थावरकायिकोंके
योग्य क्षेत्रविकल्पोंमें भी असंख्यात लोक प्रमाण जीव हैं । विशेष इतना है कि वनस्पति-
कायिक योग्य क्षेत्रविकल्पोंमें अनन्त जीव हैं । इस प्रकार प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई ।

श्रेणि और अवहारकी प्ररूपणा नहीं की जा सकती, क्योंकि, उनका उपदेश
प्राप्त नहीं है । विशेष इतना है कि एकेन्द्रिय जीवोंमें जघन्य स्थान सम्बन्धी जीवोंकी

जीवेहितो विदियद्वाणजीवा विसेसाहिया विसेसहीणा वा अंतोमुहुत्तपडिभागेण ।

उक्कस्सद्वाणजीवा सव्वद्वाणजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतिमभागो । जहण्णए
द्वाणे जीवा सव्वद्वाणजीवाणं केवडिओ भागो ? असंखेज्जदिभागो । अजहण्णअणुक्कस्सएसु
द्वाणेषु जीवा सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? असंखेज्जा भागा । एवं भागाभागपरूवणा गदा ।

सव्वत्थोवा उक्कस्सए द्वाणे जीवा । जहण्णए द्वाणे अणंतगुणा । अजहण्णअणु-
क्कस्सएसु द्वाणेषु जीवा असंखेज्जगुणा । कौ गुणगारो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो ।
अजहण्णए द्वाणे जीवा विसेसाहिया । अणुक्कस्सए द्वाणे जीवा विसेसाहिया । सव्वेसु
द्वाणेषु जीवा विसेसाहिया ।

अथवा अपावहुगं तिविहं— जहण्णयमुक्कस्सयमजहण्णमणुक्कस्सयं चेदि ।
तत्थ जहण्णए पयदं— सव्वत्थोवा जहण्णए द्वाणे । अजहण्णए द्वाणे जीवा असंखेज्जगुणा ।
उक्कस्सए पयदं— सव्वत्थोवा उक्कस्सए द्वाणे जीवा । अणुक्कस्सए द्वाणे जीवा
अणंतगुणा । अजहण्णअणुक्कस्सए पयदं— सव्वत्थोवा उक्कस्सए द्वाणे जीवा । जहण्णए
द्वाणे जीवा अणंतगुणा । अजहण्णअणुक्कस्सएसु द्वाणेषु जीवा असंखेज्जगुणा । अजहण्णए

अपेक्षा द्वितीय स्थान सव्वन्धी जीव अन्तर्मुद्दत्त प्रतिभागसे विशेष अधिक अथवा
विशेष हीन हैं ।

उत्कृष्ट स्थानके जीव सब स्थान सम्वन्धी जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं ?
वे उनके अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । जघन्य स्थानमें जीव सब स्थानों सम्वन्धी जीवोंके
कितनेवें भाग प्रमाण हैं ? वे उनके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अजघन्य अनुत्कृष्ट
स्थानोंमें जीव सब जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं ? वे उनके असंख्यात बहुभाग प्रमाण
हैं । इस प्रकार भागभागप्ररूपणा समाप्त हुई ।

उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे थोड़े हैं । उनसे जघन्य स्थानमें वे अनन्तगुणे हैं ।
उनसे अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थानोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं ।

शंका—गुणकार क्या है ?

समाधान—गुणकार अंगुलका असंख्यातवां भाग है ।

उनसे अजघन्य स्थानमें जीव विशेष अधिक हैं । अनुत्कृष्ट स्थानमें जीव उनसे
विशेष अधिक हैं । उनसे सब स्थानोंमें जीव विशेष अधिक हैं ।

अथवा, अल्पबहुत्व तीन प्रकार है— जघन्य, उत्कृष्ट और अजघन्य-अनुत्कृष्ट ।
उनमें जघन्य अल्पबहुत्व प्रकृत है— जघन्य स्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे
अजघन्य स्थानमें जीव असंख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट अल्पबहुत्व प्रकृत है— उत्कृष्ट
स्थानमें जीव सबसे थोड़े हैं । अनुत्कृष्ट स्थानमें जीव उनसे अनन्तगुणे हैं । अजघन्य-
अनुत्कृष्ट अल्पबहुत्व प्रकृत है— उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं । जघन्य स्थानमें
जीव उनसे अनन्तगुणे हैं । अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थानोंमें जीव उनसे असंख्यातगुणे हैं ।

झाणे जीवा विसेसाहिया । अणुककस्सए झाणे जीवा विसेसाहिया । सव्वेसु झाणेंसु जीवा विसेसाहिया ।

एवं दंसणावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाणं ॥ १४ ॥

एदेसिं तिण्हं घादिकम्माणं जहा णाणावरणीयउक्कस्साणुककस्सखेत्तपरूवणा कदा तथा कादव्वं, विसेसाभावादो ।

सामित्तेण उक्कस्सपदे वेदणीयवेदणा खेत्तदो उक्कस्सिया कस्स ? ॥ १५ ॥

उक्कस्सपदे त्ति णिद्देसेण जहण्णपदपडिसेहो कदो । वेदणीयवेदणा त्ति णिद्देसेण सेसकम्मवेयणाए पडिसेहो कदो । खेत्तणिद्देसेण दव्वादिवेयणाणं पडिसेहो कदो । कस्से त्ति किं देवस्स, किं णेरइयस्स, किं तिरिक्खस्स, किं मणुस्सस्स होदि त्ति पुच्छा कदा ।

अण्णदरस्स केवलिसस केवलिसमुग्घादेण समुहदस्स सव्वलोगं गदस्स तस्स वेदणीयवेदणा खेत्तदो उक्कस्सा ॥ १६ ॥

अण्णदरस्से त्ति णिद्देसेण ओगाहणाविसेसाणं भरहादिकखेत्तविसेसाणं च पडिसेहा-
उनसे अजघन्य स्थानमें जीव विशेष अधिक है । उनसे अनुत्कृष्ट स्थानमें जीव विशेष अधिक है । उनसे सब स्थानोंमें जीव विशेष अधिक है ।

इसी प्रकार दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मके भी उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट वेदनाक्षेत्रोंकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ १४ ॥

जैसे ज्ञानावरणीयके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट क्षेत्रोंकी प्ररूपणा की गई है वैसे ही इन तीन घाति कर्मोंके उक्त क्षेत्रोंकी प्ररूपणा करना चाहिये, क्योंकि, उनमें कोई विशेषता नहीं है ।

स्वामित्वसे उत्कृष्ट पदमें वेदनीय कर्मकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है ? ॥ १५ ॥

‘उत्कृष्ट पदमें’ इस निर्देशसे अजघन्य पदका प्रतिषेध किया गया है । ‘वेदनीय कर्मकी वेदना’ इस निर्देशसे शेष कर्मोंकी वेदनाका प्रतिषेध किया है । क्षेत्रका निर्देश करनेसे द्रव्यादि वेदनाओंका प्रतिषेध किया गया है । ‘किसके होती है ?’ इससे उक्त वेदना क्या देवके, क्या नारकीके, क्या तिर्यंचके और क्या मनुष्यके होती है; यह पृच्छा की गई है ।

अन्यतर केवलीके, जो केवलिसमुद्घातसे समुद्घातको व उसमें भी सर्वलोक अर्थात् लोकपूरण अवस्थाको प्राप्त हैं, उनके वेदनीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥ १६ ॥

‘अन्यतर’ पदके निर्देशसे अवगाहनाविशेषोंके और भरतादिक क्षेत्रविशेषोंके

भावो परुविदो । केवलिससे ति णिद्देसेण छदुमत्थाणं पडिसेहो कदो । केवलिसमुग्घादेण समुहदस्से ति णिद्देसेण सत्थाणंकेवलिपडिसेहो कदो । सव्वलोगं गदस्से ति णिद्देसेण दंड-कवाड-पदरगदाणं पडिसेहो कदो । सव्वलोगपूरणे वट्टमाणस्स उक्कस्सिया वैयणीयवैयणा होदि ति उच्च होदि । एत्थ उवसंहारो सुगमो ।

तव्वदिरित्ता अणुक्कस्सा ॥ १७ ॥

एदम्हादो उक्कस्सखेत्तवैयणादो वदिरित्ता खेत्तवैयणा अणुक्कस्सा होदि । तत्थ-तणउक्कस्सियाए खेत्तवैयणाए पदरगदो केवली सामी, एदम्हादो अणुक्कस्सखेत्तेसु महल्ल-खेत्ताभावादो । एदं च उक्कस्सखेत्तादो विसेसहीणं, वादवल्यवभंतरे जीवपदेसाणमभावादो । सव्वमहल्लोगाहणाए कवाडं गदो केवली तदणंतरअणुक्कस्सखेत्तट्ठाणसामी । णवरि पुविल्ल-अणुक्कस्सखेत्तादो विदियमणुक्कस्सखेत्तमसंखेज्जगुणहीणं, संखेज्जसूचीअंगुलवाहल्लजग-पदरपमाणकवाडखेत्तं पेक्खिदूण मंथक्खेत्तस्स असंखेज्जगुणत्तुवलंभादो । पदेसूणुक्कस्स-विकखंभोगाहणाए कवाडं गदो केवली तदियक्खेत्तसामी । णवरि विदियमणुक्कस्सखेत्तं पेक्खिदूण तदियमणुक्कस्सखेत्तं विसेसहीणं होदि, पुविल्लखेत्तादो जगपदरमेत्तखेत्त-परिहाणिदंस्सादो । दुपदेसूणुक्कस्सविकखंभेण कवाडं गदो चउत्थखेत्तसामी । एदं पि

प्रतिषेधका अभाव वतलाया गया है । 'केवली' पदका निर्देश करके छद्मस्थोंका प्रतिषेध किया गया है । 'केवलिसमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त' इस निर्देशसे स्वस्थानकेवलीका प्रतिषेध किया है । 'सर्व लोकको प्राप्त' इस निर्देशसे दण्ड, कपाट और प्रतर समुद्घातको प्राप्त हुए केवलियोंका प्रतिषेध किया है । सर्वलोकपूरण समुद्घातमें रहनेवाले केवलीके उत्कृष्ट वेदनीयवेदना होती है, यह उसका अभिप्राय है । यहां उपसंहार सुगम है ।

उत्कृष्ट क्षेत्रवेदनासे भिन्न क्षेत्रवेदना अनुत्कृष्ट है ॥ १७ ॥

इस उत्कृष्ट क्षेत्रवेदनासे भिन्न क्षेत्रवेदना अनुत्कृष्ट होती है । अनुत्कृष्ट क्षेत्र-वेदनाविकल्पोंमें उत्कृष्ट क्षेत्रवेदनाके स्वामी प्रतरसमुद्घातको प्राप्त केवली हैं, क्योंकि, अनुत्कृष्ट क्षेत्रोंमें इससे और कोई बड़ा क्षेत्र नहीं है । यह क्षेत्र उत्कृष्ट क्षेत्रकी अपेक्षा विशेष हीन है, क्योंकि, इस क्षेत्रमें जीवके प्रदेश वातवल्योंके भीतर नहीं रहते । सबसे बड़ी अवगाहना द्वारा कपाटसमुद्घातको प्राप्त केवली तदनन्तर अनुत्कृष्ट क्षेत्रस्थानके स्वामी हैं । विशेष इतना है कि पूर्वके अनुत्कृष्ट क्षेत्रसे द्वितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्र-असंख्यातगुणा हीन है, क्योंकि, संख्यात सूच्यंगुल वाहल्य रूप जगप्रतर प्रमाण कपाटक्षेत्रकी अपेक्षा मंथक्षेत्र असंख्यातगुणा पाया जाता है । एक प्रदेश कम उत्कृष्ट विष्कम्भ युक्त अवगाहनासे कपाटसमुद्घातको प्राप्त केवली तृतीय क्षेत्रके स्वामी हैं । विशेष इतना है कि द्वितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्रकी अपेक्षा तृतीय अनुत्कृष्ट क्षेत्र विशेष हीन है, क्योंकि, इसमें पूर्वके क्षेत्रकी अपेक्षा एक जगप्रतर मात्र क्षेत्रकी हानि देखी जाती है । दो प्रदेश कम उत्कृष्ट विष्कम्भसे कपाटको प्राप्त केवली चतुर्थ अनुत्कृष्ट क्षेत्रके स्वामी

अणंतरपुव्विल्लखेत्तं पेक्खिदूणं विसेसहीणं दोजगपदरमेत्तेण । एवं सांतरकमेण खेत्तसामित्तं परूवेदव्वं जाव आहुड्डरयणिउस्सेहओगाहणाए विक्खभेणूणपंचघणुसद-पणुवीमुत्तरुस्सेह-ओगाहणविक्खंभमेत्तकवाडखेत्तवियप्पा त्ति । पुणो एदेण सव्वजहण्णपच्छिमक्खेत्तेण सरिस-मुत्तराहिमुहकवाडखेत्तं घेत्तूण पुणो ततो एगेगपदेसं विक्खंभम्मि ऊणं करिय कवाडं णेदूण खेत्तवियप्पाणं सामित्तं परूवेदव्वं जाव उत्तराभिमुहकेवलजहण्णकवाडखेत्तं पत्तो त्ति । पुणो तदणंतरहेट्ठिमअणुक्कस्सखेत्तसामी महामच्छो तिण्णिविग्गहकंदएहि सत्तमपुढविमारणं-तियसमुग्घादेण समुहदो सामी, अण्णरस कवाडजहण्णखेत्तादो ऊणस्स अणुक्कस्सखेत्तस्स अणुवलंमादो । णवरि कवाडजहण्णक्खेत्तादो महामच्छस्स उक्कस्समसंखेज्जगुणहीणं ।

एत्तो प्पहुडि उव्वारिमक्खेत्तवियप्पाणं घादिकग्गमाणं भणिदविहाणेण सामित्तपरूवणं कायव्वं । दंडगयकेवल्लिखेत्तद्वाणाणि संखेज्जपदरंगुलमेत्ताणि महामच्छक्खेत्ततो णिवदंति त्ति पुष ण परूविदाणि । केवली दंडं करेमाणो सव्वो सरीरतिगुणवाहल्लेण [ण] कुणदि, वेदणाभावादो । को पुण सरीरतिगुणवाहल्लेण दंडं कुणइ ? पलियकेण णिसण्णकेवली ।

हैं । यह भी अव्यवहित पूर्वके क्षेत्रकी अपेक्षा दो जगप्रतर मात्रसे विशेष हीन है । इस प्रकार सान्तरक्रमसे साढ़े तीन रत्नि उत्सेध युक्त अवगाहनाके त्रिष्कम्भसे हीन पांच सौ पच्चीस घनुप उत्सेध युक्त अवगाहनाके विष्वम्भ प्रमाण कपाटक्षेत्रके विकल्पों तक क्षेत्रस्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये । फिर इस सर्वजघन्य अन्तिम क्षेत्रके सदृश उत्तराभिमुख कपाटक्षेत्रको ग्रहण करके पश्चात् उससे विष्कम्भमें एक एक प्रदेश कम करके कपाटसमुद्घातको लेकर उत्तराभिमुख केवलीके जघन्य कपाटक्षेत्रको प्राप्त होने तक क्षेत्रविकल्पोंके स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये । पुनः तीन विश्रहकाण्डकों द्वारा सातवीं पृथिवीमें मारणान्तिकसमुद्घातसे समुद्घातको प्राप्त महामत्स्य तदनन्तर अधस्तन अनुत्कृष्ट क्षेत्रका स्वामी है, क्योंकि, उक्त जघन्य कपाटक्षेत्रसे हीन और दूसरा अनुत्कृष्ट क्षेत्र पाया नहीं जाता । विशेष इतना है कि जघन्य कपाटक्षेत्रसे महामत्स्यका उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यातगुणा हीन है ।

अब यहांसे आगे पूर्वोक्त घातिकर्मोंके विधानसे उपरिम क्षेत्रविकल्पोंकी प्ररूपणा करना चाहिये । दण्डगत केवलीके संख्यात प्रतरांगुल मात्र क्षेत्रस्थान चूंकि महामत्स्यक्षेत्रके भीतर आजाते हैं, अतः उनकी पृथक् प्ररूपणा नहीं की गई है । दण्डसमुद्घातको करनेवाले सभी केवली शरीरसे तिगुणे वाहल्यसे उक्त समुद्घातको नहीं करते, क्योंकि, उनके वेदनाका अभाव है ।

शंका - तो फिर कौनसे केवली शरीरसे तिगुणे वाहल्यसे दण्डसमुद्घातको करते हैं ?

समाधान— पल्यंक आसनसे स्थित केवली उक्त प्रकारसे दण्डसमुद्घातको करते हैं ।

एदेसिं खेत्ताणं सामिजीवाणं परूवणे कीरमाणे छअणिओगद्वाराणि हवंति । तत्थ परूवणाए वेयणीयसव्वक्खेत्तवियप्पेसु अत्थि जीवा । परूवणा गदा ।

उक्कस्सए द्वाणे जीवा केत्तिया ? संखेज्जा । एवं णेयव्वं जाव कवाडगदकेवल्लिजहण्णक्खेत्तवियप्पे ति । उवीर महामच्छउक्कस्सखेत्तप्पहुडि तसपाओग्गक्खेत्तेसु असंखेज्जा । षण्णप्फदिकाइयपाओग्गसु अणंता । एवं पमाणपरूवणा गदा । सेडिपरूवणा ण सक्कदे णेदुं, पवाइज्जंतुवदेसाभावादे ।

अवहारो उच्चदे— उक्कस्सद्वाणजीवपमाणेण सव्वद्वाणजीवा केवचिरेण कालेण अवहिरिज्जंति ? अणंतेण कालेण । एवं णेदव्वं जाव तसकाइय-पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइयपाओग्गद्वाणे ति । सुहुम-बादरवणप्फदिकाइयपाओग्गद्वाणजीवपमाणेण सव्वजीवा केवचिरेण-कालेण अवहिरिज्जंति ? असखेज्जेण ।

भागाभागो वुच्चदे— उक्कस्सए द्वाणे जीवा सव्वद्वाणजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतिमभागो । जहण्णए द्वाणे सव्वद्वाणजीवाणं केवडिओ भागो ? असखेज्जदिभागो । अजहण्णक्कस्सए द्वाणे जीवा सव्वद्वाणजीवाणं केवडिओ भागो ? असंखेज्जा भागा । भागाभागपरूवणा गदा ।

इन क्षेत्रोंके स्वामी जीवोंकी प्ररूपणा करनेमें छह अनुयोगद्वार हैं । उनमें प्ररूपणा अनुयोगद्वारकी अपेक्षा वेदनीय कर्मके सब क्षेत्रविकल्पोंमें जीव हैं । प्ररूपणा समाप्त हुई ।

उत्कृष्ट स्थानमें जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इस प्रकार कपाटसमुदघातगत केवलीके जघन्य क्षेत्रविकल्प तक ले जाना चाहिये । आगे महामत्स्यके उत्कृष्ट क्षेत्रसे लेकर त्रस योग्य क्षेत्रोंमें असंख्यात जीव हैं । वनस्पतिकायिक योग्य क्षेत्रोंमें अनन्त जीव हैं । इस प्रकार प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई ।

श्रेणिप्ररूपणा बतलाना शक्य नहीं है, क्योंकि, उसके विषयमें प्रवाह स्वरूपसे प्राप्त हुए परम्परागत उपदेशका अभाव है ।

अवहारकी प्ररूपणा करते हैं— उत्कृष्ट स्थानमें रहनेवाले जीवोंके प्रमाणसे सब जीव कितने कालसे अपहृत होते हैं ? वे उक्त प्रमाणसे अनन्त कालमें अपहृत होते हैं । इस प्रकार त्रसकायिक, पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक और वायुकायिक योग्य स्थानों तक ले जाना चाहिये । सूक्ष्म व बादर वनस्पतिकायिक योग्य स्थानों सन्बन्धी जीवोंके प्रमाणसे सब जीव कितने कालसे अपहृत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे असंख्यात कालमें अपहृत होते हैं ।

भागाभागकी प्ररूपणा करते हैं— उत्कृष्ट स्थानमें रहनेवाले जीव सब स्थानों सन्बन्धी जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं ? वे उनके अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । जघन्य स्थानमें रहनेवाले जीव-सब स्थानों सन्बन्धी जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं ? वे उनके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अजघन्योत्कृष्ट स्थानमें रहनेवाले जीव सब स्थानों सन्बन्धी जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं ? वे उनके असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । भागाभागप्ररूपणा समाप्त हुई ।

अप्पावहुगं वत्तइस्सामो— सव्वत्थोवा उक्कस्सए द्वाणे जीवा । जहण्णए द्वाणे जीवा अणंतगुणा । अजहण्णअणुक्कस्सए द्वाणे जीवा असंखेज्जगुणा । अजहण्णए द्वाणे जीवा विसेसाहिया । अणुक्कस्सए द्वाणे जीवा विसेसाहिया । सव्वेसु द्वाणेषु जीवां विसेसाहिया ।

एवमाउव-णामा-गोदाणं ॥ १८ ॥

जहा वेदणीयस्स उक्कस्साणुक्कस्सखेत्तपरूवणा कदा तथा-आउव-णामा-गोदाणं पि खेत्तपरूवणं कायव्वं, विसेसाभावादो । एवमुक्कस्साणुक्कस्सखेत्तपरूवणा समत्ता ।

सामित्तेण जहण्णपदे णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो जहण्णिया कस्स ? ॥ १९ ॥

जहण्णपदणिद्दसो सेसपदपडिसेहफलो । णाणावरणीयणिद्दसो सेसकम्मपडिसेहफलो । खेत्तणिद्दसो दव्वादिपडिसेहफलो । कस्से त्ति देव-णेरइयादिविसयपुच्छा ।

अण्णदरस्स सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स तिसमयआहारयस्स तिसमयतद्भवत्थस्स जहण्णजोगिस्स सव्वजहण्णियाए-सरीरोगाह-णाए चट्टमाणस्स तस्स णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो जहण्णा ॥ २० ॥

अल्पवहुत्वको कहते हैं—उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य स्थानमें जीव अनन्तगुणे है । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थानमें जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य स्थानमें जीव विशेष अधिक हैं । उनसे अनुत्कृष्ट स्थानमें जीव विशेष अधिक हैं । उनसे सब स्थानोंमें जीव विशेष अधिक हैं ।

इसी प्रकार आयु, नाम व गोत्र कर्मके उत्कृष्ट एवं अनुत्कृष्ट वेदनाक्षेत्रोंकी प्ररूपणा करनी चाहिये ॥ १८ ॥

जिस प्रकार वेदनीय कर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट क्षेत्रकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार आयु, नाम व गोत्र कर्मके भी उक्त क्षेत्रोंकी प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है । इस प्रकार उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टक्षेत्रप्ररूपणा समाप्त हुई ।

स्वामित्वसे जघन्य पदमें ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य किसके होती है ? ॥ १९ ॥

जघन्य पदका निर्देश शेष पदोंके प्रतिषेधके लिये किया है । ज्ञानावरणीयका निर्देश शेष कर्मोंका प्रतिषेध करनेवाला है । क्षेत्रका निर्देश द्रव्यादिकका प्रतिषेध करता है । 'किसके होती है' इस निर्देशसे देव व नारकी आदि विषयक पृच्छा प्रगट की गई है ।

अन्यतर सूक्ष्म निगोद जीव लब्ध्यपर्याप्तक, जो कि त्रिसमयवर्ती आहारक है, तद्भवस्थ होनेके तृतीय समयमें वर्तमान है, जघन्य योगवाला है, और शरीरकी सर्वजघन्य अवगाहनामें वर्तमान है; उसके ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य होती है ॥ २० ॥

१ अ-काप्रन्यो 'जीवा' इत्येतत् पद नोपलभ्यते ।

२ सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स तदियसमयमिह । अणुलज्जभाग जहण्णपुक्कस्सय मच्छे ॥ गो. जी. १४.

सुहुमणिगोदा अणंता अत्थि, तत्थ एकस्स गहणद्धमण्णदरस्स सुहुमणिगोद-
जीवस्से ति उत्तं । तत्थ पज्जत्तणिराकरणद्धमपज्जत्तस्से ति उत्तं । पज्जत्तणिराकरणं किमद्धं
कीरदे ? अपज्जत्तजहण्णोगाहणादो पज्जत्तजहण्णोगाहणाए बहुत्तुवलंभादो । विग्गहगदीए
जहण्णोगाहणा वि पुव्विल्लोगाहणाए सरिसा ति तप्पडिसेहद्धं तिसमयआहारयस्से ति भणिदं ।
उज्जुगदीए उप्पण्णो ति जाणावणद्धं तिसमयतन्भवत्थस्से ति भणिदं । एग-दो-तिण्णि वि
विग्गहे कादूणं उप्पाइय छसमयतन्भवत्थस्स जहण्णसामित्तं किण्ण दिज्जदे ? ण, पंचसु
समएसु असंखेज्जगुणाए सेडीए वद्धिदेण एगंताणुवद्धिजेगेण वद्धमाणस्स बहुओगाहणप्प-
संगादो । पढमसमयआहारयस्स पढमसमयतन्भवत्थस्स जहण्णक्खेत्तसामित्तं किण्ण दिज्जदे ?
ण, तत्थ आयदचउरस्सक्खेत्तागारेणं द्विदम्मि ओगाहणाए त्थोवत्ताणुववत्तीदो । उज्जुगदीए
उप्पण्णपढमसमयम्मि आयदचउरंससरूवेण जीवपदेसा चिट्ठंति ति कथं णव्वदे ? पवाइ-

सूक्ष्म निगोदिया जीव अनन्त है, उनमेंसे एकका ग्रहण करनेके लिये 'अन्यतर
सूक्ष्म निगोद जीवके' ऐसा कहा है। उनमें पर्याप्तका निराकरण करनेके लिये
'अपर्याप्तके' ऐसा निर्देश किया है।

शंका— पर्याप्तका निराकरण किसलिये किया जा रहा है ?

समाधान— अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहनासे चूंकि पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना
बहुत पायी जाती है, अतः उसका निषेध किया गया है।

विग्रहगतिमें चूंकि जघन्य अवगाहना भी पूर्व अवगाहनाके सदृश है, अतः
उसका निषेध करनेके लिये 'त्रिसमयवर्ती आहारक' ऐसा कहा है। ऋजुगतिसे उत्पन्न
हुआ, इस बातके ज्ञापनार्थ 'तृतीय समयवर्ती तद्भवस्थ' ऐसा कहा है।

शंका— एक, दो अथवा तीन भी विग्रह करके उत्पन्न कराकर पष्ठसमयवर्ती
तद्भवस्थ निगोद जीवके जघन्य स्वामीपना क्यों नहीं देते ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, पांच समयोंमें असंख्यातगुणित श्रेणिसे वृद्धिको प्राप्त
हुए एकान्तानुवृद्धियोगसे बढ़नेवाले उक्त जीवके बहुत अवगाहनाका प्रसंग आता है।

शंका— प्रथम समयवर्ती आहारक और प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ हुए
निगोद जीवके जघन्य क्षेत्रका स्वामीपना क्यों नहीं देते ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, उस समय आयतचतुरस्र क्षेत्रके आकारसे स्थित
उक्त जीवमें अवगाहनाका स्तोकपना बन नहीं सकता।

शंका— ऋजुगतिसे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें आयतचतुरस्र स्वरूपसे
जीवप्रदेश स्थित रहते हैं, यह कैसे जाना जाता है ?

१ तर्हि ऋजुगत्यात्पचस्यैव कथमुक्तम् ? विग्रहगतौ योगवृद्धियुक्तत्वेन तदवगाहवृद्धिमभवात् । गो जी (जी प्र) १४.

२ प्रतिपु 'चरस्स खेत्तागारेण' इति पाठ ।

ज्जंतुवदेसादो । विदियसमयआहारय-विदियसमयतम्भवत्थस्स जहण्णसामित्तं किण्ण दिज्जदे ? ण, तत्थ समचउरंसमरूवेण जीवपदेसाणमवट्ठाणादो । विदियसमए विक्खंभसमो आयामो जीवपदेसाणं होदि त्ति कुदो णव्वदे ? परमगुरुवदेसादो । तदियसमयआहारयस्स, तदिय-समयतम्भवत्थस्स चैव जहण्णक्खेत्तसामित्तं किमहं दिज्जदे ? ण एस दोसो, चउरंस-खेत्तस्स चत्तारि वि कोणे संकोडिय वट्टुलागोरेण जीवपदेसाणं तत्थावट्ठाणदंसाणादो' । तत्थ वट्टुलागोरेण जीवावट्ठाणं कथं णव्वदे ? एदम्हादो चैव सुत्तादो । उप्पण्णपढमसमयप्पहुडि जहण्णउववादजोग-जहण्णएगंताणुवट्ठिजोगेहि चैव तिसु वि समएसु पयट्ठो त्ति जाणावण्हं जहण्णजेगिस्से त्ति भणिदं । तदियसमए अजहण्णाओ वि ओगाहणाओ अत्थि त्ति तप्पडि-सेहहं सव्वजहण्णियाए सरीरोगाहणाए वट्टुमाणस्से त्ति भणिदं । एवंविहविसेसणेहि विसेस्सि-

समाधान— वह आचार्यपरम्परागत उपदेशसे जाना जाता है ।

शंका— द्वितीय समयवर्ती आहारक और तद्भवस्थ होनेके द्वितीय समयमें वर्तमान जीवके जघन्य स्वामीपना क्यों नहीं देते ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, उस समयमें भी जीवप्रदेश समचतुरस्र स्वरूपसे अवस्थित रहते हैं ।

शंका— द्वितीय समयमें जीवप्रदेशाका विष्कम्भके समान भायाम होना है, यह कहाँसे जाना जाता है ?

समाधान— वह परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है ।

शंका— तृतीय समयवर्ती आहारक और तृतीय समयवर्ती तद्भवस्थ निगोद जीवके ही जघन्य क्षेत्रका स्वामीपना किसलिये देते हैं ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, उस समयमें चतुरस्र क्षेत्रके चारों ही कोनोंको संकुचित करके जीवप्रदेशाका वर्तुल अर्थात् गोल आकारसे अवस्थान देखा जाता है ।

शंका— उस समय जीवप्रदेश वर्तुल आकारसे अवस्थित होते हैं, यह कैसे जाना जाता है ।

समाधान— वह इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लेकर जघन्य उपपादयोग और जघन्य एकान्तानुवृद्धियोगसे ही तीनों समयोंमें प्रवृत्त होता है, इस बातको जतलानेके लिये 'जघन्य योगवालेके' ऐसा सूत्रमें निर्देश किया है । तृतीय समयमें अजघन्य भी अवगाहनार्थ होती है, अतः उनका प्रतिषेध करनेके लिये 'शरीरकी सर्वजघन्य अवगाहनमें वर्तमान' यह कहा है । इन विशेषणोंसे विशेषताको प्राप्त हुए सूक्ष्म निगोद

१ ननुत्पन्नतृतीयसमये एव सर्वजघन्यावगाहन कथं मग्मवेत् इति चेत्- प्रथमसमये निगोदजीवशरीरस्यायत-चतुरस्रत्वात् द्वितीयसमये समचतुरस्रत्वात् तृतीयसमये कोणापनयनेन वृत्तत्वात् तदेव [तदैव] तदवगाहनस्याल्पत्व-सम्भवात् । गो. जी. (जी. प्र.) १४.

यस्स सुहुमणिगोदजीवस्स णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो जहण्णा । एत्थ उवसंहारो उच्चदे—
एगउस्सेहघणंगुलं ठविय तप्पाओग्गेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण भागे हिदे णाणा-
वरणीयस्स जहण्णक्खेत्तं होदि ?

तव्वदिरित्तमजहण्णा ॥ २१ ॥

ततो जहण्णक्खेत्तादो वदिरित्ता खेत्तवेयणा अजहण्णा । सा च बहुपयारा । तासिं
सामित्तपरूवणं कस्सामो । तं जहा— पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं विरलेदूण घणंगुलं
समखंडं करिय दिण्णे एक्केक्कस्स रूवस्स सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं पावदि ।
पुणो एदिस्से उवरि पदेसुत्तरोगाहणाए तत्थेव ड्ढिदो अजहण्ण-जहण्णक्खेत्तस्स सामी । एत्थ
काए वड्डीए वड्ढिदो विदियक्खेत्तवियप्पो ? असंखेज्जभागवड्डीए । तं जहा— जहण्णोगाहणं
हेट्ठा विरलेदूण उवरिमएगरूवधरिदं समखंडं कादूण दिण्णे एगागासपदेसो पावदि । पुणो
एत्तियमेत्तेण अहियमुवरिमएगरूवधरिदमिच्छामो त्ति रूवाहियेहेट्ठिमविरलणाए जदि एगरूव-
परिहाणी लब्भदि तो उवरिमविरलणाए किं लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदमिच्छमोवट्ठिय
लद्धे उवरिमविरलणाए सरिसच्छेदं कादूण सोहिदे अजहण्ण-जहण्णोगाहणाए भागहारो होदि ।

जीवके ज्ञानावरणीयकी वेदना क्षेत्रसे जघन्य होती है । यहां उपसंहार कहते हैं—
एक उत्सेधघनांगुलको स्थापित करके तत्प्रायोग्य पत्योपमके असंख्यातवै भागका भाग
देनेपर ज्ञानावरणीयका जघन्य क्षेत्र होता है ।

उससे भिन्न अजघन्य वेदना होती है ॥ २१ ॥

उससे अर्थात् जघन्य क्षेत्रसे भिन्न क्षेत्रवेदना अजघन्य है । वह अनेक प्रकार
है । उन बहुविध क्षेत्रवेदनाओंके स्वामित्वकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—
पत्योपमके असंख्यातवै भागका विरलन करके घनांगुलको समखण्ड करके देनेपर
एक एक रूपके प्रति सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीवकी जघन्य अवगाहना प्राप्त होती
है । पश्चात् इसके आगे एक प्रदेश अधिक अवगाहनासे वहां (निगोद पर्यायमें) ही
स्थित जीव अजघन्य क्षेत्रवेदनाके जघन्य स्थानका स्वामी होता है ।

शंका—यहां द्वितीय क्षेत्रविकल्प कौनसी वृद्धिके द्वारा वृद्धिगत हुआ है ?

समाधान— वह असंख्यातभागवृद्धिके द्वारा वृद्धिगत हुआ है । वह इस
प्रकारसे— जघन्य अवगाहनाका नीचे विरलन करके उपरिम एक एकके प्रति प्राप्त
राशिको समखण्ड करके देनेपर एक आकाशप्रदेश प्राप्त होता है । अब इतने मात्रसे
अधिक उपरिम एक रूपधरित राशिकी चूंकि इच्छा है, अतः एक रूपसे अधिक अघस्तन
विरलनमें यदि एक रूपकी हनि पायी जाती है तो उपरिम विरलन राशिमें वह कितनी
पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करके लब्धको समच्छेद
करके उपरिम विरलनमेंसे घटा देनेपर अजघन्य जघन्य अवगाहनाका भागहार होता है ।

१ अवस्वरि इगिपदेसे उदे अरुखेज्जभागवड्डीए । आदी निरंतरमदो एगेगपदेसपरिवड्डी ॥ गो. जी. १०२.

जहण्णखेत्तस्सुवरि दोआगासपदेसे' वड्डिय द्विदो विदियअजहण्णखेत्तस्सं सामी' । एत्थ वि असंखेज्जभागवड्डी चैव । तं जहा— हेट्ठिमविरलणाए दुभागेण रूवाहिएण उवरिमविरलणं खंडिय तत्थ एगखंडेण उवरिमविरलणाए अवणिदे विदियक्खेत्तभागहारो होदि । तिपदेसुत्तस्जहण्णोगाहणाए वट्टमाणो जीवो तदियखेत्तसामी । एत्थ वि भागहारपरिहाणी पुव्वं व कायच्चा । णवरि हेट्ठिमविरलणाए तिभागो रूवाहियो उवरिमविरलणाए भागहारो होदि । एवमेगेगागासपदेसं वड्ढाविय णेदव्वं जाव जहण्णपरित्तासंखेज्जमेत्तागासपदेसा वड्ढिदात्ति । एत्थ भागहाराणयणं उच्चदे— जहण्णपरित्तासंखेज्जेणोवट्ठिदेहेट्ठिमविरलणाए रूवाहियाए उवरिमविरलणमोवड्डिय तत्थुवलद्धे तत्थेव अवणिदे तदित्थखेत्तभागहारो होदि । एवं पदेसेसु एगादिएगुत्तरकमेणं वड्ढमाणेसु केत्तिए अद्धाणे गदे उवरिमविरलणाए एगरूवपरिहाणी^३ लब्भेदे ? रूवणुवरिमविरलणाए जहण्णोगाहणाए खंडिदाए तत्थ एगखंडमेत्तसु अजहण्णखेत्तवियपेसु अदिककंतसु एगरूवपरिहाणी लब्भदि । तं जहा— रूवणुवरिमविरलणं हेट्ठा विरलिय जहण्णखेत्तं समखंडं करिय दिण्णे विरलणरूवं पडि वड्ढिरूवाणि पावेति । पुणो एदाणि उवरि दाट्ठूण समकरणे कीरमाणे परिहीणरूवाणं पमाणं उच्चदे— रूवाहिय-

जघन्य क्षेत्रके ऊपर दो आकाशप्रदेशोंको बढ़ाकर स्थित जीव द्वितीय अजघन्य क्षेत्रका स्वामी होता है । यहां भी असंख्यातभागवृद्धि ही है । यथा— अघस्तन विरलनके रूपाधिक द्वितीय भागसे उपरिम विरलन राशिको खण्डित कर उसमेंसे एक खण्डको उपरिम विरलनमेंसे कम कर देनेपर द्वितीय क्षेत्रका भागहार होता है ।

तीन प्रदेश अधिक जघन्य अवगाहनामें रहनेवाला जीव तृतीय क्षेत्रका स्वामी है । यहांपर भी भागहारकी हानिको पहिलेके समान ही करना चाहिये । विशेष इतना है कि अघस्तन विरलनका रूपाधिक तृतीय भाग उपरिम विरलनका भागहार होता है । इस प्रकार एक एक आकाश प्रदेशको बढ़ाकर जघन्य परीतासंख्यात प्रमाण आकाशप्रदेशोंकी वृद्धि होने तक ले जाना चाहिये । यहां भागहार लानेकी विधि कहते हैं— जघन्य परीतासंख्यातसे अपवर्तित रूपाधिक अघस्तन विरलन द्वारा उपरिम विरलनको अपवर्तित करके जो वहां उपलब्ध हो उसे उसीमेंसे घटा देनेपर वहांके क्षेत्रका भागहार होता है ।

शंका— इस प्रकार एकको आदि लेकर एक अधिक क्रमसे प्रदेशोंके बढ़नेपर कितना अध्वान जानेपर उपरिम विरलनमें एक रूपकी हानि पायी जाती है ?

समाधान— रूप कम उपरिम विरलनसे जघन्य अवगाहनाको खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण अजघन्य क्षेत्रके विकल्पोंके वीत जानेपर एक रूपकी हानि पायी जाती है । वह इस प्रकारसे— रूप कम उपरिम विरलनको नीचे विरलित कर जघन्य क्षेत्रको समखण्ड करके देनेपर विरलन रूपके प्रति वृद्धिरूप प्राप्त होते हैं । अब इनको ऊपर देकर समकरण करते समय हीन रूपोंके प्रमाणको

१ अ-वाप्रत्यो ' -पदेसो ' इति पाठ । २ अ-वाप्रत्यो ' - अजहण्णखेत्तस्सुवरि सामी ' इति पाठः ।

३ अ-वाप्रत्यो ' एगरूवपरिहाणी ' ; ताप्रती ' एग [स] रूवपरिहाणी ' इति पाठः ।

विरलणमेत्तद्वाणं गंतूणं यदि एगरूवपरिहाणी लब्भदि तो उवरिमविरलणाए किं लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए एवरूवमागच्छदि । तस्मिं उवरिमविरलणाए अवणिदे तदिस्थखेत्तवियप्पभागहारो होदि । एवं गंतूणं जहण्णोगाहणं^१ जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खंडे-दूणं तत्थ एगखंडे वड्ढिदे वि असंखेज्जभागवड्ढी चैव । एत्थं समकरणे कीरमाणे परिहीण-रूवाणयणं उच्चदे— रूवाहियजहण्णपरित्तासंखेज्जमेत्तद्वाणस्मिं यदि एगरूवपरिहाणी लब्भदि तो उवरिमविरलणाए किं लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए परिहाणि-रूवाणि आगच्छंति । पुणो ताणि उवरिमविरलणाए अवणिदे तदिस्थअजहण्णखेत्तद्वाणभागहारो होदि । पुणो एदिस्से ओगाहणाए उवरि^२ पदेसुत्तरं वड्ढियं ट्टिदजीवो तदणंतरउवरिमखेत्त-सामी होदि । एत्थं वि असंखेज्जभागवड्ढी चैव, उक्कस्ससंखेज्जेण जहण्णोगाहणं^३ खंडियं तत्थ एगखंडमेत्तपदेसाणं वड्ढीए अभावादो^४ । एवं गंतूणं उक्कस्ससंखेज्जेण जहण्णोगाहणं खंडियं तत्थेगखंडे जहण्णोगाहणाए उवरि वड्ढिदे संखेज्जभागवड्ढीए आदी असंखेज्जभाग-वड्ढीए परिसमती च जादो^५ ।

एत्थं भागहारो उच्चदे । तं जहा— उक्कस्ससंखेज्जं विरलियं उवरिमएगरूव-कहते हैं— रूपाधिक विरलन राशि प्रमाण अध्वान जाकर यदि एक रूपकी हानि पायी जाती है तो उपरिम विरलनमें वह कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फल-गुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर एक रूप आता है । उसको उपरिम विरलनमेंसे कम करनेपर वहांके क्षेत्रधिकल्पका भागहार होता है । इस प्रकार जाकर जघन्य अवगाहनाको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्ड मात्र वृद्धि हो जानेपर भी असंख्यातभागवृद्धि ही रहती है ।

यहां समकरण करते समय हीन रूपोंके लानेके विधानको कहते हैं— रूपा-धिक जघन्य परीतासंख्यात मात्र अध्वान जाकर यदि एक रूपकी हानि पायी जाती है तो उपरिम विरलनमें वह कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर हीन रूपोंका प्रमाण आता है । उनको उपरिम विरलनमेंसे कम करनेपर वहांके अजघन्य क्षेत्रस्थानका भागहार होता है । पुन इस अवगाहनाके ऊपर एक प्रदेश अधिक क्रमसे बढ़कर स्थित जीव तदनन्तर उपरिम क्षेत्रका स्वामी होता है । यहां भी असंख्यातभागवृद्धि ही रहती है, क्योंकि, उत्कृष्ट संख्यातसे जघन्य अवगाहनाको खण्डित कर उसमें एक खण्ड मात्र प्रदेशोंकी वृद्धिका अभाव है । इस प्रकार जाकर जघन्य अवगाहनाको उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्ड मात्र जघन्य अवगाहनाके ऊपर वृद्धि हो चुकनेपर संख्यातभागवृद्धिकी आदि और असंख्यातभागवृद्धिकी समाप्ति हो जाती है ।

यहां भागहार कहते हैं । वह इस प्रकार है— उत्कृष्ट संख्यातका विरलन

- १ अ-कप्रत्यो 'जहण्णोगाहणा', ताप्रतौ 'जहण्णोगाहणा (ण)' इति पाठः ।
- २ प्रतिषु 'उवरिम' इति पाठः ।
- ३ फाप्रतौ 'जहण्णोगाहणा' इति पाठः ।
- ४ प्रतिषु 'वड्ढी-अभावादो', ताप्रतौ 'वड्ढिअभावादो' इति पाठः ।
- ५ अयरोगाहणमाणे जहण्णपरिमिदअसखरासिहिदे । अवरस्सुवरि उच्चे जेद्धमसखेज्जभागस्स ॥ गो जी १०३.

धरिदं समखंडं करिय दिण्णे विरलणरूवं पडि वड्ढिपदेसपमाणं पावदि । पुणो एदं उवरिम-
रूवधरिदेसु दादूण समकरणे कीरमाणे णडरूवाणं पमाणं उच्चदे— रुवाहियेहड्ढिमविरलण-
मेत्तद्धाणं गंतूण जदि एगरूवपरिहाणी लब्भदि तो उवरिमविरलणाए किं लभामो त्ति
पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए परिहीणरूवोवलद्धी होदि । पुणो लद्धरूवेसु उवरिम-
विरलणाए अवणिदेसु तदिस्थभागहारो होदि । एत्तो प्पहुडि उवरि संखेज्जभागवड्ढी चेवं
दोदूण गच्छदि जाव उवरिमविरलणाए अद्धं चेड्ढे त्ति । तत्थ संखेज्जगुणवड्ढीए आदी
संखेज्जभागवड्ढीए परिसमत्ती च जादो ।

संपधि पुणरवि तदो प्पहुडि पदेसुत्तर-दुपदेसुत्तरकमेण खेत्तवियप्पेसु वड्ढमाणेसु जहण्ण-
खेत्तमेत्तपदेसेसु वड्ढेदेसु तिगुणवड्ढी होदि । तिरसे ओगाहणाए भागहारो जहण्णोगाहण-
भागहारस्स तिभागो होदि । तत्तो एग दोपदेसुत्तरादिकमेण जहण्णोगाहणमेत्तपदेसेसु वड्ढेदेसु
चदुगुणवड्ढी होदि । तत्थ भागहारो जहण्णोगाहणाए भागहारस्स चदुभागो होदि । एवं णेदच्चं
जाव उक्कस्ससखेज्जमेत्तो जहण्णोगाहणाए गुणगारो जादो त्ति । तिरसे ओगाहणाए पुण
भागहारो जहण्णोगाहणाभागहार उक्कस्ससखेज्जेण खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्तो होदि । पुणो

करके उपरिम एक रूपधरित राशिको समखण्ड करके देनेपर विरलनरूपके प्रति वृद्धिगत
प्रदेशोंका प्रमाण प्राप्त होता है । फिर इसका उपरिम रूपधरित राशियोंपर देकर
समकरण करते समय नष्ट रूपोंका प्रमाण कहा जाता है— रूपाधिक अधस्तन विर-
लन मात्र अध्यान जाकर यदि एक रूपकी हानि पायी जाती है, तो उपरिम विरलनमें
वह कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करने-
पर परिहीन रूप प्राप्त होते हैं । पश्चात् प्राप्त रूपोंको उपरिम विरलनमेंसे घटा देने-
पर वहाँका भागहार होता है । यहाँसे लेकर ऊपर संख्यातभागवृद्धि ही होकर जाती
है जय तक उपरिम विरलनका अर्ध भाग स्थित रहता है । वहाँ संख्यातगुणवृद्धिकी आवृ-
त्ति और संख्यातभागवृद्धिकी समाप्ति हो जाती है ।

अब वहाँसे लेकर फिर भी एक प्रदेश अधिक दो प्रदेश अधिक क्रमसे
क्षेत्राधिकारकी वृद्धि होकर जघन्य क्षेत्र प्रमाण प्रदेशोंके बढ़ जानेपर तिगुणी
वृद्धि होती है । उस अवगाहनाका भागहार जघन्य अवगाहना सम्बन्धी
भागहारके तृतीय भाग प्रमाण होता है । पश्चात् एक प्रदेश अधिक दो प्रदेश अधिक
इत्यादि क्रमसे जघन्य अवगाहना मात्र प्रदेशोंकी वृद्धि होनेपर चतुर्गुणी वृद्धि होती है ।
वहाँ भागहार जघन्य अवगाहना सम्बन्धी भागहारके चतुर्थ भाग प्रमाण होता है ।
इस प्रकार जघन्य अवगाहना सम्बन्धी गुणकारके उत्कृष्ट संख्यात मात्र हो जाने तक
ले जाना चाहिये । उस अवगाहनाका भागहार, जघन्य अवगाहना सम्बन्धी भागहारको
उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्डके बराबर होता है । पश्चात्

तिस्से उवरि पदेसुत्तर-दुपदेसुत्तरादिकमेण एगजहण्णे।गाहणेमेत्तपदेसेसु वड्ढिदेसु असंखेज्जगुण-
वड्ढीए आदी संखेज्जगुणवड्ढीए.परिसमत्ती च होदि' । तिस्से ओगाहणाए जहण्णेगाहण-
भागहारो' जहण्णपरित्तासखेज्जेण खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्तो भागहारो होदि । पुणो एत्तो-
प्पहुडि उवरि पदेसुत्तर-दुपदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जगुणवड्ढीए गच्छमाणाए सुहुमणिगोद-
जहण्णेगाहणाए सुत्तमणिदेआवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तगुणगारे पविडे सुहुमवाउकाइय-
लद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णेगाहणाए सरिसी सुहुमणिगोदलद्धिअपज्जत्तयस्स अजहण्ण-अणु-
ककस्सओगाहणा होदि ।

संपहि-सुहुमणिगोदोगाहणं मोत्तूण, वाउकाइयलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णेगाहणं घेत्तूण
पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड्ढीहिं वड्ढवेदव्वा जाव सुहुमतेउक्काइयलद्धिअपज्जत्तयस्स-
जइणोगाहणाए सरिसी सुहुवाउक्काइयलद्धिअपज्जत्तयस्स अजहण्ण-अणुककस्सओगाहणा
जादां ति । पुणो त मोत्तूण इमं घेत्तूण पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड्ढीहि वड्ढवेदव्वं
जाव सुहुमआउक्काइयलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णेगाहणाए सरिसी जादा ति । पुणो
तं मोत्तूण सुहुमआउक्काइयलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णेगाहणं घेत्तूण पदेसुत्तरादिकमेण चउहि
वड्ढीहि वड्ढवेदव्वा जाव सुहुमपुढविकाइयलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णेगाहणाए सरिसी

उसके ऊपर एक प्रदेश अधिक दो प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे एक जघन्य अव-
गाहना मात्र प्रदेशोंके बढ़ जानेपर असंख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ और संख्यातगुणवृद्धिका
अन्त होता है। उस अवगाहनाका भागहार, जघन्य अवगाहना सम्बन्धी भागहारको
जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्डके बराबर होता है ।

पश्चात् यहांसे लेकर आगे एक प्रदेश, अधिक दो प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे
असंख्यातगुणवृद्धिके चालू रहनेपर सूक्ष्म निगोद जीवकी जघन्य अवगाहनामें सूत्रोक्त
आवलीके असंख्यातवे भाग मात्र गुणकारके प्रविष्ट हो जानेपर सूक्ष्म वायुकायिक लब्ध्य-
पर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश सूक्ष्म निगोद जीव लब्ध्यपर्याप्तककी अजघन्य-
अनुत्कृष्ट अवगाहना होती है ।

अब सूक्ष्म निगोद जीवकी अवगाहनाको छोड़कर और सूक्ष्म वायुकायिक
लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे
चार वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म वायुकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी अजघन्य अनुत्कृष्ट अवगाहनाके
सूक्ष्म तेजकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके समान हो जाने तक बढ़ाना
चाहिये । तत्पश्चात् उसको छोड़कर और इसे ग्रहण करके प्रदेश अधिक क्रमसे चार
वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म जलकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने
तक बढ़ाना चाहिये । फिर उसको छोड़कर और सूक्ष्म जलकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी
जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों
द्वारा सूक्ष्म पृथिवीकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक

जादा ति । पुणो तं मोत्तूण सुहुमपुढविकाइयलद्धिअपज्जत्तजहण्णोगाहणं घेत्तूण पदेसुत्तरादि-
कमेण चदुहि वड्डीहि वड्ढावेदव्वा जाव वादरवाउक्काइयलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाह-
णाए सरिसी जादा ति । णवीर एत्थ गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कुदो ?
परत्थाणगुणगारादो । पुणो तं मोत्तूण वादरवाउक्काइयलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं
घेत्तूण पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड्डीहि वड्ढावेदव्वं जाव वादरतेउक्काइयलद्धिअपज्जत्तयस्स
जहण्णोगाहणाए सरिसी जादा ति । एत्थ वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कुदो ?
वादरादो वादरस्स ओगाहणागुणगारो' पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ति सुत्तवयणादो' । इमं
मोत्तूण वादरतेउक्काइयलद्धिअपज्जत्तजहण्णोगाहणं घेत्तूण पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड्डीहि
वड्ढावेदव्वं जाव वादरआउक्काइयलद्धिअपज्जत्तजहण्णोगाहणाए सरिसी जादा ति । एत्थ
वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कारणं पुव्वं व वत्तव्वं । पुणो इमं मोत्तूण'
वादरआउक्काइयलद्धिअपज्जत्तजहण्णोगाहणं घेत्तूण पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड्डीहि वड्ढावे-
दव्वं जाव वादरपुढविकाइयलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सरिसी जादा ति । पुणो

बढ़ाना चाहिये । फिर उसको छोड़ करके और सूक्ष्म पृथिवीकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी
जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों
द्वारा वादर वायुकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक
बढ़ाना चाहिये । विशेष इतना है कि यहां गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग
है, क्योंकि, वह परस्थानगुणकार है । फिर उसको छोड़कर और वायुकायिक लब्ध्य-
पर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार
वृद्धियों द्वारा वादर तेजकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने
तक बढ़ाना चाहिये । यहां भी गुणकार पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, क्योंकि,
वादरसे वादर जीवकी अवगाहनाका गुणकार पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है,
पेसा सूत्रवचन है । अब इसको छोड़कर और वादर तेजकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी
जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों
द्वारा वादर जलकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने
तक बढ़ाना चाहिये । यहां भी गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है । इसका
कारण पहिलेके ही समान कहना चाहिये । पश्चात् इसको छोड़कर और वादर
जलकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक
इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा वादर पृथिवीकायिक लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य
अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । फिर उसको छोड़कर और

१ ताप्रतौ ' वादरस्स गुणगारो ' इति पाठः । २ क्षेत्रविधान ९८ सुहमेदरगुणगारो आबलि-पल्ला असखमागो
दु । सट्टाणे सेट्टिगया अहिया तथेगपडिभागो ॥ गो जी १०१ ३ अ-काप्रत्यो ' वाउक्काइय ', ताप्रतौ ' वा (आ)
उ० ' इति पाठ । ४ अ-काप्रत्यो. ' घेत्तूण ', ताप्रतौ ' घे (मो) तूण ' इति पाठ ।

तं मोत्तूण इमं घेत्तूण पदेसुत्तरादिकमेण चटुहि वड्डीहि वड्ढावेदव्वं जाव वादरणिगोदलद्धि-
अपज्जत्तजहण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति । पुणो तं मोत्तूण इमं घेत्तूण पदेसुत्तरादिकमेण
चटुहि वड्डीहि वड्ढावेदव्वं जाव णिगोदपदिद्धिदलद्धिअपज्जत्तजहण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति ।
तं मोत्तूण इमं घेत्तूण पदेसुत्तरादिकमेण चटुहि वड्डीहि वड्ढावेदव्वं जाव वादरवणप्फदिकाइय-
पत्तेयसरीरलद्धिअपज्जत्तजहण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति । एत्थ वि गुणगारो पलिदोवमस्स
असखेज्जदिभागो । कारणं पुव्वं व वत्तव्वं । तं मोत्तूण इमं घेत्तूण पदेसुत्तरादिकमेण चटुहि
वड्डीहि वड्ढावेदव्वं जाव वेइंदियलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति । एत्थ
वि गुणगारो पलि दोवमरस असखेज्जदिभागो । कारणं पुव्वं व वत्तव्वं । तं मोत्तूण इमं घेत्तूण
पदेसुत्तरादिकमेण चटुहि वड्डीहि वड्ढावेदव्वं जाव तेइंदियलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए
सरिसी जादा त्ति । एत्थ वि गुणगारो पलिदोवमरस असखेज्जदिभागो । कारणं पुव्वं व
वत्तव्वं । तं मोत्तूण इमं घेत्तूण पदेसुत्तरादिकमेण चटुहि वड्डीहि वड्ढावेदव्वं जाव चउ-
रिंदियलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति । एत्थ वि गुणगारो पलिदोवमस्स
असखेज्जदिभागो । कारणं पुव्वं व वत्तव्वं । तं मोत्तूण इमं घेत्तूण पदेसुत्तरादिकमेण चटुहि

इसे ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा वादर
निगोद लब्धपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना
चाहिये । पश्चात् उसे छोड़कर और इसको ग्रहण करके प्रदेशाधिकक्रमसे चार
वृद्धियोंके द्वारा निगोदप्रतिष्ठित लब्धपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश
हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । अब उसको छोड़कर और इसको ग्रहण करके
एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा वादर वनस्पतिकायिक
प्रत्येकशरीर लब्धपर्याप्तकी जघन्य अवगाहनके सदृश हो जाने तक बढ़ाना
चाहिये । यहांपर भी गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । कारणका कथन
पहिलेके ही समान करना चाहिये । अब उसको छोड़कर और इसको ग्रहण
करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियो द्वारा त्रीन्द्रिय लब्ध-
पर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । यहांपर
भी गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । इसका कारण पहिलेके ही समान
कहना चाहिये । अब उसको छोड़कर और इसको ग्रहण करके चार वृद्धियो
द्वारा त्रीन्द्रिय लब्धपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना
चाहिये । यहांपर भी गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । कारण पहिलेके
समान कहना चाहिये । अब उसको छोड़कर और इसे ग्रहण करके एक प्रदेश
अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा चतुरिन्द्रिय लब्धपर्याप्तककी जघन्य
अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । यहांपर भी गुणकार पल्योपमका
असंख्यातवां भाग है । कारण इसका पहिलेके ही समान कहना चाहिये । पश्चात्

१ त्रीन्द्रियलब्धपर्याप्तसम्बन्धी प्रबन्धोऽय ताप्रतौ [] एतत्कोष्ठ कान्तर्गतौ दर्शित । २ चतुरिन्द्रियलब्धपर्याप्त-
सम्बन्धी प्रबन्धोऽय ताप्रतौ नोपलभ्यते ।

वड्डीहि वड्डीवेदव्वं जाव पंचिंदियलद्धिअपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति' । एत्थ वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कारणं पुव्वं व वत्तव्वं ।

पुणो पंचिंदियलद्धिअपज्जत्तजहण्णोगाहणं घेत्तूण^२ पदेसुत्तरादिकमेण चट्ठहि वड्डीहि वड्डीवेदव्वं जाव सुहुमणिगोदणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति । एत्थ गुणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कुदो ? बादरादो सुहुमस्स ओगाहणागुणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागो त्ति सुत्तणिहेसादो । पुणो सुहुमणिगोदणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं घेत्तण पदेसुत्तरादिकमेण आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्तं वड्डीवेदव्वं । एवं वड्डीदूण ड्ढिओगाहणाए सुहुमणिगोदणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा सरिसा होदि । पुणो पुव्विल्लं मोत्तूण इम घेत्तूण पदेसुत्तरादिकमेण एदं चेव ओगाहणमावलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्त जाव अहियं होदि ताव वड्डीवेदव्वं । एव वड्डीदूण ड्ढिओगाहणा सुहुमणिगोदणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सरिसा होदि । पुणो एदमोगाहणं^३ पदेसुत्तरादिकमेण चट्ठहि वड्डीहि वड्डीवेदव्वं जाव सुहुमवाउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं पत्त त्ति । पुणो एत्थ गुणगारो आवलियाए

उसको छोड़कर और इसको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । यहांपर भी गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है । कारण इसका पहिलेके ही समान कहना चाहिये ।

तत्पश्चात् पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म निगोद जीव निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । यहां गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, बादरसे सूक्ष्मका अवगाहनागुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है, ऐसा सूत्रमें निदिष्ट है । अब सूक्ष्म निगोद जीव निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे आवलीके असंख्यातवै भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये । इस प्रकार बढ़कर स्थित अवगाहना सूक्ष्म निगोद निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश होती है । पश्चात् पूर्व अवगाहनाको छोड़कर और इसको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे इसी अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवै भागसे खण्डित कर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण जब तक वह अधिक न हो जावे तब तक बढ़ाना चाहिये । इस प्रकार बढ़कर स्थित अवगाहना सूक्ष्म निगोद निर्वृत्तिपर्याप्तक जीवकी उत्कृष्ट अवगाहनाके समान होती है । फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिये । परन्तु यहां गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग

१ पंचेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तककी प्रवन्धोऽयं ताप्रतौ पुनर्लिखितः । २ 'पुणो पंचिंदियलद्धिअपज्जत्तजहण्णोगाहणं घेत्तूण' इत्येतस्य स्थाने ताप्रतौ 'त मोत्तूण इम घेत्तूण' इति पाठः । ३ क्षेत्रविधान ९७, ४ प्रतिपु 'एवमोगाहणं' इति पाठः ।

असंखेज्जदिभागो । कुदो ? सुहुमादो सुहुमस्स ओगाहणगुणगारो आवलियाए असंखेज्जदि-
भागो ति सुत्तवयणादो^१ । एसो गुणगारो सुहुमेषु सव्वत्थ वत्तव्वो । पुणो इमं धेत्तूण
पदेसुत्तरादिकमेण इमिस्से ओगाहणाए उवरि एदं चेव ओगाहणमावलियाए असंखेज्जभागेण
खंडिदेगखंडमेत्तं वड्ढावेदव्वं । एवं वड्ढाविदे सुहुमवाउक्काइयणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्क-
स्सिया ओगाहणा होदि । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण तं चेव ओगाहणमावलियाए असंखेज्जदि-
भागेण खंडिदेगखंडमेत्ते वड्ढिदे सुहुमवाउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणं
पावदि । पुणो तत्थ पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड्ढीहि वड्ढावेदव्वं जाव सुहुमतेउक्काइय-
णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणं पत्तं ति । पुणो एदमोगाहणं पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्ज-
भागवड्ढीए आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वड्ढावेदव्वं जाव सुहुमतेउ-
क्काइयणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणं पत्तं ति । पुणो एदं पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्ज-
भागवड्ढीए आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वड्ढावेदव्वं जाव सुहुमतेउ-
क्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सरिसा^२ जादा ति । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण
चदुहि वड्ढीहि इमा ओगाहणा वड्ढावेदव्वं जाव आउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णो-

है, क्योंकि, सूक्ष्मसे सूक्ष्मका अवगाहनागुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है,
ऐसा सूत्रमें निर्देश किया गया है । यह गुणकार सूक्ष्म जीवोंमें सर्वत्र कहना
चाहिये । पश्चात् इसको ग्रहण करके एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे इस
अवगाहनाके ऊपर इसी अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित
करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये । इस प्रकार बढ़ानेपर सूक्ष्म
वायुकायिक निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना होती है । पश्चात् एक प्रदेश
अधिक इत्यादि क्रमसे उक्त अवगाहनाको ही आवलीके असंख्यातवें भागसे
खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण वृद्धि हो जानेपर सूक्ष्म वायुकायिक
निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होती है । पश्चात् उसको एक प्रदेश
अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी
जघन्य अवगाहनाके प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिये । पश्चात् इस अवगाहनाको
एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके असंख्यातवें
भागसे खण्डित कर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि
सूक्ष्म तेजकायिक निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना न प्राप्त हो जावे । पश्चात्
इसको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके
असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड मात्र बढ़ाना चाहिये
जब तक कि वह सूक्ष्म तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके
समान नहीं हो जाती । फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे
चार वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके

१ क्षेत्रविधान ९५, २ ताप्रती 'सरिसी' इति पाठ । २ ताप्रती 'अपज्ज०' इति पाठः ।

गाहणाए सरिसी जादा त्ति । तदो इमा ओगाहणा पदेमुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवड्डीए आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्ता वड्ढावेदव्वा जाव सुहुमआउक्काइयणिव्वत्ति-
अपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सरिसी जादा त्ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादि-
कमेण असंखेज्जभागवड्डीए इममोगाहणमावलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं
वड्ढावेदव्वं जाव सुहुमआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सरिसी जादा
त्ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड्ढीहि वड्ढावेदव्वं जाव सुहुमपुढविकाइय-
णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणाए सरिसी जादा त्ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादि-
कमेण असंखेज्जभागवड्डीए अप्पिदोगाहणमावलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं
वड्ढावेदव्वं जाव सुहुमपुढविकाइयणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी
जादा त्ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवड्डीए अप्पिदोगाहण-
मावलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्ता वड्ढावेदव्वा जाव सुहुमपुढविकाइयणिव्वत्ति-
पज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सरिसी जादा त्ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण
चदुहि वड्ढीहि वड्ढावेदव्वा जाव वादरवाउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णियाए ओगाह-

सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह सूक्ष्म जलकायिक निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश नहीं हो जाती है । फिर इस अवगाहनाके ऊपर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा इसी अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह सूक्ष्म जलकायिक निर्वृत्ति-
पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश नहीं हो जाती । तत्पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा सूक्ष्म पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा विवक्षित अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड मात्र बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह सूक्ष्म पृथिवीकायिक निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश नहीं हो जाती । पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा विवक्षित अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह सूक्ष्म पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश नहीं हो जाती है । तत्पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा बादर घायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना

णाए सरिसी जादा ति । एत्थ गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कुदो ? सुहुमादो वादरस्स ओगाहणगुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ति सुत्तवयणादो । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवड्डीए अप्पिदोगाहणमावलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वड्ढुवेदव्वा जाव वादरवाउक्काइयणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सरिसी जादा ति । तदो पदेसुत्तरादिकमेण इमा आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेग-
खंडमेत्तं वड्ढुवेदव्वा जाव वादरवाउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सरिसा जादा ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चट्ठहि वड्ढीहि वड्ढुवेदव्वा जाव वादरतेउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणियाए ओगाहणाए सरिसी जादा ति । एत्थ गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कुदो ? वादरादो वादरस्स ओगाहणगुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ति सुत्तवयणादो । तदो पदेसुत्तरादिकमेण इमा ओगाहणा असंखेज्जभागवड्डीए आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वड्ढुवेदव्वं जाव वादरतेउक्काइयणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए सरिसी जादो ति । तदो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवड्डीए आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेग-

चाहिये । यहां गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, सूत्रमसे वादरका अवगाहनागुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है, ऐसा सूत्रवाक्य है । पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा विवक्षित अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह वादर वायुकायिक निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश नहीं हो जाती । तत्पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे इस अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश नहीं हो जाती है । फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा वादर तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । यहां गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, वादरसे वादरका अवगाहनागुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है, ऐसा सूत्रमें निर्दिष्ट है । पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे इस अवगाहनाको असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह वादर तेजकायिक निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश नहीं हो जाती । पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक भाग प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि

खंडमेत्तं वड्ढवेदव्वा जाव वादरतेउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसा जादा त्ति । तदो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड्ढीहि वड्ढवेदव्वा जाव वादरआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणियाए ओगाहणाए सरिसा जादा त्ति । एत्थ गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कारणं पुवं व परूवेदव्वं । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवड्ढीए इममोगाहणमावलियाए असंखेज्जभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वड्ढवेदव्वा जाव वादरआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसा जादा त्ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवड्ढीए अप्पिदोगाहणमावलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वड्ढवेदव्वा जाव वादरआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसा जादा त्ति । पुणो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड्ढीहि वड्ढवेदव्वा जाव वादरपुढविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणियाए ओगाहणाए सरिसा जादा त्ति । एत्थ गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कारणं पुवं व वत्तव्वं । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण अप्पिदोगाहणमावलियाए असंखेज्जदिभागेण

वह वादर तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश नहीं हो जाती है । तत्पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा वादर जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । यहाँ गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है । कारणकी प्ररूपणा पहिलेके ही समान करना चाहिये । पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभ गवृद्धि द्वारा इस अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह वादर जलकायिक निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश नहीं हो जाती है । फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यात भाग वृद्धि द्वारा विवाक्षित अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह वादर जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश नहीं हो जाती है । तत्पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा वादर पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । यहाँ गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है । कारणकी प्ररूपणा पहिलेके ही समान करना चाहिये । फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे विवाक्षित अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड मात्र इस अवगाहनाको

खंडिदेगखंडमेत्तमिमा ओगाहणा वड्ढावेदव्वा जाव चादरपुढविकाइयणिव्वत्तिअपज्ज-
त्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण इमा
ओगाहणा आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वड्ढावेदव्वा जाव चादर-
पुढविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति । पुणो
इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड्ढीहि वड्ढावेदव्वा जाव चादरणिगोद-
णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति । एत्थ गुणगारो पलिदो-
वमस्स असंखेज्जदिभागो । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवड्ढीए आवलियाए
असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वड्ढावेदव्वा जाव चादरणिगोदणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स
उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति । तदो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण
आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वड्ढावेदव्वा जाव चादरणिगोद-
णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति । तदो पदेसुत्तरादि-
कमेण चदुहि वड्ढीहि वड्ढावेदव्वा जाव णिगोदपदिड्ढिदपज्जत्तयस्स जहणियाए
ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति । एत्थ ओगाहणागुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।
पुणो पदेसुत्तरादिकमेण असंखेज्जभागवड्ढीए आवलियाए असंखेज्जदिभागेण

बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह वादर पृथिवीकायिक निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट
अवगाहनाके सदृश नहीं हो जाती है । फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश
अधिक इत्यादि क्रमसे आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे
एक खण्ड मात्रसे बढ़ाना चाहिये जब तक कि वह वादर पृथिवीकायिक
निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश नहीं हो जाती है ।
तत्पश्चात् इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार
वृद्धियों द्वारा वादर निगोद निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो
जाने तक बढ़ाना चाहिये । यहां गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ।
फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके
असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मात्रसे बढ़ाना चाहिये
जब तक कि वह वादर निगोद निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश
नहीं हो जाती है । फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे
आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मात्रसे बढ़ाना
चाहिये जब तक कि वह वादर निगोद निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके
सदृश नहीं हो जाती है । तत्पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों
द्वारा उसके निगोदप्रतिष्ठित पर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने
तक बढ़ाना चाहिये । यहां अवगाहनागुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ।
फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि द्वारा आवलीके
असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मात्रसे बढ़ाना चाहिये

खंडिदेगखंडमेत्तं वड्ढावेदव्वा जाव णिगोदपदिद्विदणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति । तदो पदेसुत्तरादिकमेण आवलियाए असंखेज्जदि-
भागेण खंडिदेगखंडमेत्तं वड्ढावेदव्वा जाव णिगोदपदिद्विदपज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति । तदो पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड्ढीहि वड्ढावेदव्वं जाव चादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तयस्स जहणियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति । एत्थ गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । पुणो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण चदुहि वड्ढीहि वड्ढावेदव्वं जाव बीइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति । एत्थ गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

संपहि उस्सेहघणंगुलस्स भागहारो संखेज्जरूवमेत्तो जादो । उवरि एसा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्ढीहि वड्ढावेदव्वा जाव तेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणो-
गाहणाए सरिसी जादा त्ति । एत्थ गुणगारो संखेज्जा समया । कुदो ? बादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारो संखेज्जा समया त्ति सुत्तवयणादो । पुणो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादि-
कमेण तीहि वड्ढीहि वड्ढावेदव्वा जाव चउरिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणियाए ओगाह-
णाए सरिसी जादा त्ति । पुणो इमा ओगाहणा पदेसुत्तरादिकमेण तीहि वड्ढीहि वड्ढावेदव्वा जाव पंचिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति । पुणो इमा

जब तक कि वह निगोदप्रतिष्ठित निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश नहीं हो जाती है। फिर एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमें एक खण्ड मात्रसे बढ़ाना चाहिये-जब तक कि वह निगोदप्रतिष्ठित पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके सदृश नहीं हो जाती है। तत्पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा उसके बादर चनस्पतिकाधिक प्रत्येकशरीर पर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे चार वृद्धियों द्वारा त्रीन्द्रिय निर्वृत्ति-
पर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है।

अब उत्सेधघनांगुलका भागहार संख्यात रूपों प्रमाण हो जाता है। इसके आगे इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा त्रीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। यहां गुणकार संख्यात समय है, क्योंकि, बादरसे बादरका अवगाहना-
गुणकार संख्यात समय है, ऐसा सूत्रमें निर्देश है। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा चतुरिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तकी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। फिर इस अवगाहनाको एक प्रदेश अधिक इत्यादि क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा पंचेन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये। फिर इस अवगाहनाको

सुत्तरादिकमेण तीहि वड्डीहि वड्ढावेदव्वा जाव चादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरणिव्वत्ति-
पज्जत्तयस्स उक्कस्सियाए ओगाहणाए सरिसी जादा त्ति । तदो पदेसुत्तरादिकमेण
तीहि वड्डीहि इमा ओगाहणा^१ वडावेदव्वा जाव पंचिदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सो-
गाहणाए सरिसी जादा त्ति ।

पुणो अण्णेगेण^२ विक्खंभुस्सेहेहि महामच्छसमाप्पेस महामच्छायामादो संखेज्जगुण-
हीणायामेण मुहप्पदंसे वड्ढिदेगागासपदेसेण लद्धमच्छेण पुव्विल्लायामेण सह जोयणसहस्सस्स
वेयणाए विणा मारणंतियसमुग्घादे कंदे महामच्छेगाहणादो एसा ओगाहणा पदेसुत्तरा
होदि, मुहम्मि वड्ढिदएगागासपदेसेण अहियत्तुवलंभादो । पुणो एदेणेव लद्धमच्छेण मुहम्मि
वड्ढिददोआगासपदेसेण जोयणसहस्समारणंतियसमुग्घादे कंदे पुव्विल्लक्खेत्तादो [दो-]
पदेसुत्तरवियपो होदि । एवमेदेण कमेण संखेज्जपदरंगुलमेत्ता आगासपदेसा वड्ढावेदव्वा ।
एवं वड्ढिटूण द्विदखेत्तेण पदेसुत्तरजोयणसहस्सस्स मारणंतियसमुग्घादे कंदे^३ लद्धमच्छखेत्तं
सरिसं होदि । पुणो पदेसुत्तरादिकमेण मुहम्मि संखेज्जपदरंगुलाणि पुवं व वड्ढिय
द्विदखेत्तेण दुपदेसुत्तरजोयणसहस्सस्स कंदमारणंतियसमुग्घादक्खेत्तं सरिसं होदि । एवं
एदेण कमेण पेदवं जाव आयामो सादिरेयअद्धमरज्जुमेत्तो जादो त्ति । एदेण खेत्तेण

द्वारा चादर वनस्पतिकार्मिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके
सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये । तत्पश्चात् एक प्रदेश अधिक इत्यादि
क्रमसे तीन वृद्धियों द्वारा इस अवगाहनाको पंचेन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट
अवगाहनाके सदृश हो जाने तक बढ़ाना चाहिये ।

फिर विष्कम्भ व उत्सेधकी अपेक्षा महामत्स्यके सदृश व महामत्स्यके
आयामसे संख्यातगुणे हीन आयामवाले तथा मुखप्रदेशमें एक आकाशप्रदेशकी
वृद्धिको प्राप्त हुए अन्य एक प्राप्त मत्स्यके द्वारा पूर्व आयामके साथ वेदनाके
विना एक हजार योजन मारणान्तिकसमुद्घात किये जानेपर महामत्स्यकी अवगाहनासे
यह अवगाहना एक प्रदेश अधिक होती है, क्योंकि, वह मुखमें वृद्धिको प्राप्त
हुए एक आकाशप्रदेशसे अधिक पायी जाती है । पश्चात् इसी प्राप्त मत्स्यके
द्वारा मुखमें दो आकाश प्रदेशोंसे वृद्धिगत होकर एक हजार योजन मारणान्तिक
समुद्घात किये जानेपर पूर्वके क्षेत्रकी अपेक्षा [दो] प्रदेशोंसे अधिक विकल्प होता है ।
इस प्रकार इस क्रमसे संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण आकाशप्रदेशोंको बढ़ाना चाहिये ।
इस प्रकार बढ़कर स्थित क्षेत्रसे एक प्रदेश अधिक एक हजार योजन मारणा-
न्तिकसमुद्घात करनेपर प्राप्त मत्स्यका क्षेत्र समान होता है । पश्चात् एक प्रदेश
अधिक इत्यादि क्रमसे मुखमें पूर्वके समान संख्यात प्रतरांगुल बढ़कर स्थित क्षेत्रसे
दो प्रदेश अधिक एक हजार योजन मारणान्तिकसमुद्घात करनेवालेका क्षेत्र समान
होता है । इस प्रकार इस क्रमसे आयामके साधिक साढ़े सात राजु प्रमाण हो

१ अ-काप्रयो ' इमाओ वड्डीओ ' इति पाठ । २ अ-काप्रयो. ' अण्णेण ' इति पाठः ।

३ प्रतियु ' -समुग्घाद कंद- ' इति पाठः ।

लोगणालीए वायव्वदिसादो तिण्णि विग्गहकंदयाणि कादूण मारणंतियसमुग्घादेण सत्तम-
पुढवीणेरइएसु सेकाले उप्पज्जहिदि ति द्विदस्स खेतं सरिसं होदि । एवं वड्ढिदूण द्विदो
च अण्णेगो वेयणसमुग्घादेण तिगुणविक्खंभुस्सेहे काऊण मारणंतियसमुग्घादेण अद्धद्वम-
रज्जूणं पवमभागं गंतूण द्विदो च ओगाहणाए सरिसा । पुणो वि पुव्विल्लं मोत्तूण इमं
धेत्तूण णिरंतर-सांतरकमेण पुवं व वड्ढावेदव्वं जाव आयामो अद्धद्वमरज्जुमेत्तं पत्तो ति ।
एवं वड्ढाविदे णाणावरणीयस्स अजहण्णसच्चखेत्तवियप्पाणं सामित्तपरूवणा कदा होदि ।

अथवा सित्थंमच्छो चैव मारणंतियसमुग्घादेण तिण्णि विग्गहकंदयाणि कादूण
सादिरेयअद्धद्वमरज्जुआयामस्स णेदव्वो । पासखेत्ते वड्ढाविज्जमाणे एक्कसराहेण पासम्मि
वड्ढिदअद्धद्वमरज्जूओ पदरंगुलस्स संखेज्जदिभागेण खंडिय तत्थ एगखंडमेत्तमायामम्मि
अवणिय सरिसं कादूण पुणो सांतर-णिरंतरकमेण ऊणवखेत्तं वड्ढावेदव्वं । एवं पुणो पुणो
पासखेत्तं वड्ढाविय पुव्विल्लखेत्तेण सरिसं करिय पुणो ऊणवखेत्तं वड्ढाविय णेदव्वं जाव
महामच्छुक्कस्ससमुग्घादखेत्तेण सरिसं जादं ति । एवं णाणावरणीयस्स अजहण्णसामित्त-
परूवणा कदा होदि ।

जाने तक ले जाना चाहिये । इस क्षेत्रसे, जो लोकनालीकी वायव्य दिशासे
तीन विग्रहकाण्डक करके मारणान्तिकसमुद्घातसे सातवीं पृथिवीके नारकियोंमें
अनन्तर समयमें उत्पन्न होनेके सन्मुख स्थित है उसका, क्षेत्र समान है । इस
प्रकार बढ़कर स्थित तथा दूसरा एक वेदनासमुद्घातसे तिगुणे विक्कम्भ व
उत्सेधको करके मारणान्तिकसमुद्घातसे साढ़े सात राजुओंके नौवें भागको प्राप्त
होकर स्थित हुआ, ये दोनों जीव अवगाहनाकी अपेक्षा समान है । फिरसे भी
पहिलेको छोड़कर और इसे ग्रहणकर निरन्तर-सान्तर क्रमसे आयामके साढ़े सात
राजु प्रमाणको प्राप्त होने तक पहिलेके ही समान बढ़ाना चाहिये । इस प्रकार
बढ़ानेपर ज्ञानावरणीयके सब अजघन्य क्षेत्रविकल्पोंके स्वामित्वकी प्ररूपणा समाप्त
हो जाती है ।

अथवा सिक्थ मत्स्यको ही मारणान्तिकसमुद्घातसे तीन विग्रहकाण्डकोंको
कराकर साधिक साढ़े सात राजु आयामको प्राप्त कराना चाहिये । पार्श्वक्षेत्रके
बढ़ाते समय एक साथ पार्श्वक्षेत्रमें वृद्धिको प्राप्त साढ़े सात राजुओंको प्रतरां-
गुलके संख्यातवें भागसे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्डप्रमाणको आयाममेंसे
कम करके सदृश कर फिर सान्तर निरन्तर क्रमसे कम किये गये क्षेत्रको बढ़ाना
चाहिये । इस प्रकार चार चार पार्श्वक्षेत्रको बढ़ाकर पूर्व क्षेत्रके समान करके पश्चात्
कम किये गये क्षेत्रको बढ़ाकर महामत्स्यके उत्कृष्ट समुद्घातक्षेत्रके सदृश हो
जाने तक ले जाना चाहिये । इस प्रकार ज्ञानावरणीयके अजघन्य क्षेत्र सम्बन्धी
स्वामित्वकी प्ररूपणा समाप्त होती है ।

१ प्रतिष्ठ 'सिद्ध' इति पाठः ।
'पासयत्तं' इति पाठः ।

३ ताप्रतौ 'सादिरेया अद्धद्वमरज्जू आयामस्स' इति पाठः । ३ प्रतिष्ठ

एत्थ खेत्तट्ठाणसामिजीवपरूवणाए परूवणा पमाणं सेही अवहारो भागाभागं अप्पाबहुगमिदि छ अणिओगद्वाराणि । एदेसिं छण्णमणिओगद्वाराणमुक्कस्साणुक्कस्सट्ठाणेसु जहा परूवणा कदा तहा कायव्वा ।

एवं सत्तण्णं कम्माणं ॥ २२ ॥

जहा णाणावरणीयस्स जहण्णाजहण्णक्खेत्तपरूवणा कदा तहा सत्तण्णं कम्माणं कायव्वं, विसेसाभावादे । एवं सामित्तपरूवणा सगंतोक्खित्तसंख ट्ठाण-जीवसमुदाहारा समत्ता ।

अप्पाबहुए त्ति । तत्थ इमाणि तिण्णिण अणिओगद्वाराणि-
जहण्णपदे उक्कस्सपदे जहण्णुक्कस्सपदे ॥ २३ ॥

एत्थ तिण्णिण चेव अणिओगद्वाराणि त्ति संखाणियमो किमट्ठं कीरदे? ण एस दोसो, अण्णेसिमेत्थ अणिओगद्वाराणं संभवाभावादे ।

जहण्णपदे अट्ठण्णं पि कम्माणं वेयणाओ तुल्लाओ ॥ २४ ॥

यहां क्षेत्रस्थानोंके स्वामिभूत जीवोंकी प्ररूपणामें प्ररूपणा, प्रमाण, अणि, अवहार, भागाभाग और अल्पबहुत्व, ये छह अनुयोगद्वार हैं । इन छह अनुयोग-द्वारोंकी प्ररूपणा जैसे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट क्षेत्रोंमें की गयी है वैसे ही यहां भी करना चाहिये ।

इसी प्रकार शेष सात कर्मोंके जघन्य व अजघन्य क्षेत्रोंकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ २२ ॥

जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्मके जघन्य व अजघन्य क्षेत्रोंकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार शेष सात कर्मोंके उक्त क्षेत्रोंकी प्ररूपणा करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है । इस प्रकार अपने भीतर संख्या, स्थान और जीवसमुदाहारको रखनेवाली स्वामित्वप्ररूपणा समाप्त हुई ।

अल्पबहुत्व अधिकृत है । उसकी प्ररूपणामें ये तीन अनुयोगद्वार हैं— जघन्य पदमें, उत्कृष्ट पदमें और जघन्योत्कृष्ट पदमें ॥ २३ ॥

शंका— यहां तीन ही अनुयोगद्वार हैं, ऐसा संख्याका नियम किसलिये किया जाता है ?

यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, और दूसरे अनुयोगद्वारोंकी यहां सम्भावना नहीं है ।

जघन्य पदमें आठों ही कर्मोंकी वेदनायें समान हैं ॥ २४ ॥

कुदो ? तदियसमयआहारय-तदियसमयतन्भवत्थसुहुमणिगोदलद्धियपज्जत्तयम्मि जहण्णजोगिम्हिं अट्टण्णं पि कम्माणं जहण्णक्खेत्तुवलंभादो । तम्हा जहण्णपदप्पावहुगं णत्थि ति भणिदं होदि ।

उक्कस्सपदे णाणावरणीय- दंसणावरणीय- मोहणीय - अंतराइ-
याणं वेयणाओ खेत्तदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ थोवाओ
॥ २५ ॥

कधमेदेसिं तुल्लत्तं ? एगसामित्तादो । सादिरेयअद्धमरज्जूहि संखेज्जपदरंगुलेसु गुणिदेसु घादिकम्माणमुक्कस्सखेत्तं होदि । एदं थोवमुवरिभण्णमाणखेत्तादो ति उत्तं होदि ।

वेयणीय-आउअ-णामा-गोदवेयणाओ खेत्तदो उक्कस्सियाओ
चत्तारि वि तुल्लाओ असंखेज्जगुणाओ ॥ २६ ॥

एत्थ गुणगारो जगपदरस्स असंखेज्जदिभागो । कुदो ? संखेज्जपदरंगुलगुणिद-
जगसेडिभेत्तेण घादिकम्माणं उक्कस्सक्खेत्तेण घणलोगे भागे हिदे जगपदरस्स असंखे-
ज्जदिभागुवलंभादो ।

इसका कारण यह है कि तृतीय समयवर्ती आहारक और तद्भवस्थ होनेके तीसरे समयमें वर्तमान सूक्ष्म निगोद लब्धपर्याप्तक जीवके जघन्य योगके होनेपर आठों ही कर्मोंका जघन्य क्षेत्र पाया जाता है। इसीलिये जघन्य पदमें अल्पबहुत्व नहीं है, यह उक्त कथनका अभिप्राय है।

उत्कृष्ट पदमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, इन कर्मोंकी वेदनार्ये क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट चारों ही समान व स्तोक हैं ॥ २५ ॥

शंका—इन वेदनार्येके समानता कैसे है ?

समाधान—इसका कारण यह है कि उनका स्वामी एक है।

साधिक साढ़े सात राजुओं द्वारा संख्यात प्रतरांगुलोंको गुणित करनेपर घातिया कर्मोंका उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। यह आगे कहे जानेवाले क्षेत्रसे स्तोक हैं, यह सूत्रका अभिप्राय है।

वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इनकी वेदनार्ये क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट चारों ही समान व पूर्वकी वेदनार्येसे असंख्यातगुणी हैं ॥ २६ ॥

यहां गुणकार जगप्रतरका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, घातिकर्मोंका जो उत्कृष्ट क्षेत्र संख्यात प्रतरांगुलोंसे गुणित जगश्रेणिके वरावर है उसका घनलोकमें भाग देनेपर जगप्रतरका असंख्यातवां भाग पाया जाता है।

जहण्णुक्कस्सपदेण अट्टणं पि कम्माणं वेदणाओ खेत्तदो
जहणियाओ तुल्लाओ थोवाओ ॥ २७ ॥

सुगममेदं ।

णाणावरणीय-दसंणाणावरणीय-मोहणीय-अंतराइयवेयणाओ
खेत्तदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ असंखेज्जगुणाओ ॥ २८ ॥

एत्थ गुणगारो जगसेडीए असंखेज्जदिभागो । कुदो ? अट्टणं कम्माणं जहण-
क्खेत्तेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागेण घादिकम्मुक्कस्सखेत्ते भागे हिदे' वि अंगुलस्स
असंखेज्जदिभागेण जगसेडीए खंडिदाए तत्थ एगखंडुवलंभादो ।

वेयणीय-आउअ-णामा-गोदवेयणाओ खेत्तदो उक्कस्सियाओ
चत्तारि वि तुल्लाओ असंखेज्जगुणाओ ॥ २९ ॥

एत्थ गुणगारो सुगमो, पुवं परुविदत्तादो । एदमप्पावहुगसुत्तं सव्वजीवसमा-
साओ अस्सिदूण ण परुविदं ति कट्टु संपहि सव्वजीवसमासाओ अस्सिदूण णाणावरणादि-
कम्माणं जहण्णुक्कस्सखेत्तपरुवणहुमप्पावहुगदंडयं भण्णदि—

जघन्योत्कृष्ट पदसे आठों ही कर्मोंकी क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य वेदनायें तुल्य व
स्तोक हैं ॥ २७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा
उत्कृष्ट चारों ही तुल्य व पूर्वोक्त वेदनाओंसे असंख्यागुणी हैं ॥ २८ ॥

यहां गुणकार जगश्रेणिका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, आठों कर्मोंका
जो जघन्य क्षेत्र अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है उसका घातिकर्मोंके उत्कृष्ट
क्षेत्रमें भाग देनेपर भी अंगुलके असंख्यातवें भागसे जगश्रेणिको खण्डित करनेपर
उसमेंसे एक खण्ड पाया जाता है ।

वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्मकी वेदनायें क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट चारों ही
तुल्य व पूर्वोक्त वेदनाओंसे असंख्यातगुणी हैं ॥ २९ ॥

यहां गुणकार सुगम है, क्योंकि, उसकी पहिले प्ररूपणा की जा चुकी है ।
यह अल्पबहुत्वसूत्र चूंकि सब जीवसमासोंका आश्रय करके नहीं कहा गया है, अत
एव अब सब जीवसमासोंका आश्रय करके ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंके जघन्य
व उत्कृष्ट क्षेत्रकी प्ररूपणा करनेके लिये अल्पबहुत्वदण्डक कहा जाता है ।

एत्तो सब्वजीवेसु ओगाहणमहादंडओ कायव्वो भवदि ॥३०॥
सुगममेदं ।

सब्वत्थोवा सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स जहणिया ओ-
गाहणा ॥ ३१ ॥

एगमुस्सेहघणंगुलं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण भागे हिदे एदिस्से जहणो-
गाहणाए पमाणं होदि ।

सुहुमवाउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असं-
खेज्जगुणा ॥ ३२ ॥

एत्थ गुणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागो । अपज्जत्ते त्ति उत्ते लद्धिअपज्ज-
त्तस्स गहणं, णिव्वत्तिअपज्जत्तजहणोगाहणाए उवरि परूविज्जमाणत्तादो ।

सुहुमतेउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असं-
खेज्जगुणा ॥ ३३ ॥

गुणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एत्थ लद्धिअपज्जत्तयस्सेव गहणं कायव्वं ।

सुहुमआउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असं-
खेज्जगुणा ॥ ३४ ॥

वहाँसे आगे सब जीवसमासोंमें यह अवगाहनादण्डक करने योग्य है ॥३०॥

यह सूत्र सुगम है ।

सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीवकी जघन्य अवगाहना सबसे स्तोक है ॥ ३१ ॥

एक उत्सेघघनांगुलमें पत्त्योपमके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर इस
जघन्य अवगाहनाका प्रमाण होता है ।

सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी है ॥३२॥

यहाँ गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है । 'अपर्याप्त' कहनेपर उससे
लब्ध्यपर्याप्तकका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, निर्वृत्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना
आगे कही जानेवाली है ।

उससे सूक्ष्म तेजकायिक अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥३३॥

गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है । यहाँ लब्ध्यपर्याप्तकका ही ग्रहण
करना चाहिये ।

उससे सूक्ष्म जलकायिक अपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ३४ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एत्थ वि लद्धिअपज्जत्तयस्स गहणं कायच्चं ।

सुहुमपुढविकाइयलद्धिअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा
असंखेज्जगुणा ॥ ३५ ॥

गुणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

बादरवाउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असं-
खेज्जगुणा ॥ ३६ ॥

एत्थ गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

बादरतेउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असं-
खेज्जगुणा ॥ ३७ ॥

गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

वादरआउक्काइयअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असं-
खेज्जगुणा ॥ ३८ ॥

एत्थ गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

वादरपुढविकाइयअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असं-
खेज्जगुणा ॥ ३९ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है । यहां भी लब्धपर्याप्तकका ग्रहण करना चाहिये ।

सूक्ष्म पृथिवीकायिक लब्धपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी है ॥ ३५ ॥

गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है ।

उससे बादर वायुकायिक अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ३६ ॥

यहां गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है ।

उससे बादर तेजकायिक अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ३७ ॥

गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है ।

उससे बादर जलकायिक अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ३८ ॥

यहां गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है ।

उससे बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ३९ ॥

एत्थ वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

बादरणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असं-
खेज्जगुणा ॥ ४० ॥

गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

णिगोदपदिट्ठिदअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्ज-
गुणा ॥ ४१ ॥

गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरअपज्जत्तयस्स जहणिया ओ-
गाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ४२ ॥

गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

वीइंदियअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा
॥ ४३ ॥

गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

तीइंदियअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्ज-
गुणा ॥ ४४ ॥

गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

यहां भी गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ।

उससे बादर निगोद जीव अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥४०॥

गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ।

उससे निगोदप्रतिष्ठित अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥४१॥

गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ।

उससे बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना
असंख्यातगुणी है ॥ ४२ ॥

गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ।

उससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥४३॥

गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ।

त्रीन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी है ॥ ४४ ॥

गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ।

चउरिंदियअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा
॥ ४५ ॥

गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

पंचिंदियअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा
॥ ४६ ॥

गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एदाओ पुवं परूविदसव्वजहणो-
गाहणाओ लद्धिअपज्जत्ताणं ति घेत्तव्वाओ । संपहि उवरि भण्णमाणाओ णिव्वत्तिपज्जत्ताणं
णिव्वत्तिअपज्जत्ताणं [च] वेत्तव्वाओ ।

सुहुमणिगोदजीवणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा
असंखेज्जगुणा ॥ ४७ ॥

एत्थ गुणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ॥

तस्सेवे ति उत्ते णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स गहणं, अण्णेण सह पच्चासत्तीए अभावादो ।
केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । तस्स को पडिभागो ? आवलियाए
असंखेज्जदिभागो । केसिंचि आइरियाणमहिप्पाएण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी है ॥ ४५ ॥

गुणकार पत्थोपमका असंख्यातवां भाग है ।

पंचेन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी है ॥ ४६ ॥

गुणकार पत्थोपमका असंख्यातवां भाग है । ये पूर्व प्ररूपित सब जघन्य
अवगाहनायें लब्धपर्याप्तकोंकी ग्रहण करना चाहिये । अब आगे कही जानेवाली
निर्वृत्तिपर्याप्तकोंकी और निर्वृत्यपर्याप्तकोंकी समझना चाहिये ।

उससे सूक्ष्म निगोद जीव निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ४७ ॥

यहां गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है ।

उसके ही अपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ४८ ॥

‘उसके ही’ ऐसा कहनेपर निर्वृत्यपर्याप्तकका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि,
और किसी दूसरेके साथ प्रत्यासत्ति नहीं है । विशेषका प्रमाण कितना है ? वह अंगुलके
असंख्यातवें भाग प्रमाण है । उसका प्रतिभाग क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग
उसका प्रतिभाग है । किन्हीं आश्चर्योंके अभिप्रायसे वह पत्थोपमके असंख्यातवें भाग
प्रमाण है ।

तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया
॥ ४९ ॥

एत्थ वि तस्सेवे त्ति वयणेण णिव्वत्तीए गहणं । केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

सुहुमवाउक्काइयपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असं-
खेज्जगुणा ॥ ५० ॥

एत्थ गुणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एत्थ पज्जत्त त्ति उत्ते णिव्वत्ति-
पज्जत्तयस्स गहणमण्णस्सासंभवादो ।

तस्सेव अपजत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ॥
केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ॥
केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स अराखेज्जदिभागमेत्तो ।

सुहुमतेउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा
असंखेज्जगुणा ॥ ५३ ॥

उसके ही पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ४९ ॥

यहांपर भी 'उसके ही' इस निर्देशसे निर्वृत्तिका ग्रहण किया गया है । विशेषका प्रमाण कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र हैं ।

उससे सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ५० ॥

यहां गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है । यहां 'पर्याप्तक' ऐसा कहनेपर निर्वृत्तिपर्याप्तकका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, दूसरेकी सम्भावना नहीं है ।

उसीके अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५१ ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उसीके पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५२ ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उससे सूक्ष्म तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी
है ॥ ५३ ॥

गुणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसा-
हिया ॥ ५५ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

सुहुमआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा
असंखेज्जगुणा ॥ ५६ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-
साहिया ॥ ५७ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-
साहिया ॥ ५८ ॥

गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है ।

उसके ही अपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५४ ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५५ ॥

विशेष कितना है ? वह आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उससे सूक्ष्म जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी
है ॥ ५६ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है ।

उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५७ ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ५८ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

सुहुमपुढविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा
असंखेज्जगुणा ॥ ५९ ॥

को गुणगारो ? आवलियाएँ असंखेज्जदिभागो ।

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-
साहिया ॥ ६० ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-
साहिया ॥ ६१ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

वादरवाउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा
असंखेज्जगुणा ॥ ६२ ॥

को गुणगारो ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-
साहिया ॥ ६३ ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उससे सूक्ष्म पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी
है ॥ ५९ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है ।

उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६० ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६१ ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उससे वादर वायुकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात-
गुणी है ॥ ६२ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्लोपमका असंख्यातवां भाग है ।

उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६३ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-
साहिया ॥ ६४ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

वादरतेउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा
असंखेज्जगुणा ॥ ६५ ॥

को गुणगारो ? पल्लोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-
साहिया ॥ ६६ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-
साहिया ॥ ६७ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

वादरआउक्काइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा
असंखेज्जगुणा ॥ ६८ ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवे भाग प्रमाण है ।

उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६४ ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उससे वादर तेजकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात-
गुणी है ॥ ६५ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्लोपमका असंख्यातवां भाग है ।

उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६६ ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६७ ॥

विशेष कितना है । वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उससे वादर जलकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात
गुणी है ॥ ६८ ॥

को गुणगारो ? पळिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-
साहिया ॥ ६९ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-
साहिया ॥ ७० ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

बादरपुढविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स' जहणिया ओगाहणा
असंखेज्जगुणा ॥ ७१ ॥

को गुणगारो ? पळिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-
साहिया ॥ ७२ ॥

केत्तियमेत्तेण ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तेण ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-
साहिया ॥ ७३ ॥

गुणकार कितना है ? वह पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ६९ ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ७० ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उससे बादर पृथिवीकायिक निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यात-
गुणी है ॥ ७१ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ।

उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ७२ ॥

कितने मात्रसे वह अधिक है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्रसे अधिक है ।

उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेष अधिक है ॥ ७३ ॥

केत्तियमेत्तेण ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तेण ।

बादरणिगोदणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असं-
खेज्जगुणा ॥ ७४ ॥

को गुणगारो ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-
साहिया ॥ ७५ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-
साहिया ॥ ७६ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

णिगोदपदिट्ठिदपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्ज-
गुणा ॥ ७७ ॥

को गुणगारो ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

तस्सेव णिव्वत्तिअपजत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-
साहिया ॥ ७८ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

कितने मात्रसे वह अधिक है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्रसे अधिक है ।

उससे बादर निगोद निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ७४ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्लोपमका असंख्यातवां भाग है ।

उससे उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है ॥ ७५ ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उससे ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है ॥ ७६ ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उससे निगोदप्रतिष्ठित पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ७७ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्लोपमका असंख्यातवां भाग है ।

उससे उसके ही निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है ॥ ७८ ॥

विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसे-
साहिया ॥ ७९ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणिया
ओगाहणा असंखेज्जगुणा ॥ ८० ॥

को गुणगारो ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

वेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखे-
ज्जगुणा ॥ ८१ ॥

को गुणगारो ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

तेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा संखेज्ज-
गुणा ॥ ८२ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

चउरिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा संखेज्ज-
गुणा ॥ ८३ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

उससे उसके ही निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है ॥ ७९ ॥
विशेष कितना है ? वह अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उससे बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना
असंख्यातगुणी है ॥ ८० ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्लोपमका असंख्यातवां भाग है ।

उससे द्वीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है ॥ ८१ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्लोपमका असंख्यातवां भाग है ।

उससे त्रीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८२ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।

उससे चतुरिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८३ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।

पांचिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा संखे-
ज्जगुणा ॥ ८४ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

तेइंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखे-
ज्जगुणा ॥ ८५ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

चउरिंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखे-
ज्जगुणा ॥ ८६ ॥

[को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।]

बेइंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखे-
ज्जगुणा ॥ ८७ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

बादरवणफ्फदिकाइयपत्तेयसरीरणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्क-
स्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ॥ ८८ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

उससे पांचेन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८४ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।

उससे त्रीन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८५ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।

उससे चतुरिन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८६ ॥

[गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।]

उससे द्वीन्द्रिय निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८७ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।

उससे बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना
संख्यातगुणी है ॥ ८८ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।

पंचिंदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखे-
ज्जगुणा ॥ ८९ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

तेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखे-
ज्जगुणा ॥ ९० ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

चउरिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखे-
ज्जगुणा ॥ ९१ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

बेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्ज-
गुणा ॥ ९२ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्क-
स्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ॥ ९३ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

उससे पंचेन्द्रिय निर्वृत्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ८९ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।

उससे त्रीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ९० ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।

उससे चतुरिन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ९१ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।

उससे द्वीन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ९२ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।

उससे बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना
संख्यातगुणी है ॥ ९३ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।

पंचिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखे-
ज्जगुणा ॥ ९४ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

संपधि पुव्वपरूविदअप्पावहुगम्मि गुणगारपमाणपरूवणडं उवरिमसुत्ताणि भणदि-

सुहुमादो सुहुमस्स ओगाहणगुणगारो आवलियाए असंखे-
ज्जदिभागो ॥ ९५ ॥

सुहुमादो अणस्स सुहुमस्स ओगाहणा असंखेज्जगुणा ति जत्थ जत्थ भणिदं
तत्थ तत्थ आवलियाए असंखेज्जदिभागो गुणगारो ति घेत्तव्वो ।

सुहुमादो वादरस्स ओगाहणगुणगारो पल्लिदोवमस्स असंखे-
ज्जदिभागो ॥ ९६ ॥

सुहुमेइंदियओगाहणादो जत्थ वादरोगाहणमसंखेज्जगुणमिदि भणिदं तत्थ पल्लिदो-
वमस्स असंखेज्जदिभागो गुणगारो होदि ति घेत्तव्वं ।

वादरादो सुहुमस्स ओगाहणगुणगारो आवलियाए असंखे-
ज्जदिभागो ॥ ९७ ॥

वादरोगाहणादो जत्थ सुहुमेइंदियओगाहणा असंखेज्जगुणा ति भणिदं तत्थ
आवलियाए असंखेज्जदिभागो गुणगारो ति घेत्तव्वो ।

उससे पंचेन्द्रिय निर्वृत्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है ॥ ९४ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है ।

अब पहिले कहे गये अल्पबहुत्वमें गुणकारोंके प्रमाणको बतलानेके लिये आगेके
सूत्र कहते हैं—

एक सूक्ष्म जीवसे दूसरे सूक्ष्म जीवकी अवगाहनाका गुणकार आवलीका असंख्या-
तवां भाग है ॥ ९५ ॥

एक सूक्ष्म जीवसे दूसरे सूक्ष्म जीवकी अवगाहना असंख्यातगुणी है, ऐसा
जहां जहां कहा गया है वहां वहां आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार ग्रहण
करना चाहिये ।

सूक्ष्मसे वादर जीवकी अवगाहनाका गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ ९६ ॥

सूक्ष्म एकेन्द्रियकी अवगाहनासे जहां वादर जीवकी अवगाहना असंख्यातगुणी
कही है, वहां पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार होता है, ऐसा ग्रहण करना
चाहिये ।

वादरसे सूक्ष्मका अवगाहनागुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है ॥ ९७ ॥

वादरकी अवगाहनासे जहां सूक्ष्म एकेन्द्रियकी अवगाहना असंख्यातगुणी कही
है वहां आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

बादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारो पलिदोवमस्स असंखे-
ज्जदिभागो ॥ ९८ ॥

एत्थ बादरा ति उत्ते जेण बादरणामकम्मोदइल्लाणं जीवाणं गहणं तेण बीइदिया-
दीणं पि गहणं होदि । बादरओगाहणादो अण्णा बादरओगाहणा जत्थ असंखेज्जगुणा
त्ति भणिदं तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो गुणगारो ति घेत्तव्वो ।

बादरादो बादरस्स ओगाहणगुणगारो संखेज्जा समया ॥ ९९ ॥

बीइंदियादिणिव्वत्तिअपज्जत्तएसु तेसिं पज्जत्तएसु च ओगाहणगुणगारो संखेज्जा
समया ति घेत्तव्वो । पुविल्लसुत्तेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो गुणगारे पत्ते तप्पडिसेहइ-
मिदं सुत्तमारद्धं, तेण ण दोण्णं पि सुत्ताणं विरोहो । एदे एत्थ गुणगारा होंति ति कथं
णव्वदे ? एदम्हादो चैव सुत्तादो णव्वदे । ण च पमाणं पमाणंतरमवेक्खदे, अणवत्था-
पसंगादो । णाणावरणादीणमट्ठण्णं पि कम्माणमोगाहणपरूवणट्ठं खेत्ताणियोगदारे परूविज्ज-
माणे जीवसमासाणमोगाहणपरूवणा किमट्ठेमत्थ परूविदा ? एत्थ परिहारो उच्चदे । एसो

बादरसे बादरका अवगाहनागुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ ९८ ॥

यहां सूत्रमें 'बादरसे' ऐसा कहनेपर चूंकि बादर नामकर्मके उदय युक्त जीवोंका
ग्रहण है, अतः उससे द्वीन्द्रियादिक जीवोंका भी ग्रहण होता है । बादरकी अवगाहनासे
जहां दूसरे बादर जीवकी अवगाहना असंख्यातगुणी कही है वहां पल्योपमका असं-
ख्यातवां भाग गुणकार ग्रहण करना चाहिये,

बादरसे दूसरे बादर जीवकी अवगाहनाका गुणकार संख्यात समय है ॥ ९९ ॥

द्वीन्द्रिय आदिक निर्वृत्त्यपर्याप्तकों और उनके पर्याप्तकोंमें अवगाहनाका गुण-
कार संख्यात समय है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । पूर्व सूत्रसे पल्योपमके असंख्यातवें
भाग मात्र गुणकारके प्राप्त होनेपर उसका प्रतिषेध करनेके लिये यह सूत्र रचा गया
है । इसीलिये उपर्युक्त दोनों सूत्रोंमें कोई विरोध नहीं है ।


शंका— ये यहां गुणकार होते हैं, ऐसा कैसे जाना जाता है ?

समाधान— वह इसी सूत्रसे जाना जाता है । कारण कि एक प्रमाण दूसरे
प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि, वैसा होनेपर अनवस्थाका प्रसंग आता है ।

शंका— ज्ञानावरणादिक आठों कर्मोंकी अवगाहनाके प्ररूपणार्थ क्षेत्रानुयोग-
द्वारकी प्ररूपणा करते समय जीवसमासोंकी अवगाहनाकी प्ररूपणा यहां किस-
लिये की गई है ?

समाधान— यहां इस शंकाका उत्तर कहते हैं— यह अवगाहना सम्बन्धी

ओगाहणप्पावहुअदंडओ जीवसमासाणं ण परूविदो, अप्पावहुअस्स असंबद्धप्पसंगादो । किंतु अट्टणं पि कम्माणं जीवसमासेहिंतो अभेदेण लद्धजीवसमासववएसाणमोगाहणप्पावहुअदंडओ एसो परूविदो ति । किमट्टमेसा अप्पावहुगपरूवणा कदा ? समुग्घादेण विणा पाणावरणादीणमट्टणं पि कम्माणं सत्थाणोगाहणाणं जीवसमासभेदेण भिण्णाणं माहप्पपरूवणहं कदा, पाणावरणादीणमजहण्ण-अणुक्कस्ससत्थाणखेत्तट्टाणपरूवणहं वा । एवमप्पावहुगं सगंतो-क्खित्तगुणगारहियारं समत्तं । एवं वेयणखेत्तविहाणे ति समत्तमणियोगहारं ।



एदाओ सोलस उवरिमाओ ओगाहणाओ तिसमयआहारय-तिसमयतम्भवत्थलाद्धि-अपज्जत्तयाणं जहण्णाओ घेत्तच्चाओ' । आदिप्पहुडि सत्तारस ओगाहणाओ पदेसुत्तरकमेण

अल्पवहुत्वदण्डक जीवसमासोंका नहीं कहा गया है, क्योंकि, वैसा करनेसे उक्त अल्पवहुत्वके असंगत होनेका प्रसंग आता है । किन्तु यह जीवसमासोंसे अभिन्न होनेके कारण जीवसमास संज्ञाको प्राप्त हुए आठों कर्मोंकी ही अवगाहनाका अल्पवहुत्व-दण्डक कहा गया है ।

शंका— यह अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा किसलिये की गई है ?

समाधान— जीवसमासके भेदसे भेदको प्राप्त हुए ज्ञानावरणादिक आठों कर्मोंकी समुद्घात रहित स्वस्थान अवगाहनाओंके माहात्म्यको बतलानेके लिये उक्त प्ररूपणा की गई है । अथवा, ज्ञानावरणादिक कर्मोंके अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्वस्थान क्षेत्रस्थानोंकी प्ररूपणा करनेके लिये उपर्युक्त प्ररूपणा की गई है । इस प्रकार अपने भीतर गुणकार अधिकारको रखनेवाला अल्पवहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार वेदनाक्षेत्रविधान यह अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

ये उपरिम सोलह अवगाहनार्ये त्रिसमयवर्ती आहारक और त्रिसमयवर्ती तद्भवस्थ लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंकी जघन्य ग्रहण करना चाहिये । आदिसे लेकर सत्तरह

१ ताप्रतौ ' घेत्तच्चाओ० ' इति पाठ । अवरमपुणं पदम सोल पुण पदम विदिय-त्तदियोली । पुणि-दर-पुणिआण जहण्णमुक्कस्समुक्करस ॥ गो. जी. ९९.

णिरंतरं वञ्चवेदन्वाओ । पुणो जत्थ जिस्से ओगाहणा सम्पदि तक्काले ठविदोगाहण-
सलागासु रूवमवणेदव्वं, हेड्डिल्लोगाहणाहि सह हेडा णिरंतरमांगतूण उवरि गमणाभावादो ।
पुणो जत्थ जत्थ जहणोगाहणाओ पदंति तत्थ तत्थ पुव्वड्ढविदसलागासु रूवं पक्खिविदव्वं,
हेड्डिल्लोगाहणवियप्पसलागासु एदिस्से णत्थि ति^१ । सेसं जाणिय वत्तव्वं ।

एदाओ एक्कारस उक्कस्सोगाहणाओ उवरिमाओ णिव्वत्तिअपज्जत्ताणमुक्कस्साओ ।
एदाओ कस्स हवंति^२ ? से काले पज्जत्तो होहदि ति ड्ढिदस्स होति । लद्धिअपज्जत्तयस्स
उक्कस्सोगाहणा किण्ण गहिदो^३ ? ण, लद्धिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाओ णिव्वत्ति-
अपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणाए विसेसाहियभावेण विणा असंखेज्जगुणत्तुवलंभादो ।
हेड्डिमाओ सुहुमणिगोदाओ^४ णिव्वत्तिपरंपरपज्जत्तीए पज्जत्तयदाणं वेत्तव्वाओ । ताओ कत्थ
होति ति उत्ते पज्जत्तयदपढमसमए वट्टमाणस्स जहणउववाद-एयंताणुवड्ढिजोगेहि आंगतूण
जहणपरिणामजोगे जहणोगाहणाए च वट्टमाणस्स^५ एक्कारस वि होति । पुणो णिव्वत्ति-

अवगाहनाओंको प्रदेश अधिक क्रमसे निरन्तर बढ़ाना चाहिये । फिर जहां जिसकी
अवगाहना समाप्त होती है उस कालमें स्थापित अवगाहनाशलाकाओंमेंसे एक रूपको
कम करना चाहिये, क्योंकि, अधस्तन अवगाहनाओंके साथ नीचे निरन्तर आकर
ऊपर गमनका अभाव है । फिर जहां जहां जघन्य अवगाहनायें पड़ती हैं वहां वहां
पूर्व स्थापित शलाकाओंमें एक रूपको मिलाना चाहिये, क्योंकि, अधस्तन अवगाहनाके
विकल्पभूत शलाकाओंमें इसकी शलाका नहीं है । शेष जानकर कहना चाहिये ।

ये उपरिम ग्यारह उत्कृष्ट अवगाहनायें निर्वृत्त्यपर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट हैं ।

शंका—ये किसके होती हैं ?

समाधान—जो जीव अनन्तर कालमें पर्याप्त होनेवाला है उसके वे अवगाहनायें
होती हैं ।

शंका—लघ्व्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाको क्यों नहीं ग्रहण किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, लघ्व्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनासे निर्वृत्त्य-
पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिकताके विना असंख्यातगुणी पायी जाती है ।

सूक्ष्म निगोदसे लेकर अधस्तन [ग्यारह जघन्य अवगाहनायें] निर्वृत्ति-
परम्परा पर्याप्तसे पर्याप्त हुए जीवोंकी ग्रहण करना चाहिये ।

शंका—वे अवगाहनायें कहाँपर होती हैं ?

समाधान—इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि जो पर्याप्त होनेके प्रथम समयमें
वर्तमान है तथा जघन्य उपपादयोग और जघन्य एकान्तानुवृद्धियोगसे आकर जघन्य
परिणामयोग व जघन्य अवगाहनामें रहनेवाला है उसके वे ग्यारह ही अवगाहनायें
होती हैं ।

१ ताप्रतौ 'हेड्डिल्लोगाहणादि-सह इति पाठ । २ प्रतिषु 'एदिस्से णत्थि', ताप्रतौ 'एदिस्से ति' इति पाठ ।
३ मप्रतिपाठोऽयम् । प्रतिषु 'ह्वदि', ताप्रतौ 'ह्वदि (होति)' इति पाठ । ४ ताप्रतौ 'लहिदा' इति
पाठः । ५ ताप्रतौ 'णिगोदाओ (ण)' इति पाठ । ६ ताप्रतौ 'वट्टमाणस्स' इति पाठ ।

पञ्जत्ताणं हेडिमाओ एक्कारस उक्कस्सओगाहणाओ उक्कस्सजोगिस्स उक्कस्सओगाह-
णाए^१ वट्टमाणस्स परंपरपञ्जत्तीए पञ्जत्तयदस्स होंति । एदाओ ओगाहणाओ अप्पण्णो
जहण्णादेो उक्कस्साओ विसेसाहियाओ होंति । सुहुमणिगोदलद्धिअपञ्जत्तजहण्णोगाहण-
प्पहुडि सच्चजहण्णुक्कस्सोगाहणाओ जाव चादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरपञ्जत्तजहण्णो-
गाहणं पावेंति ताव अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तीयो । वीइंदियादिपञ्जत्ताणं जहण्णो-
गाहणाओ अंगुलस्स संखेज्जदिभागमेत्तीयो^२ । वीइंदियपञ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा
अणुंधरिम्हि होदि । तीइंदियपञ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा कुंथुम्हि होदि । चतुरिंदियपञ्जत्त-
यस्स जहण्णोगाहणा काणमच्छियाए । पंचिंदियपञ्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा सित्थमच्छम्मि
होदि^३ । तीइंदियपञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा तिण्णिगोउअप्पमाणा । सा कम्हि होदि ?
गोम्हिम्हि । चउरिंदियपञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा चत्तारिगाउअप्पमाणा । सा कत्थ ?
भमरम्मि । वीइंदियस्स पञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा चारस जोयणाणि । सा कत्थ ?
संखम्मि । एइंदियउक्कस्सोगाहणा संखेज्जाणि जोयणाणि । सा कत्थ ? जोयणसहस्सायाम-

निर्वृत्तिपर्याप्तकोंकी अधस्तन ग्यारह उत्कृष्ट अवगाहनायें उत्कृष्ट अवगाहनामें
वर्तमान व परम्परा पर्याप्तसे पर्याप्त हुए उत्कृष्ट योगवाले जीवके होती हैं । ये अवगाह-
नायें अपने अपने जघन्यसे उत्कृष्ट विशेष अधिक होती हैं ।

सूक्ष्म निगोद लब्धपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनासे लेकर सब जघन्य व
उत्कृष्ट अवगाहनायें जब तक वादर वनस्पतिकाविक प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवकी
जघन्य अवगाहनाको प्राप्त होती हैं तब तक अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र
रहती हैं । द्वीन्द्रियादिक पर्याप्त जीवोंकी जघन्य अवगाहनायें अंगुलके संख्यातवें
भाग प्रमाण हैं । द्वीन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना अनुन्धरीके होती है ।
त्रीन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना कुंथुके होती है । चतुरिन्द्रिय पर्याप्तककी
जघन्य अवगाहना कानमक्षिकाके होती है । पंचेन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना
सिक्थ मत्स्यके होती है ।

त्रीन्द्रिय पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना तीन गव्यूति प्रमाण है । वह
किसके होती है ? वह गोरहीके होती है । चतुरिन्द्रिय पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना
चार गव्यूति प्रमाण है । वह कहांपर होती है ? वह भ्रमरके होती है । द्वीन्द्रिय
पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना चारह योजन प्रमाण है । वह कहांपर होती है ?
वह शंखके होती है । एकेन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात योजन प्रमाण है ।
वह कहां होती है ? वह एक हजार योजन आयाम और एक योजन विस्तार-

१ ताप्रता 'ओगाहणाओ' इति पाठ । २ अप्रता 'असदेज्जदिभागमेत्तीयो' इति पाठ । ३ नि-ति-च-
पुण्णजहण्ण अणुंधरी कुथु णणमच्छीसु । मिच्छयमच्छे विंदयुलसख संखण्णिदकमा ॥ गो जी ९६.

जोयणविक्रखंभपुमग्मि । पंचेन्द्रियउक्कस्सोगाहणा संखेज्जाणि जोयणसहस्साणि । सा कत्थ ?
पंचजोयणसदुस्सेह-तदद्धविक्रखंभ-जोयणसहस्सायाममच्छग्मि' । एदेसिमपज्जत्ताणं तप्पडि-
भागो होदि ।

वाले पद्मके होती है । पंचेन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात हजार योजन है ।
वह कहां होती है ? वह पांच सौ योजन प्रमाण उत्सेध, इससे आधे विरतार और
एक हजार योजन आयामसे युक्त मत्स्यके होती है । इनके अपर्याप्तोंकी अवगाह-
नार्थे उक्त प्रमाणके प्रतिभाग मात्र होती है ।

१ साहियसहस्समेक वार कोसूणमेरुमेवक च । जोयणसहस्सदीह पद्मे वियले महामन्हे ॥ गो. जी ९५.



६
वेयणकालविहाणं

वेयणकालविहाणे ति । तत्थ इमाणि तिणिण अणियौग-
द्वाराणि णादव्वाणि भवन्ति ॥ १ ॥

एत्थ काले सत्तविहो— णामकाले ड्वणकाले दव्वकाले सामाचारकाले अद्धा-
काले पमाणकाले भावकाले चेदि । तत्थ णामकाले णाम कालसदो । ठवणकाले सो
एसो ति बुद्धीए एगत्तं काऊण ठविददव्वं । दव्वकाले दुविहो— आगमदव्वकाले णोआगम-
दव्वकाले चेदि । कालपाहुडजाणओ अणुवज्जुतो आगमदव्वकाले । तत्थ णोआगमदव्व-
काले तिविहो— जाणुगसरीरणोआगमदव्वकाले भवियणोआगमदव्वकाले जाणुगसरीर-
भवियतव्वदिरित्तणोआगमदव्वकाले चेदि । जाणुगसरीर-भवियणोआगमदव्वकाला सुगमा ।
तव्वदिरित्तणोआगमदव्वकाले दुविहो— पहाणो अप्पहाणो चेदि । तत्थ पहाणदव्वकाले
णाम लोगागासपदेसपमाणो सेसपंचदव्वपरिणमणहेदुभूदो रयणंरासि व्व पदेसपचयविरहियो
अमुत्तो अणाइणिहणो । उत्तं च—

काले परिणामभवो परिणामो दव्वकालसंभूदो ।

दोणं एस सहाओ काले खणभगुरो णियदो' ॥ १ ॥

वेदनकालविधान अनुयोगद्वार प्रारम्भ होता है । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार
जानने योग्य हैं ॥ १ ॥

यहाँ काल सात प्रकार है— नामकाल, स्थापनाकाल, द्रव्यकाल, सामा-
चारकाल, अद्धाकाल, प्रमाणकाल और भावकाल । उनमें 'काल' शब्द नामकाल
कहा जाता है । 'वह यह है' इस प्रकार बुद्धिसे अभेद करके स्थापित द्रव्य
स्थापनाकाल है । द्रव्यकाल दो प्रकार है— आगमद्रव्यकाल और नोआगमद्रव्यकाल ।
कालप्राभृतका जानकार उपयोग रहित जीव आगमद्रव्यकाल है । नोआगमद्रव्य-
काल तीन प्रकार है— ज्ञायकशरीर नोआगमद्रव्यकाल, भावी नोआगमद्रव्यकाल
और ज्ञायकशरीर-भाविव्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यकाल । इनमें ज्ञायकशरीर
और भावी नोआगमद्रव्यकाल ये दोनों सुगम हैं । तद्द्रव्यतिरिक्त नोआगम-
द्रव्यकाल दो प्रकार है— प्रधान और अप्रधान । उनमें जो प्रदेशोकी अपेक्षा लोकके
वरावर है, शेष पांच द्रव्योंके परिवर्तनमें कारण है, रत्नराशिके समान प्रदेशप्रचयसे
रहित है, अमूर्त व अनादिनिधन है; वह प्रधान द्रव्यकाल है । कहा भी है—

समयादि रूप व्यवहारकाल चूँकि जीव व पुद्गलके परिणमनसे जाना जाता
है, अतः वह उससे उत्पन्न कहा जाता है; और जीव व पुद्गलका परिणाम चूँकि
द्रव्यकालके होनेपर होता है, अत एव वह द्रव्यकालसे उत्पन्न कहा जाता है । यह
उन दोनों अर्थात् व्यवहार और निश्चय कालका स्वभाव है । इनमें व्यवहारकाल
क्षणक्षयी और निश्चयकाल अविनश्वर है ॥ १ ॥

ण य परिणमइ सयं सो ण य परिणामेइ अण्णमण्णेसि ।

विविहपरिणामियाणं हवइ हु हेऊ सयं कालो^१ ॥ २ ॥

लोगागासपदेसे एक्केक्के जे द्विया हु एक्केक्का ।

रयणाणं रासी इव ते कालाणू मुणेयव्वा^२ ॥ ३ ॥

कालो त्ति य व्वएसो सम्भात्रपरूवओ हवइ णिच्चो ।

उप्पण्णपद्धंसी अवरो दीहंतरट्ठाई^३ ॥ ४ ॥ त्ति ।

अप्पहाणदव्वकालो तिविहो— सच्चित्तो अच्चित्तो मिस्सओ चेदि । तत्थ सच्चित्तो— जहा दंसकालो मसयकालो इच्चेवमादि, दंस-मसयाणं चेव उवयारेण कालत्त-विहाणादो । अचित्तकालो— जहा धूलिकालो चिक्खल्लकालो उण्हकालो वरिसाकालो सीदकालो इच्चेवमादि । मिस्सकालो— जहा सदंस-सीदकालो इच्चेवमादि । सामाचार-कालो दुविहो— लोइओ लोउत्तरीयो चेदि । तत्थ लोउत्तरीओ सामाचारकालो— जहा वंदणकालो णियमकालो सञ्जयकालो^१ ज्ञाणकालो इच्चेवमादि । लोगियसामाचारकालो— जहा कसणकालो लुण्णकालो ववणकालो इच्चेवमादि । आदावणकालो रुक्खमूलकालो बाहिरसयणकालो इच्चादीणं कालाणं लोउत्तरीयसामाचारकाले अंतव्भावो कायव्वो, किरिया-

वह काल न स्वयं परिणमता है और न अन्य पदार्थको अन्य स्वरूपसे परिणमाता है । किन्तु स्वयं अनेक पर्यायोंमें परिणत होनेवाले पदार्थोंके परिणमनमें वह उदासीन निमित्त मात्र होता है ॥ २ ॥

लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर जो रत्नराशिके समान एक एक स्थित हैं उन्हें कालाणु जानना चाहिये ॥ ३ ॥

‘काल’ यह नाम निश्चयकालके अस्तित्वको प्रगट करता है, जो द्रव्य स्वरूपसे नित्य है । दूसरा व्यवहार काल यद्यपि उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाला है, तथापि वह [समयसन्तापकी अपेक्षा व्यवहार नयसे आवली व पल्य आदि स्वरूपसे] दीर्घ काल तक स्थित रहनेवाला है ॥ ४ ॥

अप्रधान द्रव्यकाल तीन प्रकार है—सचित्त, अचित्त और मिश्र । उनमें दंशकाल, मशककाल इत्यादि सचित्त काल हैं, क्योंकि, इनमें दंश व मशकके ही उपचारसे कालका विधान किया गया है । धूलिकाल, कर्दमकाल, उण्णकाल, वर्षाकाल एवं शीतकाल इत्यादि सब अचित्तकाल हैं । सदंश शीतकाल इत्यादि मिश्रकाल है ।

सामाचारकाल दो प्रकार है—लौकिक और लोकोत्तरीय । उनमें वन्दनाकाल, नियमकाल, स्वाध्यायकाल व ध्यानकाल इत्यादि लोकोत्तरीय सामाचारकाल हैं । कर्षणकाल, लुननकाल व वपनकाल इत्यादि लौकिक सामाचारकाल हैं । आतापन-काल, वृक्षमूलकाल व बाह्यशयनकाल, इत्यादिक कालोंका लोकोत्तरीय सामाचारकालमें अन्तर्भाव करना चाहिये, क्योंकि, क्रियाकालके प्रति कोई भेद नहीं है अर्थात्

कालत्तं पडि विसेसाभावादो ।

अद्धाकालो तिविहो— अदीदो अणागओ वट्टमाणो चेदि । पमाणकालो पल्लोवम-सागरोवम उस्सपिणी ओसपिणी-कप्पादिभेदेण बहुप्पयारो । भावकालो दुविहो— आगमदो णोआगमदो चेदि । तत्थ कालपाहुडजाणओ उवजुत्तो आगमभावकालो । णोआगमभावकालो ओदइयादिपंचणं भावाणं सगरूवं । एदेसु कालेसु पमाणकालेण पयदं । कालस्स विहाणं कालविहाणं, वेयणाए कालविहाणं वेयणाकालविहाणं । तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोग-द्वाराणि भवति । कुदो ? संखा-गुणयार द्वाण-जीवसमुदाहार-ओज जुम्माणियोगद्वाराणमेत्थेव अंतव्भावदंसणादो । ताणि काणि त्ति उत्ते उत्तरसुत्तमागयं —

पदमीमांसा-सामित्तमप्पावहुए त्ति ॥ २ ॥

तिसु अणियोगद्वारेसु पदमीमांसा चेव पढमं किमड्डं उच्चदे ? ण, पदेसु अणवगएसु पदसामित्त-पदप्पावहुआणं परूवणोवायाभावादो । तदणंतरं सामित्तपरूवणं किमड्ड कीरदे ? ण, पमाणे अणवगए पदप्पावहुगाणुववत्तीदो । तम्हा एसो चेव अणियोगद्वारक्कमो होदि, णिरवज्जत्तादो ।

क्रियाकालकी अपेक्षा इनमें कोई विशेषता नहीं है ।

अद्धाकाल तीन प्रकार है—अतीत, अनागत और वर्तमान । प्रमाणकाल पल्लोपम, सागरोपम, उत्सपिणी, अवसपिणी और कप्पादिके भेदसे बहुत प्रकार है । भावकाल दो प्रकार है— आगमभावकाल और नोआगमभावकाल । उनमें कालप्राप्तका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावकाल है । नोआगमभावकाल औदयिक आदि पांच भावों स्वरूप है ।

इन कालोंमें प्रमाणकाल प्रकृत है । कालका जो विधान है वह कालविधान है, वेदनाका कालविधान वेदनाकालविधान कहा जाता है । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं, क्योंकि संख्या, गुणकार, स्थान, जीवसमुदाहार, ओज और युग्म, इन अनुयोग-द्वारोंका उक्त तीनों अनुयोगद्वारोंमें अन्तर्भाव देखा जाता है । वे तीन अनुयोगद्वार कौनसे हैं, पेसा पूछनेपर उत्तर सूत्र प्राप्त होता है—

पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व, ये वे तीन अनुयोगद्वार हैं ॥ २ ॥

शंका—इन तीन अनुयोगद्वारोंमें पहिले पदमीमांसाका ही निर्देश किसलिये किया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पदोंके अज्ञात होनेपर पदस्वामित्व और पद-अल्पबहुत्वकी प्ररूपणाका कोई उपाय नहीं है ।

शंका—पदमीमांसाके पश्चात् स्वामित्वप्ररूपणा किसलिये की जाती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रमाणका ज्ञान न होनेपर पदोंका अल्पबहुत्व धन नहीं सकता । इस कारण यही अनुयोगद्वारक्रम ठीक है, क्योंकि, उसमें कोई दोष नहीं है ।

पदमीमांसाए णाणावरणीयवेयणा कालदो किमुक्कस्सा किम-
णुक्कस्सा किं जहण्णा किमजहण्णा ? ॥ ३ ॥

एत्थ णाणावरणग्गहणं सेसकम्मपडिसेहफलं । कालणिदेसो दच्च-खेत्त-भावपडिसेह-
फलो । एद पुच्छासुत्तं जेण देसामासियं तेण अण्णाओ णव पुच्छाओ सूचेदि । णाणावरणीय-
वेयणा किमुक्कस्सा किमणुक्कस्सा किं जहण्णा किमजहण्णा किं सादिया किमणादिया किं
धुवा किमद्धुवा किमोजा किं जुग्मा किमोमा किं विसिद्धा किं णोम-णोविसिद्धा ति । पुणो
एदेणेव सुत्तेण अण्णाओ तेरस पदविसयपुच्छाओ सूचिदाओ । काओ ति पुच्छिदे उच्चदे—
उक्कस्सणाणावरणीयवेयणा किमणुवकरसा किं जहण्णा किमजहण्णा किं सादिया किमणा-
दिया किं धुवा किमद्धुवा किमोजा किं जुग्मा किमोमा किं विसिद्धा किं णोम-णोविसिद्धा ति
उक्कस्सपदम्मि वारस पुच्छाओ । एवं सेसपदाणं पि पादेक्कं वारस पुच्छाओ वत्तवाओ ।
एत्थ सव्वपुच्छासमासो एग्गणसत्तरिसदमेत्तो । १६९ । तम्हा एदं देसामासियसुत्तं तेरस-
सुत्तप्पयं । एदेसिं सुत्ताणं परूवणा उत्तरदेसामासियसुत्तेण करिदे—

उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा जहण्णा वा अजहण्णा वा ॥ ४ ॥

पदमीमांसा अधिकारमें ज्ञानावरणीय कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा क्या उत्कृष्ट
है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है और क्या अजघन्य है ? ॥ ३ ॥

सूत्रमें ज्ञानावरण पदका ग्रहण शेष कर्मोंका प्रतिषेध करनेके लिये किया है ।
कालका निर्देश द्रव्य, क्षेत्र व भावका प्रतिषेध करनेवाला है । यह पृच्छासूत्र चूंकि देशा-
मर्शक है, अतः वह सूत्रोक्त चार पृच्छाओंके अतिरिक्त नौ दूसरी पृच्छाओंको भी सूचित
करता है । ज्ञानावरणीयवेदना क्या उत्कृष्ट है, क्या अनुत्कृष्ट है, क्या जघन्य है, क्या
अजघन्य है, क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है, क्या ओज
है, क्या युग्म है, क्या ओम है, क्या विशिष्ट है, और क्या नोम-नोविशिष्ट है ?
इसके अतिरिक्त इसी सूत्रके द्वारा दूसरी तेरह पदविषयक पृच्छायें सूचित की गई हैं । वे
कौनसी हैं, ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हैं—उत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदना क्या अनुत्कृष्ट है,
क्या जघन्य है, क्या अजघन्य है, क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव
है, क्या ओज है, क्या युग्म है, क्या ओम है, क्या विशिष्ट है, और क्या नोम-
नोविशिष्ट है; ये वारह पृच्छायें उत्कृष्ट पदके विषयमें हैं । इसी प्रकार शेष पदोंमेंसे
भी प्रत्येक पदके विषयमें वारह पृच्छाओंको कहना चाहिये । यहां सब पृच्छाओंका
योग एक सौ उनत्तर (१६९) मात्र है । इस कारण यह देशामर्शक सूत्र तेरह सूत्रों
स्वरूप है । इन सूत्रोंकी प्ररूपणा अगले देशामर्शक सूत्रके द्वारा की जाती है ।

उक्त ज्ञानावरणीयवेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट भी है, अनुत्कृष्ट भी है, जघन्य
भी है और अजघन्य भी है ॥ ४ ॥

एदं पि देसामासियसुत्तं । तेणेत्य सेसणवपदाणि वत्तव्वणि । देसामासियत्तादो चेव सेसतेरससुत्ताणमेत्थ अंतव्भावो वत्तव्वो । एत्थ ताव पढमसुत्तपरूवणा कीरदे । तं जहा— णाणावरणीयवेयणा कालदो सिया उवकरसा सिया अणुक्कस्सा सिया जहण्णा सिया अजहण्णा । सिया सादिया, पज्जवट्टियणए अवलंबिज्जमाणे णाणावरणीयसव्वट्टिदीण सादित्तुवलंभादो । सिया अणादिया, दव्वट्टियणए अवलंबिज्जमाणे अणादित्तदंसणादो । सिया धुवा, दव्वट्टियणए अवलंबिज्जमाणे णाणावरणीयकालवेयणाए विणासाणुवलंभादो । सिया अद्धुवा, पज्जवट्टियणयप्पणाए अद्धुवत्तदंसणादो । सिया ओजा, कत्थ वि कालविसेसे कलि-तेजोसंखाविसेसाणमुवलंभादो । सिया जुम्मा, कत्थ वि कालविसेसे कद-बादर-जुम्माणं संखाविसेसाणमुवलंभादो । सिया ओमा, कत्थ वि कालविसेसे परिहाणिदंसणादो । सिया विसिद्धा, कत्थ वि वट्टिदंसणादो । सिया गोम-णोविसिद्धा, कत्थ वि बंधवसेण कालस्स अवट्टाणदंसणादो । १३ ।

संपहि विदियसुत्तस्सत्यो बुच्चदे । तं जहा— उक्कस्सणाणावरणीयवेयणा जहण्णा अणुक्कस्सा च ण होदि, पडिवक्खत्तादो । सिया अजहण्णा, जहण्णादो उवरिमासेस-

यह भी देशामर्शक सूत्र है । इसलिये यहां शेष नौ पदोंको और कहना चाहिये । देशामर्शक होनेसे ही शेष तेरह सूत्रोंका इसमें अन्तर्भाव घतलाना चाहिये । उनमें यहां पहिले प्रथम सूत्रकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है— ज्ञानावरणीयवेदना कालकी अपेक्षा कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् जघन्य और कथंचित् अजघन्य है । वह कथंचित् सादि भी है, क्योंकि, पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर ज्ञानावरणीयकी सभी स्थितियां सादि पायी जाती हैं । कथंचित् वह अनादि भी है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर ज्ञानावरणीयकी वेदनामें अनादिता देखी जाती है । कथंचित् वह ध्रुव है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर ज्ञानावरणीयकी कालवेदनाका विनाश नहीं पाया जाता है । कथंचित् वह अध्रुव है, क्योंकि, पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर उसकी अस्थिरता देखी जाती है । कथंचित् वह ओज है, क्योंकि, किसी कालविशेषमें कलिओज और तेजोसंख्याविशेष पाये जाते हैं । कथंचित् वह युग्म है, क्योंकि, किसी कालविशेषमें कृतयुग्म और बादरयुग्म संख्याविशेष पाये जाते हैं । कथंचित् वह ओम है, क्योंकि, किसी कालविशेषमें हानि देखी जाती है । कथंचित् वह विशिष्ट है, क्योंकि, किसी कालविशेषमें वृद्धि देखी जाती है । कथंचित् वह नोम नोविशिष्ट है, क्योंकि, कहींपर बन्धके वशसे कालका अवस्थान देखा जाता है । [इस प्रकार ज्ञानावरणीयकालवेदना तेरह (१३) पद स्वरूप है] ।

अत्र द्वितीय सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है— उत्कृष्ट ज्ञानावरणीय-वेदना जघन्य और अनुत्कृष्ट नहीं होती, क्योंकि, ये उससे विरुद्ध हैं । कथंचित् वह अजघन्य है, क्योंकि, जघन्यसे ऊपरके समस्त कालविकल्पोंमें अवस्थित अजघन्य

कालवियप्पावट्टिदे अजहण्णे उक्कस्सस्स वि संभवादो । सिया सादिया, अणुक्कस्स-
कालादो उक्कस्सकालुप्पत्तीए । धुवपदं णत्थि, उक्कस्सट्टिदीए सव्वकालमवट्ठाणाभावादो ।
दन्वट्टियणए अवलंबिदे^१ वि ण धुवपदमत्थि, चट्टुसु वि गदीसु कयाइं उक्कस्सपदस्स
संभवादो । सिया अट्टुवा, उक्कस्सपदस्स सव्वकालमवट्ठाणाभावादो । सिया कदजुम्मा,
उक्कस्सकालम्मि बादरजुम्म-कलि-तेजोजसंखाविसेसाणमभावादो । सिया णोम-णोमविसिट्ठा,
वट्टिदे हाइदे च उक्कस्सत्तविरोहादो । एवमुक्कस्सणाणावरणीयवेयणा पंचपदप्पिया [५] ।

अणुक्कस्सणाणावरणीयवेयणा सिया जहण्णा, उक्कस्सं मोत्तूण हेट्ठिमसेसदियप्पे
अणुक्कस्से जहण्णस्स वि संभवादो । सिया अजहण्णा, अणुक्कस्सस्स^२ अजहण्णाविणाभावि-
त्तादो । सिया सादिया, उक्कस्सादो अणुक्कस्सुप्पत्तीए अणुक्कस्सादो वि अणुक्कस्स-
विसेसुप्पत्तिदंसणादो च । सिया अणादिया, दव्वट्टियणए अवलंबिदे अणुक्कस्सपदस्स
बंधाभावादो । सिया धुवा, दव्वट्टियणए अवलंबिदे अणुक्कस्सपदस्स विणासाभावादो ।
सिया अट्टुवा, पज्जवट्टियणए अवलंबिदे अणुक्कस्सपदस्स धुवत्ताभावादो । सिया
ओजा, कत्थ वि अणुक्कस्सपदविसेसे दुविहविसमसंखुवलंभादो । सिया जुम्मा, अणुक्कस्स-

पदमें उत्कृष्ट पद भी सम्भव है । कथंचित् वह सादि है, क्योंकि, अनुत्कृष्ट कालसे
उत्कृष्ट काल उत्पन्न होता है । ध्रुव पद नहीं है, क्योंकि, उत्कृष्ट स्थितिका सब कालमें
अवस्थान नहीं रहता । द्रव्यार्थिकनयका अवलम्बन करनेपर भी ध्रुव पद सम्भव
नहीं है, क्योंकि, चारों ही गतियोंमें उत्कृष्ट पद कदाचित् ही सम्भव होता है । कथं-
चित् वह अध्रुव है, क्योंकि, उत्कृष्ट पदका सब कालमें अवस्थान नहीं रहता । कथंचित्
वह कृतयुग्म है, क्योंकि, उत्कृष्ट कालमें बादरयुग्म, कलिओज और तेजोज संख्या-
विशेषोंका अभाव है । कथंचित् वह नोम-नोचिशिष्ट है, क्योंकि, वृद्धि व हानिके होनेपर
उत्कृष्टपनेका विरोध है । इस प्रकार उत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदना पांच (५) पद रूप है ।

अनुत्कृष्ट ज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् जघन्य है, क्योंकि, उत्कृष्टको छोड़कर
अधस्तन समस्त विकल्पों रूप अनुत्कृष्ट पदमें जघन्य पद भी सम्भव है ।
कथंचित् वह अजघन्य है, क्योंकि, अनुत्कृष्ट पद अजघन्य पदका अधिनाभावी है ।
कथंचित् वह सादि है, क्योंकि, उत्कृष्ट पदसे अनुत्कृष्ट पद उत्पन्न होता है,
तथा अनुत्कृष्टसे भी अनुत्कृष्टविशेषकी उत्पत्ति देखी जाती है । कथंचित् वह
अनादि है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर अनुत्कृष्ट पदका बन्ध
नहीं होता । कथंचित् वह ध्रुव है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर
अनुत्कृष्ट पदका विनाश नहीं होता । कथंचित् वह अध्रुव है, क्योंकि, पर्यायार्थिक-
नयका अवलम्बन करनेपर अनुत्कृष्ट पद ध्रुव नहीं है । कथंचित् वह ओज है,
क्योंकि, किसी अनुत्कृष्ट पदविशेषमें दोनों प्रकारकी विषम संख्यायें देखी जाती
हैं । कथंचित् वह युग्म है, क्योंकि, किसी अनुत्कृष्ट पदविशेषमें दोनों प्रकारकी

१ प्रतिष्ठा 'अवलंबिज्जदे' इति पाठः । २ प्रतिष्ठा 'अणुक्कस्स' इति पाठः ।

पदविसेसे दुविहसमसंखदंसणादो । सिया ओमा, कथ वि हाणीदो समुप्पणअणुक्कस्सपदु-
वलंभादो । सिया विसिद्धा, कथ वि वड्डीदो अणुक्कस्सपदुप्पत्तीए । सिया गोम-गोविसिद्धा,
अणुक्कस्सजहण्णम्मि अणुक्कस्सपदविसेसे वा अप्पिदे वड्ढि-हाणीणमभावादो । एवं णाणावर-
णाणुक्कस्सवेयणा एक्कारसपदप्पिया [११] । एवं तदियसुत्तपरूवणा कदा ।

संपहि चउत्थसुत्तपरूवणा कीरदे । तं जहा— जहण्णणाणावरणीयवेयणा सिया
अणुक्कस्सा, अणुक्कस्सजहण्णस्स ओघजहण्णेण एगत्तदंसणादो । सिया सादिया, अज-
हण्णादो जहण्णपदुप्पत्तीए । सिया अणादिया ति णत्थि, सुहुमसांपराइयचरिमसमय-
बंधमि चरिमसमयखीणकसायसंतम्मि य दव्वड्ढियणए अवलंबिज्जमाणे वि अणादित्ताणुव-
लंभादो । सिया अद्धुवा । सिया कलिओजा, खीणकसायचरिमसमयट्ठिदिग्गहणादो । सिघा
गोम-गोविसिद्धा । एवं जहण्णकालवेयणा पंचपयारा सरूवेण छप्पयारा वा [५] । एवं
चउत्थसुत्तपरूवणा कदा ।

संपहि पंचमसुत्तपरूवणा कीरदे । तं जहा— अजहण्णा णाणावरणीयवेयणा सिया
उक्कस्सा, अजहण्णुक्कस्सस्स ओघुक्कस्सादो पुधत्ताणुवलंभादो । सिया अणुक्कस्सा, तद-

सम संख्यायें देखी जाती हैं । कथंचित् वह ओम है, क्योंकि, कहींपर हानिसे
उत्पन्न हुआ अनुत्कृष्ट पद पाया जाता है । कथंचित् वह विशिष्ट है, क्योंकि,
कहींपर वृद्धिसे अनुत्कृष्ट पद उत्पन्न होता है । कथंचित् वह नोम-नोविशिष्ट है,
क्योंकि, अनुत्कृष्टभूत जघन्य पदकी अथवा अन्य अनुत्कृष्ट पदविशेषकी विवक्षा करनेपर
वृद्धि और हानिका अभाव रहता है । इस प्रकार ज्ञानावरणकी अनुत्कृष्टवेदना ग्यारह
(११) पद स्वरूप है । इस प्रकार तीसरे सूत्रकी प्ररूपणा की गई है ।

अब चतुर्थ सूत्रकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—जघन्य ज्ञानावरणीय-
वेदना कथंचित् अनुत्कृष्ट है, क्योंकि, अनुत्कृष्ट जघन्यकी ओघजघन्यसे एकता देखी जाती
है । कथंचित् वह सादि है, क्योंकि, अजघन्यसे जघन्य पद उत्पन्न होता है । कथंचित्
अनादि यह पद नहीं है, क्योंकि, सूक्ष्मसांपरायिकके अन्तिम समय सम्बन्धी बन्ध और
क्षीणकपायके अन्तिम समय सम्बन्धी सत्त्वमें द्रव्यार्थिकनयका अवलम्बन करनेपर भी
अनादिपना नहीं पाया जाता । कथंचित् वह अधुव है । कथंचित् वह कलिओज है,
क्योंकि, क्षीणकपायके अन्तिम समय सम्बन्धी स्थितिका ग्रहण किया गया है । कथंचित्
वह नोम-नोविशिष्ट है । इस प्रकार जघन्य कालवेदना पांच (५) प्रकार अथवा
अपने साथ छह प्रकार भी है । इस प्रकार चतुर्थ सूत्रकी प्ररूपणा की गई है ।

अब पांचवें सूत्रकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—अजघन्य
ज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट है, क्योंकि, अजघन्य उत्कृष्ट ओघ उत्कृष्टसे
पृथक् नहीं पाया जाता है । कथंचित् वह अनुत्कृष्ट है, क्योंकि, वह उसका

विणाभावित्तादो । सिया सादिया, पदंतरपल्लट्टणेण दिा अजहण्णपदविसेसाणमवट्टाणा-
भावादो । सिया अणादिया, दव्वट्टियणए अवलंबिदे वंधाभावादो । सिया धुवा,
दव्वट्टियणए अवलंबिदे अजहण्णपदस्स विणासाभावादो । सिया अद्धुवा, पज्जवट्टियणए
अवलंबिदे धुवत्ताभावादो । सिया ओजा, सिया जुग्मा, सिया ओमा, सिया विसिट्ठा ।
सुग्मं । सिया णोम-णोविसिट्ठा, णिरुद्धपदविसेसत्तादो । एवमजहण्णा एक्कारसभंगा [११] ।
एसो पंचमसुत्तथो ।

सादियणाणावरणीयवेयणा सिया उक्करसा, सिया अणुक्करसा, सिया जहण्णा,
सिया अजहण्णा, सिया अद्धुवा । धुवा ण होदि, सादियस्स अणादिय-धुवत्तविरोहादो ।
सिया ओजा, सिया जुग्मा, सिया ओमा, सिया विसिट्ठा, सिया णोम णोविसिट्ठा । एवं
सादियवेदणाए दसभंगा [१०] । एसो छट्सुत्तथो ।

अणादियणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा,
सिया अजहण्णा, सिया सादिया । कधमणादियवेयणाए सादियत्तं ? ण, वेयणासामण्णा-
वेक्खाए अणादियम्मि उक्कस्सादिपदावेक्खाए सादियत्तं पडि विरोहाभावादो । सिया धुवा,

अविनाभावी है । कथंचित् वह सादि है, क्योंकि, दूसरे पदोंके पलटनेके विना
अजघन्य पदविशेष रहते नहीं है । कथंचित् वह अनादि है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक
नयका अवलम्बन करनेपर इस पदका बन्ध नहीं होता । कथंचित् वह ध्रुव है, क्योंकि,
द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर अजघन्य पदका विनाश नहीं होता । कथंचित्
वह अध्रुव है, क्योंकि, पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर उसके ध्रुवपना
नहीं पाया जाता । कथंचित् वह ओज है, कथंचित् युग्म है, कथंचित् ओम है,
और कथंचित् वह विशिष्ट है । यह सब सुग्म है । कथंचित् वह नोम नोविशिष्ट
है, क्योंकि, पदविशेषकी विवक्षा है । इस प्रकार अजघन्य वेदनाके ग्यारह (११)
भंग होते हैं । यह पांचवें सूत्रका अर्थ है ।

सादि ज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट है, कथंचित् अनुत्कृष्ट है, कथंचित्
जघन्य है, कथंचित् अजघन्य है, और कथंचित् अध्रुव है । वह ध्रुव नहीं है, क्योंकि,
सादि पदका अनादि और ध्रुव पदके साथ विरोध है । वह कथंचित् ओज है,
कथंचित् युग्म है, कथंचित् ओम है, कथंचित् विशिष्ट है, और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट
है । इस प्रकार सादिवेदनाके दस (१०) भंग होते हैं । यह छठे सूत्रका अर्थ है ।

अनादि ज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित्
जघन्य, कथंचित् अजघन्य और कथंचित् सादि है ।

शंका—अनादि वेदना सादि कैसे हो सकती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वेदनासामान्यकी अपेक्षा उसके अनादि होनेपर भी
उत्कृष्ट आदि पदोंकी अपेक्षा उसके सादि होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

वेयणासामणस्स विणासाभावादो । सिया अद्घुवा, पदविसेसस्स विणासदंसणादो । अणा-
दियत्तम्मि सामणविवक्खाए समुप्पणम्मि कथं पदविसेससंभवो ? ण, सर्गतोखित्तअसेस-
विसेसम्मि सामणम्मि अप्पिदे तदविरोहादो । सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया
विसिद्धा, सिया णोम-णोविसिद्धा । एवमणादियपदस्स चारस भंगो । १२ । एसो सत्तमसुत्तथो ।

धुवणाणावरणीवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया
अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया अद्घुवा. सिया ओजा, सिया जुम्मा,
सिया ओमा, सिया विसिद्धा, सिया णोम-णोविसिद्धा । एवं धुवपदस्स चारस भंगो । १२ ।
एसो अट्ठमसुत्तथो ।

अद्घुवणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा,
सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया ओजा, सिया जुम्मा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा,
सिया णोम-णोविसिद्धा । एवमद्घुवपदस्स दस भंगो । १० । एसो णवमसुत्तथो ।

ओजणाणावरणीयवेयणा उक्कस्सा ण होदि, उक्कस्सट्ठिदीए कदजुम्मे अवहाणादो ।
सिया अणुक्कस्सा, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया । सिया अणादिया,
सामणविवक्खादो । सिया धुवा, सिया अद्घुवा, विसेसविवक्खाए । सिया ओमा, सिया

कथंचित् वह ध्रुव है, क्योंकि, वेदनासामान्यका कभी विनाश नहीं होता ।
कथंचित् वह अध्रुव है, क्योंकि, पदविशेषका विनाश देखा जाता है ।

शंका— सामान्य विवक्षासे अनादिकाे स्वीकार करनेपर उसमें पदविशेषकी
सम्भावना कैसे हो सकती है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, अपने भीतर समस्त विशेषोंको रखनेवाले सामान्यकी
विवक्षा करनेपर उसमें कोई विरोध नहीं है ।

वह कथंचित् ओज, कथंचित् युग्म, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और
कथंचित् नोम-नोविशिष्ट है । इस प्रकार अनादि पदके चारह (१२) भंग होते हैं ।
यह सानवें सूत्रका अर्थ है ।

ध्रुव ज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् जघन्य,
कथंचित् अजघन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् अध्रुव, कथंचित्
ओज, कथंचित् युग्म, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट
है । इस प्रकार ध्रुव पदके चारह भंग होते हैं । यह आठवें सूत्रका अर्थ है ।

अध्रुव ज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित्
जघन्य, कथंचित् अजघन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् ओज, कथंचित् युग्म, कथंचित्
ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट है । इस प्रकार अध्रुव पदके
दस (१०) भंग होते हैं । यह नौवें सूत्रका अर्थ है ।

ओज ज्ञानावरणीयवेदना उत्कृष्ट नहीं होती है, क्योंकि, उत्कृष्ट स्थितिका
अवस्थान कृतयुग्ममें है । वह कथंचित् अनुत्कृष्ट, कथंचित् जघन्य, कथंचित् अजघन्य,
कथंचित् सादि है । सामान्यकी विवक्षाले वह कथंचित् अनादि है । वह कथंचित्
ध्रुव है । वह कथंचित् अध्रुव है, क्योंकि, विशेषकी विवक्षा है । वह कथंचित् ओम,

विसिद्धा, सिया गोम-गोविसिद्धा । एवमोजपदस्स दस भंगा |१०| । एसो दसमसुत्तथो ।

जुम्मणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सा, सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्धुवा, सिया ओमा, सिया विसिद्धा, सिया गोम-गोविसिद्धा । एवं जुम्मपदस्स दस भंगा |१०| । एसो एक्कारसमसुत्तथो ।

ओमणाणावरणीयवेयणा सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्धुवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा । एवमोमपदस्स अट्ठ भंगा |८| । एसो चारसमसुत्तथो ।

विसिद्धणाणावरणीयवेयणा सिया अणुक्कस्सा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्धुवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा । एवं विसिद्धपदस्स अट्ठभंगा |८| । एसो तेरसमसुत्तथो ।

गोम-गोविसिद्धणाणावरणीयवेयणा सिया उक्कस्सिया, सिया अणुक्कस्सिया, सिया जहण्णा, सिया अजहण्णा, सिया सादिया, सिया अणादिया, सिया धुवा, सिया अद्धुवा, सिया ओजा, सिया जुम्मा । एवं दस भंगा |१०| । एसो चोदसमसुत्तथो ।

एदेसिं भंगाणमंक्विण्णासो एसो— |१३|५|११|५|११|१०|१२|१२|
१०|१०|१०|८|८|१०| ।

कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट है । इस प्रकार ओज पदके दस (१०) भंग होते हैं । यह दसवें सूत्रका अर्थ है ।

युग्म ज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुकृष्ट, कथंचित् अजघन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् ध्रुव, कथंचित् अध्रुव, कथंचित् ओम, कथंचित् विशिष्ट और कथंचित् नोम-नोविशिष्ट है । इस प्रकार युग्म पदके दस (१०) भंग होते हैं । यह ग्यारहवें सूत्रका अर्थ है ।

ओम ज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् अनुकृष्ट, कथंचित् अजघन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् ध्रुव, कथंचित् अध्रुव, कथंचित् ओज और कथंचित् युग्म है । इस प्रकार ओम पदके आठ (८) भंग होते हैं । यह बारहवें सूत्रका अर्थ है ।

विशिष्ट ज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् अनुकृष्ट, कथंचित् अजघन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् ध्रुव, कथंचित् अध्रुव, कथंचित् ओज और कथंचित् युग्म है । इस प्रकार विशिष्ट पदके आठ (८) भंग होते हैं । यह तेरहवें सूत्रका अर्थ है ।

नोम-नोविशिष्ट ज्ञानावरणीयवेदना कथंचित् उत्कृष्ट, कथंचित् अनुकृष्ट, कथंचित् अजघन्य, कथंचित् अजघन्य, कथंचित् सादि, कथंचित् अनादि, कथंचित् ध्रुव, कथंचित् अध्रुव, कथंचित् ओज और कथंचित् युग्म है । इस प्रकार उसके दस (१०) भंग होते हैं । यह चौदहवें सूत्रका अर्थ है ।

इन भंगोंके अंकोंका लिन्यास यह है— १३ + ५ + ११ + ५ + ११ + १० + १२ + १२ + १० + १० + १० + ८ + ८ + १० = १३५ ।

एवं सत्तणं कम्माणं ॥ ५ ॥

जहा णाणावरणीयस्स पदमीमांसा कदा तहा सत्तणं कम्माणं कायच्चा, विसेसा-
भावादो । एवमंतोकयओजाणियोगद्दारा पदमीमांसा त्ति समत्तमणियोगद्दारं ।

सामित्तं दुविहं जहणपदे उक्कस्सपदे ॥ ६ ॥

तत्थ जहणं चउच्चिहं— णाम ड्ववणा-द्वव-भावजहणं चेदि । णामजहणं ड्ववणा-
जहणं च सुगमं । द्ववजहणं दुविहं— आगमद्ववजहणं णोआगमद्ववजहणं चेदि । तत्थ
जहणपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमद्ववजहणं । णोआगमद्ववजहणं तिविहं
जाणुगसरीर-भविय तत्त्वदिरित्तणोआगमद्ववजहणभेएण । जाणुगसरीरं भविय गदं । तत्त्व-
दिरित्तणोआगमद्ववजहणं दुविहं— ओघजहणमादेसजहणं चेदि । तत्थ ओघजहणं चउ-
च्चिहं— द्ववदो खेत्तदो कालदो भावदो चेदि । तत्थ द्ववजहणमेगो परमाणू । खेत्त-
जहणमेगो आगासपदेसो । कालजहणमेगो समओ । भावजहणं परमाणुमिह एगो
णिद्धत्तगुणो । आदेमजहणं पि द्वव खेत्त-काल-भावेहि चउच्चिहं । तत्थ द्ववदो आदेस-
जहणं उच्चेदं । तं जहा— तिपदेसियक्खंधं दट्ठणं दुपदेसियक्खंधो आदेसदो द्वव-

इसी प्रकार शेष सातों कर्मोंके उत्कृष्ट आदि पदोंकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥५॥

जिस प्रकार द्वालाघरणकी पदमीमांसा की गई है उसी प्रकार शेष सात
कर्मोंकी पदमीमांसा करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है । इस
प्रकार ओजानुयोगद्वारगर्भित पदमीमांसा नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

स्वामित्व दो प्रकार है—जघन्य पदमें और उत्कृष्ट पदमें ॥ ६ ॥

उनमेंसे जघन्य पद चार प्रकार है—नामजघन्य, स्थापनाजघन्य, द्रव्यजघन्य
और भावजघन्य । इनमें नामजघन्य और स्थापनाजघन्य सुगम हैं । द्रव्यजघन्य
दो प्रकार है— आगमद्रव्यजघन्य और नोआगमद्रव्यजघन्य । उनमें जघन्य प्राभृतका
जानकार उपयोग रहित जीव आगमद्रव्यजघन्य है । नोआगमद्रव्यजघन्य तीन
प्रकार है— ज्ञायकशरीर नोआगमद्रव्यजघन्य, भावी नोआगमद्रव्यजघन्य और
तद्रव्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यजघन्य । इनमें ज्ञायकशरीर और भावी नोआगमद्रव्य-
जघन्य विदित हैं । तद्रव्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यजघन्य दो प्रकार है ओघजघन्य और
आदेशजघन्य । उनमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे ओघजघन्य चार प्रकार
है । इनमेंसे एक परमाणुको द्रव्यजघन्य कहा जाता है । एक आकाशप्रदेश क्षेत्रजघन्य
है । कालजघन्य एक समय है । परमाणुमें रहनेवाला एक स्निग्धत्व गुण भावजघन्य है ।

आदेशजघन्य भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है ।
इनमें द्रव्यसे आदेशजघन्यकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है— तीन प्रदेश-

जहणं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । तिपदेसोगाढद्वं दट्टूण दुपेदसोगाढद्वं खेत्तदो आदेस-
जहणं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । तिसमयपरिणदं दट्टूण दुसमयपरिणदं दव्वमादेमदो
कालजहणं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । तिगुणपरिणदं दव्वं दट्टूण दुगुणपरिणदं दव्वं भावदो
आदेसजहणं । भावजहणं दुविहं— आगमभावजहणं णोआगमभावजहणं चेदि । तत्थ
जहणपाहुडजाणगो उवजुत्तो आगमभावजहणं । सुहुमणिगादलद्धिअपज्जत्तयस्स जं मव्व-
जहणं णाणं तं णोआगमभावजहणं । एत्थ ओघजहणकालेण पयदं, सव्वजहणण्ढिदीए
अहियारादो ।

उक्कस्सं चउव्विहं णाम-द्ववणा-दव्व-भावउक्कस्सभेएण । तत्थ णाम द्ववणुक-
स्साणि सुगमाणि । दव्वुकस्सं दुविहमागमदव्वुकस्सं णोआगमदव्वुकस्सं चेदि । तत्थ
उक्कस्सपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो आगमदव्वुकस्स । णोआगमदव्वुकस्सं तिविहं जाणुग-
सरीर-भविय-तव्वदिरित्तणोआगमदव्वुकस्सभेएण । जाणुगसरीर-भवियणोआगमदव्वुक-
स्साणि सुगमाणि । तव्वदिरित्तणोआगमदव्वुकस्सं दुविहं— आणुकस्समादेसुकस्सं चेदि ।
तत्थ ओघुकस्सं चउव्विहं— दव्वदो खेत्तदो कालदो भावदो चेदि । तत्थ दव्वदो उक्कस्सं
महाखंधो । खेत्तदो उक्कस्समागासं । कालदो उक्कस्सं सव्वकालो । भावदो उक्कस्सं

वाले स्कन्धकी अपेक्षा दो प्रदेशवाला स्कन्ध आदेशद्रव्यजघन्य है । इसी प्रकार शेष
प्रदेशोंमें भी ले जाना चाहिये । तीन प्रदेशोंमें अवगाहन करनेवाले द्रव्यकी अपेक्षा
दो प्रदेशोंमें अवगाहन करनेवाला द्रव्य क्षेत्रसे आदेशजघन्य है । इसी प्रकार शेष
प्रदेशोंमें भी ले जाना चाहिये । तीन समयोंमें परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो समयोंमें
परिणत द्रव्य आदेशसे कालजघन्य है । इसी प्रकार शेष समयोंमें भी ले जाना चाहिये ।
तीन गुणोंमें परिणत द्रव्यकी अपेक्षा दो गुणोंमें परिणत द्रव्य भावसे आदेशजघन्य है ।

भावजघन्य दो प्रकार है— आगमभावजघन्य और नोआगमभावजघन्य ।
उनमें जघन्य प्राभृतका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावजघन्य है । सूक्ष्म निगोद
लब्धपर्यप्तकका जो सबसे जघन्य ज्ञान है वह नोआगमभावजघन्य है । यहां ओघ-
जघन्यकाल प्रकृत है, क्योंकि, यहां सर्वजघन्य स्थितिका अधिकार है ।

नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे उत्कृष्ट चार प्रकार है । उनमें नाम-
उत्कृष्ट और स्थापनाउत्कृष्ट सुगम हैं । द्रव्य उत्कृष्ट दो प्रकार है— आगमद्रव्य उत्कृष्ट
और नोआगमद्रव्य उत्कृष्ट । उनमें उत्कृष्ट प्राभृतका जानकार उपयोग रहित जीव
आगमद्रव्यउत्कृष्ट है । नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट तीन प्रकार है— शायकशरीर, भावी
और तद्रव्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट । इनमें शायकशरीर और भावी नोआगमद्रव्य-
उत्कृष्ट सुगम हैं । तद्रव्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यउत्कृष्ट दो प्रकार है— ओघउत्कृष्ट और
आदेशउत्कृष्ट । उनमें ओघउत्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है ।
उनमें द्रव्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट महा स्कन्ध है । क्षेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट आकाश है ।
कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट सर्व काल है । भावकी अपेक्षा उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट वर्ण, गन्ध, रस
और स्पर्शसे युक्त द्रव्य है ।

सञ्चुक्कस्सवण्ण-गंध-रस-फासद्वं । आदेसुक्कस्सं चउच्चिहं — दच्चदो खेत्तदो कालदो भावदो चेदि । तत्थ दच्चदो एगपरमाणुं ददूण्ण दुपदेसिओ खंधो आदेसुक्कस्सं । दुपदेसियं खंधं ददूण्ण तिपदेसियक्खंधो वि आदेसुक्कस्सं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । खेत्तदो एयक्खेत्तं ददूण्ण दोखेत्तपदेसा आदेसदो उक्कस्सवेत्तं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । कालदो एगसमयं ददूण्ण दोसमइयं आदेसुक्कस्सं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । भावदो एगगुणजुत्तं ददूण्ण दुगुणजुत्तं दच्चमादेसुक्कस्सं । एवं सेसेसु वि णेयव्वं । भावुक्कस्सं दुविहं— आगम-णोआगमभावुक्कस्सभेएण । तत्थ उक्कस्सपाहुडजाणओ उवजुत्तो आगमभावुक्कस्सं । णोआगम-भावुक्कस्सं केवलणाणं । एत्थ ओघकालुक्कस्सण अहियारो । एत्थ कालदो ओघुक्कस्सं सच्चकालो चि भणिदं, तस्सेत्थ गहणं ण कायव्वं; कम्मडिदीए तदसंभवादो । जहण्णपदे एगं सामित्त अण्णगमुक्कस्सपदे, एवं सामित्तं दुविहं चेव होदि; अण्णस्सासंभवादो ।

**सामित्तेण उक्कस्सपदे णाणावरणीयवेयणा कालदो उक्क-
स्सिया कस्स ? ॥ ७ ॥**

उक्कस्सपदणिहेसो जहण्णपदपडिसेहफलो । णाणावरणणिहेसो सेसकम्मपडिसेहफलो ।

आदेशउत्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा चार प्रकार है । उनमें एक परमाणुकी अपेक्षा दो प्रदेशवाला स्कन्ध द्रव्यकी अपेक्षा आदेशउत्कृष्ट है । दो प्रदेशवाले स्कन्धकी अपेक्षा तीन प्रदेशवाला स्कन्ध भी द्रव्यसे आदेशउत्कृष्ट है । इसी प्रकार शेष प्रदेशोंके विषयमें ले जाना चाहिये । एक प्रदेश रूप क्षेत्रकी अपेक्षा दो क्षेत्रप्रदेश क्षेत्रसे आदेशउत्कृष्ट है । इसी प्रकार शेष क्षेत्रप्रदेशोंमें भी ले जाना चाहिये । एक समयकी अपेक्षा दो समय परिणत द्रव्य कालसे आदेशउत्कृष्ट है । इसी प्रकार शेष समयोंमें भी ले जाना चाहिये । एक गुण युक्त द्रव्यकी अपेक्षा दो गुण युक्त द्रव्य भावसे आदेशउत्कृष्ट है । इसी प्रकार शेष गुणोंमें भी ले जाना चाहिये ।

भावउत्कृष्ट आगमभावउत्कृष्ट और नोआगमभावउत्कृष्टके भेदसे दो प्रकार है । उनमें उत्कृष्ट प्राभृत्तका जानकार उपयोग युक्त जीव आगमभावउत्कृष्ट है । नोआगम-भावउत्कृष्ट केवलज्ञान है । यहाँ ओघउत्कृष्ट कालका अधिकार है । यहाँ कालकी अपेक्षा ओघउत्कृष्ट सब काल कहा गया है, उसका यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, कर्मस्थितिमें उसकी सम्भावना नहीं है । एक स्वामित्व जघन्य पदमें और दूसरा एक उत्कृष्ट पदमें, इस प्रकार स्वामित्व दो प्रकार ही है, क्योंकि, इनके अतिरिक्त और दूसरे स्वामित्वकी सम्भावना नहीं है ।

स्वामित्वसे उत्कृष्ट पदमें ज्ञानावरणीयवेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है ? ॥ ७ ॥

सूत्रमें उत्कृष्ट पदका निर्देश जघन्य पदके प्रतिषेधके लिये किया गया है । ज्ञानावरण पदका निर्देश शेष कर्मोंके प्रतिषेधके लिये है । कालका निर्देश क्षेत्र आदिका

कालणिद्देशो खेत्तादिपडिसेहफलो । कस्से त्ति किं देवस्स किं णेरइयस्स किं मणुस्सस्स किं तिरिक्खस्से त्ति पुच्छा ।

अण्णदरस्स पंचिंदियस्स सण्णिस्स मिच्छाइट्ठिस्स सब्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्स कम्मभूमियस्स अकम्मभूमियस्स वा कम्मभूमिपडिभागस्स वा संखेज्जवासाउअस्स वा असंखेज्जवासाउअस्स वा देवस्स वा मणुस्सस्स वा तिरिक्खस्स वा णेरइयस्स वा इत्थिवेदस्स वा पुरिमवेदस्स वा णउंसयवेदस्स वा जलचरस्स वा थलचरस्स वा खगचरस्स वा सागार-जागार-सुदोवजोगजुत्तस्स उक्कस्सियाए ट्ठिदीए उक्कस्सट्ठिदिसंकिलेसे वट्टमाणस्स, अथवा ईत्ति-मज्झिमपरिणामस्स तस्स णाणावरणीयवेयणा कालदो उक्कस्सा ॥८॥

अण्णदरस्से त्ति णिद्देशो ओगाहणादीणं पडिसेहाभावपदुगायणफलो । पंचिंदियस्से त्ति णिद्देशो विगलिंदियपडिसेहफलो ? णाणावरणीयस्स उक्कस्सियं ट्ठिदिं पंचिंदिया चैव वंधात, णो विगलिंदिया इदि जं वुत्तं होदि । ते च पंचिंदिया दुविहा — सण्णिणो अम-

प्रतिषेध करनेवाला है । ' किसके होती है ' इससे वह क्या देवके होनी है, क्या नारकीके होती है, क्या मनुष्यके होती है, और क्या तिर्यचके होनी है, इस प्रकार पृच्छा की गई है ।

अन्यतर पंचेन्द्रिय जीवके — जो संज्ञी है, मिथ्यादृष्टि है, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है; कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज अथवा कर्मभूमिप्रतिभागोत्पन्न है; सख्यातवर्षायुष्क अथवा असंख्यातवर्षायुष्क है; देव, मनुष्य, तिर्यच अथवा नारकी है; स्त्रीवेद, पुरुषवेद अथवा नपुंसकवेदमेंमें किसी भी वेदसे संयुक्त है; जलचर, थलचर अथवा नभचर है; साकार उपयोगवाला है, जागृत है, श्रुतोपयोगसे युक्त है, उत्कृष्ट स्थिति के बन्ध योग्य उत्कृष्ट स्थिति-संक्लेशमें वर्तमान है, अथवा कुछ मध्यम संक्लेश परिणामसे युक्त है, उसके ज्ञानावरणीय कर्मभी वेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥ ८ ॥

सूत्रमें अन्यतर पदका निर्देश अवगाहना आदिकोंके प्रतिषेधके अभावको सूचित करता है । पंचेन्द्रिय पदका निर्देश विकलेन्द्रियका प्रतिषेध करता है । इससे यह फलित होता है कि ज्ञानावरणीयकी उत्कृष्ट स्थितिको पंचेन्द्रिय जीव ही वांधते हैं, विकलेन्द्रिय नहीं वांधते । वे पंचेन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं — संज्ञी और असंज्ञी

णिणो चेदि । तत्थ असणिणो उक्कस्सियं द्विदि ण बंधंति त्ति जाणावणहं सणिणस्से त्ति णिदिहं । ते च सणिणपंचिदिया गुणह्वाणभेएण चोदसविहा । तत्थ सासणादओ उक्कस्सियं द्विदि ण बंधंति त्ति जाणावणहं मिच्छाइद्विस्से त्ति णिदिहं । ते च मिच्छाइद्विणो पज्जत्तयदा अपज्जत्तयदा चेदि दुविहा । तत्थ अपज्जत्तयदा उक्कस्सियं द्विदि ण बंधंति त्ति जाणावणहं सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्से त्ति भणिदं । पंचिदियपज्जत्तमिच्छाइद्विणो कम्मभूमा अकम्मभूमा चेदि दुविहा । तत्थ अकम्मभूमा उक्कस्सद्विदि ण बंधंति, पण्णारसकम्मभूमीसु उप्पण्णा चेव उक्कस्सद्विदि बंधंति त्ति जाणावणहं कम्मभूमियस्स वा त्ति भणिदं । भोगभूमीसु उप्पण्णाण व देव-णेरइयाणं सयंपहणगेदपव्वदस्स वाहिरभागप्पहुडि जाव सयंभूरमणसमुदो त्ति एत्थ कम्मभूमिपडिभागस्मि उप्पण्णतिरिक्खाणं च उक्कस्सद्विदिबंधपडिसेहे पत्ते तणिणराकरणहं अकम्मभूमिस्स वा कम्मभूमिपडिभागस्स वा त्ति भणिदं । अकम्मभूमिस्स वा त्ति उत्ते देव-णेरइया घेत्तवा । कम्मभूमिपडिभागस्स वा त्ति उत्ते सयंपहणगेदपव्वदस्स वाहिरे भागे समुप्पण्णाणं गहणं । संखेज्जवासाउअस्स वा त्ति उत्ते अह्वाइज्जदीव-समुद्दुपण्णस्स कम्मभूमिपडिभागुप्पण्णस्स च गहणं । असंखेज्जवासाउअस्स वा त्ति उत्ते देव-णेरइयाण गहणं, ण समयाहियपुव्वकोडिप्पहुडि-उवरिमआउअतिरिक्ख-मणुरसाणं गहणं, पुव्वसुत्तेण तेसिं विहिदपडिसेहत्तादो । देव-

उनमे असंज्ञी पंचेन्द्रिय उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांधते हैं, इस बातके ज्ञापनार्थ संज्ञी पदका निर्देश किया है । वे संज्ञी पंचेन्द्रिय गुणस्थानोंके भेदसे चौदह प्रकार हैं । उनमें सासादनसम्यग्दृष्टि आदिक उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांधते हैं, इस बातके ज्ञापनार्थ मिथ्यादृष्टि पदका निर्देश किया है । वे मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदसे दो प्रकार हैं । उनमें अपर्याप्तक उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांधते हैं, इस बातके ज्ञापनार्थ 'सव पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ' ऐसा कहा है । पंचेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज इस तरह दो प्रकारके हैं । उनमें अकर्मभूमिज उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांधते हैं, किन्तु पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए जीव ही उत्कृष्ट स्थितिको बांधते हैं, इस बातके ज्ञापनार्थ 'कर्मभूमिज' पदका निर्देश किया है । भोगभूमियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके समान देव नारकियोंके तथा स्वयंप्रभ पर्वतके बाह्य भागसे लेकर स्वयंभूरमण समुद्र तक इस कर्मभूमिप्रतिभागमें उत्पन्न हुए तिर्यचोंके भी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धका प्रतिषेध प्राप्त होनेपर उसका निराकरण करनेके लिये 'अकर्मभूमिजके अथवा कर्मभूमिप्रतिभागोत्पन्न जीवके' ऐसा कहा है । अकर्मभूमिज पदसे देव-नारकियोंका ग्रहण करना चाहिये । कर्मभूमिप्रतिभाग पदका निर्देश करनेपर स्वयंप्रभ पर्वतके बाह्य भागमें उत्पन्न हुए जीवोंका ग्रहण किया गया है । 'संख्यातवर्पाशुष्क' कहनेपर अढ़ाई द्वीप-समुद्रोंमें उत्पन्न हुए तथा कर्मभूमिप्रतिभागमें उत्पन्न हुए जीवका ग्रहण करना चाहिये । 'असंख्यातवर्पाशुष्क' से देव नारकियोंका ग्रहण किया गया है । इस पदसे एक समय अधिक पूर्वकोटि आदि उपरिम आयुविकल्पोंसे संयुक्त तिर्यचों व मनुष्योंका ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, पूर्व सूत्रसे उनका

णेरइएसु संखेज्जवासाउअत्तमिदि भणिदे सच्चं ण ते अमंखेज्जवासाउआ, किंतु संखेज्ज-
वासाउआ चेव; समयाहियंपुच्चकोडिपहुडिउवरिमआउअवियण्णं असंखेज्जवासाउअत्त-
ब्भुवगमादो । कथं समयाहियंपुच्चकोडीए संखेज्जवामाए असंखेज्जवासत्तं ? ण, रायस्खो व
रूढिवलेण परिचत्तसगइस्स असंखेज्जवस्ससदस्स आउअविसेसग्गि वट्टमाणस्स गहणादो ।

चउग्गइसण्णिपंचिदियपज्जत्तमिच्छाइड्डीणं उक्कस्सइदिदिवंपडिसेहो णत्थि त्ति
जाणावणहं देवस्स वा मणुस्सस्स वा तिरिक्खस्स वा णेरइयस्स वा त्ति उत्तं । तिसु
वि वेदेसु उक्कस्सइदिदिवंपडिसेहो णत्थि त्ति जाणावणहमित्थिवेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा
णउंसयवेदस्स वा त्ति भणिदं । चरणविसेसाभावपटुपायणहं जलचरस्स वा थलचरस्स वा खग-
चरस्स वा त्ति भणिदं । तत्थ मच्छ-कच्छवादओ जलचरा, सीहँ-वय-वग्घादओ थलचरा,
गद्ध-ढँक-सेणादओ खगचरा । दंसणोवजोगजुत्ता उक्कस्सइदि ण वंधंति, णाणोवजोगजुत्ता
चेव वंधंति त्ति जाणावणहं सागारणिदेसो कदो । सुत्तो उक्कस्सइदि ण वंधदि, जग्गंतो

प्रतिषेध किया जा चुका है ।

शंका—देव व नारकी तो संख्यातवर्षायुष्क ही हांते हैं, फिर यहां उनका
ग्रहण असंख्यातवर्षायुष्क पदसे कैसे सम्भव है ?

समाधान—इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि सचमुचमें वे असंख्यातवर्षायुष्क
नहीं हैं, किन्तु संख्यातवर्षायुष्क ही हैं, परन्तु यहां एक समय अधिक पूर्वकोटिको आदि
लेकर आगेके आयुविकल्पोंको असंख्यातवर्षायुष्के भीतर स्वीकार किया गया है ।

शंका—एक समय अधिक पूर्वकोटिके संख्यातवर्षरूपता होते हुए भी
असंख्यातवर्षरूपता कैसे सम्भव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, राजवृक्ष (वृक्ष विशेष) के समान 'असंख्यातवर्ष' शब्द
रूढि वश अपने अर्थको छोड़कर आयुविशेषमें रहनेवाला यहां ग्रहण किया गया है ।

चारों गतियोंके संबन्धी पंचेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टियोंके उत्कृष्ट स्थितिके
बन्धका प्रतिषेध नहीं है, इस बातके ज्ञापनार्थ देवके, मनुष्यके, तिर्यंचके अथवा
नारकीके, ऐसा कहा है । तीनों ही वेदोंमें उत्कृष्ट स्थितिके बन्धका प्रतिषेध नहीं
है, इस बातके ज्ञापनार्थ 'स्त्रीवेदीके, पुरुषवेदीके अथवा नपुंसकवेदीके' ऐसा कहा
है । चरण अर्थात् गमनविशेषका अभाव बतलानेके लिये 'जलचरके, थलचरके
अथवा नभचरके' ऐसा कहा है । उनमें मत्स्य और कच्छप आदि जीव जलचर,
सिंह, वृक और वाघ आदि थलचर, तथा गृद्ध, ढँक और श्येन आदि नभचर जीव हैं ।
दर्शनोपयोगसे सहित जीव उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांधते हैं, किन्तु ज्ञानोपयोग
युक्त जीव ही उसे बांधते हैं, इस बातके बतलानेके लिये 'साकार' पदका निर्देश किया
गया है । सोया हुआ जीव उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांधता है, किन्तु जागृत जीव ही

१ ताप्रतिपाठोऽयम् । प्रतिपु 'समाहिय' इति पाठ । २ प्रतिपु '- सदस्स', ताप्रतौ 'सद (ह) स्स' इति पाठः ।
३ ताप्रतिपाठोऽयम् । अ-काप्रत्यो. 'जलचरा सीह-', आप्रतौ 'जलचरासि सीह-' इति पाठ ।

चेव बंधदि ति जाणावणहं जागारग्गहणं कदं । सुदोवजोगजुत्तो चेव उक्कस्सड्ढिदिं बंधदि, ण मदिउवजोगजुत्तो ति जाणावणहं सुदोवजोगजुत्तस्से ति भणिदं ।

उक्कस्सियाए ड्ढिदीए बंधपाओग्गसंकिलेसट्ठाणाणि असंखेज्जलोगमेत्ताणि अत्थि । तत्थ चरिमसंकिलेसट्ठाणेण उक्कस्सड्ढिदिं बंधदि ति जाणावणहं उक्कस्सड्ढिदीए उक्कस्सड्ढिसकिलेसे^१ वट्टमाणस्से ति भणिदं । उक्कस्सड्ढिदिवंधपाओग्गसेससंकिलेसट्ठाणेहि उक्कस्सड्ढिदिवंधस्स पडिसेहे पत्ते तेहि वि बंधदि ति जाणावणहं ईसिमज्झिमपरिणामस्से ति उत्तं । अधवा, उक्कस्सड्ढिदिवंधपाओग्गसंखेज्जलोगमेत्तसंकिलेसट्ठाणाणि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तखंडाणि कादूण तत्थ चरिमखंडस्स उक्कस्सड्ढिसंकिलेसो णाम । तत्थ वट्टमाणस्स उक्कस्सड्ढिदिवंधो होदि । सेसदुचरिमादिखंडेहि उक्कस्सड्ढिदिवंधपडिसेहे पत्ते तेहि वि उक्कस्सड्ढिदिवंधो होदि ति जाणावणहमीसिमज्झिमपरिणामस्से ति उत्तं । एवंविहेण जीवेण णाणावरणीयस्स तीसंसागरोवमकोडाकोडिडिदिवंधे पबद्धे तस्स णाणावरणीय-वेयणा कालदो उक्कस्सा ।

तव्वदिरित्तमणुक्कस्सा ॥ ९ ॥

उसे बांधता है, इस बातके ज्ञापनार्थ 'जागृत' पदका ग्रहण किया है। श्रुतोपयोग युक्त जीव ही उत्कृष्ट स्थितिको बांधता है, न कि मतिउपयोग युक्त जीव, इस बातके ज्ञापनार्थ 'श्रुतोपयोग युक्त जीवके' ऐसा कहा है।

उत्कृष्ट स्थितिके बन्ध योग्य संक्लेशस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं। उनमेंसे अन्तिम संक्लेशस्थानके द्वारा उत्कृष्ट स्थितिको बाधता है, इस बातके ज्ञापनार्थ 'उत्कृष्ट स्थितिके बन्ध योग्य उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेशमें वर्तमान' ऐसा कहा है। अब इससे उत्कृष्ट स्थितिके बन्ध योग्य - शेष संक्लेशस्थानोंके द्वारा उत्कृष्ट स्थितिके बन्धका निषेध प्राप्त होनेपर उनसे भी उक्त स्थितिको बांधता है, इस बातको जतलानेके लिये 'कुछ मध्यम परिणामोंसे युक्त जीवके' ऐसा कहा गया है। अथवा, उत्कृष्ट स्थितिके बन्ध योग्य असंख्यात लोक प्रमाण संक्लेशस्थानोंके पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र खण्ड करके उनमें अन्तिम खण्डका नाम उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेश है। इस अन्तिम खण्डमें रहनेवाले जीवके उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध होता है। अब इससे शेष द्विचरम आदिक खण्डोंके द्वारा उत्कृष्ट स्थितिके बन्धका प्रतिषेध प्राप्त होनेपर उनसे भी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध होता है, इस बातके ज्ञापनार्थ 'कुछ मध्यम परिणामोंसे युक्त जीवके' ऐसा कहा है। उपर्युक्त विशेषणोंसे विशिष्ट जीवके द्वारा ज्ञानावरणीयके तीस कोडा-कोडि सागरोपम प्रमाण स्थितिवन्धके बांधनेपर उसके ज्ञानावरणीयकी वेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है।

उससे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना होती है ॥ ९ ॥

१ प्रातिष्ठा 'उक्कस्सए ड्ढिसकिलेसे' इति पाठः ।

तदो वदिरित्तं तच्चदिरित्तं, उक्कस्सड्ढिदिवंधवदिरित्ता^१ अणुक्कस्सड्ढिदिवेयणा होदि त्ति उत्तं होदि । सा च अणेयपयारा त्ति तिस्से सामिणो वि अणेयविहा होंति । तेसिं परूवणं कस्सामो । तं जहा— तिण्णिवाससहरसमावाधं कादूण तीसंसागरोवमकांडाकोडि-डिदीए पवद्धाए उक्कस्सड्ढिदी होदि । पुणो अण्णेण जीवेण समऊणतीसंसागरोवमकांडा-कोडीसु वद्धासु पढमणुक्कस्सड्ढाणं होदि । एत्थ उक्कस्सड्ढिदिपमाणं संदिड्ढीए चत्तालीस-रूवाहियदुसदमेत्तं | २४० | । अणुक्कस्सुक्कस्सड्ढिदीए गुणचालीसरूवाहियदुसदमेत्ता | २३९ | । तदो अण्णेण जीवेण दुसमऊणुक्कस्सड्ढिदीए पवद्धाए विदियमणुक्कस्सड्ढाण होदि । तस्स पमाणमेदं | २३८ | । एदेण कमेण आवाधाकंदएण्णउक्कस्सड्ढिदीए पवद्धाए अण्णमणुक्कस्सड्ढाणं होदि । एत्थ आवाधाकंदयपमाणं तीसरूवाणि | ३० | । एदम्मि उक्कस्सड्ढिदिम्मि सोहिदे तदित्थड्ढिदिवंधड्ढाणमेत्तियं होदि | २१० | ।

संपहि उक्कस्सावाहा समऊणा होदि । कुदो ? आवाहाचरिमसमए पढमणिसेय-णिवादादो । संदिड्ढीए उक्कस्सावाधापमाणमड्ड | ८ | । पुणो समयीहियआवाधाकंदएण्ण-उक्कस्सड्ढिदीए पवद्धाए सो अण्णो अणुक्कस्सड्ढाणवियपो होदि | २०९ | । एदेण कमेण दोआवाधाकंदएहि ऊणुक्कस्सड्ढिदीए पवद्धाए सो अण्णो अणुक्कस्सड्ढिदिवियपो | १८० | ।

उससे व्यतिरिक्त अर्थात् उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे भिन्न अनुत्कृष्ट स्थितिबेदना होती है, यह सूत्रका अर्थ है । वह चूंकि अनेक प्रकारकी है, अत उसके स्वामी भी अनेक प्रकारके हैं । उनकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—तीन हजार वर्ष आवाधा करके तीस कोडाकोडि सागरोपम मात्र स्थितिके वांधनेपर उत्कृष्ट स्थिति होती है । फिर अन्य जीवके द्वारा एक समय कम तीस कोडाकोडि सागरोपम प्रमाण स्थितिके वांधनेपर प्रथम अनुत्कृष्ट स्थान होता है । यहांपर उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण संदष्टिमें दो सौ चालीस (२४०) अंक है । अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण दो सौ उनतालीस (२३९) अंक है । उससे अन्य जीवके द्वारा दो समय कम उत्कृष्ट स्थितिके वांधनेपर द्वितीय अनुत्कृष्ट स्थान होता है । उसका प्रमाण यह है—२३८ । इस क्रमसे आवाधाकाण्डकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिके वांधनेपर अन्य अनुत्कृष्ट स्थान होता है । यहां आवाधाकाण्डकका प्रमाण तीस अंक (३०) है । इसको उत्कृष्ट स्थितिमेंसे घटा देनेपर वहांका स्थितिवन्धस्थान इतना होता है—२४० - ३० = २१० ।

अब उत्कृष्ट आवाधा एक समय कम हो जाती है, क्योंकि, आवाधाके अन्तिम समयमें प्रथम निपेक निर्जीर्ण हो चुका है । संदष्टिमें उत्कृष्ट आवाधाका प्रमाण आठ (८) है । पश्चात् एक समय अधिक आवाधाकाण्डकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिके वांधनेपर वह अन्य अनुत्कृष्ट स्थानविकल्प होता है — २४० - (३० + १) = २०९ । इस क्रमसे दो आवाधाकाण्डकोंसे हीन उत्कृष्ट स्थितिके वांधनेपर वह अन्य अनुत्कृष्ट स्थिति-विकल्प होता है — २४० - ६० = १८० । इस प्रकार इसी क्रमसे एक समय कम दो

एवमेदेण कमेण समऊण-विसमऊणादिकमेण गिरंतरड्डाणाणि उप्पादेदच्चाणि जाव समऊणाचाहकंदयग्गहियधुवड्ढिदि त्ति । तिस्से पमाणं सड्ढी | ६० | । एदम्हादो समऊण-विसमऊणादिकमेण बंधाविय ओदारेदच्चं जाव सब्वविसुद्धसण्णिपंचिदियधुवड्ढिदि त्ति । पुणो धुवड्ढिदि बंधमाणस्स अण्णो अपुणरुत्तड्ढिदिवियप्पो होदि । एत्थ धुवड्ढिदिपमाण-मेक्कतीसं | ३१ | ।

संपहि एदिस्से हेड्डा सण्णिपंचिदिएसु ड्ढिदिवंधड्डाणाणि लब्भंति । कुदो ? सब्व-विसुद्धेण सण्णिपंचिदियपज्जेतेण पद्धजहण्णड्ढिदीए जहण्णड्ढिसंतसमाणाए धुवड्ढिदि त्ति गहणादो । तदो पंचिदिएसु ड्ढिदिवंधड्डाणाणि एत्तियाणि चेव लब्भंति ।

संपहि एदिस्से हेड्डा बंधं मोत्तूण ड्ढिदिसंतं घादिय एड्ढिसु ड्ढिदिसंतड्डाणपरूवणं कस्सामो । एत्थ संदिड्ढी—

०.०	०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००
०००	००१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००
० ०	०१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००
०००	१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००
०००	०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००१०००

धुवड्ढिदि त्ति एककीसं | ३१ |, एगड्ढिदिखडे त्ति संदिड्ढीए चत्तारि | ४ |, उत्कीरणकालो चत्तारि | ४ | । एवं ड्ढिविय ड्ढिदिड्डाणुप्पत्तिं भणिससामो । तं जहा—

एगो तसजीवो समऊणुक्कीरणद्दाए अहियधुवड्ढिदिसंतकम्मेण एड्ढिएसु पविड्डो ।

समय कम इत्यादि क्रमसे एक समय कम आवाधाकाण्डकसे अधिक ध्रुवस्थिति तक निरन्तर स्थानोको उत्पन्न कराना चाहिये । उसका प्रमाण साठ (३०-१=२९, ३ +२९=६०) है । इसमेंसे एक समय कम दो समय कम इत्यादि क्रमसे बन्ध करारकर सर्वविशुद्ध संज्ञी पंचेन्द्रियकी ध्रुवस्थिति तक उतारना चाहिये । पश्चात् ध्रुवस्थितिको बांधनेवाले जीवका अन्य अपुनरुक्त स्थितिविकल्प होता है । यहां ध्रुवस्थितिका प्रमाण इकतीस (३१) है ।

अब इसके नीचेके स्थितिवन्धस्थान संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें पाये जाते हैं, क्योंकि, सर्वविशुद्ध संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके द्वारा बांधी गई जघन्य स्थितिसत्त्व समान जघन्य स्थितिको ध्रुवस्थिति रूपसे ग्रहण किया गया है । इसलिये पंचेन्द्रियोंमें स्थितिवन्धस्थान इतने ही पाये जाते हैं ।

अब इसके नीचे वन्धको छोड़कर स्थितिसत्त्वका घात करके एकेन्द्रियोंमें स्थितिसत्त्वस्थानोंकी प्ररूपणा करते हैं । यहां संदृष्टि (मूलमें देखिये) । संदृष्टिमें ध्रुवस्थितिका प्रमाण ३१, एक स्थितिकाण्डकका प्रमाण ४, और उत्कीरणकालका प्रमाण ४ है । इस प्रकार स्थापित करके स्थितिस्थानोंकी उत्पत्तिको कहते हैं । यथा—

एक त्रस जीव एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक ध्रुवस्थितिसत्त्वसे

पुणो विदिओ जीवो समऊणुक्कीरणद्धाए अहियसमयाहियधुवड्ढिदीए सह एइंदिएसु उववण्णो । तदो अण्णो तदिओ जीवो समऊणुक्कीरणद्धाए अहियदुसमयाहियधुवड्ढिदीए सह एइंदिएसु उववण्णो । पुणो चउत्थो जीवो समऊणुक्कीरणद्धाए अहियतिसमयाहियधुवड्ढिदीए सह एइंदिएसु उववण्णो । पुणो अण्णो जीवो समऊणुक्कीरणद्धाए चदुसमयाहियधुवड्ढिदीए च एइंदिएसु उववण्णो । एवं समऊणुक्कीरणद्धाए एगसमयाहियधुवड्ढिदीए च ताव उप्पादे-दव्वं जाव समऊणुक्कीरणद्धाए एगसगलड्ढिदिखडएण च अब्भहियधुवड्ढिदीए एइंदिएसु पविट्ठो त्ति । एवं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तजीवा एगसमएण एइंदिएसु पवेसिदव्वा ।

पुणो एदेसु रूवाहियड्ढिदिकंदयमेत्तजीवेषु ड्ढिदिघादं करेमाणेषु धुवड्ढिदीए हेड्डा ड्ढिदिसंतट्ठाणुप्पत्तीए भण्णमाणए समऊणुक्कीरणद्धाए अहियधुवड्ढिदीए सह एइंदिएसु उप्पण्णेण पढमफालीए पादिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलदि । एदं ड्ढिदिसंतट्ठाणं पुणरुत्तं, धुवड्ढिदीए उवीर समुप्पत्तीदो । पुणो विदियफालिपदिदसमए चेव उक्कीरणद्धाए विदियसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तं चेव । एवं^१ णेदव्वं जाव ड्ढिदिखंडयचरिमफालि-मपादिय उक्कीरणद्धाए चरिमसमयं धेरदूण ड्ढिदो त्ति । पुणो एदमेव^२ चेव ड्ढिविय समऊणु-

एकेन्द्रियोंमें प्रविष्ट हुआ । फिर दूसरा जीव एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक और एक समयसे अधिक ध्रुवस्थितिके साथ एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । उससे अन्य तीसरा जीव एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक और दो समयोंसे अधिक ध्रुवस्थितिके साथ एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । पुन चतुर्थ जीव एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक और तीन समयोंसे अधिक ध्रुवस्थितिके साथ एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । पुनः अन्य जीव एक समय कम उत्कीरणकाल और चार समय अधिक ध्रुवस्थितिके साथ एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल और एक एक समय अधिक ध्रुवस्थितिके साथ एक समय कम उत्कीरणकाल और एक सम्पूर्ण स्थितिकाण्डकसे अधिक ध्रुवस्थितिके साथ एकेन्द्रियोंमें प्रविष्ट होने तक उत्पन्न कराना चाहिये । इस प्रकार पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र जीवोंको एक समयसे एकेन्द्रियोंमें प्रविष्ट कराना चाहिये ।

पुन एक अधिक स्थितिकाण्डक मात्र इन जीवोंके द्वारा स्थितिघात करते रहनेपर ध्रुवस्थितिके नीचे स्थितिसत्त्वस्थानोंकी उत्पत्तिका कथन करते समय एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक ध्रुवस्थितिके साथ एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए जीवके द्वारा प्रथम फालिके पतित कराये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है । यह स्थितिसत्त्वस्थान पुनरुक्त है, क्योंकि, उसकी ध्रुवस्थितिके ऊपर उत्पत्ति है । पुनः द्वितीय फालिके पतित होनेके समयमें ही उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है । यह भी स्थान पुनरुक्त ही है । इस प्रकार स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिको पतित न कराकर उत्कीरणकालके अन्तिम समयको लेकर स्थित जीव तक ले जाना चाहिये ।

वकीरणद्वाए सगलेगडिदिखंडएण च अहियधुवडिदीए एइंदिएसु उप्पण्णजीवेण पढमफालीए पादिदाए उक्कीरणद्वाए पढमसमओ गलदि । एद ड्ढिदिसंतट्ठाणं पुणरुत्तं होदि, धुवडिदीदो अहियत्तादो । विदियफालिपदिदसमए चैव उक्कीरणद्वाए विदियसमओ गलदि । एदं पि ट्ठाण पुणरुत्तं चैव । तदियफालिपदिदसमए उक्कीरणद्वाए तदियसमओ गलदि । ड्ढिदि-संतट्ठाणं पुणरुत्तं होदि । एव णेदव्व जाव अंतोमुहुत्तमेत्तड्ढिदिउक्कीरणसमयाणं दुचरिम-समओ ति । पुणो ड्ढिदिउक्कीरणकालचरिमसमए गलिदे पढमड्ढिदिखंडयस्स चरिमफाली पददि । एदमपुणरुत्तट्ठाणं होदि, धुवडिदिं पेक्खिदूण समज्जणट्ठाणादो ।

पुणो गमज्जणुक्कीरणद्वाए समज्जणड्ढिदिखंडएण च अहियधुवडिदीए सह एइंदिएसु उप्पण्णजीवेण पढमफालीए पादिदाए उक्कीरणद्वाए पढमसमओ गलदि । एद ट्ठाणं पुणरुत्तं होदि । विदियफालीए सह उक्कीरणद्वाए विदियसमए गलिदे वि पुणरुत्तट्ठाणं होदि । तदियफालीए सह उक्कीरणद्वाए तदियसमए गलिदे वि पुणरुत्तट्ठाणं होदि । एवं णेदव्वं जाव समज्जणुक्कीरणद्वामेत्तफालीओ पदिदाओ ति ।

पुणो ड्ढिदिउक्कीरणचरिमफालीए पदिदाए उक्कीरणद्वाए चरिमसमओ गलदि । एदम-पुणरुत्तट्ठाणं होदि । कुदो ? ड्ढिदिकंदयचरिमफालीए पदिदाए सेसड्ढिदिसंतं समज्जणधुव-

फिर इसको इसी प्रकार ही स्थापित करके एक समय कम उत्कीरणकाल और सम्पूर्ण एक स्थिति, एकसे अधिक ध्रुवस्थितिके साथ एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए जीवके द्वारा प्रथम फालिके पतित करानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है । यह स्थितिसत्त्वस्थान पुनरुक्त है, क्योंकि, वह ध्रुवस्थितिसे अधिक है । द्वितीय फालिके पतित होनेके समयमें ही उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है । यह भी स्थान पुनरुक्त ही है । तृतीय फालिके पतित होनेके समयमें उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त मात्र स्थितिके उत्कीरणकालके समयोंमें द्विचरम समय तक ले जाना चाहिये । पश्चात् स्थितिउत्कीरणकालके अन्तिम समयके गलनेपर प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालि पतित हो चुकती है । यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, ध्रुवस्थितिकी अपेक्षा यह स्थान एक समय कम है ।

पुनः एक समय कम उत्कीरणकालसे और एक समय कम स्थितिकाण्डकसे अधिक ध्रुवस्थितिके साथ उत्पन्न हुए जीवके द्वारा प्रथम फालिके पतित करानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है । यह स्थान पुनरुक्त है । द्वितीय फालिके साथ उत्कीरणकालके द्वितीय समयके गलनेपर भी पुनरुक्त स्थान होता है । तृतीय फालिके साथ उत्कीरणकालके तृतीय समयके गलनेपर भी पुनरुक्त स्थान होता है । इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल मात्र फालियोंके पतित होने तक ले जाना चाहिये ।

तत्पश्चात् स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतित होनेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है । यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतित होनेपर शेष स्थितिसत्त्व एक समय कम ध्रुवस्थिति प्रमाण होकर फिर

द्विदिमेत्तं होदूण पुणो उक्कीरणद्वाए चरिमसमए गलिदे उवगयदुसमऊणधुवद्विदितादो ।

पुणो तदियजीवेण समऊणुक्कीरणद्वाए दुरूऊणद्विदिकंदएण च अब्भहियधुवद्विदि-
संतकम्मिएण पढमद्विदिकंदयस्स पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्वाए पढमसमओ गलिदि ।
एमो अणुक्कस्सद्विदिवियप्पो पुणरुत्तो होदि । पुणो तेणेव विदियफालीए अवणिदाए
द्विदिखंडयउक्कीरणद्वाए विदियसमओ गलिदि । [एदं] द्विदिद्वानं पुणरुत्तं होदि । तेणेव
जीवेण पुणो तस्सेव द्विदिखंडयस्स तदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्वाए तदियसमओ
गलिदि । एवमेदेण कमेण समऊणुक्कीरणद्वामेत्तसमएसु गलिदेसु तेत्तियमेत्ताओ चैव फालीओ
पदंति पुणरुत्तद्वानाणि च उप्पज्जंति । पुणो एदेणेव जीवेण पढमद्विदिखंडयस्स चरिमुक्कीरण-
समएण सह चरिमफालीए अवणिदाए अपुणरुत्तद्वानं होदि । कुदो ? सेसद्विदिसंतकम्मस्म त्ति-
रूवूणधुवद्विदिपमाणत्तदंसणादो ।

पुणो चउत्थजीवेण समऊणुक्कीरणद्वाए तिरूऊणद्विदिखंडएण अहियधुवद्विदि-
संतकम्मिएण पढमद्विदिखंडयस्स पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्वाए पढमसमओ
गलिदि, पुणरुत्तद्विदिद्वानमुप्पज्जदि । पुणो तेणेव तस्स विदियफालीए अवणिदाए उक्कीरण-
द्वाए तदियसमओ गलिदि । एदं पि द्वानं पुणरुत्तमेव । एवं समऊणुक्कीरणद्वामेत्तपुणरुत्त-

उत्कीरणकालके अन्तिम समयके गल जानेपर दो समय कम ध्रुवस्थिति पायी जाती है ।

पुनः एक समय कम उत्कीरणकाल और दो रूप कम स्थितिकाण्डकसे अधिक
ध्रुवस्थितिसत्त्व संयुक्त तृतीय जीवके द्वारा प्रथम स्थितिकाण्डक सम्बन्धी प्रथम फालिके
अलग करनेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है । यह अनुत्कृष्ट स्थितिविकल्प
पुनरुक्त है । पश्चात् उसी जीवके द्वारा द्वितीय फालिके अलग करनेपर स्थितिकाण्डक-
उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है । यह स्थितिस्थान पुनरुक्त है । उक्त
जीवके द्वारा फिरसे उसी स्थितिकाण्डककी तीसरी फालिके अलग किये जानेपर
उत्कीरणकालका तीसरा समय गलता है । इस प्रकार इस क्रमसे एक समय कम
उत्कीरणकाल प्रमाण समयोंके गल जानेपर उतनी ही फालियां पतित होती हैं और
पुनरुक्त स्थान उत्पन्न होते हैं । पश्चात् इसी जीवके द्वारा प्रथम स्थितिकाण्डकके
अन्तिम समयके साथ अन्तिम फालिके अलग किये जानेपर अपुनरुक्त स्थान होता
है, क्योंकि, शेष स्थितिसत्त्व तीन रूपोंसे हीन ध्रुवस्थिति प्रमाण देखा जाता है ।

पुन चतुर्थ जीवके द्वारा एक समय कम उत्कीरणकालसे और तीन समय
कम स्थितिकाण्डकसे अधिक ध्रुवस्थितिसत्त्वकर्मिक होकर प्रथम स्थितिकाण्डककी
प्रथम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है और
पुनरुक्त स्थितिस्थान उत्पन्न होता है । पश्चात् उसी जीवके द्वारा उक्त स्थितिकाण्डककी
द्वितीय फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है । यह
भी स्थान पुनरुक्त ही है । इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुक्त

ट्टाणेसु उप्पण्णेसु पुणो पढमट्टिदिकंदयरस चरिमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चरिम-
समओ मलदि । ताधे अपुणरुत्तट्टाणमुप्पज्जदि । कुदो ? घादिदसेसट्टिदिसंतकम्मस्स चदु-
रूवृणधुवट्टिदिपमाणत्तुवलंभादो । एवमेदेण कमेण ट्टिदिखडयमेत्तअपुणरुत्तट्टाणाणि उप्पादिय
पुणो उक्कीरणदाए चरिमसमएण सह चरिमफालि धेरदूण ट्टिदजीवेण चरिमफालीए अव-
णिदाए अण्णमपुणरुत्तट्टाणं होदि । कुदो ? घादिदसेसट्टिदिसंतकम्मस्स रूवाहियट्टिदिखंडएण्ण-
धुवट्टिदिपमाणत्तदंसणादो । एवं कदे रूवाहियट्टिदिखंडयमेत्ताणि चेव अपुणरुत्तट्टाणाणि
लद्धाणि हवंति । घादिदसेसस्वजहण्णट्टिदिसंतकम्मं पेक्खिदूण पढमट्टिदिखडयं घादिय
ट्टिदिदमेसुक्कस्सट्टिदिसंतकम्मं ट्टिदिकंदयमेत्तेण अहियं होदि । पुणो एवं ट्टिदिसंतकम्म-
ट्टाणाणं विदियट्टिदिकंदयमास्सिदूण अपुणरुत्तट्टाणुप्पत्ति वत्तइस्सामो । त जहा— एगेग-
सगउत्तरकमेण ट्टिदिसंतं धेरदूण ट्टिदरूवाहियकंदयमेत्तजीवेषु स्वजहण्णट्टिदिसंतकम्मि-
एण विदियट्टिदिखंडयस्स पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलदि ।
ताधे अपुणरुत्तट्टाणं उप्पज्जदि, पुब्बिल्लट्टिदिसंतकम्मादो एदस्स ट्टिदिसंतकम्मस्स सम-
उणत्तदंसणादो । पुणो एदेणेव विदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए विदियसमओ
गलदि । एदं पि अपुणरुत्तट्टाणं होदि । एवं समउणुक्कीरणद्धामेत्तफालीओ पादिय सम-

स्थानोंके उत्पन्न होनेपर पुनः प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है । तब अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होना है, क्योंकि, उस समय घातनेसे शोष रहा स्थितिसन्तकर्म चार रूपोंसे कम ध्रुवस्थिति प्रमाण पाया जाता है । इस प्रकार इस क्रमसे स्थितिकाण्डक प्रमाण अपुनरुक्त स्थानोंको उत्पन्न कराके पश्चात् उत्कीरणकालके अन्तिम समयके साथ अन्तिम फालिको लेकर स्थित जीवके द्वारा अन्तिम फालिके अलग किये जानेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि, घातनेसे शोष रहा स्थितिसन्तकर्म एक अधिक स्थितिकाण्डकसे हीन ध्रुवस्थिति प्रमाण देखा जाता है । ऐसा करनेपर एक अधिक स्थितिकाण्डकके बराबर ही अपुनरुक्त स्थान प्राप्त होते हैं । घातनेसे शोष रहे समस्त जघन्य स्थितिसत्कर्मकी अपेक्षा प्रथम स्थितिकाण्डकका घात करके स्थापित क्रिया हुआ शोष उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म स्थितिकाण्डक मात्रसे अधिक होता है ।

अब इस प्रकारसे स्थितिसत्कर्मस्थानोंके द्वितीय स्थितिकाण्डकका आश्रय करके अपुनरुक्त स्थानोंकी उत्पत्तिको कहते हैं । यथा—एक एक समयकी अधिकताके क्रमसे स्थिति-
सत्त्वको लेकर स्थित एक अधिक स्थितिकाण्डक मात्र जीवोंमेंसे सर्वजघन्यस्थितिसत्क-
र्मिक जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके अलग किये जानेपर उत्की-
रणकालका प्रथम समय गलता है । उस समय अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है,
क्योंकि, पूर्वके स्थितिसत्कर्मकी अपेक्षा यह स्थितिसत्कर्म एक समय कम देखा जाता है ।
फिर इसी जीवके द्वारा द्वितीय फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय
गलता है । यह भी अपुनरुक्त स्थान होता है । इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल

१ ताप्रतावतः प्राक् ' एव ममउणुक्कीरणद्धामेत्तट्टाणं होदि ' इत्यधिक पाठः ।

ऊणुक्कीरणद्दामेत्ताणि चैव अपुणरुत्तद्वाणाणि उप्पादेदव्वाणि । पुणो उक्कीरणद्वाए चरिम-
समएण विदियद्धिदिखंडयचरिमफालिं धेरदूण द्दिदं जीवमेवं चैव द्विविय पुणो एदेसु जीवेसु
सव्वुक्कस्सद्धिदिसंतकम्मिएण विदियद्धिदिखंडयस्स पढमफालीए अवणिदाए पढमसमओ
गलदि । एदं ठाणं पुणरुत्तं होदि । विदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्वाए विदिय-
समओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तमेव । एवं समऊणुक्कीरणद्दामेत्तफालीओ जाव पदंति
ताव पुणरुत्ताणि चैव द्वाणाणि उप्पज्जंति । पुणो एदेणेव विदियद्धिदिखंडयस्स चरिम-
फालीए अवणिदाए उक्कीरणद्वाए चरिमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि ।
कुदो ? पुव्वं ठविदूणागदद्धिदिसंतकम्मं पेक्खिदूण एदस्स द्दिदिसंतकम्मस्स समऊणत्त-
दंसणादो । पुणो एदम्हादो विदियजीवेण विदियद्धिदिखंडयस्स पढमफालीए अवणिदाए
उक्कीरणद्वाए पढमसमओ गलदि । एदं पुणरुत्तद्वाणं होदि । विदियफालीए अवणिदाए
उक्कीरणद्वाए विदियसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तमेव । एवं समऊणुक्कीरणद्वा-
मेत्तफालीसु पदमाणियासु पुणरुत्ताणि चैव द्वाणाणि उप्पज्जंति । पुणो एदेणेव विदिय-
द्धिदिखंडयस्स चरिमफालीए पादिदाए उक्कीरणद्वाए चरिमसमओ गलदि । एवं

प्रमाण फालियोंको अलग करके एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण ही अपुनरुक्त
स्थानोंको उत्पन्न कराना चाहिये । पश्चात् उत्कीरणकालके अन्तिम समयमें द्वितीय
स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिको लेकर स्थित जीवको इसी प्रकार स्थापित करके
फिर इन जीवोंमेंसे सर्वोत्कृष्ट स्थितिसत्कर्मिक जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी
प्रथम फालिके अलग किये जानेपर प्रथम समय गलता है । यह स्थान पुनरुक्त है ।
द्वितीय फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है ।
यह भी स्थान पुनरुक्त ही है । इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण
फालियां जब तक अलग होती हैं तब तक पुनरुक्त ही स्थान उत्पन्न होते हैं ।
फिर इसी जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके अलग
किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है । यह अपुनरुक्त स्थान
है, क्योंकि, पहिले स्थापित करके आये हुए स्थितिसत्कर्मकी अपेक्षा यह स्थिति-
सत्कर्म एक समय कम देखा जाना है ।

तत्पश्चात् इस जीवकी अपेक्षा द्वितीय जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी
प्रथम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है । यह
पुनरुक्त स्थान होता है । द्वितीय फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय
समय गलता है । यह भी स्थान पुनरुक्त ही है । इस प्रकार एक समय कम
उत्कीरणकाल प्रमाण फालियोंके अलग होने तक पुनरुक्त ही स्थान उत्पन्न
होते हैं । पश्चात् इसी जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके अलग
किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है । इस प्रकार अन्तिम समयके

[चरिमसमए] गलिदे एदमपुणरुत्तङ्गाणं होदि, चरिमफालीए पादिदाए पुव्विल्लजीवड्ढिसंतेण सेसड्ढिसंतं समाणं होदूण पुणो उक्कीरणद्धाए चरिमसमए गलिदे ततो समऊणं होदि त्ति। एदमत्थपदं उवरि सव्वत्थ वत्तव्वं ।

पुणो ततो तदियजीवेण विदियड्ढिसंखंडयस्स पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलिदि । गलिदे पुणरुत्तङ्गाणं होदि । विदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए विदियसमओ गलिदि । एदं पि पुणरुत्तङ्गाणं होदि । पुणो तदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए तदियसमओ गलिदि । एदं पि पुणरुत्तङ्गाणं होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्तफालीओ जाव पदंति ताव पुणरुत्तङ्गाणाणि चेव उप्पज्जंति । पुणो एदेणेव चरिमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गलिदि । एदमपुणरुत्तङ्गाणं होदि । कुदो ? चरिमफालीए पादिदाए पुव्विल्लड्ढिसंतकम्मणेण सरिसत्तं पत्तस्स सेसड्ढिसंतकम्मस्स उक्कीरणद्धाए चरिमसमयगलणेण समऊणत्तदंसणादो ।

पुणो ततो चउत्थजीवेण विदियड्ढिकंदयस्स पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलिदि । विदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए [विदियसमओ गलिदि । पुणो तदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए] तदियसमओ गलिदि । एदं पि पुणरुत्तङ्गाणं होदि ।

गलनेपर यह अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि, अन्तिम फालिके अलग होनेपर पूर्वोक्त जीवके स्थितिसत्त्वसे शेष स्थितिसत्त्व समान हो करके पश्चात् उत्कीरणकालके अन्तिम समयके गलनेपर उससे एक समय कम हो जाता है। यह अर्थपद आगे राय जगह कहना चाहिये ।

तत्पश्चात् उससे तीसरे जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है । उसके गलनेपर पुनरुक्त स्थान होता है । द्वितीय फालिके नष्ट होनेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है । यह भी पुनरुक्त स्थान है । फिर तृतीय फालिके नष्ट होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है । यह भी पुनरुक्त स्थान है । इस प्रकार जब तक एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां पतित होती हैं तब तक पुनरुक्त स्थान ही उत्पन्न होते हैं । पश्चात् इसी जीवके द्वारा अन्तिम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है । यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, अन्तिम फालिके पतित होनेपर पहिले जीवके स्थितिसत्त्वकर्मसे समानताको प्राप्त हुआ शेष स्थितिसत्त्वकर्म उत्कीरणकालके अन्तिम समयके गलनेसे एक समय कम देखा जाता है ।

पुनः उससे चतुर्थ जीवके द्वारा द्वितीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है । द्वितीय फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका [द्वितीय समय गलता है । पश्चात् तृतीय फालिके विघटित

१ प्रतिपु 'सेसड्ढिसंतममाण' इति पाठ । २ प्रतिपु 'सरिसत्तं' पि तस्सेसड्ढिसंतकम्मस्स ; तापत्तो 'सरिसत्तं पत्तसड्ढिसंतकम्मस्स' इति पाठ ।

एवं समञ्जणुक्कीरणद्धामेत्तफालीओ जाव पदंति ताव पुणरुत्ताणि चेव द्वाणाणि उप्पज्जंति । पुणो चरिमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि । कुदो ? चरिमफालीए अवणिदाए पुव्विल्लड्डिदिसंतकम्मेण सरिसत्तमुवगयस्स सेसड्डिदिसंतकम्मस्स उक्कीरणद्धाचरिमसमयगलणेण समञ्जणत्तदंसणादो । एवमेदेण कमेण ड्डिदिकंदयमेत्ताणि समञ्जणुक्कीरणद्धाए अहियाणि अपुणरुत्तड्डिदिसंतद्वाणाणि उप्पाइय पुणो पच्छा पुव्विल्लड्डिविदजीवादो अपुणरुत्तद्वाणुप्पत्ती वत्तवा । तं जहा — तेण पुव्वणिरुद्धजीवेण चरिमफालीए अवणिदाए चरिमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि । कुदो ? चरिमफालीए पदिदाए पुव्विल्लड्डिदिसंतकम्मेण सरिसत्तमुवगयस्स ड्डिदिसंतकम्मस्स अधड्डिदिगलणेण समञ्जणत्तदंसणादो । एवं विदियपरिवाडी गदा ।

संपहि तदियपरिवार्डिं वत्तइस्सामो । तं जहा— एदेसु रूवाहियड्डिदिकंदयमेत्त-
जीविसु सव्वजहण्णड्डिदिसंतकम्मिण्ण तदियड्डिदिकंदयस्स पढमफालीए अवणिदाए उक्की-
रणद्धाए पढमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि, अधड्डिदिगलणेण पुव्विल्लड्डिदिं
पडुच्च समञ्जणत्तदंसणादो । चरिमफालिं मोत्तूण सेसफालीहिंतो णापुणरुत्तद्वाणं उप्पज्जदि,

किये जानेपर उत्कीरणकालका] तृतीय समय गलता है । यह भी पुनरुक्त स्थान होता है । इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां जब तक पतित होती हैं तब तक पुनरुक्त स्थान ही उत्पन्न होते हैं । पश्चात् अन्तिम फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है । यह अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि, अन्तिम फालिके विघटित होनेपर पूर्व स्थितिसत्कर्मसे समानताको प्राप्त हुआ शेष स्थितिसत्कर्म उत्कीरणकाल सम्बन्धी अन्तिम समयके गलनेसे एक समय कम देखा जाता है । इस प्रकार इस क्रमसे स्थितिकाण्डक प्रमाण व एक समय कम उत्कीरणकालसे अधिक अपुनरुक्त स्थितिसत्त्वस्थानोंको उत्पन्न कराकर फिर पश्चात् पहिले स्थापित जीवकी अपेक्षा अपुनरुक्त स्थानोंकी उत्पात्ति कही जाती है । यथा— उक्त विवक्षित पूर्व जीवके द्वारा अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर अन्तिम समय गलता है । यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, अन्तिम फालिके विघटित होनेपर पहिलेके स्थितिसत्कर्मसे समानताको प्राप्त हुआ स्थितिसत्कर्म अध स्थितिके गलनेसे एक समय देखा जाता है । इस प्रकार द्वितीय परिपाटी समाप्त हुई ।

अब तृतीय परिपाटीको कहते हैं । यथा— इन एक अधिक स्थितिकाण्डक प्रमाण जीवोंसे सर्वजघन्यस्थितिसत्कर्मिक जीवके द्वारा तृतीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है । यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, अध स्थितिके गलनेसे पूर्वोक्त स्थितिकी अपेक्षा यह स्थिति एक समय कम देखी जाती है । अन्तिम फालिको छोड़ शेष फालियोंसे अपुनरुक्त

तत्थ द्विदीणमायामस्स घादाभावादो । पुणो तेणेव विदियफालीए अवणिदाए उक्कीरण-
द्धाए विदियसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तङ्गाणं होदि । तदियफालीए अवणिदाए उक्की-
रणद्धाए तदियसमओ गलदि । एदं अपुणरुत्तङ्गाणं होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्ताणि
चेव ङाणाणि अपुणरुत्ताणि उप्पादेदच्चाणि ।

पुणो उक्कीरणद्धाचरिमसमएण द्विदिकंदयचरिमफालिं तथा चेव द्विविय पुणो
एदेसु अप्पिदजीवेसु सच्चुक्कस्सद्विदिसंतकम्मियजीवेण तदियद्विदिकंदयपढमफालीए अवणि-
दाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलदि । एदं पुणरुत्तङ्गाणं होदि । विदियफालीए
अवणिदाए उक्कीरणद्धाए विदियसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तङ्गाणं । तदियफालीए
अवणिदाए उक्कीरणद्धाए तदियसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तङ्गाणं होदि । एवं
समऊणुक्कीरणद्धामेत्ताणि पुणरुत्तङ्गाणाणि गच्छंति । पुणो तदियद्विदिकंदयस्स चरिम-
फालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तङ्गाणं होदि । कुदो ?
चरिमफालीए अवणिदाए सेसद्विदिसंतकम्मस्स पुच्चिल्लद्विदिसंतकम्मेण सरिसत्तं पत्तस्स
अवद्विदिगलणेणं समऊणत्तदंसणादो ।

पुणो एदम्हादो विदियजीवेण तदियद्विदिकंदयस्स पढमफालीए अवणिदाए उक्की-

स्थान नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि, उनमें स्थितियोंके आयामका घात सम्भव नहीं है ।
पश्चात् उसी जीवके द्वारा द्वितीय फालिके अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका
द्वितीय समय गलता है । यह अपुनरुक्त स्थान है । तृतीय फालिके अलग होनेपर
उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है । यह अपुनरुक्त स्थान है । इस प्रकार
एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण ही अपुनरुक्त स्थानोंको उत्पन्न कराना चाहिये ।

अब उत्कीरणकालके अन्तिम समयमें स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिको
उसी प्रकार स्थापित करके फिर इन विवाक्षित जीवोंमेंसे सर्वोत्कृष्टस्थितिसत्कर्मिक
जीवके द्वारा तृतीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर
उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है । यह पुनरुक्त स्थान है । द्वितीय फालिके
विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है । यह भी पुनरुक्त
स्थान है । तृतीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है ।
यह भी पुनरुक्त स्थान है । इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकालके बराबर पुनरुक्त
स्थान जाते हैं । पश्चात् तृतीय स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित होनेपर
उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है । यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि,
अन्तिम फालिके विघटित होनेपर शेष स्थितिसत्कर्म पूर्वके स्थितिसत्कर्मसे समानताको
प्राप्त स्थितिसत्कर्म अधःस्थितिके गलनेसे एक समय कम देखा जाता है ।

तत्पश्चात् इससे दूसरे जीवके द्वारा तृतीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके

रणद्धाए [पढमसमओ गलदि । एदं पुणरुत्तद्वाणं होदि । विदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए] विदियसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तद्वाणं होदि । तदियफालीए अव-
णिदाए उक्कीरणद्धाए तदियसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तद्वाणं होदि । एवं समऊ-
णुक्कीरणद्धामेत्तेसु पुणरुत्तद्वाणेसु । पुणो एदेणेव तदियद्विदिखंडयस्स चरिमफालीए अव-
णिदाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि ।

पुणो तदियजीवेण तदियद्विदिखंडयस्स पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए
पढमसमओ गलदि । एदं पुणरुत्तद्वाणं होदि । पुणो विदियफालीए अवणिदाए उक्कीरण-
द्धाए विदियसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तद्वाणं होदि । एदेणेव तदियफालीए अवणिदाए
उक्कीरणद्धाए तदियसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तं होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धा-
मेत्तेसु पुणरुत्तद्वाणेसु गदेसु तदो तदियकंदयचरिमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए
चरिमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि । कारणं सुगमं ।

पुणो चउत्थजीवेण तदियद्विदिखंडयस्स पढमफालीए [अवणिदाए] पढमसमओ गलदि ।
एदं पुणरुत्तद्वाणं होदि । विदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए विदियसमओ गलदि । एदं
पि पुणरुत्तद्वाणं होदि । तदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए तदियसमओ गलदि । एदं

अलग किये जानेपर उत्कीरणकालका [प्रथम समय गलता है । यह पुनरुक्त स्थान
है । द्वितीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका] द्वितीय समय गलता है ।
यह भी पुनरुक्त स्थान है । तृतीय फालिके अलग होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय
समय गलता है । यह भी पुनरुक्त स्थान है । यही क्रम एक समय कम उत्कीरण-
काल प्रमाण पुनरुक्त स्थानोंमें चालू रहता है । पश्चात् इसी जीवके द्वारा तृतीय
स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम
समय गलता है । यह अपुनरुक्त स्थान है ।

पुनः तृतीय जीवके द्वारा तृतीय स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिके विघटित
किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है । यह पुनरुक्त स्थान है ।
पश्चात् द्वितीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है ।
यह भी पुनरुक्त स्थान है । इसी जीवके द्वारा तृतीय फालिके विघटित किये जानेपर
उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है । यह भी पुनरुक्त स्थान है । इस प्रकार
एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुक्त स्थानोंके वीतनेपर फिर तृतीय
स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय
गलता है । यह अपुनरुक्त स्थान है । इसका कारण सुगम है ।

तत्पश्चात् चतुर्थ जीवके द्वारा तृतीय स्थितिकाण्डककी प्रथम
फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है ।
यह पुनरुक्त स्थान है । द्वितीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरण-
कालका द्वितीय समय गलता है । यह भी पुनरुक्त स्थान है । तृतीय फालिके

पि' पुणरुत्तद्वाणं होदि । एवं ताव पुणरुत्तद्वाणाणि उत्पज्जंति जाव समज्जणुक्कीरणद्धा-
मेत्तफालीओ पदिदाओ त्ति । पुणो चरिमफालीए [अवणिदाए] उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ
गलदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि । कारणं सुगमं । एवं जाणिदूण रूवूणुक्कीरणद्धाए
अहियइदिखंडमेत्तद्वाणाणि [णेदच्चाणि] । पुणो अंतिमजीवेण पुव्वं ठविदूणागदचरिम-
फालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तद्वाणं होदि । एवं
तदियपरिवाडी परूविदा । एवं धुवड्ढिदीदो समुप्पज्जमाणपलिदोवमस्स असंखेज्जीद-
भागमेत्तद्दिदिखंडयाणि अस्सिदूण गिरंतरद्वाणपरूवणा कादव्वा ।

संपहि संपुणुक्कीरणद्धाए एगड्ढिदिखंडएण च अहियएइंदियड्ढिदिबंधमेत्तद्दिदि-
संतकम्मिएण पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए एगो समओ गलदि । एद्रमपुणरुत्त-
द्वाणं होदि । विदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए विदियसमओ गलदि । एदं पि
अपुणरुत्तद्वाणं होदि । तदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए तदियसमओ गलदि ।
एदं पि अपुणरुत्तद्वाणं होदि । एव रूवूणुक्कीरणद्धामेत्तेसु अपुणरुत्तद्वाणेसु समुप्पणेसु ।
एदमेवं चैव ड्ढिविय पुणो एदेसु गिरुद्धजीवेसु सच्चुक्कस्सड्ढिदिसंतकम्मिएण अप्पिद-
ड्ढिदिखंडयस्स पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलदि । एदं पुणरुत्त-

विघटित होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है । यह भी पुनरुक्त स्थान है ।
इस प्रकार तब तक पुनरुक्त स्थान उत्पन्न होते हैं जब तक एक समय कम
उत्कीरणकाल प्रमाण फालियां विघटित नहीं हो जातीं । पश्चात् अन्तिम फालिके
[विघटित होनेपर] उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है । यह अपुनरुक्त
स्थान है । इसका कारण सुगम है । इस प्रकार जानकर एक कम उत्कीरणकालसे
अधिक स्थितिकाण्डक प्रमाण स्थानोंको [ले जाना चाहिये] । तत्पश्चात् अन्तिम जीवके
द्वारा पूर्वमें स्थापित करके आयी हुई अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर
उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है । यह अपुनरुक्त स्थान है । इस प्रकार तृतीय
परिपाटीकी प्ररूपणा की है । इस प्रकार ध्रुवस्थितिसे उत्पन्न होनेवाले पल्योपमके
असंख्यातवें भाग मात्र स्थितिकाण्डकोका आश्रय करके निरन्तर स्थानोंकी प्ररूपणा
करना चाहिये ।

अब सम्पूर्ण उत्कीरणकालसे और एक स्थितिकाण्डकसे अधिक एकेन्द्रिय
स्थितिबन्धके बराबर स्थितिसत्कर्म युक्त जीवके द्वारा प्रथम फालिके विघटित किये
जानेपर उत्कीरणकालका एक समय गलता है । यह अपुनरुक्त स्थान है । द्वितीय
फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है । यह भी
अपुनरुक्त स्थान है । तृतीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय
गलता है । यह भी अपुनरुक्त स्थान है । यही क्रम एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण
अपुनरुक्त स्थानोंके उत्पन्न होने तक चालू रहता है । अब इसे यों ही स्थापित करके
पश्चात् इन विवक्षित जीवोंमेंसे सर्वोत्कृष्टस्थितिसत्कर्मिक जीवके द्वारा विवक्षित
स्थितिकाण्डकी प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय

ड्वाणं होदि । एदेणेव विदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए विदियसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तड्वाणं होदि । तदियफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए तदियसमओ गलदि । एदं पि पुणरुत्तड्वाणं होदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्तेसु पुणरुत्तड्वाणेषु गदेसु । पुणो अप्पिदड्ढिदिसंखंडयस्स चरिमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तड्वाणं होदि, चरिमफालीए गदाए पुच्चिल्लअपुणरुत्तड्ढिदिसंतेण समाणत्तमुव-
गयस्स ड्ढिदिसंतस्स अधड्ढिदिगलणेण ततो समऊणत्तदंसणादो ।

पुणो विदियजीवेण पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलदि । विदियफालीए अवणिदाए तिस्से विदियसमओ गलदि । तदियफालीए अवणिदाए तदिय-
समओ गलदि । एवं समऊणुक्कीरणद्धामेत्तेसु पुणरुत्तड्वाणेषु गदेसु चरिमफालीए अवणि-
दाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तड्वाणं होदि । कारणं पुवं व वत्तव्वं ।

पुणो तदियजीवेण पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलदि । विदियफालीए अवणिदाए तिस्से विदियसमओ गलदि । तदियफालीए अवणिदाए तिस्से
तदियसमओ गलदि । एवं दुसमयूणउक्कीरणद्धामेत्तेसु पुणरुत्तड्वाणेषु गदेसु पुणो एदेणेव

गलता है। यह पुनरुक्त स्थान है। इसी जीवके द्वारा द्वितीय फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका द्वितीय समय गलता है। यह भी पुनरुक्त स्थान है। तृतीय फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका तृतीय समय गलता है। यह भी पुनरुक्त स्थान है। यही क्रम एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुक्त स्थानोंके वीतने तक चालू रहता है। फिर विवक्षित स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित होनेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, अन्तिम फालिके वीतनेपर पूर्वके अपुनरुक्त स्थितिसत्त्वसे समानताको प्राप्त हुआ यह स्थितिसत्त्व अधःस्थितिके गलनेसे उसकी अपेक्षा एक समय कम देखा जाता है।

तत्पश्चात् द्वितीय जीवके द्वारा प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरण-
कालका-प्रथम समय गलता है। द्वितीय फालिके विघटित होनेपर उसका द्वितीय
समय गलता है। तृतीय फालिके विघटित होनेपर उसका तृतीय समय गलता है।
इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुक्त स्थानोंके वीतनेपर जब
अन्तिम फालि विघटित की जाती है तब उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है।
यह अपुनरुक्त स्थान है। इसकेकारणका कथन पहिलेके ही समान करना चाहिये।

पुन- तृतीय जीवके द्वारा प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका
प्रथम समय गलता है। द्वितीय फालिके विघटित किये जानेपर उसका द्वितीय समय
गलता है। तृतीय फालिके विघटित किये जानेपर उसका तृतीय समय गलता है।
इस प्रकार दो समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुक्त स्थानोंके वीतनेपर फिर

चरिमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तङ्गाणं होदि । कारणं सुगमं ।


पुणो चउत्थजीवेण पढमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए पढमसमओ गलदि । एदं पुणरुत्तङ्गाणं होदि । बिदियाए फालीए अवणिदाए तिस्से बिदियसमओ गलदि । तदियाए अवणिदाए तिस्से तदियसमओ गलदि । एदेणेव कमेण रूवूणुक्कीरणद्धामेत्तेसु पुणरुत्तङ्गाणेसु उप्पण्णेसु पुण पच्छा एदेणेव चरिमफालीए पादिदाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गलदि । एदमपुणरुत्तङ्गाणं होदि । कारणं सुगमं ।

एवं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तजीवे अस्सिदूण रूवूणुक्कीरणद्धाए अहियकंदयमेत्तअपुणरुत्तङ्गाणाणि उप्पाइय पुणो पुव्विल्लंतिमड्विदजीवमस्सिदूण अपुणरुत्तङ्गाणुप्पत्तिं वत्तइस्सामो । तं जहा— अंतिमजीवेण अप्पिदिद्विदिखंडयस्स चरिमफालीए अवणिदाए उक्कीरणद्धाए चरिमसमओ गलदि जं सेसमेइंदियउक्कस्सिद्विदिसंतकम्मं होदि । एदमपुणरुत्तङ्गाणं, पुव्वमणुप्पणत्तादो । एत्थ एइंदियद्विदी णाम संदिद्वीए दो

इसी जीवके द्वारा अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है । यह अपुनरुक्त स्थान है । इसका कारण सुगम है ।

पुन चतुर्थ जीवके द्वारा प्रथम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका प्रथम समय गलता है । यह पुनरुक्त स्थान है । द्वितीय फालिके विघटित होनेपर उसका द्वितीय समय गलता है । तृतीय फालिके विघटित होनेपर उसका तृतीय समय गलता है । इसी क्रमसे एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण पुनरुक्त स्थानोंके उत्पन्न हो जानेपर फिर पीछे इसी जीवके द्वारा अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है । यह अपुनरुक्त स्थान है । इसका कारण सुगम है ।

इस प्रकार पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण जीवोंके आश्रयसे एक कम उत्कीरणकालसे अधिक स्थितिकाण्डक प्रमाण अपुनरुक्त स्थानोंको उत्पन्न कराके फिर पूर्वमे स्थापित अन्तिम जीवका आश्रय करके अपुनरुक्त स्थानोंकी उत्पत्तिका कथन करते हैं । यथा— अन्तिम जीवके द्वारा विवक्षित स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित किये जानेपर उत्कीरणकालका अन्तिम समय गलता है जो कि एकेन्द्रियकी उत्कृष्ट स्थितिमें शेष होता है । यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि, उसकी उत्पत्ति पूर्वमें नहीं हुई है । यहां संदृष्टिमें (मूलमें देखिये) एकेन्द्रियस्थितिके लिये दो



विंदू, अद्वेण पुण सागरोवमस्स तिण्णि सत्तभागा । पुणो एदम्हादो द्विदि-
 संतादी एइंदिय- वंधमस्सिदूण अणुक्कस्सद्विदिवियप्पा उप्पादेदव्वा । तं
 जहा— घादरे- इंदियपज्जत्तएण समऊणुक्कस्सद्विदीए पवद्धाए अणम-
 पुणरुत्तट्ठाणं होदि । दुसमऊणाए पवद्धाए अणमपुणरुत्तट्ठाणं होदि । तिसम-
 ऊणाए पवद्धाए अणमपुणरुत्तट्ठाणं होदि । एवं चट्टु-पंचसमऊणादिकमेण ओदारोदव्वं जाव
 घादरेइंदियपज्जत्तएण सव्वविसुद्धेण वद्धजहण्णसंतममाणद्विदि ति ।

संपहि एइदिएसु लद्धसव्वट्ठाणाणि पलिदोमस्स अमंखेज्जदिभागमेत्ताणि चेव ।
 कुदो ? तत्थ वीचारट्ठाणाणि पलिदावमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताणि चेव हींति ति गुरुव-
 देसादो । पुणो एदिस्से द्विदीए हेट्ठा खवगसेट्ठिमस्सिदूण अण्णाणि अंतोमुहुत्तट्ठाणाणि
 लभंति । तं जहा— एगो जीवो खवगसेट्ठिं चडिय अणियट्ठिखवगो जादो ।
 तदो अणियट्ठिअद्धाए संखेज्जेसु भागेषु गदेषु असण्णिद्विदिवंधेण सरिस संतकम्मं
 कुणदि । पुणो अंतोमुहुत्तं गंतूण चट्टुरिंदियद्विदिवंधेण सरिसं संतकम्मं कुणदि । पुणो
 अंतोमुहुत्तं गंतूण तेइंदियद्विदिवंधेण सरिसं संतकम्मं कुणदि । तदो अंतोमुहुत्तं
 गंतूण वेइंदियद्विदिवंधेण सरिसं द्विदिसंतकम्मं कुणदि । तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण एइंदियद्विदि-

विन्दु है, जो कालकी अपेक्षा सागरोपमके तीन बटे सात भाग (३) के सूचक
 हैं । इस स्थितिसत्त्वसे एकेन्द्रियके स्थितिवंधका आश्रय करके अनुकृष्ट स्थिति-
 विकल्पोंको उत्पन्न कराना चाहिये । यथा— वादर एकेन्द्रिय जीवके द्वारा एक
 समय कम उत्कृष्ट स्थितिके बांधनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है ।
 दो समय कम उत्कृष्ट स्थितिके बांधनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है ।
 तीन समय कम उत्कृष्ट स्थितिके बांधनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है ।
 इस प्रकार चार-पांच आदि समयोंकी हीनताके क्रमसे सर्वविशुद्ध वादर एकेन्द्रिय
 पर्याप्तक जीवके द्वारा बांधी गई जग्रन्थ स्थितिके सत्त्व समान स्थितिके
 होने तक उतारना चाहिये ।

अब एकेन्द्रियोंमें प्राप्त सव स्थान पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र ही हैं,
 क्योंकि “ उनमें वीचास्थान पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र ही होते हैं ” ऐसा गुरुका
 उपदेश है । इस स्थितिके नीचे क्षपकश्रेणिका आश्रय करके अन्य अन्तर्मुहूर्त मात्र
 स्थान प्राप्त होते हैं । यथा — एक जीव क्षपकश्रेणिपर आरूढ़ होकर अनिवृत्तिकरण क्षपक
 हुआ । पश्चात् अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात बहुभागोंके वीतनेपर वह अंसत्री जीवके
 स्थितिवन्धके समान स्थितिसत्त्वको करता है । तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्त काल वितारकर
 चतुरिन्द्रियके स्थितिवन्धके समान स्थितिसत्त्वको करता है । पश्चात् अन्तर्मुहूर्त काल
 वितारकर वह त्रीन्द्रिय जीवके स्थितिवन्धके समान स्थितिसत्त्वको करता है । पश्चात्
 अन्तर्मुहूर्त काल जाकर वह द्वीन्द्रिय जीवके स्थितिवन्धके समान स्थितिसत्त्वको करता
 है । तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्तके वीतनेपर एकेन्द्रिय जीवके स्थितिवन्धके समान स्थिति

चंधेण सरिसं द्विदिसंतकम्मं कुणादि । एवमेदाणि खवगसेडिम्हि भणिदूणागदसव्वद्विदिसंत-
कम्मडाणाणि पुणरुत्ताणि चैव । एइदियजहणवंधं पेक्खिदूण एदासिं द्विदीणं बहुचुवलमादो ।

पुणो एइदियद्विदिसंतकम्ममि पलिदोवमस्स संखेज्जदिमागमेत्तद्विदिसंखंड्य-
मागाएदि । तं जाव पददि ताव अतोमुहुत्तडाणाणि अधद्विदिगलणेण लभंति । ताणि पुण-
रुत्ताणि, एइदिसु लद्धडाणेसु पवेसादो । पुणो आगाइदकंदयस्स चरिमफालीए पदिदाए
एइदियवीचारडाणेहिंतो असंखेज्जगुणमोसरिदूण अणमपुणरुत्तडाणं होदि । पुणो विदिय-
समए अणं द्विदिसंखंड्यमागाएदि । तस्स द्विदिसंखंड्यस्स उक्कीरणकालमि एगसमए
गलिदे अणमपुणरुत्तडाण होदि । विदियसमए गलिदे विदियमपुणरुत्तडाणं होदि । तदिय-
समए गलिदे तदियमपुणरुत्तगिरंतरडाणं होदि । एवं गिरंतरडाणाणि ताव लभंति जाव
उक्कीरणकालदुचरिमसमओ त्ति । पुणो चरिमफाली पददि । तीए पदिदाए पलिदोवमस्स
संखेज्जदिभागमेतरियूण अणमपुणरुत्तडाणं होदि । पुणो अणं द्विदिकंदयमागाएदि । तस्स
द्विदिकंदयस्स उक्कीरणकालमि एगसमए गलिदे अणमपुणरुत्तगिरंतरडाणं होदि ।
विदियसमए गलिदे अणमपुणरुत्तगिरंतरडाणं होदि । एवं समज्जुक्कीरणद्धामेत्ताणि
अपुणरुत्तगिरंतरडाणाणि लभति । पुणो उक्कीरणकालचरिमसमए गलिदे चरिमफालि-

सत्त्वको करता है । इस प्रकार क्षपकश्रेणिमें कहकर आये हुए ये सभी स्थितिसत्त्वस्थान
पुनरुक्त ही हैं, क्योंकि, एकेन्द्रिय जीवके जघन्य बन्धकी अपेक्षा ये स्थितियां बहुत
पायी जाती हैं ।

पुनः एकेन्द्रियके स्थितिसत्त्वमेंसे पद्योपमके संख्यातवें भाग मात्र
स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता है । वह जब तक विघटित होता है
तब तक अत्र स्थितिके गलनेसे अन्तर्मुहूर्त मात्र स्थान प्राप्त होते हैं ।
वे पुनरुक्त हैं, क्योंकि, वे एकेन्द्रियोंमें प्राप्त स्थानोंके अन्तर्गत हैं । पश्चात्
ग्रहण किये गये स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित होनेपर एकेन्द्रिय
सम्बन्धी वीचारस्थानोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हटकर दूसरा अपुनरुक्त स्थान
होता है । तत्पश्चात् द्वितीय समयमें दूसरे स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता है ।
उस स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालमेंसे एक समयके गलनेपर दूसरा अपुनरुक्त
स्थान होता है । द्वितीय समयके गलनेपर द्वितीय अपुनरुक्त स्थान होता है ।
तृतीय समयके गलनेपर तृतीय अपुनरुक्त निरन्तर स्थान होता है । इस प्रकार
उत्कीरणकालके द्विचरम समय तक निरन्तर स्थान पाये जाते हैं । फिर अन्तिम
फालि विघटित होती है । उसके विघटित हो जानेपर पद्योपमके संख्यातवें भाग
मात्र अन्तर करके अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है । तत्पश्चात् अन्य स्थितिकाण्डकको
ग्रहण करता है । उस स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालमेंसे एक समयके गलनेपर
अन्य अपुनरुक्त निरन्तर स्थान होता है । द्वितीय समयके गलनेपर अन्य अपुनरुक्त
निरन्तर स्थान होता है । इस प्रकार एक समय कम उत्कीरणकाल प्रमाण
अपुनरुक्त निरन्तर स्थान पाये जाते हैं । पश्चात् उत्कीरणकालके अन्तिम समयके

मेत्तद्वाणाणि अंतरिदूण अपुणरुत्तद्वाणं उप्पज्जदि । एवं गिरंतर-सांतरकमेण द्वाणाणि ताव लभंति जाव खीणकसायकालस्स संखेज्जा भागा गदा त्ति । तदो खीणकसायचरिम-द्विदिखंडयस्स चरिमफालीए पदिदाए खीणकसायकालस्स संखेज्जदिभागमेत्ताणि उदय-कखण गिरंतरअपुणरुत्तद्वाणाणि लभंति जाव खीणकसायचरिमसमओ त्ति । एत्थ खवगसेडिम्हि लद्धगिरंतरद्वाणाणि अंतोमुहुत्तमेत्ताणि, रूवृणुक्कीरणद्धं संखेज्जसहस्सरूवेहि गुणिदे खवगसेडिसमुप्पणसच्चगिरंतरद्वाणुपत्तीदो । सांतरद्वाणाणि पुण संखेज्जाणि चेत्र, खवगसेडीसु संखेज्जाणं चैव द्विदिखंडयाणं पदणोवलंभादो । मंखेज्जपलिदोवममेत्तद्वाणाणि ण लद्धाणि । एदेसु अलद्धद्वाणेसु कम्मद्विदिम्हि सोहिदेसु जं सेसं तेनियमेत्ता अणु-क्कस्सद्वाणवियप्पा ।

एदेसिं द्वाणाणं सामिणो जे जीवा तेसिं छहि अणियोगद्दारेहि परूवणं कस्सामो । तं जहा — एत्थ ताव तसजीवे अस्सिदूग भण्णमाणे जहण्णए द्वाणे अत्थि जीवा । एवं णेयव्वं जावुक्कस्सद्वाणे त्ति । एवं परूवणा गदा ।

ओघजहण्णद्वाणे जहण्णेण एगो, उक्कस्सेण अट्टुत्तरसदजीवा । एवं खवगसेडीए लद्धसच्चद्वाणेसु जीवपमाणं वत्तव्वं । सण्णिपंचिदियमिच्छाइद्विजहण्णद्विदीए जीवा पदरस्स

गलनेपर अन्तिम फालि प्रमाण स्थानोंका अन्तर करके अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है । इस प्रकार निरन्तर और सान्तर क्रमसे स्थान तब तक पाये जाते हैं जब तक क्षीणकपाय गुणस्थानके कालका संख्यात बहुभाग वीतता हैं । पश्चात् क्षीणकपाय जीवके अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके विघटित होनेपर क्षीणकपायके अन्तिम समय तक क्षीणकपायकालके संख्यातवें भाग मात्र उदयक्षयसे निरन्तर अनुनरुक्त स्थान पाये जाते हैं । यहां क्षपकश्रेणिमें प्राप्त निरन्तर स्थान अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होते हैं, क्योंकि, एक कम उत्कीरणकालको संख्यात हजार रूपोंसे गुणित करनेपर क्षपकश्रेणिमें उत्पन्न समस्त निरन्तर स्थान प्राप्त होते हैं । परन्तु सान्तर स्थान संख्यात ही हैं, क्योंकि, क्षपकश्रेणिमें संख्यात ही स्थितिकाण्डकोंका विघटन पाया जाता है । संख्यात पल्योपम प्रमाण स्थान यहां नहीं पाये जाते । यहां न प्राप्त होनेवाले इन स्थानोंको कर्मस्थितिमेंसे कम कर देनेपर जो शेष रहता है उतना अनुत्कृष्ट स्थानके विकल्पोंका प्रमाण होता है ।

जो जीव इन स्थानोंके स्वामी हैं उनकी छह अनुयोगद्वारोंके द्वारा प्ररूपणा करते हैं । यथा — यहां पहिले त्रस जीवोंका आश्रय करके प्ररूपणा करनेपर जघन्य स्थानमें जीव है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थान तक ले जाना चाहिये । इस प्रकार प्ररूपणा समाप्त हुई ।

ओघ जघन्य स्थानमें जघन्यसे एक और उत्कर्षसे एक सौ आठ जीव पाये जाते हैं । इस प्रकार क्षपकश्रेणिमें प्राप्त सभी स्थानोंमें जीवोंका प्रमाण कहना चाहिये । संकी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिकी जघन्य स्थितिमें जीव प्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ।

असंखेज्जदिभागमेत्ता । विदियाए वि डिदीए पदरस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता । एवं णेदव्वं जाव उक्कस्सिदि ति ।

सेडिपरूवणा दुविहा— अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा चेदि । तत्थ अणंतरोवणिधाए सादस्स चउट्टाणवंधा तिट्टाणवंधा जीवा असादस्स विट्टाणवंधा तिट्टाणवंधा च जीवा णाणावरणीयस्स सग-सगजहणियाए डिदीए थोवा । विदियाए डिदीए विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? पलिदोवगस्स असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगखंडमेत्तेण । तदियाए डिदीए जीवा विसेसाहिया । एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव जवमज्झं । तेण परं विसेसहीणा । एवं विसेसहीणा विसेसहीणा जाव सागरोवमसदपुधत्तं । सादस्स विट्टाणवंधा जीवा असादस्स चउट्टाणवंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहणियाए डिदीए थोवा । विदियाए डिदीए जीवा विसेसाहिया । तदियाए डिदीए जीवा विसेसाहिया । एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरोवमसदपुधत्तं । तेण परं विसेसहीणा । एवं विसेसहीणा विसेसहीणा जाव सादस्स असादस्स [य] उक्कस्सिया डिदि ति । एवमणंतरोवणिधा समत्ता । परंपरोवणिधाए सादस्स चउट्टाणवंधा तिट्टाणवंधा जीवा असादस्स विट्टाणवंधा

द्वितीय स्थितिमें भी वे प्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिये ।

श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकार है— अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा । उनमें अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव तथा असातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी अपनी अपनी जघन्य स्थितिमें स्तोक है । द्वितीय स्थितिमें उनसे विशेष अधिक हैं । कितने प्रमाणसे अधिक हैं ? पल्योपमके असंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर उसमेंसे वे एक खण्डसे अधिक हैं । उनसे तृतीय स्थितिमें जीव विशेष अधिक हैं । इस प्रकार वे यवमध्य तक विशेष अधिक विशेष अधिक होते गये हैं । उसके आगे वे विशेष हीन हैं । इस प्रकार सागरोपमशतपृथक्त्व तक वे विशेष हीन विशेष हीन हैं । सातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक और असातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिमें स्तोक है । द्वितीय स्थितिमें उनसे विशेष अधिक जीव हैं । तृतीय स्थितिमें उनसे विशेष अधिक जीव हैं । इस प्रकार सागरोपमशतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति तक वे उत्तरोत्तर विशेष अधिक विशेष अधिक हैं । इससे आगेकी स्थितिमें वे उत्तरोत्तर विशेष हीन हैं । इस प्रकार साता व असाता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थिति तक वे विशेष हीन विशेष हीन हैं । इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई ।

परम्परोपनिधाकी अपेक्षा सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक तथा असातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी

तिट्टाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहणियाए द्विदीए जीवेहितो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणवड्ढिदा जाव जवमज्झं । तेण परं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणहीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सागरोवमसदपुधत्तं । सादस्स विट्टाणबंधा जीवा असादस्स चउट्टाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहणियाए द्विदीए जीवेहितो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणवड्ढिदा । एवं दुगुणवड्ढिदा दुगुणवड्ढिदा जाव सागरोवमसदपुधत्तं । तेण परं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणहीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सादस्स असादस्स य उक्कस्सिया द्विदि ति । एयजीवदुगुणवड्ढि-हाणिट्टाणंतरमसंखेज्जाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि । णाणाजीवदुगुणवड्ढि-हाणिट्टाणंतराणि पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो । णाणाजीवदुगुणवड्ढि-हाणिट्टाणंतराणि थोवाणि । एयजीवदुगुणवड्ढि-हाणिट्टाणंतरमसंखेज्जगुणं । एवं परंपरोवणिधा समत्ता ।

जहण्णट्टाणजीवपमाणेण सव्वजीवा केवचिरेण कालेण अवहिरिज्जंति ? असंखेज्जगुणहाणिट्टाणंतरेण कालेण अवहिरिज्जंति । विदियट्टाणजीवपमाणेण सव्वजीवा असंखेज्जगुणहाणिमेत्तेण कालेण अवहिरिज्जंति । एवं णेदव्वं जाव जवमज्झे ति । जवमज्झ जीवपमाणेण सव्वजीवा केवचिरेण कालेण अवहिरिज्जंति ? किंचूणतिण्णिगुणहाणिट्टाणं-

जघन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा उससे पत्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर यवमध्य तक दुगुणी वृद्धिको प्राप्त हैं । उसके आगे पत्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर वे दुगुणी हानिको प्राप्त हैं । इस प्रकार सागरोपमशतपृथक्त्व तक वे दुगुणे हीन दुगुणे हीन हैं । सातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक जीव और असातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थिति सम्बन्धी जीवोंकी अपेक्षा उनसे पत्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार सागरोपमशतपृथक्त्व तक वे दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते गये हैं । इससे आगे पत्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर वे दुगुणी हानिको प्राप्त हैं । इस प्रकार साता व असाता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थिति तक वे दुगुणे-दुगुणे हीन हैं । एकजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर पत्योपमके असंख्यात वर्गमूल प्रमाण है । नानाजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर पत्योपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । नानाजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर स्तोक हैं । एकजीवदुगुणवृद्धि हानिस्थानान्तर उनसे असंख्यातगुणा है । इस प्रकार परंपरोपनिधा समाप्त हुई ।

जघन्य स्थान सम्बन्धी जीवोंके प्रमाणसे समस्त जीव कितने कालसे अपहृत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे असंख्यात-गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होते हैं । द्वितीय स्थान सम्बन्धी जीवोंके प्रमाणसे वे समस्त जीव असंख्यात गुणहानि मात्र कालसे अपहृत होते हैं । इस प्रकार यवमध्य तक ले जाना चाहिये । यवमध्यके जीवोंके प्रमाणसे सब जीव कितने काल द्वारा अपहृत होते हैं ? कुछ कम

तरेण कालेण अवहिरिज्जंति । एवं जवमज्झादो उवरिं पि जाणिदूण वत्तव्वं । एवमवहार-
परूवणा गदा ।

जहण्णए द्वाणे जीवा सव्वद्वाणजीवाणं केवडिओ भागो ? असंखेज्जदिभागो । एवं
सव्वद्वाणजीवाणं जाणिदूण भागाभागपरूवणा कायव्वा ।

सव्वत्थेवा जवमज्झाणं उक्कस्सए द्वाणे जीवा । जहण्णए द्वाणे जीवा असं-
खेज्जगुणा । गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । जवमज्झजीवा असंखेज्जगुणा ।
को गुणगारो ? जवमज्झादो हेट्ठिमअण्णोण्णभत्थरासी । जवमज्झादो हेट्ठिमजहण्णद्वाण-
जीवेहिंतो उवरिमसव्वजीवा असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? किंचूणदिवड्ड [गुणहाणीओ]
गुणगारो । जवमज्झादो हेट्ठिमजीवा विसेसाहिया । जवमज्झादो उवरिमजीवा विसेसाहिया ।
सव्वजीवा विसेसाहिया । एवमप्पावहुगपरूवणा गदा ।

एवमेइंदिय-विगलिंदियाणं पि परूवेदव्वं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तएइंदिय-
वीचारद्वाणेसु तस्सेव संखेज्जदिभागमेत्तविगलिंदियवीचारद्वाणेसु च । णवरि सादासादाणं
विद्वाणजवमज्झ चैव, तत्थ तिद्वाण-चउद्वाणाणुभागाणं बंधाभावादो । किंतु सण्णिचिं-
दियगुणहाणिसलागाहिंतो तत्थतणगुणहाणिसलागाओ असंखेज्जगुणहीणाओ संखेज्जगुणहीणाओ

तीन गुणहानिस्थानान्तरकालसे वे अग्रहत होते हैं । इसी प्रकार यवमध्यके आगे
भी जानकर कहना चाहिये । इस प्रकार अवहारप्ररूपणा समाप्त हुई ।

जघन्य स्थानमें स्थित जीव सब जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं । वे उनके
असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । इस प्रकार सब स्थानोंके जीवोंको जानकर भागा-
भागकी प्ररूपणा करना चाहिये ।

यवमध्योंके उत्कृष्ट स्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य स्थानमें
जीव असंख्यातगुणे हैं । गुणकार पर्योपमका असंख्यातवां भाग है । उनसे यवमध्य-
के जीव असंख्यातगुणे हैं । गुणकार क्या है ? यवमध्यसे नीचेकी अन्योन्याभ्यस्त
राशि गुणकार है । यवमध्यसे नीचेके जघन्य स्थान सम्वन्धी जीवोंकी अपेक्षा
ऊपरके सब जीव असंख्यातगुणे हैं । गुणकार क्या है ? गुणकार कुछ कम डेढ़
गुणहानियां हैं । यवमध्यसे नीचेके जीव उनसे विशेष अधिक हैं । उनसे यवमध्य-
के उपरिम जीव विशेष अधिक हैं । उनसे सब जीव विशेष अधिक हैं । इस प्रकार
अवग्रहत्वप्ररूपणा समाप्त हुई ।

इसी प्रकार पर्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र एकेन्द्रियके वीचारस्थानोंमें
और उसके ही संख्यातवें भाग प्रमाण विकलेन्द्रियके वीचारस्थानोंमें एकेन्द्रिय
एवं विकलेन्द्रिय जीवोंकी भी प्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना है कि
साता व असाता वेदनीयके द्विस्थानसम्वन्धी यवमध्य ही है, क्योंकि, वहां
त्रिस्थान और चतुःस्थान अनुभागोंका बन्ध नहीं होता । किन्तु संशी
पंचेन्द्रियकी गुणहानिशलाकाओंसे वहांकी गुणहानिशलाकायें असंख्यातगुणी हीन

च । पमाणं पुण एइंदिया अणंता । सण्णिपंचिंदियधुवड्ढिदीदो हेड्ढिमाणं असण्णिपंचिंदिय-
उक्कस्सड्ढिदीदो उवरिमाणं संतट्ठाणाणं जीवसमुदाहारो कादुं ण सक्किज्जदे, उवदेसाभावादो ।

एवं छुण्णं कम्माणं ॥ १० ॥

जहा णाणावरणीयस्स उक्कस्साणुक्कस्ससामित्तं परूविदं तथा सेसच्छकम्माणं
परूवेदव्वं । णवरि मोहणीयस्स उक्कस्सड्ढिदी सत्तरिसागरोवमकोडाकोडिमेत्ता । अणुक्कस्स-
सामित्ते भण्णमाणे सण्णिपंचिंदियमिच्छाइड्ढिप्पहुडि जाव चरिमसमयसुहुमसांपराइयो ताव
सामिणो त्ति वत्तव्वं । णामा-गोदाणं उक्कस्सड्ढिदी वीससागरोवमकोडाकोडिमेत्ता । एदेसि-
मणुक्कस्सड्ढिदिसामित्ते भण्णमाणे सण्णिपंचिंदियमिच्छाइड्ढिप्पहुडि जाव चरिमसमयअजोगि
त्ति वत्तव्वं । एवं वेयणीयस्स वि परूवणा कायव्वा । णवरि उक्कस्सड्ढिदी तीसं
सागरोवमकोडाकोडिमेत्ता ।

**सामित्तेण उक्कस्सपदे आउअवेयणा कालदो उक्कस्सिया
कस्स ? ॥ ११ ॥**

सुगमं ।

व संख्यातगुणी हीन है । प्रमाण— एकेन्द्रिय जीव अनन्त है । संज्ञी पंचेन्द्रियकी
ध्रुवस्थितिसे नीचेके और असंज्ञी पंचेन्द्रियकी उत्कृष्ट स्थितिसे ऊपरके सत्त्वस्थानोंका
जीवसमुदाहार करनेके लिये शक्य नहीं है, क्योंकि, उसका उपदेश प्राप्त नहीं है ।

ज्ञानावरणीयके समान ही शेष छह कर्मोंके उत्कृष्ट स्वामित्वकी प्ररूपणा करना
चाहिये ॥ १० ॥

जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्मके उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट स्वामित्वकी प्ररूपणा
की है उसी प्रकार शेष छह कर्मोंकी प्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना है कि
मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडाकोडि सागरोपम प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्वामित्व-
का कथन करते समय संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिसे लेकर अन्तिम समयवर्ती सूक्ष्म-
सास्पगयिक तक स्वामी है, ऐसा कहना चाहिये । नाम व गोत्र कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति
वीस कोडाकोडि सागरोपम प्रमाण है । इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिके स्वामित्वका कथन
करते समय संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिसे लेकर अन्तिम समयवर्ती अयोगकेवली तक
स्वामी है ऐसा कहना चाहिये । इसी प्रकार वेदनीय कर्मकी भी प्ररूपणा कहना चाहिये ।
विशेष इतना है कि उसकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडि सागरोपम प्रमाण है ।

स्वामित्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट पदमें आयुर्कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट
किसके होती है ? ॥ ११ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

अण्णदरस्स मणुस्सस्स वा पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स वा सण्णिस्स सम्मादिट्ठिस्स वा [मिच्छादिट्ठिस्स वा] सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्स कम्मभूमियस्स वा कम्मभूमिपडिभागस्स वा संखेज्ज-वासाउअस्स इत्थिवेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णउंसयवेदस्स वा जलचरस्स वा थलचरस्स वा सागार-जागार-तप्पाओग्गसंकि-लिट्ठिस्स वा [तप्पाओग्गविसुद्धस्स वा] उक्कस्सियाए आवाधाए जस्स तं देव-णिरयाउअं पढमसमए बंधंतस्स आउअवेयणा कालदो उक्कस्सा ॥ १२ ॥

ओगाहण-कुल-जादि-वण्ण-विण्णासं-संठाणादिभेदेहि विसेसाभावपरूवणइमण्णदरस्से त्ति भणिदं । देवाणमुक्कस्साउअस्स मणुसा चैव बंधया, णेरइयाणं उक्कस्साउअस्स मणुस्सा सण्णिपंचिंदियतिरिक्खा वा बंधया त्ति जाणावणइं मणुस्सस्स वा पंचिंदिय-तिरिक्खजोणियस्स वा सण्णिस्से त्ति भणिदं । देवाणं उक्कस्साउअं सम्मादिट्ठिणो चैव बंधंति, णेरइयाणं उक्कस्साउअं मिच्छादिट्ठिणो चैव बंधंति त्ति जाणावणइं सम्मादिट्ठिस्स वा मिच्छादिट्ठिस्स वा त्ति णिदिट्ठं । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा चैव णेरइयाणं उक्कस्साउअं

जो कोई मनुष्य या पंचेन्द्रिय तिर्यच संज्ञी है, सम्यग्दृष्टि [अथवा मिथ्यादृष्टि] है, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, कर्मभूमि या कर्मभूमिप्रतिभागमें उत्पन्न हुआ है, संख्यात वर्षकी आयुवाला है; स्त्रीवेद, पुरुषवेद या नपुंसकवेदसे संयुक्त है; जलचर अथवा थलचर है, साकार उपयोगसे सहित है, जागरूक है, तत्प्रायोग्य संक्लेश [अथवा विशुद्धि] से संयुक्त है, तथा जो उत्कृष्ट आवाधाके साथ देव व नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुको वांधनेवाला है, उसके वांधनेके प्रथम समयमें आयु कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ॥ १२ ॥

अवगाहना, कुल, जाति, वर्ण, विन्यास और संस्थान आदिके भेदोंसे निर्मित विशेषताका अभाव बतलानेके लिये सूत्रमें 'अण्णदरस्स' यह कहा है । देवोंकी उत्कृष्ट आयुके बन्धक मनुष्य ही होते हैं तथा नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुके बन्धक मनुष्य अथवा संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच होते हैं, यह बतलानेके लिये "मणुस्सस्स वा पंचिंदिय-तिरिक्खजोणियस्स वा सण्णिस्स" ऐसा कहा है । देवोंकी उत्कृष्ट आयुको सम्यग्दृष्टि ही वांधते हैं तथा नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुको मिथ्यादृष्टि ही वांधते हैं, यह प्रगट करनेके लिये "सम्मादिट्ठिस्स वा मिच्छादिट्ठिस्स वा" ऐसा निर्देश किया गया है । जो छह पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो चुके हैं वे ही नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुको वांधते

बंधंति ति जाणावण्डं सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्से ति भणिदं । देवाणं उक्कस्साउअं पण्णारसकम्मभूमीसु च वज्झइ, णेरइयाणं उक्कस्साउअं पण्णारसकम्मभूमीसु कम्मभूमिपडिभागेषु च वज्झदि ति जाणावण्डं कम्मभूमियस्स वा कम्मभूमिपडिभागस्स वा ति परूविदं । देव-णेरइयाणं उक्कस्साउअमसंखेज्जवासाउवतिरिक्खमणुस्सा ण बंधंति, संखेज्जवासाउवा च वंधंति ति जाणावण्डं संखेज्जवासाउअस्से ति परूविदं । देव-णेरइयाणं उक्कस्साउअबंधस्स तीहि वेदेहि विरोहो णत्थि ति जाणावण्डं इत्थिवेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णवुंसयवेदस्स वा ति भणिदं ।

एत्थ भाववेदस्स ग्रहणमण्णहा दव्वित्थिवेदेण वि णेरइयाणमुक्कस्साउअस्स वंधप्प-संगादो । ण च तेण सह तस्स वंधो, आ पंचमी ति सीहा इत्थीओ जंति' छट्ठिपुढवि ति' एदेण सुत्तेण सह विरोहादो । ण च देवाणं उक्कस्साउअं दव्वित्थिवेदेण सह वज्झइ, णियमा णिगंथलिंणे ति सुत्तेण सह विरोहादो । ण च दव्वित्थीणं णिगंथत्तमत्थि, चैलादिपरिच्चाएण विणा तासिं भावणिगंथत्तामावादो । ण च दव्वित्थि-

हैं, यह जतलानेके लिये "सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्स" यह कहा है। देवोंकी उत्कृष्ट आयु पन्द्रह कर्मभूमियोंमें ही बंधती है तथा नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु पन्द्रह कर्मभूमियों और कर्मभूमिप्रतिभागोंमें भी बांधी जाती है, यह जतलानेके लिये "कम्मभूमियस्स कम्मभूमिपडिभागस्स वा" ऐसा कहा है। देवों व नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुको असंख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच या मनुष्य नहीं बांधने हैं, किन्तु संख्यात-वर्षायुष्क ही बांधते हैं, यह जतलानेके लिये 'संखेज्जवासाउअस्स' ऐसा निर्देश किया है। देवों व नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुके बन्धका तीनों वेदोंके साथ विरोध नहीं है, यह जतलानेके लिये "इत्थिवेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णवुंसयवेदस्स वा" ऐसा कहा है।

यहां भाववेदका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, द्रव्यवेदका ग्रहण करनेपर द्रव्य स्त्रीवेदके साथ भी नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुके बन्धका प्रसंग आता है। परन्तु उसके साथ नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुका बन्ध होता नहीं है, क्योंकि "पांचवीं पृथिवी तक सिंह और छठी पृथिवी तक स्त्रियां जाती हैं" इस सूत्रके साथ विरोध आता है। देवोंकी भी उत्कृष्ट आयु द्रव्य स्त्रीवेदके साथ नहीं बंधती, क्योंकि, अन्यथा "[अच्युत कल्पसे ऊपर] नियमतः निर्ग्रन्थ लिंगसे ही उत्पन्न होते हैं" इस सूत्रके साथ विरोध होता है। और द्रव्य स्त्रियोंके निर्ग्रन्थता सम्भव नहीं है, क्योंकि, वस्त्रादिपरित्यागके विना उनके भाव निर्ग्रन्थताका अभाव है। द्रव्य स्त्रीवेदी व नपुंसकवेदी वस्त्रादिकका त्याग करके निर्ग्रन्थ लिंग धारण

१ अ-आ-काप्रतिष्ठ 'आ पंचमा ति सीहा इत्थीओ जाति छट्ठी' इति पाठ । २ मूलचार १२-११३.

३ मूलचार १२-१३४, ति. प. ८, ५५९-६१.

णवुंसयवेदाणं चेलादिचागो अत्थि, छेदसुत्तेण सह विरोहादो । देवाणं उक्कस्साउअस्स मणुस्सा संजदा थलचारिणो वंधया, णेरइयाणं उक्कस्साउअस्स थलचारिमणुसमिच्छाइड्डिणो जल-थलचारिसण्णिणपंचिदियतिरिक्खमिच्छाइड्डिणो वा वंधया त्ति जाणावणडुं जलचरस्स वा थलचरस्स वा त्ति भणिदं । खगचारिणो देव-णेरइयाणं उक्कस्साउअं किण्ण वंधति ? ण, पक्खीणं सत्तमपुढविणेरइएसु अणुत्तरविमाणवासियदेवेसु वा उप्पज्जणं पडि सत्तीए अभावादो । ण विज्जाहराणं खगचरत्तमत्थि, विज्जाए विणा सहावदो चेव गगणगमण-समत्थेसु खगयरत्तपसिद्धीदो ।

दंसणोवजोगे वट्टंताणं उक्कस्साउअबंधो ण होदि, किंतु णाणोवजोगे वट्टंताणं एवे त्ति जाणावणडुं सागारणिद्देसो कदो । सुत्ताणमाउअस्स उक्कस्सबंधो ण होदि त्ति जाणावणडुं जागारणिद्देसो कदो । जहा सेसकम्माणं उक्कस्सड्ढिदीओ उक्कस्ससंकिलेसेण वज्झंति, तहा आउअस्स उक्कस्सड्ढिदी उक्कस्सविसोहीए उक्कस्ससंकिलेसेण वा ण वज्झदि त्ति जाणावणडुं तप्पाओग्गसंकिलिड्डस्स वा तप्पाओग्गविसुद्धस्स वा त्ति भणिदं ।

कर सकते हैं, ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, वैसा स्वीकार करनेपर छेदसूत्रके साथ विरोध होता है ।

देवोंकी उत्कृष्ट आयुके बन्धक स्थलचारी संयत मनुष्य, तथा नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुके बन्धक स्थलचारी मिथ्यादृष्टि मनुष्य एवं जलचारी व स्थलचारी संक्षी पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्यादृष्टि हैं, इसके ज्ञापनार्थ "जलचरस्स वा थलचरस्स वा" ऐसा कहा है ।

शंका— आकाशचारी जीव देव व नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुको क्यों नहीं बांधते हैं ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, पक्षियोंके सप्तम पृथिवीके नारकियों अथवा अनुत्तर विमानवासी देवोंमें उत्पन्न होनेकी सामर्थ्य नहीं है । यदि कहा जाय कि विद्याधर भी तो आकाशचारी हैं, वे वहां उत्पन्न हो सकते हैं; तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, विद्याकी सहायताके बिना जो स्वभावसे ही आकाशगमनमें समर्थ हैं उनमें ही खगचरत्वकी प्रसिद्धि है ।

दर्शनोपयोगमें वर्तमान जीवोंके उत्कृष्ट आयुका बन्ध नहीं होता, किन्तु ज्ञानोपयोगमें वर्तमान जीवोंके ही उसका बन्ध होता है, यह जतलानेके लिये 'साकार' पदका निर्देश किया है । सोये हुए जीवोंके उत्कृष्ट आयुका बन्ध नहीं होता, यह धतलानेके लिये 'जागर' पदका प्रयोग किया है । जिस प्रकार शेष कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितियां उत्कृष्ट संकलेशसे बंधती हैं वैसे आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट विशुद्धि अथवा उत्कृष्ट संकलेशसे नहीं बंधती, यह जनलानेके लिये "तप्पाओग्गसंकिलिड्डस्स वा तप्पाओग्गविसुद्धस्स वा" ऐसा कहा है । उत्कृष्ट आवाधाके बिना उत्कृष्ट स्थिति

उक्कस्सावाधाए विणा उक्कस्सड्ढिदी ण होदि त्ति जाणावणडं उक्कस्सियाए आवाहाए इदि भणिदं । विदियादिसमएसु आवाहा उक्कस्सिया ण होदि त्ति पुव्वकोडित्तिभाग-मावाहं काऊण देव-णेरइयाणं उक्कस्साउअं बंधमाणपढमसमए चैव उक्कस्साउअवेयणा होदि त्ति भणिदं ।

तव्वदिरित्तमणुक्कस्सा ॥ १३ ॥

तदो उक्कस्सादो वदिरित्तं तव्वदिरित्तं, सा अणुक्कस्सा । एसा अणुक्कस्सकालवेयणा असंखेज्जवियप्पा । तेण तिस्से सामित्तं पि असंखेज्जवियप्पं । तं जहा — पुव्वकोडित्तिभाग-मावाहं काऊण तेत्तीससागरोवमाउअं जेण वद्धं सो उक्कस्सकालसामी । जेण समऊणं पवद्धं सो अणुक्कस्सकालसामी । जेण [दुसमऊणं पवद्धं सो वि अणुक्कस्सकालसामी । जेण] ति-समऊणं पवद्धं सो वि अणुक्कस्सकालसामी । एवमसंखेज्जभागहाणी होदूण ताव गच्छदि जाव जहण्णपरित्तासंखेज्जेण उक्कस्साउड्ढिदि खंडिदूण तत्थ एगखंडं परिहीणो त्ति । पुणो उक्कस्साउअं उक्कस्ससंखेज्जेण खंडेदूण तत्थ एगखंडपरिहीणे असंखेज्जभागहाणीए परिसमत्ती संखेज्जभागहाणीए आदी च होदि । एवं संखेज्जभागहाणी होदूण ताव गच्छदि जाव उक्कस्साउअस्स अद्धं समऊणं परिहीणं त्ति ।

नहीं होती है, यह ज्ञापन करानेके लिये 'उक्कस्सियाए आवाहाए' ऐसा कहा है । चूंकि द्वितीयादिक समयोंमें आवाधा उत्कृष्ट होती नहीं है, अतः पूर्वकोटिके तृतीय भागको आवाधा करके देवों व नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुको बाधनेवाले जीवके बन्धके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट आयुवेदना होती है, ऐसा कहा है ।

उससे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना होती है ॥ १३ ॥

उससे अर्थात् उत्कृष्टसे विपरीत आयु कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट वेदना होती है । यह अनुत्कृष्ट कालवेदना असंख्यात भेद स्वरूप है । इसीलिये उसके स्वामी भी असंख्य प्रकार हैं । यथा— पूर्वकोटिके तृतीय भागको आवाधा करके तेतीस सागारोपम प्रमाण आयुको जिसने बांधा है वह कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदनाका स्वामी है । जिसने एक समय कम उत्कृष्ट आयुको बांधा है वह अनुत्कृष्ट कालवेदनाका स्वामी है । जिसने [दो समय कम उत्कृष्ट आयुको बांधा है वह भी अनुत्कृष्ट कालवेदनाका स्वामी है । जिसने] तीन समय कम उत्कृष्ट आयुको बांधा है वह भी अनुत्कृष्ट कालवेदनाका स्वामी है । इस प्रकार असंख्यातभागहानि होकर तब तक जाती है जब तक जघन्य परीतासंख्यातसे उत्कृष्ट आयुस्थितिको खण्डित करनेपर उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण हानि नहीं हो जाती । पश्चात् उत्कृष्ट आयुको उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण हानिके हो जानेपर असंख्यातभागहानिकी समाप्ति और संख्यातभागहानिका प्रारम्भ होता है । इस प्रकार संख्यातभागहानि होकर तब तक जाती है जब तक उत्कृष्ट आयुका एक समय कम अर्ध भाग हीन नहीं हो जाता ।

पुणो उक्कस्सावाहं काऊण उक्कस्साउअस्स अद्धे पवद्धे संखेज्जगुणहाणी होदि । पुणो समऊणे अद्धे पवद्धे वि संखेज्जगुणहाणी चेव । एवं संखेज्जगुणहाणी ताव गच्छदि जाव उक्कस्साउअं जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खंडेदूण तत्थ एगखंडं रूवाहियं सेसं ति । एतो प्पहुडि असंखेज्जगुणहाणी चेव होदूण गच्छदि । एवं ताव णेदव्वं जाव पुव्वकोडि-तिभागमावाहं काऊण देवेषु दसवस्ससहस्साउअं वंधिदूण ङ्घिदो ति । पुणो एदेण आउएण समाणमणुस्साउअं घेतूण समऊण-दुसमऊणादिकमेण अधङ्घिदिगलणेण णेदव्वं जाव भवसिद्धियचरिमसमओ ति । एवं कदे पुव्वकोडित्तिभागेणभहियसमऊणतेतीस-सागरोवममेत्तट्टाणवियप्पा सामित्तवियप्पा च लद्धा होंति ।

संपहि एत्थ जीवसमुदाहारो छहि अणियोगद्दोहि उच्चदे । तं जहा — उक्कस्सए ट्टाणे जीवा अत्थि । तदणंतरहेट्टिमट्टाणे वि जीवा अत्थि । एवं णेदव्वं जाव अणुक्कस्स-जहण्णट्टाणे ति ।

आउअस्स उक्कस्सए ट्टाणे जीवा असंखेज्जा, णेरइयउक्कस्साउअं वंधमाण-जीवाणमसंखेज्जाणमुवलंभादो । एवं सव्वत्थ णेदव्वं । णवरि एइंदियपाओगट्टाणेषु एककेक्केसु जीवा अणंता । ततो हेट्टिमेसु खवगसेडीए चेव लब्भमाणेषु संखेज्जा ।

पुनः उत्कृष्ट आवाधाको करके उत्कृष्ट आयुके अर्ध भागको बांधनेपर संख्यातगुणहानि होती है । पश्चात् एक समय कम अर्ध भागके बांधनेपर भी संख्यातगुणहानि ही होती है । इस प्रकार संख्यातगुणहानि तब तक जाती है जब तक कि उत्कृष्ट आयुको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक अधिक एक खण्ड शेष रहता है । अब यहांसे असंख्यातगुणहानि ही होकर जाती है । इस प्रकार तब तक ले जाना चाहिये जब तक पूर्वकोटिके तृतीय भागको आवाधा करके देवोंमें दस हजार वर्ष प्रमाण आयुको बांधकर स्थित नहीं होता ।

पश्चात् इस आयुके समान मनुष्यायुको ग्रहणकर एक समय कम दो समय कम इत्यादि क्रमसे अध स्थितिके गलनेसे भवसिद्धिके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये । ऐसा करनेपर पूर्वकोटिके तृतीय भागसे अधिक व एक समय कम तेतीस सागरोपम प्रमाण स्थानविकल्प और स्वामित्वविकल्प प्राप्त होते हैं ।

अब यहां छह अनुयोगद्वारोंके द्वारा जीवसमुदाहारको कहते हैं । यथा — उत्कृष्ट स्थानमें जीव है । उससे अनन्तर नीचेके स्थानमें भी जीव है । इस प्रकार अनुत्कृष्ट-जघन्य स्थान तक ले जाना चाहिये ।

आयुके उत्कृष्ट स्थानमें असंख्यात जीव हैं, क्योंकि, नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुको बांधनेवाले असंख्यात जीव पाये जाते हैं । इसी प्रकार सब स्थानोंमें जानना चाहिये । विशेषता इतनी है कि एकेन्द्रियके योग्य स्थानोंमेंसे एक एक स्थानमें अनन्त जीव हैं । उससे नीचेके क्षपकश्रेणियोंमें ही पाये जानेवाले स्थानोंमें संख्यात जीव हैं ।

सेडी ण सक्कदे णेदुं, विसिट्ठुवएसाभावादो ।

उक्कस्सट्ठाणजीवपमाणेण सच्चट्ठाणजीवा केवडिएण कालेण अवहिरिज्जंति ? अणंतेण कालेण । एवं तसकाइयपाओग्गसच्चट्ठाणजीवाणं वत्तच्चं । एइंदियपाओग्गट्ठाण-जीवपमाणेण सच्चजीवा केवचिरेण कालेण अवहिरिज्जंति ? अंतोमुहुत्तेण । एवं सच्चत्थ णेदच्चं ।

उक्कस्सए ट्ठाणे जीवा सच्चजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंतिमभागो । एवं तसपाओग्गसच्चट्ठाणेसु वत्तच्चं । वणप्फदिकाइयपाओग्गेषु ट्ठाणेषु सच्चट्ठाणजीवाणम-संखेज्जदिभागो । एवं सच्चत्थ वणप्फदिपाओग्गट्ठाणेषु वत्तच्चं ।

सच्चत्थोवा जहण्णए ट्ठाणे जीवा । उक्कस्सए ट्ठाणे जीवा असंखेज्जगुणा । अज-हण्ण-अणुक्कस्सएसु ट्ठाणेषु जीवा अणंतगुणा । अणुक्कस्सए ट्ठाणे जीवा विसेसाहिया । अजहण्णएसु ट्ठाणेषु जीवा विसेसाहिया । सच्चेषु ट्ठाणेषु जीवा विसेसाहिया । एवमुक्कस्स-सामित्तं समत्तं ।

सामित्तेण जहण्णपदे णाणावरणीयवेदणा कालदो जहण्णिणा
कस्स ? ॥ १४ ॥

श्रेणिप्ररूपणा करना शक्य नहीं है, क्योंकि, उसके सम्बन्धमें विशिष्ट उपदेशका अभाव है ।

उत्कृष्ट स्थान सम्बन्धी जीवोंके प्रमाणसे सब स्थानोंके जीव कितने कालके द्वारा अपहृत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे अनन्त कालके द्वारा अपहृत होते हैं । इसी प्रकार त्रसकायिक प्रायोग्य सब स्थानोंके जीवोंकी प्ररूपणा करना चाहिये । एकेन्द्रिय प्रायोग्य स्थानों सम्बन्धी जीवोंके प्रमाणसे सब जीव कितने काल द्वारा अपहृत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा अपहृत होते हैं । इसी प्रकार सर्वत्र ले जाना चाहिये ।

उत्कृष्ट स्थानमें जीव सब जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं ? वे उनके अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार त्रस प्रायोग्य सब स्थानोंमें कहना चाहिये । घनस्पतिकायिक प्रायोग्य स्थानोंमें सब स्थानोंके जीवोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार सर्वत्र घनस्पतिकायिक प्रायोग्य स्थानोंमें कहना चाहिये ।

जघन्य स्थानमें सबसे स्तोक जीव हैं । उत्कृष्ट स्थानमें उनसे असंख्यात-गुणे जीव हैं । अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थानोंमें जीव उनसे अनन्तगुणे हैं । अनुत्कृष्ट स्थानमें जीव उनसे विशेष अधिक हैं । अजघन्य स्थानोंमें जीव उनसे विशेष अधिक हैं । सब स्थानोंमें जीव उनसे विशेष अधिक हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ।

स्वामित्वसे जघन्य पदमें ज्ञानावरणीयकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य किसके होती है ? ॥ १४ ॥

जहण्णपदे इदि पुव्वुत्तअहियारसंभालणडं णिदिडं । सेसकम्मपडिसेहडो णाणावरणीय-
णिदेसो । कालणिदेसो खेत्तादिपडिसेहफलो । पुव्वाणुपुव्विकम' मोत्तूण पच्छाणुपुव्वीए
जहण्णसामित्तपरूवणं किमडं कीरेदे ? ण, तीहि वि आणुपुव्वीहि परूविदे दोसो णत्थि
त्ति जाणावणडं तहापरूवणादो । अधवा, जहण्णट्टाणादो उक्कस्सट्टाणं संगहिदासेसट्टाण-
वियप्पत्तादो पहाणमिदि जाणावणडं पुव्वमुक्कस्सट्टाणपरूवणा कदा । सेसं सुगमं ?

अण्णदरस्स चरिमसमयछदुमत्थस्स तस्स णाणावरणीयवेयणा
कालदो जहण्णा ॥ १५ ॥

ओगाहणादिभेदेहि' जहण्णकालविरोहाभावपरूवणडमण्णदरस्से त्ति भणिदं । छदुमं
णाम आवरणं, तम्हि चिड्ढदि त्ति छदुमत्थो, तस्स छदुमत्थस्से त्ति णिदेसेण केवलिपडि-
सेहो कदो । चरिमसमयछदुमत्थस्से त्ति णिदेसो दुचरिमादिछदुमत्थपडिसेहफलो । खीण-
कसायदुचरिमसमए किण्ण जहण्णसामित्तं दिज्जेदे ? ण, तत्थ णाणावरणीयस्स दुसमइयडिदि-

'जघन्य पदमें' यह निर्देश पूर्वोक्त अधिकारका स्मरण करानेके लिये कहा है । शेष कर्मोंका प्रतिषेध करनेके लिये 'ज्ञानावरणीय' पदका निर्देश किया है । कालके निर्देशका प्रयोजन क्षेत्रादिकोंका प्रतिषेध करना है ।

शंका - पूर्वानुपूर्वाक्रमको छोड़कर पश्चादानुपूर्वीसे जघन्य स्वामित्वकी प्ररूपणा किसलिये की जा रही है ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, तीनों ही आनुपूर्वियोंसे प्ररूपणा करनेपर कोई दोष नहीं होता, यह जतलानेके लिये यहां पश्चादानुपूर्वीक्रमसे प्ररूपणा की गई है । अथवा जघन्य स्थानकी अपेक्षा समस्त स्थानभेदोंका संग्रहकर्ता होनेसे उत्कृष्ट स्थान प्रधान है, यह ज्ञात करानेके लिये पहिले उत्कृष्ट स्थानकी प्ररूपणा की गई है ।

शेष कथन सुगम है ।

जो कोई भी जीव छद्मस्थ अवस्थाके अन्तिम समयमें वर्तमान है उसके कालकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय कर्मकी जघन्य वेदना होती है ॥ १५ ॥

अवगाहनादिक भेदोंसे जघन्य कालवेदनाके होनेमें कोई विरोध नहीं है, यह जतलानेके लिये सूत्रमें 'अन्यतर' पदका उपादान किया गया है । छद्म शब्दका अर्थ आवरण है, उसमें जो स्थित है वह छद्मस्थ कहा जाता है । उक्त छद्मस्थका निर्देश करनेसे केवलाका प्रतिषेध किया गया है । 'अन्तिम समय-वर्ती छद्मस्थ' इस निर्देशका फल द्विचरम-त्रिचरम आदि समयोंमें वर्तमान छद्मस्थोंका प्रतिषेध करना है ।

शंका - क्षीणकषाय गुणस्थानके द्विचरम समयमें जघन्य वेदनाका स्वामित्व क्यों नहीं दिया जाता है ?

दंसणादो । एवं तिचरिमादिछदुमत्थेसु वि जहण्णसामित्ताभावो जाणिदूण वत्तव्वो । तम्हा खीणकसायचरिमसमए एगसमइयडिदिणाणावरणकम्मवखधे जहण्णसामित्तं होदि ति घेतव्वं ।

तव्वदिरित्तमजहण्णा ॥ १६ ॥

एदम्हादो जं वदिरित्तं तमजहण्णा कालवेयणा होदि । तं च अणेयवियप्पं । तेण तव्वेदपरूवणादुवारेण तेसिं द्वाणाणं सामित्तपरूवणं कस्सामो । तं जहा— एगो खवगो कम्माणि परिवाडीए खविय चरिमसमयखीणकसाई जादो । तस्स खीणकसायस्स चरिमसमए एगा डिदी एगसमयकालपमाणा अच्छिदा । तस्स णाणाक्कणीयवेयणा कालदो जहण्णा । एसो जहण्णकालसामी । पुणो अण्णेगो जीवो पुव्वविधाणेणांगंतूण दुचरिमसमय-खीणकसाई जादो । सो अजहण्णकालसामी । एदं चिदियद्वाणं । पुणो अण्णो जीवो तिचरिमसमयखीणकसाई जादो । एसो वि अजहण्णकालसामी । तं तदियं द्वाणं । एवं चउत्थादिकमेण ओदारेदव्वं जाव खीणकसायद्वाए संखेज्जदिभागो ति । एदे णिरंतरद्वाण-सामिणो होति ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, वहां ज्ञानावरणीयकी दो समय प्रमाण स्थिति देखी जाती है ।

इसी प्रकार त्रिचरम आदि छदुमस्थोंमें भी जघन्य वेदनाके स्वामित्वका अभाव जानकर कहना चाहिये । इसीलिये क्षीणकषायके अन्तिम समयमें ज्ञानावरण कर्मस्कन्धकी एक समयवाली स्थिति युक्त जीव जघन्य वेदनाका स्वामी होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

जघन्य वेदनासे भिन्न अजघन्य वेदना होती है ॥ १६ ॥

इस जघन्य वेदनासे जो भिन्न है वह कालकी अपेक्षा अजघन्य वेदना है । वह अनेक भेद रूप है । इसलिये उसके भेदोंकी प्ररूपणा करते हुए उन स्थानोंके स्वामित्वकी प्ररूपणा करते हैं । यथा— कोई एक क्षपक परिपाटीसे कर्मोंका क्षपण करके क्षीणकषायके अन्तिम समयवर्ती हुआ । उक्त जीवके क्षीणकषाय होनेके अन्तिम समयमें एक समय काल प्रमाण एक स्थिति रहती है । उसके ज्ञानावरणीयकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य होती है । यह जघन्य कालवेदनाका स्वामी है । पुनः एक दूसरा जीव पूर्व विधिसे आ करके क्षीणकषायके त्रिचरम समयवर्ती हुआ । वह अजघन्य कालवेदनाका स्वामी है । यह द्वितीय स्थान है । पुनः एक और जीव क्षीणकषायके त्रिचरम समयवर्ती हुआ । यह भी अजघन्य कालवेदनाका स्वामी है । वह तीसरा स्थान है । इसी प्रकार चतुर्थ पंचम आदिके क्रमसे क्षीणकषाय-कालके संख्यातवें भाग तक उतारना चाहिये । ये सब निरन्तर स्थानोंके स्वामी होते हैं ।

पुणो अण्णो जीवो पुच्चविहाणेणांगंतूण पुच्चणिरुद्धट्टिदीए तदणंतरहेट्टिमखीण-
कसाई जादो । एदं सांतरमपुणरुत्तट्टाणं, पुच्चिल्लट्टाणं पेक्खिदूण अंतोमुहुत्तमेत्तट्टिदीहि
अंतरिदूणुप्पणत्तादो । तं कथं णच्चदे ? एत्थ चरिमट्टिदिखंडयचरिमफालीए उवलंभादो,
उवरिमट्टिदिमि तदणुवलंभादो । एत्तो प्पहुडि हेट्टा समऊणुक्कीरणद्धामेत्तणिरंतरट्टाणेसु
समुप्पण्णेषु सइं सांतरट्टाणमुप्पज्जदि । कुदो ? अप्पिद-अप्पिदट्टिदिखंडयस्स चरिमफालि-
मेत्तमंतरिदूणुप्पत्तीदो । एवमोदारेदच्चं जाव अणियट्टिअट्टाए संखेज्जदिभागो ति । तत्थ-
तणअणियट्टिदिमंतादो वादरेइंदियपज्जत्तयस्स णाणावरणजहण्णट्टिसंतं विसेसाहियं पल्लिदो-
वमस्स असंखेज्जदिभागेण ।

पुणो एदमणियट्टिदिदिसंतं मोत्तूण वादरेइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णट्टिसंतं धेत्तूण
समउत्तरं वट्टिदूण पवद्धे णिरंतरमण्णमपुणरुत्तट्टाणं उप्पज्जदि । पुणो एद काए वट्टीए
वट्टिदे ति उत्ते असंखेज्जभागवट्टीए । एदस्स वट्टिदसमयस्स आगमण्डं को भागहारो ।
वादरेइंदियधुवट्टिदी । कुदो ? वादरेइंदियधुवट्टिदीए वादरेइंदियधुवट्टिदिमवहरिय लद्धमेग-

पश्चात् दूसरा एक जीव पूर्व विधिसे आकर पूर्वकी विवक्षित स्थितिसे
तदनन्तर अधस्तन क्षीणफयायी हुआ । यह सान्तर अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि,
पूर्वके स्थानकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त मात्र स्थितियोंके अन्तरसे यह स्थान उत्पन्न हुआ है ।

शंका—वह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि, यहां अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालि पायी
जाती है, परन्तु ऊपरकी स्थितिमें वह नहीं पायी जाती ।

यहांसे प्रारम्भ होकर नीचे एक समय कम उत्कीरणकालके बराबर निरन्तर
स्थानोंके उत्पन्न होनेपर एक बार सान्तर स्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि,
विवक्षित विवक्षित स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालि प्रमाण अन्तर करके वह
उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार अनिवृत्तिकरणकालके संख्यातवें भाग तक उतारना
चाहिये । यहांके अनिवृत्तिकरणके स्थितिसत्त्वसे वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवके
ज्ञानावरणका जघन्य स्थितिसत्त्व पर्योपमके असंख्यातवें भागसे विशेष अधिक है ।

पुनः इस अनिवृत्तिकरणके स्थितिसत्त्वको छोड़कर और वादर एकेन्द्रिय
पर्याप्तके जघन्य स्थितिसत्त्वको ग्रहण करके एक एक समय बढ़कर बांधनेपर दूसरा
निरन्तर अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है ।

शंका—यह कौनसी वृद्धि द्वारा वृद्धिगत हुआ है ?

समाधान—वह असंख्यातभागवृद्धिके द्वारा वृद्धिगत हुआ है ।

शंका—इस बड़े हुए समयके निकालनेके लिये भागहार क्या है ?

समाधान—इसके लिये भागहार वादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थिति है, क्योंकि, वादर
एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिका वादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर जो एक

समयं तस्मिन्नेव ध्रुवद्विदिं पडिरासिय पक्खित्ते वट्टमाणवट्ठिठाणुप्पत्तीदो' । दुसमउत्तरं वट्ठिदूणं बंधमाणस्स वि असंखेज्जभागवट्ठिठाणं चेव । कुदो ? पुव्विल्लभागहारस्स दुभागेण ध्रुवद्विदीए ओवट्ठिदाए दोण्णं समयानमागमणदंसणादो । तिसमयउत्तरं वट्ठिदूणं बंधमाणस्स वि असंखेज्जभागवट्ठी चेव, ध्रुवद्विदीए तिभागेण ध्रुवद्विदिमोवट्ठिदे तिण्णं वट्ठिदसमयानमागमणदंसणादो । चदुसमयउत्तरं वट्ठिदूणं बंधमाणस्स असंखेज्जदिभागवट्ठी चेव, ध्रुवद्विदीए चदुभागेण ध्रुवद्विदीए ओवट्ठिदाए वट्ठिदचदुरूवाणमागमणदंसणादो । एवं वादरेइंदियध्रुवद्विदीए उवरि वादरेइंदियध्रुवद्विदीए जत्तियाओ पलिदोवमसलागाओ अत्थि, तत्तियमेत्तेसु ममएसु वट्ठिदेसु वि असंखेज्जभागवट्ठी चेव होदि, पलिदोवमेण ध्रुवद्विदीए ओवट्ठिदाए वट्ठिदध्रुवद्विदिपलिदोवमसलागमेत्तसमयानमागमणदंसणादो । पुणो एगसमयं वट्ठिदूणं बंधमाणस्स वि असंखेज्जभागवट्ठी चेव, किंचूणपलिदोवमेण ध्रुवद्विदीए भागे हिदाए रूवाहियपलिदोवमसलागमेत्तसमयानमागमणदंसणादो । ध्रुवद्विदिपलिदोवमसलागासु दुगुणमेत्तासु वट्ठिदासु वि असंखेज्जभागवट्ठी चेव होदि, पलिदोवमदुभागेण ध्रुवद्विदीए ओवट्ठिदाए दुगुणध्रुवद्विदिपलिदोवमसलागाणमागमणुवलंभादो' । एवं पलिदोवमगुण-

समय लब्ध होता है उसे ध्रुवस्थितिको प्रतिराशि करके मिला देनेपर वर्तमान वृद्धिका स्थान उत्पन्न होता है ।

उत्तरोत्तर दो-दो समय बढ़कर बांधनेवाले जीवके भी असंख्यातभागवृद्धि-स्थान ही होता है, क्योंकि, पूर्व भागहारके द्वितीय भागका ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर दो समय आते देखे जाते हैं । उत्तरोत्तर तीन तीन समय बढ़कर बांधनेवालेके भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, ध्रुवस्थितिके तृतीय भागका ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर वृद्धिगत तीन समयोंकी प्राप्ति देखी जाती है । चार-चार समय उत्तरोत्तर बढ़कर बांधनेवालेके असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, ध्रुवस्थितिके चतुर्थ भागका ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर वृद्धिप्राप्त चार रूपोंकी उपलब्धि देखी जाती है । इस प्रकार बादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिके ऊपर बादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिमें जितनी पल्योपमशलाकायें हैं उतने मात्र समयोंकी वृद्धि हो चुकनेपर भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, पल्योपमका ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर ध्रुवस्थितिकी पल्योपमशलाकाओं प्रमाण वृद्धिगत समयोंकी उपलब्धि देखी जाती है । तत्पश्चात् एक समयकी वृद्धि होकर बांधनेवालेके भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, कुछ कम पल्योपमका ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर एक अधिक पल्योपमशलाकाओं प्रमाण समयोंकी उपलब्धि देखी जाती है । ध्रुवस्थितिमें जितनी पल्योपमशलाकायें हैं उनसे दुनी वृद्धिके होनेपर भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, पल्योपमके अर्ध भागका ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर दुनी ध्रुवस्थितिकी पल्योपमशलाकायें प्राप्त होती हैं । इस प्रकार पल्योपमकी

गारसलागमेत्तपढमवग्गमूलाणि वड्ढिदूण बंधमाणस्स वि असंखेज्जभागवड्ढिड्डाणं चैव होदि । कुदो ? पलिदोवमवग्गमूलेण धुवड्ढिदीए ओवड्ढिदाए धुवड्ढिदिपलिदोवमसलागमेत्तपलिदोवमपढमवग्गमूलाणमागमुवलंभादो । एवं वादरधुवड्ढिदीए भागहारो पलिदोवमविदियवग्गमूलं होदूण, पुणो कमेण हाइदूण तदियवग्गमूलं होदूण, पुणो आवलियं होदूण जाव जहणपरित्तासंखेज्जं पत्तो त्ति ताव वड्ढावेदव्वो । एवं वड्ढिदे वि असंखेज्जभागवड्ढी चैव । कुदो ? जहणपरित्तासंखेज्जेण वादरेइंदियधुवड्ढिदीए ओवड्ढिदाए वड्ढिरूवाणमुवलंभादो । वादरेइंदियवीचारड्डाणाणि पेक्खिदूण एदे वड्ढिदसमया असंखेज्जगुणा होति, पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागत्तादो, आवलियाए असंखेज्जदिभागेण पलिदोवमे भागे हिदे वादरेइंदियवीचारड्डाणाणं पमाणुप्पत्तीदो; वादरेइंदियउक्कस्सड्ढिदीए उवरि समउत्तरादिकमेण वंधो ण लब्भदि त्ति ।

संपहि ड्ढिदिघादमस्सिदूण उवरिमड्डाणाणमुप्पत्ती परूवेदव्वा । तं जहा— वादरेइंदियउक्कस्सड्ढिदीदो समउत्तरं घादिदूण इविदे असंखेज्जभागवड्ढी होदि । उवरिमड्ढिदि पुणो घादिदूण वादरेइंदियउक्कस्सड्ढिदिबंधादो दुसमउत्तरं कादूण इविदे तमणमपुणरुत्तमसंखेज्जभागवड्ढिड्डाणं होदि । तिसमउत्तरं कादूण इविदे अणमपुणरुत्त-

गुणकारभूत शलाकाओं प्रमाण पल्योपम प्रथमवर्गमूलोंकी वृद्धि होकर बांधनेवालेके भी असंख्यातभागवृद्धिका ही स्थान होता है, क्योंकि, पल्योपमके वर्गमूलका ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर ध्रुवस्थितिकी पल्योपमशलाकाओं प्रमाण पल्योपम-प्रथम वर्गमूलोंकी उपलब्धि पायी जाती है । इस प्रकार वादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिका भागहार पल्योपमका द्वितीय वर्गमूल होकर, फिर क्रमसे हीन होकर तृतीय वर्गमूल होकर, फिर आवली होकर, जब तक जघन्य परीतासंख्यात प्राप्त नहीं होता तब तक बढ़ाना चाहिये । इस प्रकार भागहारके बढ़नेपर भी असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि, जघन्य परीतासंख्यातका वादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर वृद्धिप्राप्त अंक उपलब्ध होते हैं । ये वृद्धिगत समय वादर एकेन्द्रियके वीचारस्थानोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि, वे पल्योपमके संख्यातवें भाग प्रमाण हैं, आवलीके असंख्यातवें भागका पल्योपममें भाग देनेपर वादर एकेन्द्रियके वीचारस्थानोंका प्रमाण उत्पन्न होता है तथा वादर एकेन्द्रियकी उत्कृष्ट स्थितिके ऊपर एक समयादिककी अधिकताके क्रमसे बन्ध नहीं पाया जाता ।

अथ स्थितिघातका आश्रय करके उपरिम स्थानोंकी उत्पात्तिकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—वादर एकेन्द्रियकी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे एक-एक समय घात करके स्थापित करनेपर असंख्यातभागवृद्धि होती है । पश्चात् उपरिम स्थितिको फिरसे घातकर वादर एकेन्द्रियके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे दो दो समय अधिक करके स्थापित करनेपर वह दूसरा अपुनरुक्त असंख्यातभागवृद्धिका स्थान होता है । तीन-तीन समय अधिक करके स्थापित करनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है । इस

झाणं होदि । एवं णेदव्वं जाव चादेरइंदियधुवड्ढिदिं जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खंडेदूण एगखंडमेत्तेण वड्ढिदूणच्छिदड्ढिदिं ति । पुणो एदस्सुवरि ड्ढिदिघादेण समउत्तरं वड्ढिदे वि असंखज्जभागवड्ढी होदि ।

एदस्स छेदभागहारो । तं जहा— जहण्णपरित्तासंखेज्जं विरलेदूण चादेरइंदिय-धुवड्ढिदिं समखंडं कादूण दिण्णे विरलणरूवं पडि जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खंडिदेगखंड-मागच्छदि । पुणो एदं समयाहियमिच्छामो ति एत्थ एगरूवधरिदं हेड्ढा विरलिय तं चेव समखंडं कादूण दिण्णे एगरूवस्स वड्ढिपमाणं पावदि । पुणो एदं उवरि दादूण समकरणं करिय रूवाहियहेड्ढिमविरलणमेत्तद्वाणं गंतूण जदि एगरूवपरिहाणी लब्भदि तो उवरिमविरलणाए किं लभामो ति पमाणेण फलगुणिदमिच्छमोवड्ढिय लद्धमेगरूवस्स असंखेज्जदिभागमुवरिमविरलणाए

अच्छेदनस्य राशेः रूपं छेदं वदन्ति गणितज्ञाः ।

अंशाभावे नाशं छेदस्याहुस्तदन्वेव ॥ ५ ॥

प्रकार वादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करके एक खण्ड मात्रसे वृद्धिगत होकर स्थितिके स्थित होने तक ले जाना चाहिये । पश्चात् इसके ऊपर स्थितिघातसे उत्तरोत्तर एक एक समय बढ़नेपर भी असंख्यातभागवृद्धि होती है ।

इसके छेदभागहारको कहते हैं । यथा— जघन्य परीतासंख्यातका विरलन करके ऊपर वादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिको समखण्ड करके देनेपर एक एक विरलन अंकके प्रति जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित करनेपर एक खण्ड प्राप्त होता है । फिर चूंकि इसे एक समय अधिक चाहते हैं, अत एक अंकके प्रति प्राप्त राशिका नीचे विरलन करके ऊपर उसको ही समखण्ड करके देनेपर एक रूपका वृद्धिप्रमाण प्राप्त होता है । फिर इसको ऊपर देकर समकरण करके एक अधिक नीचेके विरलन प्रमाण स्थान जाकर उसको ही समखण्ड करके देनेपर एक रूपका वृद्धिप्रमाण प्राप्त होता है । इसको ऊपर देकर समकरण करके एक अधिक नीचेकी विरलन राशिके बराबर स्थान जाकर यदि एक रूपकी हानि प्राप्त होती है तो उपरिम विरलनके बराबर स्थान जाकर कितनी हानि प्राप्त होगी, इस प्रकार फल राशिसे गुणित इच्छा राशिमें प्रमाण राशिका भाग देनेपर जो एक रूपका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है उसको ऊपरकी विरलन राशिमेंसे—

जब राशिमें कोई छेद नहीं होता तब गणितज्ञ उसका छेद एक मान लेते हैं (जैसे $३ = \frac{३}{१}$) । और जब अंशका अभाव हो जाता है तब छेदोंका भी नाश समझना चाहिये ($\frac{३}{१} - \frac{६}{२} = \frac{६-६}{२} = \frac{०}{२} = ०$) ॥ ५ ॥

एदेण लक्खणेण सरिसछेदं कादूण सोहिदे सुद्धसेसमुक्कस्ससंखेज्जमेगरूवस्स असंखेज्जा भागा च भागहारो होदि । एदेण वादरधुवट्ठिदीए ओवट्ठिदाए इच्छिदट्ठाणस्स वट्ठिसमया आगच्छंति । पुणो ट्ठिदिघादेण दुसमउत्तरं ट्ठिदिं घरेदूण ट्ठिदस्स वि असंखेज्जभागवट्ठीए अण्णमपुणरुत्तट्ठाणं होदि । एत्थ वि छेदभागहारो चेव । तिसमउत्तरं घरेदूण ट्ठिदस्स असंखेज्जभागवट्ठीए अण्णमपुणरुत्तट्ठाणं होदि । एवं ताव छेदभागहारो होदूण गच्छदि जाव वादरेइंदियधुवट्ठिदिं जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खंडेदूण तत्थ एगखंडस्सुवरि तं चेव उक्करसमंखेज्जेण खंडेदूण तत्थ एगखंडं रूऊणं वट्ठिदं ति । पुणो संपुण्णं वट्ठिदे समभागहारो होदि । कुदो ? उक्कस्ससंखेज्जेण रूवाहिण्ण जहण्णपरित्तासंखेज्जे भागे हिदे उवरिमविरलणाए अवणेदुभेगरूवुवलंभादो । एत्थ संखेज्जभागवट्ठीए आदी असंखेज्जभागवट्ठीए परिममत्ती च जादा ।

पुणो एदस्सुवरि अण्णो जीवो ट्ठिदिघादं करेमाणो समउत्तरट्ठिदिं घरेदूण ट्ठिदो । एत्थ वि संखेज्जभागवट्ठी चेव । एदिस्से वट्ठीए छेदभागहारो होदि । तं जहा— उवरिमेगरूवधरिदं हेट्ठा विरलेदूण तं चेव समखंडं कादूण दिण्णे एक्केक्कस्स रूवस्स एगेगो समओ पावदि । पुणो एदं उवरिमरूवधरिदेसु पक्खिविय समकरणे कीरमाणे परिहीण-

इस नियमके अनुसार समखण्ड करके घटा देनेपर अवशिष्ट उत्कृष्ट संख्यात व एक रूपका असंख्यात बहुभाग भागहार होता है । इसका वादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर अभीष्ट स्थानके वृद्धिगत समय प्राप्त होते हैं । फिर स्थितिघातसे उत्तरोत्तर दो समयोंकी अधिकताको प्राप्त स्थितिको ग्रहणकर स्थित हुए जीवके भी असंख्यातभागवृद्धिका अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है । यहां भी छेदभागहार ही होता है । तीन तीन समय अत्रिक स्थितिको ग्रहणकर स्थित जीवके असंख्यात भागवृद्धिका अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है । इस प्रकार तब तक छेदभागहार होकर जाता है जब तक कि वादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिको जघन्य परीतासंख्यातसे खण्डित कर उसमेंसे एक खण्डके ऊपर उसको ही उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके उसमेंसे एक अंक कम एक खण्डकी वृद्धि नहीं हो जाती । तत्पश्चात् पूरे खण्ड प्रमाण वृद्धि हो जानेपर समभागहार होता है, क्योंकि, जघन्य परीतासंख्यातमें एक अधिक उत्कृष्ट संख्यातका भाग देनेपर ऊपरकी विरलन राशिमेंसे कम करनेके लिये एक रूप उपलब्ध होता है । अब यहां संख्यातभागवृद्धिका प्रारम्भ और असंख्यातभागवृद्धिकी समाप्ति हो जाती है ।

इसके ऊपर अन्य जीव स्थितिघातको करता हुआ एक-एक समय अधिक स्थितिको लेकर स्थित हुआ । यहां भी संख्यातभागवृद्धि ही होती है । इस वृद्धिका छेदभागहार होता है । यथा— ऊपरके एक एक अंकके ऊपर स्थित राशिका नीचे विरलन करके ऊपर उसको ही समखण्ड करके देनेपर हर एक अंकके प्रति एक एक समय प्राप्त होता है । फिर इसको ऊपरके अंकोंपर स्थित राशियोंमें मिलाकर

रूवाणं पमाणं उच्चदे— रूवाहियहेट्टिमविरलणमेत्तद्वाणं गंतूणं यदि एगरूवपरिहाणी लब्भदि तो उवरिमविरलणम्मि किं लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए एगरूवस्स असंखेज्जदिभागो आगच्छदि । एदमुक्कस्ससंखेज्जम्मि सोहिदे एगरूवस्स असंखेज्जा भागा रूवूणुक्कस्ससंखेज्जं च भागहारो होदि । पुणो दुसमउत्तरं वड्ढिदे संखेज्जभागवड्ढिद्वणं होदि । एदस्स वि छेदभागहारो । तिसमउत्तरं वड्ढिदे वि संखेज्ज-भागवड्ढी चैव । एवं ताव छेदभागहारो होदूणं गच्छदि जाव वादरेइंदियधुवट्टिदि उक्कस्ससंखेज्जेण खंडेदूणं पुणो तत्थेगखंडं रूवूणुक्कस्ससंखेज्जेण खंडेदूणं तत्थेगखंडं रूवूणं वड्ढिदं ति । संपुणं वड्ढिदे समभागहारो होदि । तं च कथं ? रूवूणुक्कस्ससंखेज्जं विरलेदूणं उवरिमेगरूवधरिदं समखंडं कादूणं दिण्णे वड्ढिपमाणं होदि । एदमुवरिमरूव-धरिदेसु दादूणं समकरणे कीरमाणे रूवाहियहेट्टिमविरलणमेत्तद्वाणं गंतूणं एगरूवपरिहाणी होदि त्ति रूवाहियहेट्टिमविरलणाए उवरिमविरलणाए ओवट्टिदाए एगरूवमागच्छदि । तम्मि उवरिमविरलणाए सोहिदे रूवूणुक्कस्ससंखेज्जं भागहारो होदि । पुणो एदेण

समकरण करते हुए हीन रूपोंके प्रमाणको कहते हैं— एक अधिक नीचेकी विरलन राशि प्रमाण अध्वान जाकर यदि एक रूपकी हानि पायी जाती है तो ऊपरकी विरलन राशिमें वह कितनी प्राप्त होगी, इस प्रकार फलगुणित इच्छा राशिमें प्रमाण राशिका भाग देनेपर एक रूपका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है। इसको उत्कृष्ट संख्यातमेंसे कम करनेपर शेष एक रूपका असंख्यात बहुभाग और एक कम उत्कृष्ट संख्यात भागहार होता है। आगे दो-दो समय बढ़नेपर संख्यातभाग-वृद्धिका स्थान होता है। इसका भी छेदभागहार है। तीन-तीन समय बढ़नेपर भी संख्यातभागवृद्धि ही होती है। इस प्रकार तब तक छेदभागहार होकर जाता है जब तक कि वादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिको उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करके फिर उसमेंसे एक खण्डको एक कम उत्कृष्ट संख्यातसे खण्डित करनेपर उसमेंसे एक कम एक खण्ड प्रमाण वृद्धि नहीं हो जाती। सम्पूर्ण खण्ड प्रमाण वृद्धि हो चुकनेपर समभागहार होता है।

शका— वह कैसे ?

समाधान— एक कम उत्कृष्ट संख्यातका विरलन कर उपरिम विरलनके एक रूपपर रखी हुई राशिको समखण्ड करके देनेपर वृद्धिका प्रमाण होता है। इसको उपरिम रूपोंपर रखी हुई राशियोंके ऊपर देकर समकरण करते हुए एक अधिक नीचेकी विरलनराशि प्रमाण अध्वान जाकर चूंकि एक अंककी हानि होती है, अतः एक अधिक नीचेकी विरलन राशिका ऊपरकी विरलन राशिमें भाग देनेपर एक अंक आता है। उसको उपरिम विरलन राशिमेंसे कम करनेपर एक कम उत्कृष्ट संख्यात भागहार होता है।

षादरधुवडिदीए ओवडिदाए संखेज्जभागवडिसमया लब्धंति । एवं छेदभागहार-समभाग-हारेहि डिदिघादमस्सिदूण णेदव्वं जाव धुवडिदिभागहारो दोरूवपमाणो पत्तो ति ।

पुणो अण्णो जीवो डिदिघादं करेमाणो समउत्तराए डिदीए आगदो । तमण्णं संखेज्ज-भागवडिद्वानं होदि । पुणो एदस्स छेदभागहारो । त जहा— उवरिमएगरूवधरिदं विरलेदूण तं चेव समखंडं कादूण दिण्णे एक्केक्कस्स रूवस्स एगेगसमयपमाणं पावदि । पुणो एत्थ एगरूवधरिदं धेत्तूण उवरिमएगरूवधरिदम्मि दादूण समकरणे कीरमाणे रूवा-हियेहेडिमविरलणमेत्तद्वानं गंतूण एगरूवपरिहाणी होदि ति रूवाहियेहेडिमविरलणाए उवरिमविरलणाए ओवडिदाए एगरूवस्स असंखेज्जदिभागो आगच्छदि । एदं सरिसछेदं कादूण दोरूवेसु सोहिदे एगरूवस्स असंखेज्जा भागा सगलमेगरूवं च भागहारो होदि । पुणो एदेण षादरधुवडिदिमोवडिय लद्धमेत्ते वड्ढाविदे अण्णमपुणरुत्तं संखेज्ज-भागवडिद्वानं होदि । पुणो दुसमउत्तरं वड्ढिदे वि संखेज्जभागवडिद्वानं होदि । एदस्स वि छेदभागहारो होदि । एदेण कमेण छेदभागहारो ताव गच्छदि जाव षादरधुवडिदिं दोहि रूवेहि खंडेदूण पुणो तत्थ एगखंडं रूज्जणं दोहि रूवेहि अवहिरिय

फिर इसका षादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिमें भाग देनेपर संख्यातभागवृद्धिके समय प्राप्त होते हैं । इस प्रकार छेदभागहार और समभागहारके द्वारा स्थिति-घातका आश्रय करके ध्रुवस्थितिभागहारके दो अंक प्रमाण प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये ।

पुन. दूसरा जीव स्थितिघातको करता हुआ उत्तरोत्तर एक एक समय अधिक स्थितिके साथ आया । वह संख्यातभागवृद्धिका अन्य स्थान होता है । अब इसके छेदभागहारको कहते हैं । यथा— ऊपरके एक अंकके प्रति प्राप्त राशिका विरलन करके उसे ही समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति एक एक समय प्रमाण प्राप्त होता है । फिर इसमेंसे एक अंकके ऊपर रखी हुई राशिको ग्रहण कर उसे उपरिम एक अंकके प्रति प्राप्त राशिमें देकर समकरण करते हुए एक अधिक अधस्तन विरलन प्रमाण स्थान जाकर चूंकि एक रूपकी हानि होती है, अतः एक अधिक अधस्तन विरलनका उपरिम विरलनमें भाग देनेपर एक रूपका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है । इसको समानखण्ड करके दो रूपोंमेंसे घटा देनेपर एक रूपका असंख्यात बहुभाग और एक पूर्ण रूप भागहार होता है । फिर इससे षादर ध्रुवस्थितिको अपवर्तित करनेपर जो लब्ध हो उतना बढ़ानेपर संख्यात-भागवृद्धिका अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है । पुनः दो दो समय अधिक बढ़नेपर भी संख्यातभागवृद्धिका स्थान होता है । इसका भी छेदभागहार होता है । इस क्रमसे छेदभागहार तब तक जाता है जब तक षादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिको दो रूपोंसे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्डको एक कम करके पुनः दो रूपोंसे खण्डित करनेपर

लद्धरूवूणमेत्तं वड्ढिदं त्ति । संपुण्णे वड्ढिदे समभागहारो होदि । तं जहा— एगरूवं विरलेदूण उवरिमेगरूवधरिदं दादूण समकरणं करिय रूवाहियहेड्डिमविरलणाए उवरिमविरलणाए ओवड्ढिदाए एगरूवमागच्छदि । तम्मि दोसु रूवेसु सोहिदे एगरूवं भागहारो होदि । एदेणोवड्ढिदादरधुवड्ढिदीए वादरधुवड्ढिदीए उवरि^१ पक्खित्ताए संखेज्जगुणवड्ढीए आदी होदि, दोरूवेहि वादरधुवड्ढिदीए गुणिदाए उप्पणत्तादो । एदस्सुवरि समउत्तरं वड्ढिदे छेदगुणगारो होदि । दोण्णं रूवाणं उवरि एगरूववड्ढिणिमित्तपक्खेवो उच्चदे । तं जहा— धुवड्ढिदीए वड्ढमाणाए जदि एगरूवगुणगारो लब्धिदि तो एगसमयस्स किं लभाभो त्ति धुवड्ढिदीए एगरूवे ओवड्ढिदे पक्खेवपमाणं होदि ।

एत्थ धुवड्ढिदि त्ति संदिड्ढीए चत्तारि [४] रूवाणि । एदस्स गुणगारो एत्तिओ होदि [९] । पुणो एदेण वादरधुवड्ढिदीए गुणिदाए रूवाहियदुगुणवड्ढिद्वानं होदि [९] ।

पुणो दुसमउत्तरं वड्ढिदे वि छेदगुणगारो होदि । एत्थ पुवं व तेरासियकमेण छेदगुणगारो साहेयव्वो । तस्स पमाणमेदं [५] । एदेण वादरधुवड्ढिदीए गुणिदाए दुसमउत्तरदुगुणवड्ढी

जो प्राप्त हो उसमेंसे एक कम करनेपर प्राप्त राशि प्रमाण वृद्धि नहीं हो जाती । पूर्ण लब्ध प्रमाण वृद्धिके होनेपर समभागहार होता है । यथा—

एक रूपका विरलन करके ऊपर उपरिम एक अंकके प्रति प्राप्त राशिको देकर समकरण करके एक अधिक अधस्तन विरलनका उपरिम विरलनमें भाग देनेपर एक रूप प्राप्त होता है । उसको दो रूपोंमेंसे कम कर देनेपर एक रूप भागहार होता है । इससे अपवर्तित बादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिको उसकी ध्रुवस्थितिके ऊपर प्रक्षिप्त करनेपर संख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है, क्योंकि, वह बादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थितिको दो अंकोंसे गुणित करनेपर उत्पन्न हुई है । इसके ऊपर उत्तरोत्तर एक एक समयकी वृद्धि होनेपर छेदगुणकार होता है । अब दो रूपोंके ऊपर वृद्धिके निमित्तभूत प्रक्षेपको कहते हैं । यथा— ध्रुवस्थिति प्रमाण वृद्धिके होनेपर यदि एक रूप गुणकार प्राप्त होता है तो एक समयकी वृद्धिमें क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार ध्रुवस्थितिसे एक रूपको अपवर्तित करनेपर प्रक्षेपका प्रमाण होता है ।

यहां संहृष्टिमें ध्रुवस्थितिके लिये ४ अंक है । इसका गुणकार इतना (१) है । इससे बादर ध्रुवस्थितिको गुणित करनेपर एक अधिक दूनी वृद्धिका स्थान होता है— $४ \times १ = ९ = ४ \times २ + १$ । दो समय अधिक वृद्धिके होनेपर भी छेदगुणकार होता है । यहां पहिलेके समान ही त्रैराशिक क्रमसे छेदगुणकारको सिद्ध करना चाहिये । उसका प्रमाण यह है— ३ । इससे बादर ध्रुवस्थितिको गुणित करनेपर दो समय अधिक

होदि [१०] । एदेण कमेण छेदगुणगारो होदूण ताव गच्छदि जाव अण्णेर्गूरूवूणधुवड्ढिदि-
मेत्तं वड्ढिदे त्ति । पुणो संपुण्णधुवड्ढिदीए वड्ढिदाए तिगुणवड्ढी होदि, वादरधुवड्ढिदिमेत्त-
समयाणं जदि एगा गुणगारसलागा लब्भदि तो वादरधुवड्ढिदीए किं लभामो त्ति पमाणेण
फलगुणिदिच्छाए ओवड्ढिदाए एगगुणगारसलागुवलंभादो । पुणो एदं सलागं दोसु रूवेसु
पक्खिविय वादरधुवड्ढिदीए गुणिदाए तिगुणवड्ढिडाणं होदि । तस्स पमाणमेदं [१२] । पुणो
एदस्सुवरि समउत्तरं वड्ढिदे छेदगुणगारो होदि । तं जहा — धुवड्ढिदिमेत्तसमयाणं जदि एगरूवं
गुणगारो लब्भदि तो एगसमयस्स किं लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवड्ढिदाए
एगरूवस्स असंखेज्जदिभागो आगच्छदि $\left[\frac{१}{४} \right]$ । एदम्मि तिसु रूवेसु पक्खित्ते एत्तियं होदि
[१३] । एदेण वादरधुवड्ढिदीए गुणिदाए समयाहियतिगुणवड्ढिडाणं होदि [१३] । पुणो दुसम-
उत्तरं वड्ढिदे छेदगुणगारो होदि । एत्थ गुणगारे उप्पाइज्जमाणे पुच्चिल्लमंसं दुगुणिय तिसु
रूवेसु पक्खेवो कायव्वो । १ । २ । तिसमयउत्तरं वड्ढिदे छेदगुणगारो होदि । एत्थ पुच्चु-
४

दुगुणी वृद्धि होती है— $४ \times ३ = १० = ४ \times २ + २$ । इस क्रमसे छेदगुणकार होकर तब
तक जाता है जब तक कि अन्य एक अंकसे कम ध्रुवस्थिति प्रमाण वृद्धि नहीं हो
जाती । पश्चात् सम्पूर्ण ध्रुवस्थिति प्रमाण वृद्धिके हो जानेपर तिगुणी वृद्धि होती
है । कारण यह है कि वादर एकेन्द्रियकी ध्रुवस्थिति प्रमाण समयोंके यदि एक
गुणकारशलाका पायी जाती है तो वादर ध्रुवरिथितिमे कितनी गुणकारशलाकायें प्राप्त
होगीं, इस प्रकार फलगुणित इच्छामें प्रमाण राशिका भाग देनेपर एक गुणकारशलाका
पायी जाती है । इस शलाकाको दो रूपोंमें मिलाकर उससे वादर ध्रुवस्थितिको
गुणित करनेपर तिगुनी वृद्धि होती है । उसका प्रमाण यह है— $(२ + १) \times ४ = १२$ ।
इसके ऊपर एक समय अधिक बढ़नेपर छेदगुणकार होता है । यथा— ध्रुवस्थिति
प्रमाण समयोंका यदि एक अंक गुणकार प्राप्त होता है तो एक समयका कितना गुणकार
प्राप्त होगा, इस प्रकार फलगुणित इच्छामें प्रमाण राशिका भाग देनेपर एक रूपका
असंख्यातवां भाग आता है— $\frac{१ \times १}{४} = \frac{१}{४}$ । इसको तीन रूपोंमें मिलानेपर इसना

होता है— $३ + \frac{१}{४} = \frac{१३}{४}$ । इसके द्वारा वादर ध्रुवस्थितिको गुणित करनेपर एक
समय अधिक तिगुणी वृद्धिका स्थान होता है— $४ \times \frac{१३}{४} = १३ = ४ \times ३ + १$ । पश्चात् दो
समय अधिक वृद्धिके होनेपर छेदगुणकार होता है । यहां गुणकारको उत्पन्न कराते
समय पूर्वके अंशको दुगुणित कर उसे तीन रूपोंमें मिलाना चाहिये । $\frac{१}{४} \times २$ ।
तीन समय अधिक बढ़नेपर छेदगुणकार होता है । यहां पूर्वके अंशको तीनसे गुणित

१ प्रतिपु 'अण्णेग' इति पाठः ।

त्तसो तिगुणेद्वो । १ । ३ । एदं गुणगारो होदृण ताव गच्छदि जाव पुव्विल्लंसो
 ४
 रूवूणधुवट्ठिदीए गुणेदूण तिसु रूवेसु पक्खित्तो त्ति । पुणो एत्थ वि
 पुव्विल्लंसं पुण्णधुवट्ठिदीए गुणिय तिसु रूवेसु पक्खित्ते चत्तारिगुणगाररूवाणि
 होति । तेहि धुवट्ठिदीए गुणिदाए चदुगुणवट्ठी होदि । १६ । एवं छेद-सम-
 गुणगारकमेण बंध-संते अस्सिदूण णेदव्वं जाव सण्णिपंचिंदियधुवट्ठिदि त्ति । तिस्से
 पमाणं संदिट्ठीए अट्ठावीस । २८ । पुणो एदिस्से उवरि समउत्तरं पवट्ठे अण्णमपुणरुत्तट्ठाणं
 होदि । एदस्स गुणगारपमाणमेदं

७
१
४

 । एदेण धुवट्ठिदीए गुणिदाए सण्णिपंचिंदियस्स

समयाहियधुवट्ठिदिट्ठाणं होदि [२९] । एवं छेद-समगुणगारसरूवेण णेदव्वं जाव वादरधुव-
 ट्ठिदीए उक्कस्सगुणगारसलागाओ रूवूणाओ पविट्ठाओ त्ति । एदमण्णमपुणरुत्तट्ठाणं होदि
 । २२८ । पुणो एदिस्से उवरि समउत्तरं वट्ठिदूण वट्ठे' अण्णमपुणरुत्तट्ठाणं होदि । एदस्स
 छेदगुणगारो । तं जहा— वादरधुवट्ठिदिमेत्तसमएसु वट्ठिदेसु जदि एगा गुणगारसलागा
 लब्भदि तो एगसमए वट्ठिदे किं लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छमोवट्ठिय लट्ठे

करना चाहिये $\frac{१}{४} \times ३$ । इस प्रकार छेदगुणकार होकर तब तक जाता है जब तक कि पूर्वका
 अंश एक कम ध्रुवस्थितिसे गुणित होकर तीन रूपोंमें प्रक्षिप्त नहीं हो जाता ।
 फिर यहां भी पूर्वके अंशको पूर्ण ध्रुवस्थितिसे गुणित कर तीन रूपोंमें मिला देनेपर
 गुणकार चार अंक होते हैं । उससे ध्रुवस्थितिको गुणित करनेपर चौगुणी वृद्धि
 होती है— $४ \times ४ = १६$ । इस प्रकार छेदगुणकार और समगुणकारके क्रमसे बन्ध
 व सत्त्वका आश्रय करके संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवकी ध्रुवस्थिति तक ले जाना चाहिये ।
 उसका प्रमाण संहग्रिमें अट्ठाईस २८ है । फिर इसके ऊपर एक समयकी वृद्धि होनेपर
 अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है । उसके गुणकारका प्रमाण यह है— $७\frac{१}{४}$ । इससे
 ध्रुवस्थितिको गुणित करनेपर संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवकी एक समयसे अधिक ध्रुव-
 स्थितिका स्थान होता है— $\frac{४}{१} \times २\frac{९}{४} = २९$ । इस प्रकार छेदगुणकार और समगुणकार
 स्वरूपसे वादर ध्रुवस्थितिमें एक कम उत्कृष्ट गुणकारशलाकाओंके प्रविष्ट होने तक
 ले जाना चाहिये । यह अन्य अपुनरुक्तस्थान होता है २२८ ।

इसके ऊपर एक समय अधिक बढ़ करके बन्ध होनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान
 होता है । इसका छेदगुणकार होता है । यथा— वादर ध्रुवस्थिति प्रमाण समयोंके
 बढ़नेपर यदि एक गुणकारशलाका प्राप्त होती है तो एक समयके बढ़नेपर कितनी
 गुणकारशलाकाएं प्राप्त होंगी, इस प्रकार फलगुणित इच्छामे प्रमाण राशिका भाग

पुविल्लरूवेसु पक्खित्तेसु गुणगारो होदि त्ति $\left[\begin{array}{c} ५७ \\ १ \\ ४ \end{array} \right]$ । पुणो एदेण वादरधुवड्ढिदीए गुणि-

दाए संपहियट्ठाणं होदि [२२९] । दुसमउत्तरं वड्ढिदूण वड्ढे अण्णमपुणरुत्तट्ठाणं होदि ।
एत्थ पुव्वुत्तंसं दुगुणिय सगलरूवेसु पक्खेवो कायव्वो । १ । २ । एदम्मि पुव्विल्लरूवेसु

पक्खित्तं एत्तियं होदि $\left[\begin{array}{c} ५७ \\ १ \\ २ \end{array} \right]$ । एदेण वादरधुवड्ढिदीए गुणिदाए दुसमउत्तरट्ठाणं होदि

[२३०] । तिसमउत्तरं वंभिदूणागदस्स अण्णमपुणरुत्तट्ठाणं होदि । पुव्वत्तंसं तिगुणिय $\left[\begin{array}{c} १ \\ ३ \\ ४ \end{array} \right]$ ।

पुव्वुत्तगुणगाररूवेहि सह मेलाविदे एत्तियं होदि $\left[\begin{array}{c} ५७ \\ ३ \\ ४ \end{array} \right]$ । पुणो एदेण वादरधुवड्ढिदीए

गुणिदाए इच्छिदवड्ढिट्ठाणं होदि [२३१] । एवं छेदगुणगारो होदूण ताव गच्छदि जाव
पुव्वुत्तंसरस रूवूणवादरधुवड्ढिदी गुणगारो जादो त्ति । पुणो समउत्तरं वड्ढिदूण पक्खे
समगुणगारो होदि । तस्स पमाणमड्ढवंचास [५८] । पुणो एदेण वादरधुवड्ढिदीए गुणिदाए
चरिमसंखेज्जगुणवाड्ढिट्ठाणं होदि । तं च एदं [२३२] । एवं णाणावरणीयस्स तीहि
वड्ढीहि अजहण्णपरूपणा वादरधुवड्ढिदिमस्सिदूण कदा । जहण्णड्ढिदिमस्सिदूण पुण

देनेपर जो लब्ध हो उसे पूर्व रूपोंमें मिलानेपर गुणकार होता है— $५७\frac{१}{४}$ । इससे
वादर ध्रुवस्थितिको गुणित करनेपर साम्प्रतिक स्थान होता है— $\frac{२३१}{४} \times \frac{५}{३} = २२९$ ।
पश्चात् दो समय अधिक बढ़कर वन्ध होनेपर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है ।
यहां पूर्वोक्त अंशको दुगुणित करके समस्त रूपोंमें मिलाना चाहिये— $\frac{१}{४} \times २ = \frac{१}{२}$ ।
इसको पूर्व रूपोंमें मिलानेपर इतना होता है— $५७ + \frac{१}{२} = ५७\frac{१}{२}$ । इससे वादर
ध्रुवस्थितिको गुणित करनेपर दो समय अधिक वृद्धिका स्थान होता है—
 $\frac{२३१}{४} \times \frac{५}{३} = २३०$ । तीन समय अधिक बढ़कर आये हुए जीवके अन्य अपुनरुक्त
स्थान होता है । पूर्वोक्त अंशको तिगुणा करके ($\frac{१}{४} \times ३$) पूर्वोक्त गुणकार रूपोंके
साथ मिलानेपर इतना होता है— $५७\frac{३}{४}$ । इससे वादर ध्रुवस्थितिको गुणित करनेपर
इच्छित वृद्धिस्थान होता है— $\frac{२३१}{४} \times \frac{५}{३} = २३१$ । इस प्रकार पूर्वोक्त अशका गुणकार
एक कम ध्रुवस्थितिके होने तक छेदगुणकार होकर जाता है । पश्चात् एक समय
अधिक बढ़कर वन्ध होनेपर समगुणकार होता है । उसका प्रमाण अट्ठावन ५८ है ।
इससे वादर ध्रुवस्थितिको गुणित करनेपर संख्यात गुणवृद्धिका अन्तिम स्थान
होता है । वह यह है— $५८ \times ४ = २३२$ । इस प्रकार वादर पकेन्द्रिय जीवकी
ध्रुवस्थितिका आश्रय करके तीन वृद्धियोंके द्वारा ज्ञानावरणीयकी अजघन्य स्थितिके
स्वामित्वकी प्ररूपणा की है ।

संखेज्जगुणवद्धि-असंखेज्जगुणवद्धि ति दो चेव वद्धीओ होंति, ओघजहण्णद्धिदिं पेक्खिदूण ओघुककस्सद्धिदीए असंखेज्जगुणत्तुवलंभादो । एवं संखेज्जपलिदोवेमेहि ऊण तीससागरोवम-^१ कोडाकोडिमेत्तअजहण्णट्ठाणवियप्पा णाणावरणीयस्स परूविदा । एत्थ जीवसमुदाहारपरूपणा जहा अणुककस्सट्ठाणेषु परूविदा तथा परूवेदव्वा ।

एवं दंसणावरणीय-अंतराइयाणं ॥ १७ ॥

जहा णाणावरणीयस्स जहण्णाजहण्णद्धिसामित्तपरूवणा कदा तथा दंसणा-
वरणीय-अंतराइयाणं पि कायव्वा, विसेसाभावादो ।

सामित्तेण जहण्णपदे वेयणीयवेयणा कालदो जहण्णिया
कस्स ? ॥ १८ ॥

सुगममेदं ।

अण्णदरस्स चरिमसमयभवसिद्धियस्स तस्स वेयणीयवेयणा
कालदो जहण्णा ॥ १९ ॥

परन्तु जघन्य स्थितिका आश्रय करके संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि ये दो ही वृद्धियां होती हैं, क्योंकि, ओघजघन्य स्थितिकी अपेक्षा ओघउत्कृष्ट स्थिति असंख्यातगुणी पायी जाती है । इस प्रकार संख्यात पर्योपमोंसे हीन तीस कोडाकोडि सागरोपम मात्र ज्ञानावरणीयके अजघन्य स्थानभेदोंकी प्ररूपणा की है । यहां जीवसमुदाहारकी प्ररूपणा जैसे अनुत्कृष्ट स्थानोंमें की गई है वैसे ही करनी चाहिये ।

इसी प्रकार दर्शनावरणीय एवं अन्तराय कर्मोंकी जघन्य व अजघन्य स्थितिके स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ १७ ॥

जैसे ज्ञानावरणीय कर्मकी जघन्य व अजघन्य स्थितिके स्वामित्वकी प्ररूपणा की है वैसे ही दर्शनावरणीय और अन्तराय की भी करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है ।

स्वामित्वसे जघन्य पदमें वेदनीय कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य किसके होती है ? ॥ १८ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

जो कोई जीव भव्यसिद्धिकालके अन्तिम समयमें स्थित है उसके वेदनीयकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य होती है ॥ १९ ॥

भोगाहण-संठाणादीहि विसेसो णत्थि त्ति अण्णदरस्से त्ति उत्तं । भवसिद्धिओ णाम अजोगिमडारओ । तस्स चरिमसमए एगा द्विदी एगसमयकाला होदि त्ति भवसिद्धिय-चरिमसमए जहण्णसामित्तं उत्तं । दुचरिमादिसमएसु जहण्णसामित्तं किण्ण भण्णदे ? ण, तत्थ वेयणीयस्स एगसमयद्विदीए अणुवलंभादो ।

तव्वदिरित्तमजहण्णा ॥ २० ॥

तदो जहण्णादो वदिरित्तं तव्वदिरित्तं, सा अजहण्णा द्विदिवेयणा होदि । एत्थ जहा णाणावरणीयस्स अजहण्णट्ठाणपस्वणा कदा तहा कायव्वा । णवरि अजोगिचरिम-समयादो ताव णिरंतरट्ठाणपस्वणा कायव्वा जाव अजोगिपढमसमओ त्ति । पुणो सजोगि-चरिमसमए द्विदस्स सांतरमजहण्णट्ठाणं होदि । कुदो ? तत्थ चरिमफालीए अंतोमुहुत्तमेत्तीए दंगणादो । पुणो हेट्ठा स्वृणुक्कीरणद्धामेत्तणिरंतरट्ठाणेषु उप्पणेषु सइं सांतरट्ठाणमुप्प-ज्जदि, तत्थंतोमुहुत्तट्ठाणंतरदमणादो । एवं णेदच्चं जाव लोगपूरणं करिय द्विदसजोगि-केवलि त्ति । तदो पदरगदकेवल्लिहि अण्णमपुणरुत्तसांतरट्ठाणं । कुदो ? लोगपूरणगद-केवल्लिद्विदिसंतादो पदरगदकेवल्लिद्विदिसतस्स असखेज्जगुणत्तुवलंभादो । तदो कवाडगद-

अवगाहना व संस्थान आदिकोंसे कोई विशेषता नहीं होती, यह जतलानेके लिये सूत्रमें 'अन्यतर' पदका प्रयोग दिया है । भव्यसिद्धिकसे अयोगकेवली भट्टारक विवक्षित है । उनके अन्तिम समयमें चूंकि एक समय कालवाली एक स्थिति होती है, अतः भव्यसिद्धिकके अन्तिम समयमें जघन्य स्वामित्व बतलाया गया है ।

शंका—अयोगकेवलीके द्विचरमादिक समयोंमें जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं बतलाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उक्त समयोंमें वेदनीयकी एक समयवाली स्थिति नहीं पायी जाती ।

उससे भिन्न अजघन्य स्थितिवेदना होती है ॥ २० ॥

उससे अर्थात् जघन्य स्थितिवेदनासे जो भिन्न वेदना है वह अजघन्य स्थिति-वेदना है । यहां जैसे दानावरणीयके अजघन्य स्थानोंकी प्ररूपणा की गई है वैसे ही वेदनीयके भी करना चाहिये । विशेष इतना है कि अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें लेकर अयोगकेवलीके प्रथम समय तक निरन्तर स्थानोंकी प्ररूपणा करना चाहिये । फिर सयोगकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें स्थित जीवके सान्तर अजघन्य स्थान होना है, क्योंकि, वहां अन्तिम फालि अन्तर्मुहूर्त प्रमाण देखी जाती है । पुनः नीचे एक कम उत्कीरणकाल प्रमाण निरन्तर स्थानोंके उत्पन्न होनेपर एक बार सान्तर स्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि, वहां अन्तर्मुहूर्त स्थानान्तर देखा जाता है । इस प्रकार लोकपूरण समुद्घातको करके स्थित सयोगकेवली तक ले जाना चाहिये । पश्चात् प्रतरसमुद्घातगत केवलीमें अन्य अपुनरुक्त सान्तर स्थान होता है, क्योंकि, लोकपूरण समुद्घातगत केवलीके स्थितिसत्त्वसे प्रतरसमुद्घात-गत केवलीका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा पाया जाता है । पश्चात् कपाटसमुद्घातगत

केवलिम्हि अण्णं सांतरमपुणरुत्तडाणं, पदरगदकेवलिद्विदिसंतादो कवाडगदकेवलि-
द्विदिसंतस्स असंखेज्जगुणत्तुवलंभादो । तदो दंडगदकेवलिम्हि सांतरमण्णमपुणरुत्तडाणं,
कवाडगदकेवलिद्विदिसंतादो दंडगदकेवलिद्विदिसंतस्स असंखेज्जगुणत्तुवलंभादो । दंडाहि-
मुहेकेवलिम्हि अण्णं सांतरमपुणरुत्तडाणं, दंडगदकेवलिद्विदिसंतादो एदम्हि असंखेज्जगुण-
द्विदिसंतदंसणादो । एत्तो प्पहुडि हेड्डा णिरंतरडाणाणि ताव उप्पज्जंति जाव खीणकसाय-
चरिमसमओ त्ति । कुदो ? एत्थंतरे द्विदिकंदयाभावादो । एत्तो हेड्डा णिरंतर-सांतरकमेण
णाणावरणीयविहाणेण अजहण्णडाणपरूवणा कायन्वा, विसेसाभावादो ।

एवं आउअ-णामागोदाणं ॥ २१ ॥

जहा वैयणीयस्स जहण्णाजहण्णसामित्तपरूवणा कदा तहा एदेसिं पि जहण्णा-
जहण्णसामित्तं वत्तव्वं, विसेसाभावादो । णवरि आउअस्स अजहण्णसामित्तपरूवणम्मि
जो विसेसो तं वत्तइस्सामो । तं जहा— भवसिद्धियदुचरिमसमए एगमजहण्णडाणं । पुणो
तिचरिमसमए विदियमजहण्णडाणं । पुणो चदुचरिमसमए तदियमजहण्णडाणं । एत्थ

केवलीमें अन्य सान्तर अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि, प्रतरगत केवलीके स्थितिसत्त्वसे
कपाटगत केवलीका स्थितिसत्त्व असंख्यातगुणा पाया जाता है । पश्चात् दण्डसमुद्घात-
गत केवलीमें अन्य सान्तर अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि, कपाट-
समुद्घातगत केवलीके स्थितिसत्त्वसे दण्डसमुद्घातगत केवलीका स्थितिसत्त्व
असंख्यातगुणा पाया जाता है । दण्डसमुद्घातके अभिमुख हुए केवलीमें अन्य
सान्तर अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि, दण्डसमुद्घातगत केवलीके स्थितिसत्त्वसे
उसके अभिमुख हुए केवलीमें असंख्यातगुणा स्थितिसत्त्व देखा जाता है । यहांसे
लेकर नीचे क्षीणकषायके अन्तिम समय तक निरन्तर स्थान उत्पन्न होते हैं, क्योंकि,
इस बीचमें स्थितिकाण्डकका अभाव है । इसके नीचे निरन्तर और सान्तर क्रमसे
ज्ञानावरणीयके विधानके अनुसार अजघन्य स्थानोंकी प्ररूपणा करना चाहिये, क्योंकि,
उनमें कोई विशेषता नहीं है ।

इसी प्रकार आयु, नाम और गोत्र कर्मोंके जघन्य एवं अजघन्य स्वामित्वकी
प्ररूपणा है ॥ २१ ॥

जैसे वेदनीय कर्मके जघन्य व अजघन्य स्वामित्वकी प्ररूपणा की गई है वैसे ही
इन तीनों कर्मोंके जघन्य व अजघन्य स्वामित्वकी प्ररूपणा करना चाहिये, क्योंकि, उसमें
कोई विशेषता नहीं है । विशेष इतना है कि आयु कर्मके अजघन्य स्वामित्वकी प्ररूपणामें
जो कुछ विशेषता है उसे कहते हैं । यथा— भव्यसिद्धिक रहनेके द्विचरम समयमें
एक अजघन्य स्थान होता है । पश्चात् त्रिचरम समयमें द्वितीय अजघन्य स्थान
होता है । चतुश्चरम समयमें तृतीय अजघन्य स्थान होता है । यहां दुगुणी वृद्धि

दुगुणवट्टी होदि । एत्तो प्पहुडि संखेज्जगुणवट्टी होदूण ताव गच्छदि जाव उक्कस्स-
संखेज्जगुणगारसरूवेण दोण्णं समयाणं पविड्ढं ति । पुणो एदस्सुवरि एगसमए वड्ढिदे
संखेज्जगुणवट्टी चेव, अद्धरूवेणअहियउक्कस्ससंखेज्जमेत्तगुणगारुवलंभादो । पुणो
तदणंतरहेट्ठिमसमयम्मि असंखेज्जगुणवट्टी होदि, तत्थ दोण्णं समयाणं जहण्णपरित्तासंखेज्ज-
गुणगारुवलंभादो । एत्तो प्पहुडि असंखेज्जगुणवट्टीए ताव ओदारेदव्वं जाव समयाहिय-
छम्मासो ति । पुणो एदेणाउएण सरिसं आउअवंधेण विणा ड्ढिदसव्वड्ढिसिद्धिदेवारउअं
तेत्तीससागरोवमाणि समयाहियछम्मासूणाणि गालिय ड्ढिदं होदि । पुव्विल्लं मोत्तूण इमं
घेत्तूण समउत्तरादिकमेण णिरंतरं वड्ढाविय णेयव्वं जाव सव्वड्ढिसिद्धिसमुप्पण्णदेवपढमसमओ
त्ति । पुणो तेत्तीसाउअं वंधिय चरिमसमयमणुस्सो होदूण ड्ढिदसंजदम्मि अण्णमपुणरुत्तट्ठाणं ।
मणुसदुचरिमसमयड्ढिदसंजदम्मि अण्णमपुणरुत्तट्ठाण । एवमसंखेज्जगुणवट्टीए ताव
ओदारेदव्वं जाव पुव्वकोडितिभागपढमसमयड्ढिदसंजदो ति । एत्थ जीवसमुदाहारो
जाणिय वत्तवो ।

सामित्तेण जहण्णपदे मोहणीयवेयणा कालदो जहणिया
कस्स ? ॥ २२ ॥

होती है । यहांसे संख्यातगुणवृद्धि प्रारम्भ होकर तब तक जाती है जब तक कि उत्कृष्ट
संख्यात गुणकार स्वरूपसे दो समय प्रविष्ट नहीं हो जाते । पश्चात् इसके ऊपर
एक समयकी वृद्धि होनेपर संख्यातगुणवृद्धि ही रहती है, क्योंकि, वहां अर्ध
रूपसे अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण गुणकार पाया जाता है । तत्पश्चात् उससे
अनन्तर अधस्तन समयमें असंख्यातगु वृद्धि होती है, क्योंकि, वहां दो समयोंका
जघन्य परीतासंख्यात गुणकार पाया जाता है । इसके आगे एक समय अधिक
छह मास स्थिति तक असंख्यातगुणवृद्धिके द्वारा उतारना चाहिये । पश्चात् आयु-
वन्धसे रहित होकर स्थित सर्वार्थसिद्धिस्थ देवकी एक समय अधिक छह
मासोंसे कम तेतीस सागरोपम प्रमाण आयुको गलाकर स्थित हुए जीवकी आयु
इस आयुके सदृश होती है । पूर्वोक्त जीवको छोड़कर और इसे ग्रहण करके एक
एक समयकी अधिकताके क्रमसे निरन्तर बढ़ाकर सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुए
देवकी उत्पत्तिके प्रथम समय तक ले जाना चाहिये । पुनः तेतीस सागरोपम प्रमाण
आयुको बाधकर मनुष्य भवके अन्तिम समयमें स्थित संयतके अन्य अपुनरुक्त
स्थान होना है । मनुष्य भवके द्विचरम समयमें स्थित संयतके अन्य अपुनरुक्त
स्थान होना है । इन् प्रकार पूर्वकोटिभागके प्रथम समयमें स्थित संयत तक
असंख्यातगुणवृद्धिके द्वारा उतारना चाहिये । यहां जीवसमुदाहारको जानकर
कहना चाहिये ।

स्वामित्वसे जघन्य पदमें मोहनीय कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य
किसके होती है ? ॥ २२ ॥

सुगममेदं ।

अण्णदरस्स खवगस्स चरिमसमयसकसाइयस्स मोहणीय-
वेयणा कालदो जहण्णा ॥ २३ ॥

उवसामगपडिसेहफलो खवगस्से त्ति णिद्देशो । खीणकसायादिपडिसेहफलो सकसाइ-
यस्से त्ति णिद्देशो । दुचरिमादिसकसाइयपडिसेहड्डं चरिमसमएण सकसाई विसेसिदो ।
चरिमसमयसुहुमसांपराइयस्स मोहणीयवेयणा कालदो जहण्णिया होदि त्ति उत्तं होदि ।

तव्वदिरित्तमजहण्णा ॥ २४ ॥

एदस्सत्थो णाणावरणअजहण्णसुत्तस्सेव परूवेदव्वा । एवं सामित्तं संगंतोक्खित्त-
ट्ठाण-संखा-जीवसमुदाहाराणिओगहारं समत्तं ।

अप्पाबहुए त्ति । तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओगदाराणि—
जहण्णपदे उक्कस्सपदे जहण्णुक्कस्सपदे ॥ २५ ॥

तिण्णि चैव अणिओगदाराणि एत्थ होंति त्ति कधं णव्वेद ? जहण्णुक्कस्सपदेसु
एग-दुसंजोगेण तिण्णि भंगे मोत्तूण एत्तो अहियमंगुप्पत्तीए अणुवलंभादो ।

यह सूत्र सुगम है ?

जो कोई क्षपक सकषाय अवस्थाके अन्तिम समयमें स्थित है उसके मोहनीय
कर्मकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य होती है ॥ २३ ॥

सूत्रमें क्षपक पदके निर्देशका प्रयोजन उपशामकका प्रतिषेध करना है । सकषाय
पदके निर्देशका फल क्षीणकषाय आदिकोंका प्रतिषेध करना है । द्विचरम सकषायी
आदिकोंका प्रतिषेध करनेके लिये सकषायीको 'चरम समय' विशेषणसे विशेषित
किया गया है । अभिप्राय यह कि सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें
स्थित जीवके मोहनीयकी वेदना कालकी अपेक्षा जघन्य होती है ।

उससे भिन्न अजघन्य वेदना होती है ॥ २४ ॥

इस सूत्रके अर्थकी प्ररूपणा ज्ञानावरणके अजघन्य स्वामित्वकी प्ररूपणा करनेवाले
सूत्रके समान करना चाहिये । इस प्रकार स्थान, संख्या एवं जीवसमुदाहारसे गर्भित
स्वामित्व अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

अब अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारका अधिकार है । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं—
जघन्य पदमें, उत्कृष्ट पदमें और जघन्य-उत्कृष्ट पदमें ॥ २५ ॥

शंका—इस अधिकारमें तीन ही अनुयोगद्वार हैं, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — चूंकि जघन्य व उत्कृष्ट पदमें एक व दोके संयोगसे होनेवाले तीन
भंगोंकी छोड़कर इनसे अधिक भंगोंकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, अतः इसीसे जाना
जाता है कि उसमें तीन ही अनुयोगद्वार हैं ।

जहणपदेण अट्टणं पि कम्माणं वेयणाओ कालदो जहणियाओ तुल्लाओ ॥ २६ ॥

कुदो ? एगाए द्विदीए एगसमयकालाए अट्टणं पि कम्माणं जहणकालवेयणाए गहणादो । परमाणुभेदेण कालभेदो एत्थ किण्ण गहिदो ? ण, कालं मोत्तूण एत्थ पदेसाणं विवक्खाभावादो । समयभावेण एगत्तमावणसमयविसेसस्मि परमाणुपवेसादो वा । जेणेदाओ अट्ट वि कालवेयणाओ तुल्लाओ तेण जहणपदप्पाबहुअं णत्थि ति भावत्थो ।

उक्कस्सपदेण सव्वत्थोवा आउअवेयणा कालदो उक्कस्सिया ॥ २७ ॥

पुच्चकोडितिभागाहियतेत्तीससागरोवमपमाणत्तादो ।

णामा-गोदेवेयणाओ कालदो उक्कस्सियाओ दो वि तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ ॥ २८ ॥

कुदो ? वीससागरोवमकोडाकोडिपमाणत्तादो । गुणगारो संखेज्जा समया । एग-

जघन्य पदकी अपेक्षा आठों ही कर्मोंकी कालसे जघन्य वेदनायें तुल्य हैं ॥ २६॥

कारण यह कि आठों ही कर्मोंकी एक एक समय कालवाली एक स्थितिको जघन्य कालवेदना ग्रहण किया गया है ।

शंका - परमाणुभेदसे यहां कालके भेदको क्यों नहीं ग्रहण किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कालको छोड़कर यहां प्रदेशोंकी विवक्षा नहीं की गई है । अथवा, समय स्वरूपसे अभेदको प्राप्त हुए समयविशेषमें परमाणुओंका प्रवेश होमेसे कालभेदको ग्रहण नहीं किया गया ।

चूंकि ये आठों ही कालवेदनायें परस्पर समान है, अतः जघन्य अल्पबहुत्व नहीं है, यह भावार्थ है ।

उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा कालसे उत्कृष्ट आयु कर्मकी वेदना सबसे स्तोत्र है ॥ २७॥

कारण यह कि वह पूर्वकोटिके तृतीय भागसे अधिक तेतीस सागरोपम प्रमाण है ।

उससे नाम व गोत्र कर्मकी कालसे उत्कृष्ट वेदनायें दोनों ही तुल्य व संख्यातगुणी हैं ॥ २८ ॥

कारण यह कि वे वीस कोडाकोडि सागरोपम प्रमाण हैं । गुणकार यहां संख्यात

रूवरस असंखेज्जदिभागम्भदियतेत्तीससागरोवमपलिदोवमसलागाहि वीससागरोवमकोडाकोडि-
पलिदोवमसलागासु खंडिदासु तत्थ एगभागो गुणगारो होदि त्ति उत्तं होदि ।

णाणावरणीय--दंसणावरणीय--वेयणीय -- अंतराइयवेयणाओ
कालदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ ॥२९॥

कुदो ? वीससागरोवमकोडाकोडीहितो तीससागरोवमकोडाकोडीणं दुमणाहियत्त-
दंसणादो ।

मोहणीयस्स वेयणा कालदो उक्कस्सिया संखेज्जगुणा ॥३०॥

कुदो ? तीससागरोवमकोडाकोडीहितो सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीणं सत्तिभागदोरूव-
गुणगारत्तुवलंभादो । एवं उक्कस्सवेयणा समत्ता ।

जहण्णुक्कस्सपदे अट्टणं' पि कम्माणं वेयणाओ कालदो
जहणियाओ तुल्लाओ थोवाओ ॥ ३१ ॥

कुदो ? एगसमयत्तादो ।

समय है । आभिप्राय यह कि एक रूपके असंख्यातवें भागसे अधिक तेतीस सागरोपमोंकी
पल्योपमशलाकाओंका वीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंकी पल्योपमशलाकाओंमें भाग देनेपर
जो एक भाग लब्ध होता है वह यहां गुणकार है ।

उनसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मकी कालसे उत्कृष्ट
वेदनायें चारों ही तुल्य व विशेष अधिक हैं ॥ २९ ॥

कारण कि वीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंसे तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम द्वितीय
भाग (३) से अधिक देखे जाते हैं ।

उनसे मोहनीय कर्मकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना संख्यातगुणी है ॥ ३० ॥

कारण कि तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंसे सत्तर कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंका
एक तृतीय भाग सहित दो अंक गुणकार देखा जाता है । इस प्रकार उत्कृष्ट वेदना
समाप्त हुई ।

जघन्य-उत्कृष्ट पदमें कालकी अपेक्षा आठों ही कर्मोंकी जघन्य वेदनायें परस्पर
तुल्य व स्तोक हैं ॥ ३१ ॥

कारण कि उनका कालप्रमाण एक समय है ।

आउअवेयणा कालदो उक्कस्सिया असंखेज्जगुणा ॥ ३२ ॥

कुदो ? एगसमयं पेक्खिदूण पुव्वकोडितिभागाहियतेतीससागरोवमेसु असंखेज्जगुण-
तुवलंभादो ।

णामा-गोदवेयणाओ कालदो उक्कस्सियाओ दो वि तुल्लाओ
असंखेज्जगुणाओ ॥ ३३ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया । कारणं पुव्वं व वत्तञ्चं ।

णाणावरणीय--दंसणावरणीय--वेयणीय --अंतराइयवेयणाओ
कालदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ ॥ ३४ ॥

कारणं पुव्वं व वत्तञ्चं ।

मोहणीयवेयणा कालदो उक्कस्सिया संखेज्जगुणा ॥ ३५ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया । कारणं पुव्वं व वत्तञ्चं । एवमप्पाबहुगाणि-
योगद्वारं' संगतोक्खित्तगुणगाराहियारं समत्तं ।

उनेसे आयु कर्मकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना असंख्यातगुणी है ॥ ३२ ॥

कारण कि एक समयकी अपेक्षा पूर्वकोटिके तृतीय भागसे अधिक तेतीस सागरो-
पम असंख्यातगुणे पाये जाते हैं ।

उससे कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट नाम व गोत्र कर्मकी वेदनार्ये दोनों ही तुल्य व
असंख्यातगुणी हैं ॥ ३३ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है । इसका कारण पहिलेके ही
समान बतलाना चाहिये ।

उनेसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मकी कालकी अपेक्षा
उत्कृष्ट वेदनार्ये चारों ही तुल्य व विशेष अधिक हैं ३४ ॥

इसका कारण पहिलेके ही समान कहना चाहिये ।

इनेसे मोहनीय कर्मकी कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना संख्यातगुणी है ॥ ३५ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है । इसका कारण पहिलेके ही
समान बतलाना चाहिये ।

इस प्रकार गुणकाराधिकारगर्भित अल्पबहुत्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

(चूलिया)

एतो मूलपयडिद्विदिवंधे पुव्वं गमणिज्जे तत्थ इमाणि चत्तारि अणियोगद्वाराणि— द्विदिवंधद्वानपरूवणा णिसेयपरूवणा आवाधाकंदयपरूवणा अप्पावहुए त्ति ॥ ३६ ॥

पदमीमांसा सामित्तप्पावहुए त्ति तीहि अणियोगद्वारेहि कालविहाणं परूविदं । तं च समत्तं, तिण्णेव अणियोगद्वाराणि कालविहाणे सुत्तस्सादीए होंति त्ति परूविदत्तादो । अहण समत्ते, कालविहाणे तिण्णि चैव अणियोगद्वाराणि होंति त्ति भणिदसुत्तस्स अणत्थयत्तं पसज्जेज्ज । ण च सुत्तमणत्थयं होदि, विरोहादो । तदो कालविहाणं समत्तं चैव । एवं समत्ते उवरिमसुत्तारंभो अणत्थओ त्ति ? एत्थ परिहारो उच्चदे— तीहि अणियोगद्वारेहि कालविहाणं परूविय समत्तं चैव । किंतु तस्स समत्तस्स वेयणाकालविहाणस्स उवरिगंथेण चूलिया उच्चदे । चूलिया णाम किं ? कालविहाणेण सूचिदत्थाणं विवरणं चूलिया । जाए अत्थपरूवणाए कदाए पुव्वपरूविदत्थम्भि सिस्साणं णिच्छओ उप्पज्जदि सा चूलिया त्ति भणिदं होदि । तम्हा उवरिमगंथावयारो संबद्धो त्ति धेत्तव्वो ।

आगे मूलप्रकृतिस्थितिवन्ध पूर्णमें ज्ञातव्य है । उसमें ये चार अनुयोगद्वार हैं— स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा, आवाधाकाण्डकप्ररूपणा और अल्पबहुत्व ॥ ३६ ॥

शंका— पदमीमांसा, स्वामित्त और अल्पबहुत्व, इन तीन अनुयोगद्वारोंके द्वारा कालविधानकी प्ररूपणा की जा चुकी है, वह समाप्त भी हो चुकी; क्योंकि, कालविधानमें सूत्रके प्रारम्भमें 'तीन ही अनुयोगद्वार होते हैं' ऐसा कहा गया है । फिर भी यदि उसको समाप्त न माना जाय तो फिर "कालविधानमें तीन ही अनुयोगद्वार हैं" इस प्रकार वहां कहे गये सूत्रके अनर्थक होनेका प्रसंग आवेगा । किन्तु सूत्र अनर्थक होता नहीं है, क्योंकि, इसमें विरोध होता है । इस कारण कालविधानको समाप्त ही मानना चाहिये । इस प्रकार उसके समाप्त हो जानेपर आगे सूत्रका प्रारम्भ करना अनर्थक है ?

समाधान— इस शंकाका परिहार करते हैं । तीन अनुयोगद्वारोंके द्वारा उसकी प्ररूपणा हो चुकनेपर वह समाप्त ही हो गया है । किन्तु आगेके ग्रन्थसे समाप्ति-को प्राप्त हुए उक्त कालविधानकी चूलिका कही जाती है ।

शंका— चूलिका किसे कहते हैं ?

समाधान— कालविधानके द्वारा सूचित अर्थोंका विशेष वर्णन करना चूलिका कहलाती है । जिस अर्थप्ररूपणाके किये जानेपर पूर्वमें वर्णित पदार्थके विषयमें शिष्योंको निश्चय उत्पन्न हो उसे चूलिका कहने हैं, यह अभिप्राय है । अत एव अग्रिम ग्रन्थका अवतार सम्बद्ध ही है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

मूलपयडिडिदिवंधे त्ति णिद्देसेण उत्तरपयडिडिदिवंधवुदासो कदो । उत्तरपयडि-
डिदिवंधवुदासो किमडं कदो ? ण, मूलपयडिडिदिवंधावममादो तदवगमो होदि त्ति
तव्वुदासकरणादो । पुव्वसदो^१ कारणवाचओ किरियाविसेसणभावेण घेत्तव्वो । ण च पुव्व-
सदो^२ कारणत्थभावेण अप्पसिद्धो, मदिपुव्वं सुदमिच्चेत्थ कारणे वट्टमाणपुव्वमद्वलंमादो ।
तीहि अणियोगद्वारेहि पुव्वं परूविदत्थविसयबोहस्स^३ पुव्वं कारणं होदूण गमणिज्जे मूल-
पयडिडिदिवंधे इमाणि अणियोगद्वाराणि होति त्ति भणिदं होदि । अधवा, मूलपयडिडिदि-
वंधो कालविहाणे पुव्वं पढमभेव गमणिज्जो^४, डिदिअद्धाच्छेदादिसु अणवगदेसु सामि-
त्तादिअणियोगद्वाराणमवगमोवायाभावादो । तत्थ इमाणि अणियोगद्वाराणि होति त्ति
भणिदं होदि ।

अणुक्कस्स अजहण्णाडिदिट्टाणाणि पुव्वं परूविदाणि । तेसुं झणेसु कम्मिह कम्मिह
जीवसमासे तत्थ केत्तियाणि वधट्टाणाणि केत्तियाणि वा सतट्टाणाणि^५ कस्स जीवसमासस्स
बंधट्टाणेहिंतो करस वा बंधट्टाणाणि समाणि अहियाणि ऊणाणि त्ति पुच्छिदे तस्स णिच्छयु-
प्पायणट्ठं^६ डिदिवंधट्टाणपरूवणा आगदा । वज्जमाणकम्मपदेसधिण्णासो किं पढमसमयप्पहुडि

‘मूलप्रकृतिवन्धस्थान’ इस निर्देशसे उत्तर प्रकृतियोंके स्थितिवन्धका निषेध
किया गया है ।

शंका—उत्तर प्रकृतियोंके स्थितिवन्धका प्रतिषेध किसलिये किया जाता है ?

समाधान—नहीं, चूँकि मूलप्रकृति-स्थितिवन्धके ज्ञात हो जानेपर उसका ज्ञान
हो जाता है, अतः उसका प्रतिषेध किया गया है ।

यहाँ पूर्व शब्दको क्रियाविशेषण स्वरूपसे कारण अर्थका वाचक ग्रहण करना
चाहिये । पूर्व शब्द कारण अर्थका वाचक अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, “मतिपूर्वं
श्रुतम्” इस सूत्रमें कारण अर्थमें वर्तमान पूर्व शब्द देखा जाता है । तीन अनुयोग-
द्वारोंसे पूर्वमें प्ररूपित अर्थविषयक बोधका पूर्व अर्थात् कारण होनेसे अवगमनीय
मूलप्रकृति-स्थितिवन्धमें ये अनुयोगद्वार होते हैं, यह उसका अभिप्राय है । अथवा, मूल-
प्रकृति-स्थितिवन्ध कालविधानमें पूर्वमें अर्थात् पहिले ही ज्ञातव्य है, क्योंकि, स्थितिअर्थ-
च्छेदादिकोंके अज्ञात होनेपर स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोंके जाननेका कोई उपाय नहीं
रहता । उसमें ये अनुयोगद्वार हैं, यह उक्त कथनका निष्कर्ष है ।

अनुत्कृष्ट-अजघन्यस्थितिस्थान पूर्वमें कहे जा चुके हैं । उन स्थानोंमेंसे किस
किस जीवसमासमें वहाँ कितने वन्ध स्थान हैं व कितने सत्त्वस्थान, किस जीवसमासके
वन्धस्थानोंसे किसके वन्धस्थान समान, अधिक अथवा कम हैं; ऐसा पूछनेपर
उसका निश्चय उत्पन्न करानेके लिये स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणा प्राप्त हुई है ।

१ अ आ अप्रयो. ‘पुत्रं सदो’ इति पाठः । २ प्रतिष्ठा ‘विसयजादस्स’ इति पाठः । ३ अ-आ-काप्रतिष्ठा
‘गमणिज्जा’, ताप्रता ‘गमणिज्जे’ इति पाठः । ४ प्रतिष्ठा ‘तिसु’ इति पाठः । ५ अ-आ-काप्रतिष्ठा
‘संछट्टाणाणि’ इति पाठः । ६ अ-प्रती ‘णिच्छयउप्पायणट्ठ’, आ-प्रती ‘णिच्छयउप्पायणट्ठ’ इति पाठः ।

आहो अण्णहा होदि त्ति पुच्छिदे एवं होदि त्ति आवाधपमाणपरूवणहं णिसिंचमाणकम्म-
पदेसाणं णिसेगक्कमपरूवणहं च णिसेयपरूवणा आगदा । एगमावाधं काट्टण किमेक्कं चव
द्विदिवंधट्टाणं वंधदि, आहो अण्णहा वंधदि त्ति पुच्छिदे एक्काए आवाधाए एत्तियाणि
द्विदिवंधट्टाणाणि वंधदि, अवरणि ण वंधदि त्ति जाणावणट्टमावाधकंदयपरूवणा आगदा ।
आवाधाणं आवाधकंदयाणं च थोववहुत्तजाणावणट्टमप्पावहुगपरूवणा आगदा । एवमेत्थ
चत्तारि चव अणियोगद्वाराणि होति अण्णेसिमेत्थेवं अंतम्भावादो ।

**द्विदिवंधट्टाणपरूवणदाए सव्वत्थोवा सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स
द्विदिवंधट्टाणाणि ॥ ३७ ॥**

एदमप्पावहुअसुत्तं देसामासियं, सूददद्विदिवंधट्टाणपरूवणा पम णाणिओगद्वारत्तादो । ण
च अत्थित्त-पमाणेहि अणवगयाणं द्विदिवंधट्टाणाणमप्पावहुगं संभवदि, विरोहादो । तम्हा
द्विदिवंधट्टाणपरूवणदाए परूवणा-पमाणप्पावहुगं चेदि तिण्णि अणियोगद्वाराणि । तत्थ
परूवणदाए अत्थि चोदसण्णं जीवसमासाणं पुध पुध द्विदिवंधट्टाणाणि । एत्थ द्विदिवंध-
ट्टाणाणि त्ति उत्ते केसिं गहणं ? वध्यत इति वन्धः । स्थितिरेव वन्धः स्थितिवन्धः ।

वध्यमान कर्मप्रदेशोंका त्रिन्यास क्या प्रथम समयसे लेकर होता है, अथवा अन्य
प्रकारसे होता है, ऐसा पूछनेपर वह इस प्रकारसे होता है, इस प्रकार आवाधा-
प्रमाणकी प्ररूपणाके लिये तथा निसिंचमान कर्मप्रदेशोंके निपेकक्रमकी प्ररूपणाके
लिये निपेकप्ररूपणा प्राप्त हुई है । एक आवाधाको करके क्या एक ही स्थितिवन्धस्थान
बंधता है अथवा अन्य प्रकारसे बंधता है, ऐसा पूछनेपर एक आवाधामें इतने
स्थितिवन्धस्थानोंको बांधता है, इतर स्थानोंको नहीं बांधता है, यह ज्ञात करानेके लिये
आवाधाकाण्डकप्ररूपणा प्राप्त हुई है । आवाधाओं और आवाधाकाण्डकोंके अल्प-
बहुत्वको बतलानेके लिये अल्पबहुत्वप्ररूपणा प्राप्त हुई है । इस प्रकार इसमें चार ही
अनुयोगद्वार हैं, क्योंकि, अन्य अनुयोगद्वारोंका इन्हींमें अन्तर्भाव हो जाता है ।

स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणाकी अपेक्षा सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान
सषसे स्तोत्र हैं ॥ ३७ ॥

यह अल्पबहुत्वसूत्र देशामर्शक है, क्योंकि, वह स्थितिस्थानोंके प्ररूपणानुयोगद्वार
और प्रमाणानुयोगद्वारका सूत्रक है । इन अनुयोगद्वारोंकी आवश्यकता यहां इसलिये
है कि इनके विना अस्तित्व और प्रमाणसे अज्ञात स्थितिस्थानोंका अल्पबहुत्व सम्भव
नहीं हैं, क्योंकि, वैसा होनेमें विरोध है । इस कारण स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणामें
प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व ये तीन अनुयोगद्वार हैं । उनमेंसे प्ररूपणाकी
अपेक्षा चौदह जीवसमासोंके पृथक् पृथक् स्थितिवन्धस्थान हैं ।

शका — यहाँ स्थितिवन्धस्थान ऐसा कहनेपर किनका ग्रहण किया गया है ?

स्थितिवन्धस्स स्थानमवस्थाविशेष इति यावत् । एदेसिं द्विदिवंधविसेसाणं गहणं । जहण्ण-
द्विदिमुक्कस्सद्विदीए सोहिय एगरूवे पक्खित्ते द्विदिवंधट्टाणाणि होति, तेसिं गहणमिदि
उत्तं होदि । परूवणा गदा ।

सन्वएइंदियाणं द्विदिवंधट्टाणाणि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कुदो ? अप्पणो
जहण्णावाहाए समज्जाए अप्पणो समज्जजहण्णद्विदीए ओवट्टिदाए एगमावाधाकंदय-
मागच्छदि । पुणो एदमावलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तआवाधाट्टाणेहि गुणिय एगरूवे अवणिदे
एइंदिएसु द्विदिवंधट्टाणविसेसो उप्पज्जदि, तत्थ एगरूवे पक्खित्ते द्विदिवंधट्टाणुप्पतीदो । विगलिं-
दिएसु द्विदिवंधट्टाणाणं पमाणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । कुदो ? सग-सगउक्कस्सा-
वाहाए सग-सगउक्कस्सद्विदीए ओवट्टिदाए एगमावाहकंदयमागच्छदि । पुणो एदमावाह-
ट्टाणेहि आवलियाए संखेज्जदिभागमेत्तेहि गुणिदे पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागद्विदिवंधट्टाणु-
प्पत्तिदंसणादो । सण्णिपंचिदियअपज्जत्तयस्स द्विदिवंधट्टाणाणि अंतोकोडाकोडिसागरोवम-
मेत्ताणि । कुदो ? सगुक्कस्सावाहाए सगुक्कस्सद्विदीए ओवट्टिदाए एगमावाहाकंदयमा-

समाधान— जो बांधा जाता है वह बन्ध कहा जाता है । स्थिति ही बन्ध,
स्थितिवन्ध इस प्रकार यहां कर्मधारय समास है । स्थितिवन्धका स्थान अर्थात्
अवस्थाविशेष, इस प्रकार यहां तत्पुरुष समास है । इन स्थितिवन्धविशेषोंका ग्रहण
क्रिया गया है । अर्थात् जघन्य स्थितिको उत्कृष्ट स्थितिमेंसे घटा देनेपर जो शेष रहे
उसमें एक अंकका प्रक्षेप करनेपर स्थितिवन्धस्थान होते हैं, उनका यहां ग्रहण किया
है, यह उक्त कथनका अभिप्राय है । प्ररूपणा समास हुई ।

समस्त एकेन्द्रिय जीवोंके स्थितिवन्धस्थान पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण
हैं, क्योंकि, एक समय कम अपनी अपनी आवाधाका अपनी अपनी एक समय कम
जघन्य स्थितिमें भाग देनेपर एक आवाधाकाण्डकका प्रमाण आता है । फिर इसको
आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण आवाधास्थानोंसे गुणित करके उसमेंसे एक अंकको
घटा देनेपर एकेन्द्रिय जीवोंमें स्थितिवन्धस्थानविशेष उत्पन्न होता है । उसमें एक
अंक मिलानेपर स्थितिवन्धस्थान उत्पन्न होता है ।

विवलेन्द्रिय जीवोंमें बन्धस्थानोंका प्रमाण पल्योपमका संख्यातवां भाग है ।
इसका कारण यह है कि अपनी अपनी उत्कृष्ट आवाधाका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमें
भाग देनेपर एक आवाधाकाण्डक आता है । इसको आवलीके संख्यातवें भाग मात्र
आवाधास्थानोंसे गुणित करनेपर पल्योपमके संख्यातवें भाग प्रमाण स्थितिस्थानोंकी
उत्पत्ति देखी जाती है ।

संक्षी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान अन्तःकोडाकोडि सागरोपम
प्रमाण हैं । इसका कारण यह है कि अपनी उत्कृष्ट आवाधाका अपनी उत्कृष्ट स्थितिमें
भाग देनेपर एक आवाधाकाण्डक आता है । फिर इसको जघन्य आवाधाकी अपेक्षा

गच्छदि । पुणो एदम्हि संखेज्जावलयमेत्तथाचाधाट्टाणेहि जहण्णाचाधादो संखेज्जगुणेहि गुणिदे संखेज्जसागरोवममेत्तट्टिदिवंधट्टाणुपत्तीदो । सण्णिपंचिदियपज्जत्तयस्स ट्टिदिवंधट्टाणाणि णाणावरणादीणं सग-सगसमऊणधुवट्टिदीए परिहीणसग सगुत्तरसग-सगमेत्ताणि । एवं पमाणपरूवणा गदा ।

संपहि बंधट्टाणाणं अपाचहुगं उच्चदे । तं जहा — सव्वत्थोवा सुहमेइंदिय-अपज्जत्तयस्स ट्टिदिवंधट्टाणाणि, पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपमाणत्तादो ।

वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स ट्टिदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि

॥ ३८ ॥

कुदो ? सुहमेइंदियअपज्जत्तयस्स ट्टिदिवंधट्टाणेहितो वादरेइंदियअपज्जएसु सुहमेइंदियअपज्जत्तपढमचरिमट्टिदिवंधट्टाणादो हेट्टा उवरिं च संखेज्जगुणवीचारट्टाणाणमुवलंभादो ।

सुहमेइंदियपज्जत्तयस्स ट्टिदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि

॥ ३९ ॥

कुदो ? वादरेइंदियअपज्जत्तजहण्णुकस्सट्टिदीहितो हेट्टा उवरिं च वादरेइंदिय-अपज्जत्तट्टिदिवंधट्टाणेहितो संखेज्जगुणट्टिदिवंधट्टाणाणं सुहमेइंदियपज्जत्तएसु उवलंभादो ।

संख्यातगुणे संख्यात आवली मात्र आवाधास्थानोंसे गुणित करनेपर संख्यात सागरोपम प्रमाण स्थितिवन्धस्थान उत्पन्न होते हैं ।

संज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके ज्ञानावरणादिकोंके स्थितिवन्धस्थान अपनी अपनी एक समय कम ध्रुवस्थितिसे रहित अपने अपने क्रमसे अपनी अपनी स्थिति प्रमाण होते हैं । इस प्रकार प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई ।

अत्र बन्धस्थानोंका अल्पबहुत्व कहा जाता है । यथा — सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवके स्थितिवन्धस्थान सबसे स्तोक है, क्योंकि, वे पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ।

उनके बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवंधस्थ न संख्यातगुणे हैं ॥ ३८ ॥

इसका कारण यह है कि सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानोंकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके प्रथम व चरम स्थितिवन्धस्थानसे नीचे व ऊपर संख्यातगुणे वीचारस्थान पाये जाते हैं ।

उनसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिवंधस्थान संख्यातगुणें हैं ॥ ३९ ॥

इसका कारण यह कि बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिसे नीचे व ऊपर बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानोंसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें संख्यातगुणे स्थितिवन्धस्थान पाये जाते हैं ।

वादरेइंदियपज्जत्तयस्स द्विदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४०॥

कारणं पुब्बं व वत्तच्चं ।

वीइंदियअपज्जत्तयट्टिदिवंधट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥४१॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागस्स संखेज्जदिभागो । कुदो ? वीइंदिय-अपज्जत्तयस्स वीचारट्टाणाणि पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्ताणि । एइंदियाणं पुण आवलियाए असंखेज्जदिभागेण पलिदोवमे खंडिदे तत्थ एगखंडमेत्ताणि । जेण एत्थ हेट्टिम-रासिणा उवरिमरासीए ओवट्टिदाए आवलियाए असंखेज्जदिभागस्स संखेज्जदिभागो आगच्छदि तेण सो गुणगारो होदि त्ति अवगम्मदे ।

तस्सेव पज्जत्तयस्स द्विदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४२॥

कुदो ? विसोहीए संकिलेसेण च हेट्टोवरि-मज्झिमद्विदिवंधट्टाणेहिंते संखेज्जगुण-द्विदिविसेसेसु वीचारदंसणादो ।

तीइंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४३॥

कारणं सुगमं । जहा सुहुमेइंदियअपज्जत्त-वादरेइंदियअपज्जत्तार्णं द्विदिवंधट्टाणे-

उनसे वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४० ॥

इसका कारण पहिलेके ही समान कहना चाहिये ।

उनसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ४१ ॥

गुणकार क्या है ? वह आवलीके असंख्यातवें भागका संख्यातवां भाग है, क्योंकि, द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके वीचारस्थान पल्योपमके संख्यातवें भाग प्रमाण है । परन्तु एकेन्द्रियके वीचारस्थान पल्योपममें आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो लब्ध हो उतने मात्र हैं । चूंकि यहां नीचेकी राशिका ऊपरकी राशिमें भाग देनेपर आवलीके असंख्यातवें भागका संख्यातवां भाग आता है, अतः वह गुणकार होता है, ऐसा प्रतीत होता है ।

उनसे उसीके पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४२ ॥

इसका कारण यह है कि विशुद्धि और संकलेशसे नीचे, ऊपर और मध्यके स्थितिस्थानोंसे संख्यातगुणे स्थितिविशेषोंमें वीचार देखा जाता है ।

उनसे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४३ ॥

इसका कारण सुगम है ।

१ अर्थात् 'सुहुमेइंदियअपज्जत्ताण' इति पाठः ।

हिंतो सुहुमेइंदियपज्जत्ताणं द्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि, तथा सव्वविगळिंदिय-
अपज्जत्तद्विदिबंधट्टाणेहिंतो वीइंदियपज्जत्तद्विदिबंधट्टाणाणि किण्ण संखेज्जगुणाणि ? ण,
भिण्णज्जादित्तादो भिण्णद्विदित्तादो च ।

तस्सेव पज्जत्तयस्स द्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४४॥
सुगममेदं ।

चत्तुरिंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४५॥
मज्झिमद्विदिविसेसेहिंतो हेट्ठा उवरि च संखेज्जगुणाणं वीचारट्टाणाणमत्थुवलंभादो ।

तस्सेव पज्जत्तयस्स द्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४६॥
एत्थ कारणं पुवं व वत्तवं ।

असण्णिपंचिंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्ज-
गुणाणि ॥ ४७ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

तस्सेव पज्जत्तयस्स द्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥४८॥
कारणं सुगमं ।

शंका— जैसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकों तथा वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके
स्थितिवन्धस्थानोंसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं, वैसे
ही सब विकलेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके स्थितिवन्धस्थानोंसे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकोंके स्थिति-
वन्धस्थान संख्यातगुणे क्यों नहीं है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उनकी जाति व स्थिति उनसे भिन्न है ।

उनसे उसके ही पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४४ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

उनसे चत्तुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४५ ॥

क्योंकि, यहां मध्यम स्थिति विशेषोंसे नीचे व ऊपर संख्यातगुणे वीचार-
स्थान पाये जाते हैं ।

उनसे उसीके पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४६ ॥

यहां कारण पहिलेके ही समान बतलाना चाहिये ।

उनसे असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४७ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार यहां संख्यात समय है ।

उनसे उसीके पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४८ ॥

इसका कारण सुगम है ।

सण्णपंचिंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ ४९ ॥

कुदो ? पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभाममेत्तअसण्णपंचिंदियद्विदिबंधट्टाणेहि अंतो-
कोडाकोडिमेत्तसण्णपंचिंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिबंधट्टाणेसु भागे हिदेसु संखेज्जरूवोवलंभादो ।

तस्सेव पज्जत्तयस्स द्विदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि' ॥५०॥

कारणं सुगमं । संपहि जेणेसो अव्वोगाढअप्पाबहुगदंडओ देसामासिओ तेणेत्थ
अंतम्भूदं चउवियप्पमप्पाबहुगं भणिस्सामो । तं जहा — एत्थ अप्पाबहुगं दुविहं मूलपयडि-
अप्पाबहुगं अव्वोगाढअप्पाबहुगं चेदि । तत्थ अव्वोगाढअप्पाबहुगं दुविहं सत्थाण-परत्थाण-
भेदेण । तत्थ सत्थाणं वत्तइस्सामो । तं जहा — सव्वत्थोवो सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स-
द्विदिबंधट्टाणविसेसो । द्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । जहण्णओ द्विदिबंधो
संखेज्जगुणो' । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहियो । एवं सुहुमेइंदियपज्जत्त-बादरेइंदिय-
पज्जत्तापज्जत्ताणं पि वत्तव्वं । वेइंदियअपज्जत्तयस्स सव्वत्थोवो द्विदिबंधट्टाणविसेसो ।
द्विदिबंधट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ
द्विदिबंधो विसेसाहियो ।

उनसे संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ४९ ॥

इसका कारण यह है कि पल्लोपमके संख्यातवें भाग मात्र असंज्ञी पंचेन्द्रियके
स्थितिवन्धस्थानोंका अन्त कोडाकोडि मात्र संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्ध-
स्थानोंमें भाग देनेपर संख्यात रूप प्राप्त होते हैं ।

उनसे उसीके पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ ५० ॥

इसका कारण सुगम है । अब चूंकि यह अव्वोगाढअल्पबहुत्वदण्डक
देशामर्शक है, अत इसमें अन्तर्भूत चार प्रकारके अल्पबहुत्वको कहते हैं ।
वह इस प्रकार है— यहां अल्पबहुत्व मूलप्रकृतिअल्पबहुत्व और अव्वोगाढअल्पबहुत्वके
भेदसे दो प्रकार हैं । इनमें अव्वोगाढअल्पबहुत्व स्वस्थान और परस्थानके भेदसे दो प्रकार
हैं । उनमें स्वस्थानअल्पबहुत्वको कहते हैं । यथा— सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका
स्थितिवन्धस्थानविशेष सबसे स्तोफ है । उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष
आधिक हैं । उनसे जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध
विशेष अधिक है ।

इसी प्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त
जीवोंके भी कहना चाहिये । द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष सबसे स्तोफ
है । उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उनसे जघन्य स्थितिवन्ध
संख्यातगुणा है । उससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

एवं वेइंदियपज्जत्त-तेइंदिय-चउरिंदिय असण्णिपंचिंदियपज्जत्तापज्जत्ताणं च वत्तव्वं । सण्णिपंचिंदियअपज्जत्तयस्स सव्वत्थोवो जहण्णओ द्विदिवंधो । द्विदिवंधट्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । एवं सण्णिपज्जत्तयस्स वि वत्तव्वं । एवं सत्थाणप्पावहुगं समत्तं ।

परत्थाणप्पावहुगं वत्तइस्सामो । तं जहा— सव्वत्थोवो सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिवंधट्ठाणविसेसो । द्विदिवंधट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिवंधट्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स द्विदिवंधट्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्ठाणाणि विसेसाहियाणि एगरूवेण । वादरेइंदियपज्जत्तयस्स द्विदिवंधट्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । वेइंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिवंधट्ठाणविसेसो असंखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स द्विदिवंधट्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तेइंदियअपज्जत्तयस्स द्विदिवंधट्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स द्विदिवंधट्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि ।

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय पर्याप्त तथा त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंखी पंचेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त जीवोंके भी कहना चाहिये । संखी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोत्र है । उससे स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उनसे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार संखी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके भी कहना चाहिये । इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

परस्थान अल्पबहुत्वको कहते हैं । यथा— सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष सबसे स्तोत्र है । उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उनसे वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उनसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उनसे वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उनसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है । उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उनसे उसीके पर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उनसे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उनसे उसीके पर्याप्तका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे

यस्स उक्कस्सट्ठिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सट्ठिदिवंधो विसेसा-
हियो । चउरिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णट्ठिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स
जहण्णट्ठिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सट्ठिदिवंधो विसेसाहियो ।
तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सट्ठिदिवंधो विसेसाहियो । असण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ
ट्ठिदिवंधो संखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णट्ठिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव
अपज्जत्तयस्स उक्कस्सट्ठिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सट्ठिदिवंधो
विसेसाहियो । सण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णट्ठिदिवंधो संखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्ज-
त्तयस्स जहण्णट्ठिदिवंधो संखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स ट्ठिदिवंधट्ठाणविसेसा
संखेज्जगुणो । ट्ठिदिवंधट्ठाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ट्ठिदिवंधो विसे-
साहियो । तस्सेव पज्जत्तयस्स ट्ठिदिवंधट्ठाणविसेसा संखेज्जगुणो । ट्ठिदिवंधट्ठाणाणि
एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ट्ठिदिवंधो विसेसाहियो । एवमव्वोगाढ-
अप्पावहुगं समत्तं ।

मूलपयडिअपावहुगं सत्याण-परत्याणभेदणं दुविहं । तत्थ सत्याणपावहुगं वत्त-
इस्सामो । तं जहा— सव्वत्थोवो सुहुमइंदियअपज्जत्तयस्स आउअस्स जहण्णओ ट्ठिदिवंधो ।

विशेष अधिक है । उससे उसीके पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।
उससे चतुरिन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उससे उसीके
अपर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उससे उसीके अपर्याप्तका उत्कृष्ट
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उससे उसीके पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष
अधिक है । उससे उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उससे
असंखी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उससे उसीके
अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उससे उसीके अपर्याप्तकका
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उससे उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध
विशेष अधिक है । उससे संखी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा
है । उससे उसीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उससे उसीके
अपर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । उससे उसीके स्थितिवन्धस्थान
एक रूपसे विशेष अधिक है । उससे उसीका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।
उससे उसीके पर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । उससे उसीके
स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उससे उसीका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध
विशेष अधिक है । इस प्रकार अव्वोगाढअल्पवहुत्वं समाप्त हुआ ।

मूलप्रकृतिअल्पवहुत्वं स्वस्थान और परस्थानके भेदसे दो प्रकार है । उनमेंसे
स्वस्थानअल्पवहुत्वंको कहते हैं । यथा— सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी आयुका
जघन्य स्थितिवन्ध सबसे श्लोक है । उससे स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है ।

द्विदिवंधडाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधडाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्क-
स्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव णामा गोदाणं द्विदिवंधडाणविसेसो असंखेज्जगुणो ।
द्विदिवंधडाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधडाणविसेसो विसे-
साहिओ । द्विदिवंधडाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधडाण-
विसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधडाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ
द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । उक्कस्सद्विदिवंधो विसेसाहिओ । चदुण्णं कम्माणं जहण्ण-
द्विदिवंधो विसेसाहिओ । उक्कस्सद्विदिवंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदि-
वंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।

एवं सुहमेइंदियपज्जत्तयस्स वादरेइंदियपज्जत्तापज्जत्ताणं च पत्तेयं पत्तेयं सत्थाणपा-
वहुगं वत्तव्वं । वेइंदियअपज्जत्तयस्स सव्वत्थोवो आउअस्स जहण्णओ द्विदिवंधो । द्विदि-
वंधडाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधडाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ
द्विदिवंधो विसेसाहिओ । णामा-गोदाणं द्विदिवंधडाणविसेसो असंखेज्जगुणो । द्विदिवंध-
डाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधडाणविसेसो विसेसाहिओ ।

उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उनसे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध
विशेष अधिक है । उससे उसीके नाम व गोत्र कर्मका स्थितिवन्धस्थानविशेष
असंख्यातगुणा है । उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उनसे
चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । उससे स्थितिवन्धस्थान एक
रूपसे विशेष अधिक है । उससे मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है ।
उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उनसे नाम व गोत्र कर्मका
जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । उससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।
उससे चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध
विशेष अधिक है । उससे मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उससे
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

इसी प्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक और वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक व
अपर्याप्तकमें प्रत्येकके स्वस्थान अल्पवहुत्व कहना चाहिये । द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके
आयु कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोके है । उससे स्थितिवन्धस्थानविशेष
संख्यातगुणा है । उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उनसे उत्कृष्ट
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम व गोत्र कर्मका स्थितिवन्धस्थानविशेष
असंख्यातगुणा है । उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उनसे चार
कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । उससे स्थितिवन्धस्थान एक

द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिबंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । णामा गोदाणं' जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहियो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहियो । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहियो ।

एवं बेइंदियपज्जत्तयस्स तेइंदिय-चउरिंदियपज्जत्तापज्जत्ताणं असण्णिपंचिंदिय-अपज्जत्ताणं च सत्थाणप्पावहुगं कायव्वं । असण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स सव्वत्थोवो आउअस्स जहण्णओ द्विदिबंधो । द्विदिबंधद्वाणविसेसो असंखेज्जगुणो । कारणं उवरि उच्चिहिदि' । द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहियो । णामा गोदाणं द्विदिबंधद्वाणविसेसो असंखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिबंधद्वाणविसेसो विसेसाहियो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिबंधद्वाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिबंधद्वाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहियो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाहियो । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स जहण्णओ

रूपसे विशेष अधिक हैं । उससे मोहनीय कर्मका स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणा है । उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उससे नाम व गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उससे चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उससे मोहनीय का जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

इसी प्रकार इंद्रिय पर्याप्तक, त्रिन्द्रिय व चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक तथा असंखी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके भी स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये । असंखी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके आयु कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोत्र है । उससे स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है । कारण आगे कहेंगे । उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम व गोत्र कर्मका स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । मोहनीय कर्मका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । नाम व गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीय कर्मका

ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो ।

सण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स सन्वत्योवो आउअस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो । ट्टिदिवंध-
ट्टाणविसेसो असंखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ
ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । चदुण्णं कम्माणं
जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो ।
णामा-गोदाणं ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि ।
उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । चदुण्णं कम्माणं ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो विसेसाहियो ।
ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो ।
मोहणीयस्स ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि ।
उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो ।

एवं सण्णिपंचिंदियअपज्जत्तयस्स वि सत्याणप्पावहुगं वत्तवं । णवरि आउअस्स ट्टिदिवंध-
ट्टाणविसेसो सरवेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो
विसेसाहियो । णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो असंखेज्जगुणो । उवरि पुच्च व । एवं
सत्याणप्पावहुगं समत्तं ।

जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयु कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है ।
स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है ।
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम व गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा
है । चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध
संख्यातगुणा है । नाम व गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थिति-
वन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । चार
कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष
अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष
संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध
विशेष अधिक है ।

इसी प्रकार संक्षी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके भी स्वस्थानअल्पबहुत्व कहना चाहिये ।
विशेष इतना है कि आयु कर्मका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्ध-
स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम व गोत्र
कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । आगे पूर्वके समान ही कहना चाहिये ।
इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

१ ताप्रतावत् प्राक् [उक्क० ट्टिदिवंधो विसेसाहियाणि] इत्यधिकः पाठः कोष्ठकस्थः समुपलभ्यते ।

एतो अट्टणं कम्माणं चोदसजीवसमासेसु परस्थानप्पाचहुगं वत्तइस्सामो । तं जहा—
 सन्वत्थोवो^१ चोदसणं जीवसमासाणं आउअस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो । वारसण्हं जीवसमासाणं
 आउअस्स ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि ।
 उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । असण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स आउअस्स ट्टिदिवंधट्टाण-
 विसेसो असंखेज्जगुणो । कुदो ? असण्णिपंचिंदियपज्जत्तएसु णिरय-देवाउआणमुक्कस्सेण पलिदो-
 वमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तट्टिदिवंधुवलंभादो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि ।
 उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो
 असंखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव चट्टुणं कम्माणं ट्टिदिवंध-
 ट्टाणविसेसो विसेसाहियो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्स
 ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । वादरएइंदिय-
 अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्सवेण
 विसेसाहियाणि । तस्सेव चट्टुणं कम्माणं ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो विसेसाहियो । ट्टिदिवंध-
 ट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव मोहणीयस्य ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो ।
 ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्त णामा-गोदाणं ट्टिदिवंध-

अब यहांसे आगे चौदह जीवसमासोंमें आठ कर्मोंके परस्थान अल्पबहुत्वको कहते हैं । यथा— चौदह जीवसमासोंके आयु कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । वारह जीवसमासोंके आयु कर्मका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । असंखी पंचेन्द्रिय पर्याप्तके आयुका स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है, क्योंकि, असंखी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें नारकायु और देवायुका स्थितिवन्ध उत्कर्षसे पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र पाया जाता है । उससे स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके नाम व गोत्र कर्मका स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसी जीवके चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसीके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष सख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसीके चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसीके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तके नाम व गोत्र कर्मका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा

१ अ-काप्रत्योः 'सन्वत्थोवा' इति पाठः ।

ट्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्कसओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कसओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । संपहि एदेण सुत्तेण सुइदचउच्चिहमप्पावहुगं परूविदं ।

बध्यत इति बन्धः, स्थितिश्चासौ बन्धश्च स्थितिवन्धः, तस्स स्थानं विशेषः स्थितिवन्ध-स्थानं आवाधस्थानमित्यर्थः । अथवा बन्धनं बन्धः, स्थितेर्वन्धः स्थितिवन्धः, सोऽस्मिन् तिष्ठतीति स्थितिवन्धस्थानम् । तदो आवाधाट्टाणपरूवणाए वि ट्टिदिवंधट्टाणपरूवणसण्णा होदि त्ति कट्टु आवाधाट्टाणपरूवणं परूवणा-पमाणप्पावहुएहि कस्सामो^१ । तं जहा—चोदसण्हं जीवसमासाण-मत्थि आवाहाट्टाणाणि । आवाहाट्टाणं णाम किं? जहण्णावाहमुक्कस्सावाहादो सोहिय सुद्धसेसेभिं एगस्वे पक्खित्ते आवाहाट्टाणं । एसत्थो सच्चत्थ परूवेदच्चो । परूवणा गदा ।

चदुण्णमेइंदियजीवसमासाणमावाधाट्टाणपमाणभावलियाए असंखेज्जदिभागो । अट्टुण्णं

अधिक है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इस प्रकार इस सूत्रसे सूचित चार प्रकारके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की है ।

जो बांधा जाता है वह बन्ध कहलाता है । 'स्थितिश्चासौ बन्धश्च स्थितिवन्धः' इस कर्मधारय समासके अनुसार स्थितिको ही यहां बन्ध कहा गया है । उसके स्थान अर्थात् विशेषका नाम स्थितिवन्धस्थान है । अभिप्राय यह कि यहां स्थितिवन्धस्थानसे आवाधास्थानको लिया गया है । अथवा बन्धन क्रियाका नाम बन्ध है, 'स्थितिका बन्ध स्थितिवन्ध' इस प्रकार यहां तत्पुरुष समास है । वह स्थितिवन्ध जहां रहता है वह स्थितिवन्धस्थान कहा जाता है । इसीलिये आवाधास्थानप्ररूपणाकी भी स्थितिवन्धस्थान-प्ररूपणा संज्ञा है । अत एव प्ररूपणा, 'प्रमाण और अल्पबहुत्व इन तीन अनुयोगद्वारोंके द्वारा आवाधास्थानप्ररूपणाको करते हैं । यथा—चौदह जीवसमासोंके आवाधास्थान हैं ।

शंका—आवाधास्थान किसे कहते हैं ?

समाधान—उत्कृष्ट आवाधामेंसे जघन्य आवाधाको घटाकर जो शेष रहे उसमें एक अंकको मिला देनेपर आवाधास्थान होता है ।

इस अर्थकी प्ररूपणा सभी जगह करना चाहिये । प्ररूपणा समाप्त हुई ।

चार एकेन्द्रिय जीवसमासोंके आवाधास्थानोंका प्रमाण आवलीके असंख्यातर्वे

१ अ-आ-काप्रतिपु 'आवाध' इति पाठः । २ ताप्रतौ 'परूवणा (पमाण) मप्पावहुए त्ति कस्सामो' इति पाठः । ३ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-काप्रतिपु 'सुद्धवैसम्मि', ताप्रतौ 'सुद्धवै (से) सम्मि' इति पाठः । ४ प्रतिपु 'समाण' इति पाठः ।

विर्गल्लिदियाणमावाधाट्टाणपमाणमावलियाए संखेज्जदिभागो । सण्णिपंचिदियअपज्जत्तयस्स आवाधाट्टाणपमाणं संखेजावलियाओ । तं च अंतोसुहुत्तं । तस्सेव पज्जत्तयस्स आवाधाट्टाणं संखेजाणि वाससहस्साणि । एवं पमाणं गदं ।

अप्पावहुगं दुविहं अव्वोगाढप्पावहुगं मूलपयडिअप्पावहुगं चेदि । तत्थ अव्वोगाढ-अप्पावहुअं पि दुविहं सत्याणप्पावहुअं परत्याणप्पावहुअं चेदि । तत्थ सत्याणप्पावहुअं वत्तइस्सामो—सव्वत्थोवो सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स आवाधाट्टाणविसेसो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । जहणिया आवाधा असंखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाधा विसेसाहिया । एवं सुहुमेइंदियपज्जत्त-वादरेइंदियपज्जत्तापज्जत्ताणं च वत्तव्वं । सव्वत्थोवो वेइंदियअपज्जत्तयस्स आवाधाट्टाणविसेसो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । जहणिया आवाधा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाधा विसेसाहिया । एवं वेइंदियपज्जत्त-तेइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपंचिदियपज्जत्तापज्जत्ताणं च सत्याणप्पावहुगं वत्तव्वं । सण्णि-पंचिदियअपज्जत्तयस्स सव्वत्थोवा जहणिया आवाहा । आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । एवं

भाग मात्र है । आठ विकलेन्द्रियोंके आवाधास्थानोंका प्रमाण आवलीके संख्यातर्वे भाग है । संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके आवाधास्थानोंका प्रमाण संख्यात आवलियां है । वह अन्तर्मूर्हतके बराबर है । उसीके पर्याप्तकके आवाधास्थान संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है । इस प्रकार प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई ।

अल्पबहुत्व दो प्रकार है—अव्वोगाढअल्पबहुत्व और मूलप्रकृतिअल्पबहुत्व । इनमें अव्वोगाढअल्पबहुत्व भी दो प्रकार है—स्वस्थान अल्पबहुत्व और परस्थान अल्पबहुत्व । इनमें स्वस्थान अल्पबहुत्वको कहते हैं—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । जघन्य आवाधा असंख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ।

इसी प्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक तथा वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक एवं अपर्याप्तक जीषोंके भी कहना चाहिये । द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ।

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय पर्याप्त तथा त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, एवं असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक व अपर्याप्तकके भी स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये । संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है । आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । इसी

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-प्रतिषु 'पंचिदियअपज्जत्तापज्जत्ताणं', ताप्रतौ 'पंचिदियअपज्जत्त-पज्जत्ताणं' इति पाठः ।

[एवं सण्णिपंचिंदिय-] पञ्जत्तस्स वि वत्तव्वं । सत्थाणं गदं ।

परत्थाणे सन्वत्थोवो सुहुमेइंदियअपञ्जत्तयस्स आवाधाट्टाणविसेसो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । वादरेइंदियअपञ्जत्तयस्स आवाधाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदियपञ्जत्तस्स आवाधाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । वादरेइंदियपञ्जत्तयस्स आवाधाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । वेइंदियअपञ्जत्तयस्स आवाधाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पञ्जत्तयस्स आवाधाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । तेइंदियअपञ्जत्तयस्स आवाधाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पञ्जत्तयस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्सवेण विसेसाहियाणि । एवं चउरिंदिय-असण्णिपंचिंदियपञ्जत्तापञ्जत्ताणं च णेदव्वं ।

तदो वादरएइंदियपञ्जत्तयस्स जहणिया आवाधा संखेज्जगुणा । सुहुमेइंदियपञ्जत्तयस्स जहणिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियअपञ्जत्तयस्स जहणिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपञ्जत्तयस्स जहणिया आवाधा विसेसाहिया । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियअपञ्जत्तयस्स उक्कस्सिया आवाधा विसेसाहिया ।

प्रकार संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके भी कहना चाहिये । स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

परस्थानकी अपेक्षा सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष सवसे स्तोक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसीके पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक तथा अपर्याप्तकके भी ले जाना चाहिये ।

उससे वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय

सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरएइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वेइंदियपज्जत्तयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहणिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कसिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तेइंदियपज्जत्तयस्स जहणिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहणिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । एव चउरिदियपज्जत्तापज्जत्ताणं पि णेद्वं । तदो असणिपंचिंदियपज्जत्तयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहणिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कसिया आवाहा विसेसाहिया । तदो सणिपंचिंदियपज्जत्तयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स आवाधाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सेव विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स आवाधाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सेव विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । एवमच्चोगाढमप्पाचहुगं समत्तं ।

अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । द्वीन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तककी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । त्रीन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तककी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक व अपर्याप्तकके भी ले जाना चाहिये ।

इत्तसे आगे असंजी पंचेन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तककी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उससे संजी पंचेन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । इस प्रकार अब्बोगाढअल्पवहुत्व समाप्त हुआ ।

मूलपयडिअप्पाचहुगं दुविहं सत्याणं परत्याणं चेदि । तय सत्याणे पयदं—सन्वत्योवो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाधाट्टाणविसेसो । आवाहाट्टाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाधाट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाधाट्टाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाधाट्टाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । आउअस्स जहणिया आवाहा असंखेज्जगुणा । आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया ।

एवं सुहुमेइंदियपजत्त-वादरेइंदियअपजत्ताणं पि वत्तव्वं । वादरेइंदियपजत्तएस्सु सन्व-
त्योवो णामा-गोदाणमावाधाट्टाणविसेसो । आवाधाट्टाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि ।
चदुण्णं कम्माणमावाधाट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाधाट्टाणाणि एगस्स्वेण विसे-
साहियाणि । मोहणीयस्स आवाधाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाधाट्टाणाणि एगस्स्वेण
विसेसाहियाणि । आउअस्स जहणिया आवाहा असंखेज्जगुणा । णामा-गोदाणं जहणिया
आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहणिया

मूलप्रकृति अल्पबहुत्व दो प्रकार है—स्वस्थान अल्पबहुत्व और परस्थान अल्पबहुत्व । उनमें यहाँ स्वस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है । आवाधास्थान-एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । आयु कर्मकी जघन्य आवाधा असंख्यातगुणी है । आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीय कर्मकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ।

इसी प्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक और वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके भी कहना चाहिये । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । आयुकी जघन्य आवाधा असंख्यातगुणी है । नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उनकी उत्कृष्ट

आवाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आवाधाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया ।

वेइंदियपज्जत्तयस्स सन्वत्थोवो णामा-गोदाणमावाधाट्टाणविसेसो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाधाट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाधाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सेण विसेसाहियाणि । आउअस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । आवाधाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्य जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । एव तेइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपंचिंदियपज्जत्ताणं पि णेदव्वं ।

सन्वत्थोवो वेइंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण आवाधाट्टाणविसेसो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाधाट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाधाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो ।

आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ।

डीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । आवाधास्थान विशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । इसी प्रकार त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके भी ले जाना चाहिये ।

डीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । मोहनीयका आवाधास्थान-

आवाधाट्टाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । आउअस्स जहणिया आवाधा संखेज्जगुणा ।
णामा-गोदाणं जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया ।
चदुण्णं कम्माणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया ।
मोहणीयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया ।
आउअस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि ।
एवं तेइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपंचिंदियपज्जत्ताणं पि णेद्व्वं ।

सञ्चेत्थोवा सण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स आउअस्स जहणिया आवाहा । णामा-गोदाणं
जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । चदुण्णं कम्माणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया ।
मोहणीयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । णामा-गोदाणमावाधाट्टाविसेसो संखेज्जगुणो ।
आवाहाट्टाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं
कम्माणमावाधाट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाधाट्टाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि ।
उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो ।
आवाहाट्टाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स
आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्त्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया
आवाहा विसेसाहिया ।

विशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । आयुकी जघन्य
आवाधा संख्यातगुणी है । नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट
आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उत्कृष्ट
आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा
विशेष अधिक है । आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक
रूपसे विशेष अधिक है । इसी प्रकार त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंजी पंचेन्द्रिय
पर्याप्तके भी ले जाना चाहिये ।

संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तके आयुकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है । नाम व
गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक
है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष
संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष
अधिक है । चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे
विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष
संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष
अधिक है । आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे
विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ।

१. अ-आ-काप्रतिषु 'णामागोदाण.....सखेज्जगुणा' इति पाठौ नास्ति, ताप्रतौ त्वस्ति सः ।

सण्णिपंचिदियअपज्जत्तयस्स आउअस्स सन्वत्थोवा जहणिया आवाहा । आवाहाट्ठाण-
विसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्ठाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा
विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । चदुण्णं कम्माणं जहणिया
आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । णामा-गोदाणमा-
वाहाट्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्ठाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया
आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमावाहाट्ठाणविसेसो विसेसाहियो । आवाहा-
ट्ठाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स
आवाहाट्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्ठाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया
आवाहा विसेसाहिया । एवं सत्याणप्पावहुगं समत्तं ।

परत्याणे पयदं— सन्वत्थोवो सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणवाहाट्ठाणविसेसो ।
आवाहाट्ठाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाट्ठाणविसेसो विसे-
साहियो । आवाहाट्ठाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्ठाणविसेसो
संखेज्जगुणो । आवाहाट्ठाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स णामा-
गोदाणमावाहाट्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्ठाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । चदुण्ण

संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके आयुकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है । आवाधा-
स्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट
आवाधा विशेष अधिक है । नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । चार
कर्माकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है ।
नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष
अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्माका आवाधास्थानविशेष विशेष
अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक
है । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष
अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । इस प्रकार स्वस्थान अल्पवहुत्व
समाप्त हुआ ।

अव परस्थान अल्पवहुत्वका प्रकरण है— सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व
गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक
हैं । चार कर्माका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे
विशेष अधिक हैं । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक
रूपसे विशेष अधिक हैं । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष
संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चार कर्माका आवाधास्थान-

१ ताप्रतौ 'जह० आवाहा । [आवाहा] ट्ठाण-' इति पाठः ।

आवाहाट्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि' । चदुणं कम्माणमावाहाट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्टाण-विसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । चदुणं-कम्माणमावाहाट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । चोदसणं जीवसमासाणमाउअस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । सत्तणं पि अपज्जत्त-जीवसमासाणमाउअस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइदियपज्जत्तयस्स आउअस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरएइदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । सुहुमेइदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइदिय-अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेवं णामा-गोदाण-

अधिक हैं । चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधा-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थान-विशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चौदह जीवसमासोंके आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । सातों ही अपर्याप्तक जीवसमासोंके आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ।

१ अप्रतावतोऽग्रे 'मोहणी० आवाहाट्टाणविसेसो संखे० गुणो' इत्यधिकं वाक्यं समुपलभ्यते ।

२ अ-आ-काप्रतिपु 'पज०' इति पाठः । ३ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-काप्रतिपु 'सुहुमेइदियपज्ज०' इति पाठः । ४ काप्रतौ 'णामा गोदाणमुक्क०' इति पाठः । ५ नाप्रतौ 'सुहुमेइदियपज्ज० णामा गोदाण जह० आवाहा विसे० । [वादरेइदियपज्ज० णामागोदाण जह० आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइदिय० विसे०] । तस्सेव' इति पाठः ।

असृग्णिपंचिदियपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स चदुण्ण कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माण-मुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । असृग्णिपंचिदियपञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सृग्णिपंचिदियपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । चदुण्ण कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाधा-ट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सेव विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्ण कम्माणमावाधाट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सेव विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आवाधाट्टाण-विसेसो संखेज्जगुणो । आवाधाट्टाणाणि एगस्सेव विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तेइंदियपञ्जत्तणमाउअस्स आवाधाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहा-

पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उमीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । असंखी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । संखी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंका आवाधास्थान-विशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । त्रीन्द्रिय पर्याप्तकोंके आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं ।

१ अ-काप्रत्योः 'सृग्णिपंचिदियणामा-', आप्रतौ 'सृग्णिपचि० णामा-', ताप्रतौ 'सृग्णिपंचिदिय [पञ्च०] णामा' इति पाठः ।

ट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चउरिंदिय-
पज्जत्तयस्स आउअस्स आवाहट्टाणविसेसो सखेज्जगुणो । आवाहट्टाणाणि एगरूवेण
विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वेइंदियपज्जत्तयस्स आउअस्स
आवाहट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया
आवाहा विसेसाहिया । मण्णिपंचिदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण आवाहट्टाणविसेसो सखेज्ज-
गुणो । आवाहट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया ।
तस्सेव पज्जत्तयस्स चटुण्ण कम्माणमावाहट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाहाट्टाणाणि
एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स
मोहणीयस्स आवाहट्टाणविसेसो सखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि ।
उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चादेइदियपज्जत्ताणमाउअस्स आवाहट्टाणविसेसो
विसेसाहियो । आवाहाट्टाणाणि एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसा-
हिया । मण्णि-अमण्णिपज्जत्ताणमाउअस्स आवाहट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि
एगरूवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया ।

सपहि एदेण मुत्तेण परूविददो वि अप्पाचहुअदंडयाणि जुगवं वत्तइस्सामो । तं पि
उमयदो अप्पाचहुअ दुविहं—अव्वोगाढअप्पाचहुअ मूलपयडिअप्पाचहुअं चेदि । तत्थ
अव्वोगाढप्पाचहुअं दुविहं—सत्याण परत्याण चेदि । तत्थ सत्याणे पयदं—सव्वत्थोवो

उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका आवाधास्थानविशेष
संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष
अधिक है । द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके आयुका आवाधास्थानविशेष सख्यातगुणा है । आवाधा-
स्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । संज्ञी पंचेन्द्रिय
पर्याप्तकके नाम व नोत्रका आवाधास्थानविशेष सख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे
विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका
आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं ।
उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका आवाधास्थानविशेष
संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष
अधिक है । व दर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके आयुका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है ।
आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । संज्ञी व
असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान
एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ।

अब इस सूत्रसे प्ररूपित दोनों ही अल्पवहुत्वदण्डकोंको एक साथ कहते हैं । वह दोनों
प्रकारका अल्पवहुत्व अव्वोगाढअल्पवहुत्व और मूलप्रकृतिअल्पवहुत्वके भेदसे दो प्रकार
हैं । उनमें अव्वोगाढअल्पवहुत्व दो प्रकार हैस्व—स्थान अल्पवहुत्व और परस्थान
अल्पवहुत्व । उनमें स्वस्थान अल्पवहुत्वका प्रकरण है—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके

सुहुमेइंदियअपञ्जत्तयस्स आवाहट्टाणविसेसो । आवाहाट्टाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । जहणिया आवाहा असंखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो असंखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । जहण्णओ ट्टिदिवंधो असंखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । एवं सुहुमेइंदियपञ्जत्त-वादेइंदिय-पञ्जत्तापञ्जत्ताण च णेदव्वो ।

सव्वत्थोवो वेइंदियअपञ्जत्तयस्स आवाहट्टाणविसेसो । आवाहाट्टाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो असंखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्स्वाहियाणि । जहण्णओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । एवं वेइंदियपञ्जत्त-तेइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपचिंदियपञ्जत्तापञ्जत्ताण च णेदव्वं ।

सव्वत्थोवा सण्णिपचिंदियअपञ्जत्तयस्स जहणिया आवाहा । आवाहट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । जहण्णओ ट्टिदिवंधो असंखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्स्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । एवं सण्णिपञ्जत्ताणं पि णेदव्वं ।

आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । जघन्य आवाधा असंख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थान विशेष असंख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तों और वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तों व अपर्याप्तोंके भी ले जाना चाहिये ।

द्वीन्द्रिय अपर्याप्तके आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार द्वीन्द्रिय पर्याप्तकों तथा त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व असंखी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों व अपर्याप्तकोंके भी ले जाना चाहिये ।

संखी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तके जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है । आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार संखी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके भी जानना चाहिये ।

आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स जहणिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स जहणिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वेइंदियअपज्जत्तयस्स जहणिया आवाहा सखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहणिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । एवं तेइदिय-चउरिंदियाणं णेदव्वं । असण्णिपचिंदियअपज्जत्ताणं जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । सेसतिण्णं पदाण वेइदियभंगो । सण्णिपचिंदियअपज्जत्तयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स आवाहट्टाणविसेसो सखेज्जगुणो । आवाहट्टाणाणि एगरुवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपज्जत्तयस्स आवाहट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहट्टाणाणि एगरुवेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो असंखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगरुवेण विसेसाहियाणि । वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो सखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगरुवेण विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदिय-

एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । द्वीन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तककी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तककी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । इसी प्रकार त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंके ले जाना चाहिये ।

आगे असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । आगेके शेष तीन पदोंका अल्पबहुत्व त्रीन्द्रिय जीवोंके समान है । संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तककी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तकका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकका आवाधास्थान-विशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं ।

विसेसाहियो । सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवधो विसेसाहियो । वादरेइंदिय-
पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । वेइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवधो
संखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव उक्कस्सओ
ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवधो विसेसाहियो ।
तेइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ
ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव पज्जत्तयस्स
उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । चउरिदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो
विसेसाहियो । सेसतिण्णिपदाणं वेइंदियभगो । असण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ
ट्टिदिवधो संखेज्जगुणो । सेसतिण्णिपदाणं वेइंदियभगो । सण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ
ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । तस्सेव
अपज्जत्तयस्स ट्टिदिवधट्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्ठाणाणि एगस्सुवाहियाणि ।
उक्कस्सओ ट्टिदिवधो विसेसाहियो । तस्सेव पज्जत्तयस्स ट्टिदिवंधट्ठाणविसेसो संखेज्ज-
गुणो । ट्टिदिवंधट्ठाणाणि एगस्सुवाहियाणि । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो ।
एवमन्वोगाढमपावहुअं समत्तं ।

मूलपयडिअप्पाचहुअं दुविहं— सत्थाणं परत्थाणं चेदि । तत्थ सत्थाणे पयदं—

उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध
विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।
द्वीन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उसीके अपर्याप्तकका जघन्य
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके
पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । त्रीन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थिति-
वन्ध विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।
उसीका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध
विशेष अधिक है । चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । शेष तीन
पदोंकी प्ररूपणा द्वीन्द्रियके समान है । असजी पचेन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध
संख्यातगुणा है । शेष तीन पदोंकी प्ररूपणा द्वीन्द्रियके समान है । संजी पंचेन्द्रिय
पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उसीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध
संख्यातगुणा है । उसीके अपर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थिति-
वन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके
पर्याप्तकका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक
हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इस प्रकार अन्वोगाढअल्पवहुत्व समाप्त हुआ ।

मूलप्रकृतिअल्पवहुत्व दो प्रकार है— स्वस्थान अल्पवहुत्व और परस्थान अल्पवहुत्व ।

१ प्रतिपु 'सेस तिण्णि-' इति पाठः ।

सव्वत्थोवो सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहट्टाणविसेसो । आवाहाट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि^१ । चदुण्णं कम्माणमावाहट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाहाट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । आउअस्स जहणिया आवाहा असंखेज्जगुणा । जहण्णओ ट्टिदिवधो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणविसेसो सखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहाविसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहाविसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहाविसेसाहिया । मोहणीयस्स जहणिया आवाहा सखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स ट्टिदिवधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्टिदिवधट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । उक्कस्सओ ट्टिदिवधो विसेसाहियो । णामा-गोदाणं ट्टिदिवधट्टाणविसेसो असखेज्जगुणो । ट्टिदिवधट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं ट्टिदिवधट्टाणविसेसो विसेसाहियो । ट्टिदिवधट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । मोहणीयस्स ट्टिदिवधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्टिदिवधट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्टिदिवधो असंखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्टिदिवधो विसेसाहियो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्टिदिवधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स जहण्णओ ट्टिदिवधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्टिदिवधो विसेसाहियो । एवं सुहुमेइंदियपज्जत्त-

इनमेंसे स्वस्थान अल्पवहुत्वका प्रकरण है— सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं । चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । आयुकी जघन्य आवाधा असंख्यातगुणी है । जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उनकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । आयुका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं । मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक है । नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार

१ ताप्रतौ ' एगस्सवाहियाणि ' इति पाठः ।

बादरेइदियअपज्जत्ताणं च णेदव्वं ।

सव्वथोवो बादरेइंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहट्टाणविसेसो । आवाहट्टाणाणि एगस्सुवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाहाट्टाणाणि एगस्सुवाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्सुवाहियाणि । आउअस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । जहणओ द्विदिवधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं जहणिया आवाहा असंखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्सुवाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । द्विदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगस्सुवाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । णामा-गोदाणं द्विदिवंधट्टाणविसेसो असंखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगस्सुवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधट्टाणविसेसो विसेसाहियो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगस्सुवाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगस्सुवाहियाणि । णामा-गोदाणं जहणओ द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । चदुण्णं कम्माणं जहणओ द्विदिवंधो विसेसाहियो ।

सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकों और बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके भी जानना चाहिये ।

बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं । आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा असंख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उससे उन्हींकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं । चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं । मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं । नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उत्कृष्ट

उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो ।
उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो ।

सञ्चत्थोवो वेइंदियअपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाट्टाणविसेसो । आवाहा-
ट्टाणाणि एगस्स्वाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाहा-
ट्टाणाणि एगस्स्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि
एगस्स्वाहियाणि । आउअस्स जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव जहण्णओ ट्टिदिवंधो
संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्स्वाहियाणि ।
उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा ।
उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया ।
उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया
आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि
एगस्स्वाहियाणि । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । णामा-गोदाणं ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो
असंखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्स्वाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो
विसेसाहियो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्स्वाहियाणि । मोहणीयस्स ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो
संखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्स्वाहियाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो

स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

इन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है ।
आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष
अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष
संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है । आयुकी जघन्य आवाधा
संख्यातगुणी है । उसीका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । आवाधास्थानविशेष
संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष
अधिक है । नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष
अधिक है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष
अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक
है । आयुका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे
अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष
असंख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं । चार कर्मोंका स्थितिवन्ध-
स्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं । मोहनीयका
स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं । नाम
व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

संखेजगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । एवं तेइदिय-चउरिदिय-असण्णिपंचि-दियअपज्जत्ताणं पि णेयन्वं ।

सञ्चत्योवो वेइंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाट्टाणविसेसो । आवाहाट्टाणाणि एगस्स्वाहियाणि- । चदुण्णं कम्माणमावाहट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाहाट्टाणाणि एगस्स्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेजगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्स्वाहियाणि । आउस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । जहण्णओ द्विदिवंधो संखेजगुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेजगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्स्वाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । द्विदिवंधट्टाणविसेसो संखेजगुणो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगस्स्वाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । णामा-गोदाणं द्विदिवंधट्टाणविसेसो असंखेजगुणो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगस्स्वाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधट्टाणविसेसो विसेसाहियो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगस्स्वाहियाणि । मोहणीयस्स द्विदिवंधट्टाणविसेसो

चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और असंखी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके भी जानना चाहिये ।

त्रीन्द्रिय पर्याप्तकोंके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है । चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है । आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक है । चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष

१ अ-आ-लप्रतिषु ' तेइदिय-असण्णि ', ताप्रतौ ' तेइदिय [चउरिदिय] असण्णि ' इति पाठः ।

संखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । एव तेइंदिय-चउरिंदियपज्जत्ताणं पि^१ णेयन्व ।

सन्वत्योवो असण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहाट्टाणविसेसो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । आउअस्स जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । जहण्णओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । द्विदिवंधट्टाणविसेसो असंखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । णामा-गोदाणं द्विदिवंधट्टाणविसेसो असंखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंध-

संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक है । नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं । मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार त्रीन्द्रिय और चतुर्गिन्द्रिय पर्याप्तकोंके भी ले जाना चाहिये ।

असंखी पचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक है । चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं । आरुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थान विशेष असंख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान

१ अ-का-ताप्रतिपु ' पि ' इत्येतद नोपलभ्यते ।

ट्टाणविसेसो विसेसाहियो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । मोहणीयस्स ट्टिदिवंधट्टाण-
विसेसो संखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो
संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । चट्टुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो
विसेसाहियो । [उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो ।] मोहणीयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो
संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो ।

सन्वत्थोवा सण्णिपंचिदियअपज्जत्तयस्स आउअस्स जहण्णिया आवाहा । जहण्णओ
ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वाहियाणि ।
उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । चट्टुण्णं
कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा ।
णामा-गोदाणमावाहट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वाहियाणि ।
उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चट्टुण्णं कम्माणमावाहट्टाणविसेसो विसेसाहियो ।
आवाहाट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स
आवाहट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा
विसेसाहिया । आउअस्स ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्वाहि-
याणि । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो

एक रूपसे अधिक है । चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है ।
स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष
संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । नाम व गोत्रका जघन्य
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । चार कर्मोंका जघन्य
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । [उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।] मोहनीयका
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तके आयुकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है । जघन्य
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक
रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । नाम व गोत्रकी जघन्य
आवाधा संख्यातगुणी है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी
जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है ।
आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार
कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक
हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयका आवाधास्थान विशेष संख्यातगुणा है ।
आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । आयुका
स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं ।
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा

असंखेज्जगुणो । चदुण्ण कम्माणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । चदुण्णं कम्माणं ट्टिदिवंधट्टाण-विसेसो विसेसाहियो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्वा-हियाणि । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो ।

सन्वत्योवा सण्णिपंचिदियपज्जत्तयस्स आउअस्स जहण्णिया आवाहा । तस्सेव जहण्णओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । णामा-गोदाणमावाहट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्ण कम्माणमावाहट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्वेण विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो असंखेज्जगुणो । ट्टिदिवंधट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो

है । चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्ध-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

संधी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके आयुकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है । उसीका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्याता गुणी है । नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । आयुका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थानविशेष असंख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध

संखेज्जगुणो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं द्विदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधट्टाण-विसेसो विससाहियो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स द्विदिवंधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । द्विदिवंधट्टाणाणि एगस्स-वाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । एव सत्त्याणप्पावहुगं समत्तं ।

परत्याणे पयदं—सव्वत्थोवो सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहट्टाण-विसेसो । आवाहाट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाहाट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । वादरेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाण-मावाहट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाह-ट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाहट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहट्टाण-विसेसो संखेज्जगुणो । आवाहट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहट्टाणविसेसो विसेसाहियो । आवाहाट्टाणाणि एगस्सवाहियाणि । मोहणीयस्स

संख्यातगुणा है । चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इस प्रकार स्त्रस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

अब परस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है— सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष सबसे स्तोक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चार कर्मोंका आवाधास्थान-विशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधा-स्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । मोहनीयका आवाधास्थानविशेष

अपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहणिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सण्णिपंचिंदियपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव पञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव पञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणमावाहट्टाण-विसेसो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि एगस्सुवाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमावाहट्टाणविसेसो विसेसाहियो ।

आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका आवाधास्थानविशेष संख्यातगुणा है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका आवाधास्थानविशेष विशेष अधिक है । आवाधास्थान एक रूपसे विशेष अधिक

सखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । एव सेसाणि तिण्णि पदाणि णंदच्चाणि । तेइंदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । एव सेसदोपदाणि विसेसाहियकसेण णेदच्चाणि । तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव पज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । वेइंदियपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । चउरिदियपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाण जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । तस्सेव पज्जत्तयस्स णामा-गोदाणं उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो ।

नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार जेप तीन पदोंको ले जाना चाहिये ।

आरो त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार जेप दो पदोंको भी विशेषाधिकके क्रमसे ले जाना चाहिये । उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके आयुका स्थितिवन्ध-

१ वाक्यमिदं नोपलभ्यत अ-था-काप्रतिपु । २ ताप्रती 'चदुण्णं क० उक्क० (जह०)' इति पाठः ।

संखेज्जगुणो । टिट्ठिवधट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्कस्सओ टिट्ठिवधो विसेसाहियो । तस्सेव पज्जत्ताण चटुण्ण कम्माणं टिट्ठिवधट्टाणविसेसो विसेसाहियो । टिट्ठिवधट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्कस्सओ टिट्ठिवधो विसेसाहियो । तस्सेव पज्जत्तयस्स मोहणीयस्स टिट्ठिवधट्टाणविसेसो संखेज्जगुणो । टिट्ठिवधट्टाणाणि एगस्वाहियाणि । उक्कस्सओ टिट्ठिवधो विसेसाहियो ।

सव्वत्थोवा सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्सं संकिलेसविसोहिट्टाणाणि ॥५१॥

स्थितयो वध्यन्ते एभिरिति करणे घञ्युत्ते.^१ कर्मस्थितिवन्धकारणपरिणामाना स्थितिवन्ध इति व्यपदेशः । तेषा स्थानानि अवस्थाविशेषाः स्थितिवन्धस्थानानि । संपहि तेषिं टिट्ठिवधकारणपरिणामाण पम्बणा कीरदे । किमट्टमेदेसि पम्बणा कीरदे ? कारणावगमदुवारेण कम्मटिट्ठिकज्जावगमणट्ट । ण च कारणे अणवगए कज्जावगमो सम्मत्तं पडिवज्जदे, अण्णन्य तहाणुवलभादो ।

एत्थ पम्बणा पमाणमप्पावहुअमिदि तिण्णि अणियोगट्टाराणि भवंति । सुत्ते

अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके नाम व गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उसीके पर्याप्तकके मोहनोयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । स्थितिवन्धस्थान एक रूपसे विशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

मूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके सकलेश-विशुद्धिस्थान सबसे स्तोक हैं ॥ ५१ ॥

‘ जिनके द्वारा स्थितिया बंधती हैं ’ इस विग्रहके अनुसार करण अर्थमें ‘ घञ् ’ प्रत्यय होनेसे स्थितिवन्धके कारणभूत परिणामोंको स्थितिवन्ध कहा गया है । उनकी अवस्थाविशेषोंका नाम स्थितिवन्धस्थान हैं । अब स्थितिवन्धके कारणभूत उन परिणामोंकी प्ररूपणा करते हैं ।

शका—उनकी प्ररूपणा किसलिये की जाती है ?

प्रमाण—कारणपरिज्ञानपूर्वक कर्मस्थितिके रूप कार्यका परिज्ञान करानेके लिये उनकी प्ररूपणा की जा रही है । कारण कि जवतक कार्योत्पादक हेतुका परिज्ञान नहीं हो जाता, तब तक कार्यका परिज्ञान यथार्थताको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि, दूसरी जगह वैसा पाया नहीं जाता है ।

वहा प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व ये तीन अनुयोगट्टार हैं ।

१ अ-आ काप्रतिपु ‘ पज्जत्तयस्स ’ इति पाठः । २ अ आ काप्रतिपु ‘ घञ्युत्ते ’ इति पाठः ।

अप्पावहुआणियोगहारमेक्कमेव किमट्टं पस्विद ? ण एस दोसो, अप्पावहुअपम्बणाए तेसि दोण्ह पि अंतम्भावादो । कुदो ? अणवगयसंत-पमाणेसु परिणामेसु अप्पावहुगाणुववत्तीदो । तत्थ ताव एगजीवसमासमस्सिट्ठण संकिलेस-विसोहिट्ठणाण पस्वणा कीरदे । त जहा-जहणियाए ट्ठिदीए अत्थि सकिलेसट्ठणाणि । एव णेदव्वं जाव उक्कस्सट्ठिट्ठि त्ति । एवं विसोहिट्ठणाण पि पस्वणा कायव्वा । णवरि उक्कस्सट्ठिट्ठिप्पहुडि पस्वेदव्व । एवं पस्वणा गदा ।

जहणियाए ट्ठिदीए सकिलेसट्ठणाणं पमाणमसखेज्जा लोगा । विदियाए ट्ठिदीए वि असंखेज्जा लोगा । एव णेदव्वं जाव उक्कस्सिया ट्ठिट्ठि त्ति । एव विसोहिट्ठणाण पि विवरीएण पमाणपस्वणा कायव्वा । एत्थ पमाणाणियोगहारेण म्चिडाणं सेडि-अवहार-भागा-भागाणं पस्वणं कस्सामो । तत्थ सेडिपस्वणा दुविहा-अणतरोवणिधा परंपरोवणिधा चेदि । तत्थ अणतरोवणिधाए जहणट्ठिदीए संकिलेसट्ठणेहिंतो विदियाए ट्ठिदीए संकिलेसट्ठणाणि विसेसाहियाणि । को पडिमागो ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । विदिय-ट्ठिट्ठिसकिलेसट्ठणेहिंतो तदियट्ठिट्ठिसंकिलेमट्ठणाणि विसेसाहियाणि । एत्थ पडिभागो

शंका—सूत्रमें एक मात्र अल्पवहुत्व अनुयोगद्वारकी ही प्ररूपणा किमलिये की गई है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, वे दोनों अल्पवहुत्व प्ररूपणाके अन्तर्गत हैं । कागण यह कि सत्त्व और प्रमाणके अज्ञात होनेपर उक्त परिणामोंके विषयमें अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा सम्भव नहीं है ।

उनमें पहिले एक जीवसमासका आश्रय लेकर संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंकी प्ररूपण की जाती है । यथा—जघन्य स्थितिमें संक्लेशस्थान हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिये । इसी प्रकार विशुद्धिस्थानोंकी भी प्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना है कि उनकी प्ररूपणा उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर करना चाहिये । प्ररूपणा समाप्त हुई ।

जघन्य स्थितिके संक्लेशस्थानोंका प्रमाण असंख्यात लोक है । द्वितीय स्थितिके भी संक्लेशस्थानोंका प्रमाण असंख्यात लोक ही है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिये । इसी प्रकार विशुद्धिस्थानोंके भी प्रमाणकी प्ररूपणा विपरीत क्रमसे करना चाहिये ।

यहां प्रमाणानुयोगद्वारसे सूचित श्रेणि, अवहार और भागाभागकी प्ररूपणा करते हैं । उनमें श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकार है—अनन्तरोपनिधा और परस्पररोपनिधा । उनमें अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा—जघन्य स्थितिके संक्लेशस्थानोंसे द्वितीय स्थितिके संक्लेशस्थान विशेष अधिक है । प्रतिभाग क्या है ? प्रतिभाग पल्लोपमका असंख्यातधां भाग है । द्वितीय स्थितिके संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा तृतीय स्थितिके संक्लेशस्थान विशेष

पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागमेत्तो । एवं णेदच्च जाव उक्कस्सट्ठिदिसंकिलेसट्टाणाणि त्ति । एवमणतरोवणिधा गदा ।

परपरोवणिधाए जहण्णट्ठिदिसंकिलेसट्टाणेहितो पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागमेत्तद्वाण गत्तण दुग्गुणवड्डी होदि । पुणो वि एत्तियमद्वाणसुवरि गत्तण चदुग्गुणवड्डी होदि । एवं णेयच्च जाव उक्कस्सट्ठिदीए संकिलेसट्टाणाणि त्ति । एत्थ णाणागुणहाणिसलागाओ थोवाओ । एग्गुणहाणिट्टाणतरमसखेज्जगुणं । एव विसोहिट्टाणाणं पि सेडिपरूवणं विवरीदकमेण कायच्च. उक्कस्सट्ठिदिपरिणामेहिंतो हेट्ठिम-हेट्ठिमट्ठिदिपरिणामाणं विसेसाहियत्तुवलभादो । एव सेडिपरूवणा गदा ।

अवहारो उच्चदे । त जहा—सव्वसंकिलेसट्टाणाणि जहण्णट्ठिदिसंकिलेसपमाणेण अवहिरिज्जमाणे केवचिरेण कालेण अवहिरिज्जति ? असखेज्जेण कालेण अवहिरिज्जति । एव णेदच्च जाव उक्कस्सियाए ट्ठिदीए संकिलेसट्टाणाणि त्ति । एव विसोहिट्टाणाण पि वत्तच्च । अवहारो गदो ।

जहण्णियाए ट्ठिदीए संकिलेसट्टाणाणि सव्वसंकिलेसट्टाणाणं केवडिओ भागो ? असखेज्जदिभागो । एव णेदच्च जाव उक्कस्सियाए ट्ठिदीए संकिलेसट्टाणाणि त्ति । एवं विसोहिट्टाणाण' भागाभागपरूवणा कायच्चा । एव भागाभागपरूवणा गदा ।

अधिक हैं । यहां प्रतिभाग पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके संक्लेशस्थानों तक ले जाना चाहिये । इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई ।

परपरोपनिधासे जघन्य स्थितिके संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र अध्वान जाकर दुग्गुणी वृद्धि होती है । फिर भी इतना मात्र अध्वान आगे जाकर चतुर्गुणी वृद्धि होती है । इस क्रमसे उत्कृष्ट स्थितिके संक्लेशस्थानों तक ले जाना चाहिये । यहां नाना गुणहानिशलाकार्ये स्तोक हैं । एक गुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा हैं । इसी प्रकार विशुद्धिस्थानोंकी भी श्रेणिप्ररूपणा विपरीत क्रमसे करना चाहिये, क्योंकि, उत्कृष्ट स्थितिके संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा नीचे नीचेकी स्थितियोंके परिणाम विशेष अधिक पाये जाते हैं । इस प्रकार श्रेणिप्ररूपणा समाप्त हुई ।

अवहारकी प्ररूपणा करते हैं । यथा-समस्त संक्लेशस्थानोंको जघन्य स्थितिके संक्लेशस्थानोंके प्रमाणसे अपहृत करनेपर वे कितने कालके द्वारा अपहृत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे असंख्यात कालके द्वारा अपहृत होते हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके संक्लेशस्थानोंतक ले जाना चाहिये । इसी प्रकार विशुद्धिस्थानोंके भी अवहारका कथन करना चाहिये । अवहारका कथन समाप्त हुआ ।

जघन्य स्थितिके संक्लेशस्थान सव्व संक्लेशस्थानोंके कितनेवे भाग प्रमाण हैं ? वे सव्व संक्लेशस्थानोंके असंख्यातवे भाग प्रमाण हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके स्थानों तक ले जाना चाहिये । इसी प्रकार विशुद्धिस्थानोंके भागाभागकी प्ररूपणा करना चाहिये । इस प्रकार भागाभागप्ररूपणा समाप्त हुई ।

१ अ-आ-हाप्रतिपु ' विसोहिट्टाणाणि ' इति पाठः ।

सपदि अपाचहुअपरुवणाए सुत्तुद्धिद्वाए विवरणं कस्सामो—सव्वत्थोवा सुहुमेइदिय-
अपज्जत्तयस्स सकिलेस-विसोहिद्वाणाणि । संपदि संकिलेमद्वाणाणं विसोहिद्वाणाण च को
भेदो ? परियत्तमाणियाणं साद-धिर-मुभ-सुभग-मुस्सर-आदेजादीणं मुभपयडीण वंधकारण-
भृदकसायद्वाणाणि विसोहिद्वाणाणि, असाद-अधिर-अमुह-दुभग-[दुस्सर-] अणादेजादीणं
परियत्तमाणियाणंमसुहपयडीण वधकारणकसाउदयद्वाणाणि सकलेसद्वाणाणि त्ति
एसो तेसिं भेदो । वड्डमाणकयाथो सकिलेसो. हायमाणो विमोहि त्ति किण्ण
वेपदे ? ण, सकिलेस-विसोहिद्वाणाण सखाए समाणत्तपमगादो । कुदो ?
जहण्णुककस्सपरिणामाण जहाकमेण विसोहि-संकिलेमणियमदसणादो मज्झिम-
परिणामाणं च संकिलेस-विसोहिपक्खवुत्तिदसणादो ण च संकिलेस-विसोहिद्वाणाण सखाए
समाणत्तमत्थि, सकिलेसद्वाणेहिंतो विसोहिद्वाणाणि णिच्छएण थोवाणि त्ति पवाइज्जमाण-
गुरुवएसेण सह विरोहादो । उवकस्सट्टिदीए विसोहिद्वाणाणि थोवाणि जहण्णट्टिदीए

अव सूत्रोद्दिष्ट अल्पवहुत्वकी प्ररूपणाका विवरण करते हैं—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्या-
तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान सबसे स्तोक हैं ।

शंका—यहां संक्लेशस्थानों और विशुद्धिस्थानोंमें क्या भेद हैं ?

समाधान—साता, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर और आदेय आदिक परिवर्तमान शुभ
प्रकृतियोंके बन्धके कारणभूत कपायस्थानोंको विशुद्धिस्थान कहते हैं और असाता,
अस्थिर अशुभ, दुर्भग, [दुस्वर] और अनादेय आदिक परिवर्तमान अशुभ प्रकृतियोंके
बन्धके कारणभूत कपायोंके उदयस्थानोंको संक्लेशस्थान कहते हैं, यह उन दोनोंमें भेद है ।

शंका—बहुती हुई कपायको संक्लेश और हीन होती हुई कपायको विशुद्धि क्यों नहीं
स्वीकार करते ?

समाधान—नहीं क्योंकि वैसा स्वीकार करनेपर संक्लेशस्थानों और विशुद्धि-
स्थानोंकी संख्याके समान होनेका प्रसंग आता है । कारण यह कि जघन्य और
उत्कृष्ट परिणामोंके क्रमशः विशुद्धि और संक्लेशका नियम देखा जाता है, तथा मध्यम
परिणामोंका संक्लेश अथवा विशुद्धिके पक्षमें अस्तित्व देखा जाता है । परन्तु संक्लेश
और विशुद्धि स्थानोंमें संख्याकी अपेक्षा समानता है नहीं, क्योंकि, 'संक्लेशस्थानोंकी
अपेक्षा विशुद्धिस्थान नियमसे स्तोक हैं' इस परम्परासे प्राप्त गुरुके उपदेशसे विरोध
आता है । अथवा, उत्कृष्ट स्थितिमें विशुद्धिस्थान थोड़े और जघन्य स्थितिमें वे बहुत

१ अ-आ-काप्रतिपु 'परियत्तवृणियाणि,' ताप्रतौ 'परियत्तमाणियाणि' इति पाठः । सायं धिराहं
उच्च सुर-मणु दो-दो पण्दि चउरसं । रिसह-पसत्यविहायगइ सोल्ल परियत्तमुभवगो ॥ प. सं. १,८१
२ अ. आ-काप्रतिपु 'परियत्तवृणियाण' इति पाठः । अस्साय यावरदसं नरयदुगं विहगई य अपसत्या ।
पचेदि -रिसमचउरसनेयग असुमपोलणिया ॥ पं. स. १,८२. ३ म प्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का प्रतिपु
'एकस्स' ताप्रतौ 'ए (उ) कस्स' इति पाठः ।

बहुवाणि त्ति गुरूवएसादो वा हायमाणकसाउदयट्टाणाणं विसोहिभावो णत्थि त्ति णव्वदे । सम्भत्तुप्पत्तीए सादट्टाणपरूवण^१ काट्टण पुणो संकिलेस-विसोहीणं परूवणं कुणमाणा वक्खाणाइरिया जाणावेंति जहा हायमाणकसाउदयट्टाणाणि चेव विसोहिसिण्णिदाणि त्ति भणिदे होदु णाम तत्थ तथाभावो, दंसण-चरित्तमोहक्खवणोवसामणासु पुच्चिल्लसमए उदयमागद-अणुभागफट्टएहितो अणंतगुणहीणफट्टयाणमुदएण जादकसायउदयट्टाणस्स विसो-हित्तुवगमादो । ण च एस्स णियमो ससारावत्थाए अत्थि, तत्थ छव्विहवट्ठि-हाणीहि कसाउदयट्टाणाण उत्पत्तिदंसणादो । ससारावत्थाए वि अंतोसुहुत्तमणंतगुणहीणकमेण अणुभाग-फट्टयाणं उदओ अत्थि त्ति वुत्ते होदु, तत्थ वि तथाभावं^२ पडुच्च विसोहित्तुवगमादो । ण च एत्थ अणतगुणहीणफट्टयाणमुदएण उप्पण्णकसाउदयट्टाणं विसोहि त्ति घेप्पदे, एत्थ एवविहविवक्खाभावादो^३ । किंतु सादबंधपाओगकसाउदयट्टाणाणि विसोही, असाद-वधपाओगकसाउदयट्टाणाणि संकिलेसो त्ति घेत्तव्वमण्णहा विसोहिट्टाणाणमुक्कस्सट्ठिदीए

होते हैं, इस गुरुके उपदेशसे जाना जाता है कि हानिको प्राप्त होनेवाली कषायके उदयस्थानोके विशुद्धता सम्भव नहीं है ।

शका—सम्यक्त्वोत्पत्तिमें सातावेदनीयके अध्वानकी प्ररूपणा करके पश्चात् संक्लेश व विशुद्धिकी प्ररूपणा करते हुए व्याख्यानाचार्य यह ज्ञापित करते हैं कि हानिको प्राप्त होनेवाले कषायके उदयस्थानोंकी ही विशुद्धि संज्ञा है ?

समाधान—ऐसी आशंका होनेपर उत्तर देते हैं कि वहाँपर वैसा कहना ठीक है, क्योंकि, दर्शन और चारिभ्र मोहकी क्षपणा व उपशामनामें पूर्व समयमें उदयको प्राप्त हुए अनुभागस्पर्धकोंकी अपेक्षा अनन्तगुणे हीन अनुभागस्पर्धकोंके उदयसे उत्पन्न हुए कषायो-दयस्थानके विशुद्धपना स्वीकार किया गया है । परन्तु यह नियम संसारावस्थामें सम्भव नहीं है, क्योंकि, वहाँ छह प्रकारकी वृद्धि व हानियोंसे कषायोदयस्थानकी उत्पत्ति देखी जाती है ।

शका—संसारावस्थामें भी अन्तर्मुहूर्त काल तक अनन्तगुणे हीन क्रमसे अनुभाग-स्पर्धकोंका उदय है ही ?

समाधान—संसारावस्थामें भी उनका उदय बना रहे, वहाँ भी उक्त स्वरूपका आश्रय करके विशुद्धता स्वीकार की गई है । परन्तु यहाँ अनन्तगुणे हीन स्पर्धकोंके उदयसे उत्पन्न कषायोदयस्थानको विशुद्धि नहीं ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि, यहाँ इस प्रकारकी विवक्षा नहीं है । किन्तु सातावेदनीयके वन्धयोग कषायोदयस्थानोंको विशुद्धि और असातावेदनीयके वन्धयोग्य कषायोदयस्थानोंको संक्लेश ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इसके बिना उत्कृष्ट स्थितिमें विशुद्धिस्थानोंकी स्तोकताका विरोध है ।

१ प्रतिपु ' सादट्टाण परूवण ' इति पाठः । २ प्रतिपु ' जाव ' इति पाठः । ३ अ-आ का प्रतिपु ' तथाभाव ' इति पाठः । ४ ताप्रती ' एव विधविवक्खाभावादो ' इति पाठः ।

थोवत्तविरोहादो त्ति । तदो संकिलेसट्टाणाणि जहण्णट्टिदिप्पहुडि विसेसाहियवट्टीए, उक्कस्सट्टिदिप्पहुडि विसोहिट्टाणाणि विसेसाहियवट्टीए गच्छति [त्ति] विसोहिट्टाणेहिंतो संकिलेसट्टाणाणि विसेसाहियाणि त्ति सिद्धं ।

वादरेइंदियअपज्जयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ५२ ॥

सुहुमेइंदियअपज्जयस्स ट्टिदिवंधट्टाणेहिंतो वादरेइंदियअपज्जयस्स ट्टिदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि त्ति सुत्तेहि पस्सविदाणि । तदो सुहुमेइंदियअपज्जयस्स संकिलेसविसोहिट्टाणेहिंतो वादरेइंदियअपज्जयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणेहि संखेज्जगुणेहि होदच्चं । तेण असंखेज्जगुणाणि त्ति सुत्तवयणं ण वड्ढे ? एत्थ परिहारो उच्चदे—जदि सच्चट्टिदीण संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि सरिसाणि चेव होति तो संखेज्जगुणत्तं जुज्जदे । ण च सच्चट्टिदि-संकिलेस-विसोहिट्टाणाणं सरिसत्तमत्थि, जहण्णुक्कस्सट्टिदिपहुडि संकिलेस-विसोहिट्टाणाणम-संखेज्जभागवट्टीए गमणुवलभादो । तेण सुहुमेइंदियअपज्जयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणेहिंतो वादरेइंदियअपज्जयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणमसंखेज्जगुणत्तं जुज्जदि त्ति वेत्तच्चं' ।

अतएव संक्लेशस्थान जघन्य स्थितिसे लेकर उत्तरोत्तर विशेष अधिकके क्रमसे तथा विशुद्धिस्थान उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर विशेष अधिक क्रमसे जाते हैं, इसीलिये विशुद्धिस्थानोंकी अपेक्षा संक्लेशस्थान विशेष अधिक हैं, यह सिद्ध होता है ।

सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थानोसे वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५२ ॥

शंका—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानोंकी अपेक्षा वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुण हैं, ऐसा सूत्रों (३७-३८) में कहा जा चुका है । अतएव सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश विशुद्धि स्थानोंकी अपेक्षा वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान संख्यातगुणे होना चाहिये । इसीलिये ' असंखेज्जगुणाणि ' यह सूत्रवचन घटित नहीं होता है ?

समाधान—इस शंकाका परिहार कहते हैं—यदि सभी स्थितियोंके संक्लेश-विशुद्धिस्थान सदृश ही होते, तो वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेशविशुद्धिस्थानोंको संख्यातगुणा कहना उचित था । परन्तु सब स्थितियोंके संक्लेशविशुद्धिस्थान सदृश होते नहीं हैं, क्योंकि, जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर क्रमशः संक्लेश और विशुद्धि स्थानोंका गमन असंख्यातभागवृद्धिके साथ पाया जाता है । अतएव सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश विशुद्धिस्थानोंसे वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंको असंख्यातगुणा कहना उचित है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

१ कथमेव गम्यते सर्वत्राप्यसंखेयगुणानि संक्लेशस्थानानीति चेदुच्यते इह सूक्ष्मस्यापर्याप्तस्य

मयहि जदि वि अयवेज्जगुणत्त बुद्धिमताण सिस्माणं सुगम तो वि मंदमेहावि-
मिस्माणमणुग्गहट्टमयवेज्जगुणत्तमाहण वत्तडस्सामो । त जहा—सुहुमेइदियअपजत्तयस्स द्विदि-
वंधट्टाणाण पत्तिट्ठोवमस्स अमखेज्जदिभागमेत्ताण सद्विटीण रचना कायव्वा । पुणो एदेसिं
द्विदिवंधट्टाणाण दन्निज्जणदिसाण् वादरेइदियअपजत्तद्विदिवंधट्टाणाण रचना कायव्वा ।
तन्थ वादरेइदियअपजत्तद्विदिवंधट्टाणे सुहुमेइदियअपजत्तद्विदिवंधट्टाणाणि मोत्तूण सेसेहेट्टिम-
द्विदिवंधट्टाणाणि सुहुमेइदियअपजत्तद्विदिवंधट्टाणेहितो सखेज्जगुणाणि सुहुमेइदियअपजत्त-
विमोहीदो वादरेइदियअपजत्तविमोहीण अणतगुणत्तुवलभादो । उवरिमद्विदिवंधट्टाणाणि
ततो मग्गेज्जगुणाणि, सुहुमेइदियअपजत्तउवकस्समकिलेसादो वादरेइदियअपजत्त-उवकस्स-
मकिलेसम्म अणंतगुणत्तुवलभादो । एव च द्विद्विदिवंधट्टाणेषु जहण्णाद्विदिवंधट्टाणमादिं
काइण जावुम्भस्सद्विदिवंधट्टाणे त्ति ताव पादेवकमसखेज्जलोगमेत्तसकिलेस-विसोहिट्टाणाणं

अथ यद्यपि बुद्धिमान् शिष्योंके लिये असंख्यातगुणत्वका जानना सुगम है, तथापि
मन्दबुद्धि शिष्योंके अनुग्रहार्थ असंख्यातगुणत्वका साधन कहा जाता है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय
अपर्याप्तके पन्चोपमे असंख्यातके भाग मात्र स्थितिवन्ध स्थानोंकी संदृष्टिमें रचना करना
चाहिये । पञ्चान इन स्थितिवन्धस्थानोंकी दक्षिण दिशामें वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके
स्थितिवन्ध स्थानोंकी रचना करना चाहिये । उनमें वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिवन्ध-
स्थानोंमेंसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिवन्धस्थानोंको छोड़कर अवशिष्ट नीचेके
स्थितिवन्धस्थान सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिवन्धस्थानोंसे संख्यातगुणे हैं,
क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी विशुद्धिसे वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी विशुद्धि
जननगुणी पायी जाती है । उनसे ऊपरके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं, क्योंकि,
सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके उत्कृष्ट संश्लेशसे वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तका उत्कृष्ट
संश्लेश जननगुणा पाया जाता है । इस प्रकार अवस्थित स्थितिवन्धस्थानोंमें जघन्य
स्थितिवन्धस्थानकी आदि परके उत्कृष्ट स्थितिवन्धस्थान तक प्रत्येक स्थितिवन्धस्थानके

जघन्यस्थितिवन्धस्थानोंमें यानि सक्षेत्रस्थानानि तेभ्यः समयाधिरजघन्यस्थितिवन्धस्थानेषु सफलस्थानानि
विद्येतादिकानि । तेभ्योऽपि द्विसमयाधिकजघन्य स्थितिवन्धस्थानेषु विद्येतादिकानि । एवं तावद्वाच्य
यावन्मयीसोत्पत्ति स्थिति । तदुत्कृष्टस्थितिवन्धस्थानेषु च संश्लेशस्थानानि जघन्यस्थितिसत्संश्लेश
स्थानापेक्षयाऽसंश्लेशगुणानि लभ्यन्ते । यदेतदेव तदा सुतरामपर्याप्तवादरस्य संश्लेशस्थानानि अपर्याप्त-
सूक्ष्मसंश्लेशस्थानापेक्षयाऽसंश्लेशगुणानि भवन्ति । तथाहि-अपर्याप्तसूक्ष्मसंश्लेशस्थितिवन्धस्थानापेक्षया
वादरपर्याप्तस्य स्थितिवन्धस्थानानि संश्लेशगुणानि । स्थितिवन्धस्थानेषु च सक्षेत्रस्थानवृद्धिः । ततो यदा
सूक्ष्मापर्याप्तस्यापि स्थितिवन्धस्थानेषु जघन्यस्थितिवन्धस्थानसंश्लेशस्थानापेक्षया उत्कृष्टे स्थितिवन्ध-
सक्षेत्रस्थानान्यसंश्लेशगुणानि भवन्ति, तदा वादरपर्याप्तस्थितिवन्धस्थानेषु सूक्ष्मापर्याप्तस्थितिवन्धस्थानापेक्षयाऽ-
संश्लेशगुणेषु सुतरां भवन्ति । फ. प्र. (मलय.) १, ६८-६९.

आदीदो पडुडि कमेण विसेसाहियाणमसखेज्जणाणागुणवड्डिसलागसहियाणं दुगुणदुगुणपक्खे-
वपवेसवसेण अवट्टिदगुणहाणिपमाणण पुध पुध णिच्चग्गणकंडयमेत्तखंडभाव गदाण रचना
कायव्वा । तत्थ गुणहाणिपमाणमेत्ताणं संकिलेस-विसोहिट्टाणाणं वालजणवुद्धिवड्डावणट्ट-
मेसा संदिट्ठी—

३२७६८००

२५६००

एसा सुहुमेइदियअपजत्त-

१६३८४००

१२८००

संदिट्ठी

८१९२००

किमट्ट हेट्टिमगुणहाणिपरिणामेहितो अणंतरउवरिमगुणहा-

४०९६००

णिपरिणामा दुगुणा ? ण एस दोसो, जेण हेट्टिमगुणहाणिजह-

२०४८००

ण्णट्टाणपरिणामेहितो उवरिमाणंतरगुणहाणिजहण्णपरिणामा दुगुणा

१०२४००

विदियट्टाणपरिणामेहितो उवरिमगुणहाणि-विदियट्टाणपरिणामा

५१२००

दुगुणा, तदियट्टाणपरिणामेहितो [उवरिमगुणहाणि-] तदिय-

२५६००

ट्टाणपरिणामा दुगुणा, एवं णेदव्वं जाव दोणं गुणहाणीणं

१२८००

चरिमट्टिदिचंधट्टाणे त्ति; तेण हेट्टिमगुणहाणिसव्वसंकिलेस-

६४००

विसोहिट्टाणेहितो अणंतरउवरिमगुणहाणिसंकिलेस-विसोहि-

३२००

ट्टाणाण दुगुणत्तं ण विरुज्जदे ।

१६००

पढमगुणहाणिसव्वज्जवसाणपुंजादो तदियगुणहाणिसव्वज्ज-

८००

वसाणपुंजो चउग्गुणो होदि । एत्थ वि कारण पुव्वं व परुवेदव्वं ।

४००

चउत्थगुणहाणिसव्वज्जवसाणपुंजो अट्टगुणो (८) । एत्थ वि

२००

कारणं पुव्वं व वत्तव्व । एवं गत्तण जहण्णपरित्तासखेज्जेदणयमे-

१००

त्तगुणहाणीयो उवरि गत्तण ट्टिदगुणहाणीए सव्वज्जवसाणपुजो

एसा बादरेइदियअपजत्तसंदिट्ठी

असंख्यात लोक प्रमाण जो संक्लेशविशुद्धिस्थान आदिसे लेकर क्रमशः विशेष अधिक हैं,
असंख्यात नानागुणवृद्धिशलाकाओंसे सहित हैं, दूने दूने प्रक्षेपके प्रवेशवश अवस्थित
गुणहानिके बराबर हैं, तथा पृथक् पृथक् निर्वर्गणाकाण्डक प्रमाण खण्ड भावको प्राप्त हैं,
उनकी रचना करना चाहिये । उनमें गुणहानि प्रमाण मात्र संक्लेशविशुद्धिस्थानोंकी, बाल
जनोंकी शुद्धिके बढ़ानेके हेतु यह संदृष्टि है (मूलमें देखिये) ।

शका—अधस्तन गुणहानिके परिणामोंकी अपेक्षा उससे अव्यवहित आगेकी
गुणहानिके परिणाम दूने क्यों हैं ?

१ काप्रती ' सुहुमेइदिय ' इति पाठः । २ काप्रती ' बादरेइदिय ' इति पाठः । ३ मप्रतिपाठो-
ऽयम् । अ-आ-का प्रतिषु ' पुव्वं परुवेदव्व ' ताप्रती ' पुव्वं [व] परुवेदव्व ' इति पाठः ।

जहण्णपरित्तासखेज्जगुणो, पढमगुणहाणीए एगेगट्टिदिवधट्टाणसकिलेस-विसोहीहिंतो अप्पिद-
गुणहाणीए पढमादिद्विदिवधट्टाणसंकिलेस-विसोहिट्टाणाण जहाकमेण जहण्णपरित्तासखे-
ज्जगुणमेत्तगुणगारुवलभादो । एवमुवरिं पि जाणिट्ठण गुणगारो साहेयव्वो । एव संदिट्ठिं
ठविय एदिस्से अवट्टभवलेण सुहुमेइंदियअपज्जत्तसकिलेस-विसोहिट्टाणेहिंतो चादरेइंदिय-
अपज्जत्तसकिलेसविसोहिट्टाणाणमसखेज्जगुणत्तं भण्णदे । तं जहा—चादरेइंदियअपज्जत्तणाणा-
गुणहाणिसलागाओ जहण्णपरित्तासखेज्जच्छेदणएहि ओवट्टिय लद्ध विरलेयूण णाणागुण-
हाणिसलागाओ समखडं करिय दिण्णे रूव पडि जहण्णपरित्तासखेज्जच्छेदणाओ
पावेति । एत्थ चरिमजहण्णपरित्तासखेज्जच्छेदणयमेत्तगुणहाणीण सव्वसकिलेस-विसो

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यतः अधस्तन गुणहानि सम्बन्धी जघन्य स्थानके परिणामोंसे आगेकी अव्यवहित गुणहानिके जघन्य परिणाम दूने है, अधस्तन गुणहानि सम्बन्धी द्वितीय स्थानके परिणामोंकी अपेक्षा आगेकी गुणहानिके द्वितीय स्थान सम्बन्धी परिणाम दूने हैं, अधस्तन गुणहानि सम्बन्धी तृतीय स्थानके परिणामोंसे अग्रिम गुणहानि सम्बन्धी तृतीय स्थानके परिणाम दूने हैं, इस प्रकार दो गुणहानियोंके अन्तिम स्थितिवन्धस्थान तक ले जाना चाहिये, इसी कारण अधस्तन गुणहानि सम्बन्धी समस्त संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंकी अपेक्षा उससे अव्यवहित आगेकी गुणहानि सम्बन्धी संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंके दूने होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

प्रथम गुणहानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंजसे तृतीय गुणहानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंज चौगुणा है । यहाँ भी पहिलेके ही समान कारण वतलाना चाहिये । उससे चतुर्थ गुणहानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंज अठगुणा है । यहाँ भी पहिलेके ही समान कारण वतलाना चाहिये । इस प्रकार जाते हुए जघन्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेदोंके बराबर गुणहानियों आगे जाकर स्थित गुणहानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसान-पुंज प्रथम गुणहानि सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंजसे जघन्य-परीतासंख्यातगुणा है, क्योंकि, प्रथम गुणहानि सम्बन्धी एक एक स्थितिवन्धस्थानके संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंसे विवक्षित गुणहानि सम्बन्धी प्रथमादिक स्थितिवन्धस्थानके संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंका गुणकार क्रमशः जघन्य परीतासंख्यातगुणा मात्र पाया जाता है । इसी प्रकार आगे भी जानकर गुणकारका कथन करना चाहिये ।

इस प्रकार उपर्युक्त संदृष्टिको स्थापितकर उसके आश्रयसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश विशुद्धिस्थानोंकी अपेक्षा वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश विशुद्धिस्थानोंका असंख्यातगुणत्व वतलाया जाता है ? यथा—वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी नानागुणहानि-शलाकाओंमें जघन्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेदोंका भाग देकर जो प्राप्त हो उसका विरलन कर नानागुणहानिशलाकाओंको समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति जघन्य परीता-संख्यातके अर्धच्छेद प्राप्त होते हैं । यहाँ जघन्य-परीतासंख्यातके अन्तिम अर्धच्छेद प्रमाण गुणहानियोंका समस्त संक्लेश-विशुद्धिस्थानपुंज एक कम विरलन राशिसे गुणित जघन्य

हिट्टाणपुजो ऋवृणविरलणगुणिदजहणपरित्तासखेज्जेदणयमेत्तहेट्टिमगुणहाणीण सच्चञ्चव-
साणपुजादो अमंखेज्जगुणो, विसेमाहियउक्कस्समखेज्जगुणगारदमणादो । कवमेदं
णव्वेद ? जुत्तीदो । त जहा—पढमजहणपग्गित्तासखेज्जेदणयमेत्तगुणहाणीण सच्चञ्चव-
साणपुजादो विदियजहणपरित्तासखेज्जेदणयमेत्तगुणहाणीण मच्चट्टिदिवधञ्चवसाणट्टाणाणि
जहणपरित्तासखेज्जगुणाणि, हेट्टिमपढमादिगुणहाणिअञ्चवसाणपुजादो उवरिमपढमादिगुण-
हाणिअञ्चवसाणपुंजस्स पुध पुध जहणपरित्तासखेज्जगुणत्तुवलभादो । तदियजहणपरित्ता-
सखेज्जेदणयमेत्तगुणहाणीण मच्चञ्चवसाणपुजो पढमजहणपरित्तासखेज्जेदणयमेत्तगुणहाणीणं
सच्चञ्चवसाणपुजादो जहणपरित्तासखेज्जवग्गुणो होदि. जहणपग्गित्तामंखेज्जेदणए
दुगुणिय विरलिय विग करिय अण्णोण्णच्चत्थे कंठं जहणपग्गित्तामंखेज्जवग्गुपत्तीदो ।
विदियजहणपरित्तासखेज्जेदणयमेत्तगुणहाणीण सच्चञ्चवसाणपुजादो जहणपग्गित्तासखेज्ज-
गुणो होदि, हेट्टिमट्टिदिपरिणामंहीतो उवरिमट्टिदिपरिणामाण पुध पुध जहणपरित्ता-
सखेज्जगुणत्तुवलभादो । पुणो हेट्टिमट्टोखडगुणहाणीण सच्चञ्चवसाणेहीतो तदियखंडगुण-

परीतासंख्यातके अर्धच्छेदोंके बराबर अधस्तन गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजसे
असंख्यातगुणा है, क्योंकि, यहाँ गुणकार उक्त संख्यातसे विशेष अधिक देखा जाता है ।

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—वह युक्तिसे जाना जाता है । यथा—जघन्य परीतासंख्यातके प्रथम
अर्धच्छेदके बराबर गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजकी अपेक्षा जघन्य परीतासंख्यातके
द्वितीय अर्धच्छेदके बराबर गुणहानियोंके समस्त स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान जघन्य-
परीतासंख्यातगुणे है, क्योंकि, अधस्तन प्रथमादिक गुणहानियोंके अध्यवसान पुंजकी
अपेक्षा आगेकी प्रथमादिक गुणहानियोंका अध्यवसानपुंज पृथक् पृथक् जघन्य-परीता-
संख्यातगुणा पाया जाता है । जघन्य परीतासंख्यातके तृतीय अर्धच्छेदके बराबर
गुणहानियोंका समस्त अध्यवसानपुंज जघन्य परीतासंख्यातके प्रथम अर्धच्छेदके बराबर
गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजकी अपेक्षा जघन्य परीतासंख्यातके वर्गका जो प्रमाण
हो उससे गुणित है, क्योंकि, जघन्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेदोंको दुगुणित करनेपर जो
प्राप्त हो उसका विरलन करके दूनाकर परस्पर गुणित करनेपर जघन्य परीतासंख्यातका
वर्ग उत्पन्न होता है । जघन्य परीतासंख्यातके द्वितीय अर्धच्छेदके बराबर गुणहानियोंके
समस्त अध्यवसानपुंजकी अपेक्षा [जघन्य परीतासंख्यातके तृतीय अर्धच्छेद मात्र गुण-
हानियोंका समस्त अध्यवसानपुंज] जघन्य-परीतासंख्यातगुणा है, क्योंकि, अधस्तन
स्थितियोंके परिणामोंसे उपरिम स्थितियोंके परिणाम पृथक् पृथक् जघन्य-परीतासंख्यात-
गुणे पाये जाते हैं । पुनः अधस्तन दो खण्ड सम्बन्धी गुणहानियोंके समस्त अध्यवसान-

हाणीणं सव्वज्झवसाणपुंजो असंखेज्जगुणो होदि, रूवाहियजहण्णपरित्तासंखेज्जेण जहण्णपरित्तासंखेज्जयस्स वग्गे भागे हिदे रूवाहियजहण्णपरित्तासंखेज्जेण एगरूवं खंडिय तत्थ एगखंडेणभहियउक्कस्ससंखेज्जेमेत्तस्सुवलभादो । पुणो पढमखंडसव्वगुण-हाणिसव्वज्झवसाणपुजादो चउत्थखंडसव्वज्झवसाणपुजो जहण्णपरित्तासखेजघणगुणो होदि, तिण्णिजहण्णपरित्तासंखेज्जेदणए विरलिय विगं करिय अण्णोण्णभत्थे कदे तिप्पटुप्पणपरित्तासंखेज्जुवलंभादो । विदियखंडज्झवसाणेहिंतो जहण्णपरित्तासंखे-ज्जवग्गगुणो होदि, दुगुणिदजहण्णपरित्तासंखेज्जेदणए विरलिय विगं करिय अण्णोभत्थे कदे जहण्णपरित्तासंखेज्जवग्गुप्पत्तीदो । तदियखंडज्झवसाणेहिंतो जहण्णपरित्तासंखेज्जगुणो, एगजहण्णपरित्तासंखेज्जेदणयमेत्तगुणहाणीयो उवरि चडिट्ठण अवट्ठणादो । हेट्ठिमतिण्ण-खंडसव्वगुणहाणिसव्वज्झवसाणपुजादो उवरिमचउत्थखण्डज्झवसाणपुंजो असंखेज्जगुणो होदि, जहण्णपरित्तासंखेज्जवग्गेण रूवाहियजहण्णपरित्तासंखेज्जेभहिएण जहण्णपरित्तासंखेज्जघणे भागे हिदे एदेण भागहारेण एगरूवं खंडिय तत्थ एगखंडेणभहियउक्कस्ससंखेज्जेमेत्तस्सुवलंभादो ।

स्थानोंसे तृतीय खण्ड सम्बन्धी गुणहानियोंका समस्त अध्यवसानपुंज असंख्यातगुणा है, क्योंकि, एक अधिक जघन्य परीतासंख्यातका जघन्य परीतासंख्यातके वर्गमें भाग देनेपर एक अधिक जघन्य परीतासंख्यातसे एक अंकको खण्डित करनेपर प्राप्त हुए एक भागसे अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण अंक पाये जाते हैं। प्रथम खण्ड सम्बन्धी सब गुणहानियोंके समस्त अध्यवसानपुंजसे चतुर्थ खण्ड सम्बन्धी समस्त अध्यवसानपुंज जघन्य परीतासंख्यातका घन करनेपर जो प्राप्त हो उतना गुणा है, क्योंकि, तीन जघन्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेदोंका विरलन करके दुगुणा कर परस्पर गुणा करनेपर तीन बार उत्पन्न परीतासंख्यात अर्थात् उसका घन पाया जाता है। द्वितीय खण्डकी सब गुणहानियोंके परिणामोंकी अपेक्षा चतुर्थ खण्डका सब परिणामपुंज जघन्य परीतासंख्यातका वर्ग करनेपर जो प्राप्त हो उससे गुणित है, क्योंकि, दो जघन्य परीतासंख्यातके दुगुणे अर्धच्छेदोंका विरलन करके द्विगुणित कर परस्पर गुणा करनेपर जघन्य परीतासंख्यातका वर्ग उत्पन्न होता है। तृतीय खण्डके परिणामोंकी अपेक्षा चतुर्थ खण्डका सब परिणामपुंज जघन्य परीतासंख्यातगुणा है, क्योंकि, एक जघन्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेदोंके बराबर गुणहानियाँ ऊपर जाकर उसका अवस्थान है। अद्यस्तन तीन खण्ड सम्बन्धी समस्त गुणहानियोंके सब परिणामपुंजकी अपेक्षा आगेका चतुर्थ खण्ड सम्बन्धी परिणामपुंज असंख्यातगुणा है, क्योंकि, एक अधिक जघन्य परीतासंख्यातसे अधिक जघन्य परीतासंख्यातके वर्गका जघन्य परीतासंख्यातके घनमें भाग देनेपर इस भागहारसे एक अंकको खण्डित करनेपर लब्ध हुए एक खण्डसे अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण अंक पाये जाते हैं।

एद पि कथं णव्वदे ? जहण्णपरित्तासंखेज्जयस्स वग्गं विरलिय तग्घणं समखंडं करिउणं^१ दिण्णे
 रूवं पडि जहण्णपरित्तासंखेज्जं पावदि, तत्थ एगेगस्सवे गहिदे जहण्णपरित्तासंखेज्जवग्गमेत्त-
 रूवोवलद्धी होदि, ताणि रूवाणि पासे विरलिदजहण्णपरित्तासंखेज्जयस्स समखंडं कादृण
 दिण्णेषु रूव पडि जहण्णपरित्तासंखेज्जं पावदि, पुणो तत्थ रूवधरिदं पडि एगेगस्सवे गहिदे
 जहण्णपरित्तासंखेज्जं उप्पज्जदि, पुणो तत्थ एगरूवमवणिय पासे विरलिदएगरूवस्स दिण्णे
 उक्कस्ससंखेज्जं पावदि, पुणो अवणिदएगरूव एदीए विरलणाए खंडेदृण तत्थ एगेगखंडे
 रूवं पडि दिण्णे एगरूवस्स असंखेज्जदिभागेण्णभहियउक्कस्ससंखेज्जगुणगारो होदि,
 तेण णव्वदे ।

सपहि पढमखंडज्जवसाणेहितो पंचमखंडज्जवसाणा जहण्णपरित्तासंखेज्जयस्स
 वग्गवग्गेण गुणिदमेत्ता होंति, चत्तारिजहण्णपरित्तासंखेज्जछेदणाओ पिरलिय विगं करिय
 अण्णोण्णभत्थे कदे चदुण्ण जहण्णपरित्तासंखेज्जाणमण्णोण्णभत्थरासिसमुप्पतीदो । एव
 सेसखंडाण पि पुच्चं व गुणगारो साहेय्वो । संपहि चदुक्खंडसव्वज्जवासणेहितो

शंका—यह भी कैसे जाना जाता है ?

समाधान—जघन्य परीतासंख्यातके वर्गका विरलन कर उसके घनको समखण्ड
 करके देनेपर एक एक अंकके प्रति जघन्य परीतासंख्यात पाया जाता है । उन
 विरलित अंकोंमेंसे एक एक अंकके प्रति प्राप्त राशियोंमेंसे एक एक अंकको ग्रहण करने
 पर जघन्य परीतासंख्यातके वर्ग प्रमाण अंक पाये जाते हैं । उन अंकोंको पासमें विरलित
 जघन्य परीतासंख्यातके प्रति समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति जघन्य
 परीतासंख्यात पाया जाता है । फिर उनमेंसे एक एक अंकके ऊपर रखी हुई प्रत्येक
 राशिमेंसे एक एक रूपके ग्रहण करनेपर जघन्य परीतासंख्यात उत्पन्न होता है । पुनः
 उनमेंसे एक अंकको कम कर पासमें विरलित एक रूपके प्रति देनेपर उत्कृष्ट संख्यात
 प्राप्त होता है । पश्चात् कम किये गये एक अंकको इस विरलन राशिसे खण्डित कर
 उनमेंसे एक एक खण्डको प्रत्येक अंकके प्रति देनेपर एक रूपके असंख्यातवें भागसे
 अधिक उत्कृष्ट संख्यात गुणकार होता है । इसीसे वह जाना जाता है ।

प्रथम खण्डके परिणामोंकी अपेक्षा पंचम खण्डके परिणाम जघन्य परीतासंख्यातके
 वर्गका वर्ग करनेपर जो प्राप्त हो उतने गुणे है, क्योंकि, चार जघन्य परीतासंख्यातोंके
 अर्धच्छेदोंको विरलित कर द्विगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर चार जघन्य परीता-
 संख्यातोंकी अन्योन्याम्यस्त राशि उत्पन्न होती है । इसी प्रकार त्रेषु खण्डोंके भी
 गुणकारका कथन पहिलेके ही समान करना चाहिये ।

पंचमखडसव्वज्जवसाणट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि, जहण्णपरित्तासंखेज्जघणेण रूवाहियजहण्ण-परित्तासंखेज्जसहिदजहण्णपरित्तासंखेज्जवग्गम्भहिण्ण जहण्णपरित्तासंखेज्जयस्स वग्गवग्गे भागे हिदे एगस्सवस्स असंखेज्जदिभागेणम्भहियउक्कस्ससंखेज्जमेत्तस्सुवलंभादो । एत्थ वि कारणं पुच्चं व वत्तच्चं । एवमुवरिमसव्वखंडेसु एगस्सवस्स असंखेज्जदिभागेणम्भहियउक्कस्ससंखेज्जमेत्तो गुणगारो वत्तच्चो । कुदो ? पुच्चिल्लपरुवणाए उवरिमत्थपरुवणं पडि बीजीभूदत्तादो । उवरिमगुणगारो अण्णहा किण्ण जायदे ? ण, गुणहाणिअज्जवसाणट्टाणाणं दुगुणत्तण्णहाणु-ववत्तीदो । तेण हेट्ठिमसव्वखण्डज्जवसाणेहिंत्तो वादरेइंदियअपज्जत्तयस्य चरिमखंडज्जवसाण-ट्टाणाणि णिच्छण्ण असंखेज्जगुणाणि होति त्ति सहहेयच्चं । उक्कस्ससंखेज्जादो सादिरेयस्स जहण्णपरित्तासंखेज्जादो किच्चणस्य एदस्य गुणगारस्स कधमसंखेज्जत्तं जुज्जेदे ? ण, उक्कस्स-संखेज्जमदिवक्कंतस्य तदविरोहादो । दुगुणजहण्णपरित्तासंखेज्जछेदणयमेत्तगुणहाणीहि एगेग-खडपमाण काट्टण वा असंखेज्जगुणत्त साधेदच्चं । वादरेइंदियअपज्जत्तयट्ठिदिबंधट्टाणाणाम-संखेज्जभागाणं संकिलेस-विसोहिट्टाणेहिंत्तो जदि उवरिमअसंखेज्जदिभागस्स सकिलेस-विसोहि

चार खण्डोंके समस्त परिणामोंकी अपेक्षा पांचवें 'खण्डके सब परिणाम असंख्यात-गुणे हैं, क्योंकि एक अधिक जघन्य परीतासंख्यातसे सहित जघन्य परीतासंख्यातका जो वर्ग है उससे अधिक जघन्य परीतासंख्यातके घनका जघन्य परीतासंख्यातके वर्गके वर्गमें भाग देनेपर एक अंकके असंख्यातवें भागके साथ उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण अंक प्राप्त होते हैं । यहाँपर भी पहिलेके ही समान कारण बतलाना चाहिये । इसी प्रकार आगेके सब खण्डोंमें एक अंकके असंख्यातवें भागसे अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण गुणकार जानना चाहिये, क्योंकि, आगेकी अर्थ-प्ररूपणाके प्रति पहिलेकी प्ररूपणा बीजभूत है ।

शंका—आगेका गुणकार अन्य प्रकार क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि इसके बिना गुणहानियोंके अध्यवसानस्थान दुगुणे घन नहीं सकते ।

इसीलिये अधस्तन सब खण्डोंके अध्यवसानस्थानोंकी अपेक्षा वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके अन्तिम खण्ड सम्वन्धी अध्यवसानस्थान निश्चयसे असंख्यातगुणे है, ऐसा श्रद्धान करना चाहिये ।

शंका—उत्कृष्ट संख्यातसे साधिक और जघन्य परीतासंख्यातसे कुछ कम इस गुणकारको 'असंख्यात' कहना कैसे उचित है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट संख्यातका अतिक्रमण कर जो कोई भी संख्या हो उसे 'असंख्यात' कहनेमें कोई विरोध नहीं । अथवा, दूने जघन्य परीतासंख्यातके अर्थच्छेदोंके बराबर गुणहानियोंके द्वारा एक एक खण्ड प्रमाण करके असंख्यातगुणत्वको सिद्ध करना चाहिये । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त सम्वन्धी स्थितिबन्धस्थानोंके असंख्यात

ट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि होंति तो सुहुमेइंदियअपज्जत्तट्टिदिवंधट्टाणेसु वादरेइंदियअपज्जत्त-
ट्टिदिवंधट्टाणाणं संखेज्जदिभागेसु जाणि संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि तेहितो वादरेइंदिय-
अपज्जत्तयस्स सव्वसंकिलेस-विसोहिट्टाणाणि णिच्छएण असंखेज्जगुणाणि होति ति साहेदव्वं ।
अथवा अण्णेणं पयारेण गुणगारो उच्चदे । त जहा—सुहुमेइंदियअपज्जत्तजहण्णट्टिदिवंध-
ट्टाणादो हेट्टिमवादरेइंदियअपज्जत्तट्टिदिवंधट्टाणगयसंकिलेस-विसोहिट्टाणाण णाणागुणहाणिस-
लागाओ विरलिय विग करिय अण्णोण्णव्वमत्थे कदे जो रासी उपज्जदि तेष पढमगुणहाणि-
दव्वे [१००] गुणिदे सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स पढमगुणहाणिदव्व होदि । पुणो एदम्मिं
सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स णाणागुणहाणिसलागाओ [२]^३ विरलिय विग करिय अण्णोण्ण-
व्वमत्थं काट्टण स्वमवणिय सेसेण गुणिदे सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि
होंति । पुणो एदम्मिं चेष पढमगुणहाणिदव्वे [१००] वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स णाणागुण-
हाणिसलागाओ [१६] विरलिय विग करिय अण्णोण्णव्वमत्थं काट्टण स्वमवणिय
[६५५३५] सेसेण गुणिदे वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहीए ट्टाणाणि होति ।
पुणो एदेसु सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणंहि भागे हिंदसु पल्लिदोवमस्स

वहुभाग मात्र स्थानोंके संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंकी अपेक्षा यदि ऊपरके असंख्यातवें भाग
मात्र स्थानोंके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे होते हैं, तो वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके
स्थितिवंधस्थानोंके संख्यातवेंभागमात्र सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिवन्धस्थानोंमें जो
संक्लेश-विशुद्धिस्थान हैं उनकी अपेक्षा वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके समस्त संक्लेश-
विशुद्धिस्थान निश्चयसे असंख्यातगुणे होते हैं, ऐसा सिद्ध करना चाहिये ।

अथवा अन्य प्रकारसे गुणकारका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है—सूक्ष्म
एकेन्द्रिय अपर्याप्तके जघन्य स्थितिवन्धस्थानकी अपेक्षा नीचेके वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके
स्थितिवन्धस्थान सम्वन्धी संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंकी नानागुणहानिशलाकाओंका विरलन
कर द्विगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न होती है उससे प्रथम गुण-
हानिके द्रव्य (२००) को गुणित करनेपर सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी प्रथम गुणहानिक
द्रव्य होता है । पश्चात् सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी नानागुणहानिशलाकाओं (२) का
विरलन करके दूनाकर परस्पर गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उसमेंसे एक अंक कम कर
अवशिष्ट राशि (३) से उपर्युक्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी प्रथम गुणहानिके
द्रव्यको गुणित करनेपर सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश-विशुद्धिस्थान होते हैं
(१२८००×३=३८४००) । पश्चात् वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकी नानागुणहानिशलाकाओं
(१६) का विरलन कर दुगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर जो (६५५३६) प्राप्त हो
उसमेंसे एक अंक कम करके अवशिष्ट राशि (६५५३५) से इसी प्रथम गुणहानि सम्वन्धी
द्रव्यको गुणित करनेपर वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश-विशुद्धिस्थान होते हैं
(६५५३५×१००=६५५३५००) । इनमें सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंका

१ ताप्रतौ ' अण्ण ' इति पाठः । २ अ-आ-का प्रतिपु ' एगम्मि ', ताप्रतौ ' एग (द) म्मि '
इति पाठः । ३ प्रतिपु (३) इति पाठः ।

असंखेज्जदिभागो गुणगारो आगच्छदि वादराणमुवरिमगुणहाणिसलागाणं किंचृणण्णोण्णम्भत्य-
रासिं सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स सकिलेस-विसोहिट्टाणेषु गुणिदेसु वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स
गुणगारेण सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स सकिलेस-विसोहिट्टाणेषु गुणिदेसु वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स
मकिलेस-विसोहिट्टाणाणि होति । अधवा सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स ट्टिदिवंधट्टाणपमाणेण
सुहुमेइंदियजहण्णट्टिदिवंधट्टाणपमाणवादरेइंदियअपज्जत्तट्टिदिवंधट्टाणपहुडि उवरिमट्टाणेषु
कट्टेसु संखेज्जगुणाणि हवति । सपहि तत्य पढमखंडस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि सुहुमे-
इंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणमेत्ताणि होति । एदासिमेगा गुणगारसलागा [१] ।
पुणो सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स अण्णोण्णम्भत्यरासिणा [४] सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स
सकिलेस-विसोहिट्टाणेषु गुणिदेसु वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स विदियखंडसंकिलेस-विसोहि-
ट्टाणाणि हवति । पुणो एदस्स वग्गेण गुणिदेसु तदियखंडस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि
होति । पुणो एदस्स वणेण गुणिदेसु चउत्थखंडस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि होति । पुणो
एदस्स वग्गवग्गेण गुणिदेसु पचमखंडस्स सकिलेस-विसोहिट्टाणाणि होति । एवं णेदव्वं
जाव चग्गिखंड ति । सुहुमेइंदियअपज्जत्तजहण्णट्टिदिवंधट्टाणादो हेट्टिमाण वादरेइंदिय-
अपज्जत्तयस्स मकिलेस-विसोहिट्टाणाणं एगखूवस्स असंखेज्जदिभागो गुणगारो होदि, तेसिं
सुहुमेइंदियअपज्जत्तयसकिलेसट्टाणाणमसंखेज्जदिभागत्तादो । एदाओ सव्वगुणगारसलागाओ

भाग द्वेनेपर पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार प्राप्त होता है, क्योंकि उसका प्रमाण
वादर जीवोंकी उपरिम गुणहानिशलाकाओंकी कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशिको सूक्ष्म
एकेन्द्रियोंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे गुणित करके एक अंकसे कम उसीके द्वारा अपवर्तित
करनेसे जो प्राप्त हो उतने मात्र है । इस गुणकारसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश-
विशुद्धिस्थानोंको गुणित करनेपर वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान होते हैं -

अथवा, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके जघन्य स्थितिवन्धस्थानोंके बराबर जो वादर
एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिवन्धस्थान हैं उनको आदि लेकर ऊपरके स्थानोंको सूक्ष्म
एकेन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिवन्धस्थानोंके प्रमाणसे करनेपर वे संख्यातगुणे होते हैं ।
अब उनमें जो प्रथम खण्डके संक्लेश-विशुद्धिस्थान सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश-
विशुद्धिस्थानोंके बराबर हैं, इनकी एक (१) गुणकारशलाका है । पुनः सूक्ष्म एकेन्द्रिय
अपर्याप्तकी अन्योन्याभ्यस्त राशि (८) से सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश
विशुद्धिस्थानोंको गुणित करनेपर वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके द्वितीय खण्ड समबन्धी
संक्लेश-विशुद्धिस्थान होते हैं । पश्चात् उनको इसके वर्गसे गुणित करनेपर तृतीय खण्डके
संक्लेश-विशुद्धिस्थान होते हैं । फिर इनके घनसे उनको गुणित करनेपर चतुर्थ खण्डके
संक्लेश-विशुद्धिस्थान होते हैं । इसके वर्गके वर्गसे उनको गुणित करनेपर पाचवे खण्डके
संक्लेश विशुद्धिस्थान होते हैं । इस प्रकार अन्तिम खण्ड तक ले जाना चाहिये । सूक्ष्म
एकेन्द्रिय अपर्याप्तके जघन्य स्थितिवन्धस्थानसे नीचेके वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके
संक्लेश विशुद्धिस्थानोंका गुणकार एक अंकका असंख्यातवा भाग होता है, क्योंकि, वे
सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंके असंख्यातवे भाग प्रमाण हैं । इन
नव गुणकारशलाकाओंको मिलाकर उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेश-विशुद्धि

मेलाविय सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणेसु गुणिदेसु वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि होति । पुणो एदेसु सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणेहि ओवट्टिदेसु गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो आगच्छदि ।

एदेसिं गुणगाराणं मेलावणविहाणं संदिट्टिमवलंविद्य उच्चदे । तं जहा—सुहुमेइंदिय अपज्जत्तयस्स णाणागुणहाणिसलागाओ विरलिय विगं करिय अण्णोण्णम्भत्थं कादूण स्वे अवणिदे एत्तियं होदि [३] । पुणो एदेण अण्णोण्णम्भत्थरासिणा सुहुमउवरिमवादरणाणा-गुणहाणिसलागाओ [७] विरलय विगं करिय अण्णोण्णम्भत्थरासिन्धि भागे हिदे भागलद्धमे-त्तियं होदि [१२८।३] । पुणो लद्धे एदम्हि [१२८] सरिसच्छेदं करिय पक्खित्ते एत्तियं होदि [५१२।३]^१ । पुणो एदेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण सुहुमेइंदियसव्वज्जवसाण-ट्टाणेसु [३८४००] गुणिदेसु वादरअपज्जत्तज्जवसाणट्टाणाणि पढमगुणहाणिअज्जवसाण-मेत्तेण अहियाणि होति [६५५३६००] । पुणो एत्तियमेत्तेण [१००] हाइदूण इच्छामो त्ति वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स सव्वणाणागुणहाणिसलागाओ विरलिय विगं करिय अण्णोण्णम्भत्थे कदे एत्तियं होदि । तं च एदं [६५५३६] । पुणो एदेण पढमगुणहाणिदव्वे गुणिदे पढमगुहाणिअज्जवसाणाहियसव्वज्जवसाणैपमाणं होदि । तं च एदं [६५५३६००] ।

स्थानोंको गुणित करनेपर वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश विशुद्धिस्थान होते हैं । अब इनमें सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंका भाग देनेपर पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार प्राप्त होता है ।

अब संहष्टिका आश्रय करके इन गुणकारोंके मिलानेके विधानको कहते हैं । वह इस प्रकार है—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी नानागुणहानिशालाकाओंका विरलन करके दुगुणाकर परस्पर गुणा करके जो राशि प्राप्त हो उसमेंसे एक कम करनेपर इतना होता है— $३ \times ३ = ४$; $४ - १ = ३$ । अब सूक्ष्म जीवकी अपेक्षा वादर जीवकी आगेकी नानागुणहानि-शालाकाओं (१० से १६ तक ७) का विरलनकर दूना करके परस्पर गुणा करनेपर जो राशि प्राप्त हो उसमें उक्त अन्योन्याम्यस्त राशिका भाग देनेपर लब्ध इतना होता है— $३ \times ३ \times ३ \times ३ \times ३ \times ३ \times ३ = २२८$; $२२८ \div ३ = ७६$ । इस लब्ध राशिमें इस (१२८) को समच्छेद करके मिलानेपर इतना होता है— $२२८ = ३६४$; $३६४ + १३६ = ५००$ । इस पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र उस राशिके सूक्ष्म एकेन्द्रियके समस्त अध्यवसानोंको गुणित करनेपर वादर अपर्याप्तके अध्यवसान प्रथम गुणहानिके अध्यवसानस्थानोंसे अधिक होते हैं— $३६४ \times २ \times ५१३ = ६५५३६००$ । अब चूंकि ये इतने (१००) मात्रसे हीन अभीष्ट हैं, अत एव वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तककी समस्त (१६) गुणहानिशालाकाओंका विरलन कर द्विगुणा करके परस्पर गुणा करनेपर इतना होता है । वह यह है— ६५५३६ । इससे प्रथम गुणहानिके द्रव्यको गुणित करनेपर प्रथम गुणहानिके अध्यवसानस्थानोंसे अधिक समस्त अध्यवसानस्थानोंका प्रमाण होता है । वह यह है— $६५५३६ \times १०० = ६५५३६००$ । इस

१ प्रतिष्ठु [५१२] इति पाठः । २ प्रतिष्ठु 'सव्वज्जवसाय' इति पाठः ।

एदस्स रासिस्स जदि एत्तियो [५१२।३] गुणगाररासी लब्भदि, तो एत्तियस्य [१००]^१ कि लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए एत्तियं होदि [१।३८४]। पुणो एदम्मि पुविल्लगुणगाररासीदो [५१२।३] सरिसच्छेदं काढूण अवणिदे गुणगाररासी एत्तियो होदि [६५५३५।३८४]^२। पुणो एदेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण सुहुमेइं-दियअपज्जत्तयस्स सव्वज्जवसाणट्टाणेषु मेलाविय [३८४००] गुणिदेसु बादरेइंदियअपज्ज-त्तयस्स सव्वज्जवसाणट्टाणाणि होति। पमाणमेदं [६५५३५००]। एदं गुणगारविहाणं उवरि सव्वत्थ संभविय वत्तवं।

सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ ५३ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। एत्थ गुणगाराणयणविहाणं पुवं व परूवेदव्वं। कुदो ? सुहुमेइंदियपज्जत्तो विसुज्जमाणो बादरेइंदियअपज्जत्तयस्स सव्वट्टिदिबंध-ट्टाणेहितो संखेज्जगुणाणि ट्टिदिबंधट्टाणाणि हेट्टा ओसरदि, संकिलेसतो वि तेहितो संखेज्जगुणाणि ट्टिदिबंधट्टाणाणि उवरि चडदि त्ति गुरुवदेसादो।

(६५५३६००) राशिकी यदि इतनी ($\frac{५३३}{३}$) मात्र गुणाकार राशि पायी जाती है, तो वह इतने (१००) मात्रकी कितनी पायी जावेगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर इतना होता है— $\frac{५३३}{३} \times १०० = ६५५३६०० = \frac{५३३ \times १००}{३} = \frac{५३३००}{३}$ इसको समच्छेद करके पूर्वकी गुणकार राशि $\frac{५३३}{३}$ मेंसे घटानेपर इतना होता है—
($\frac{५३३००}{३} - \frac{५३३००}{३} = \frac{५३३००}{३}$) पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र उक्त गुणकार राशिसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके समस्त अध्यवसानस्थानोंको मिलाकर गुणित करनेपर बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके समस्त अध्यवसानस्थान होते हैं। उनका प्रमाण यह है— $(१२८०० + २५६००) \times \frac{५३३००}{३} = ६५५३५००$ । गुणकारकी इस विधिको आगे सब जगह यथासम्भव कहना चाहिये।

उनसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५३ ॥

यहां गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। यहां गुणकार लानेकी विधिकी प्ररूपणा पहिलेके ही समान करना चाहिये, क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीव विशुद्ध होता हुआ बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके सब स्थितिवन्धस्थानोंकी अपेक्षा संख्यातगुणे स्थितिवन्धस्थान नीचे हटता है, तथा वहीं संक्लेशको प्राप्त होता हुआ उक्त स्थानोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणे स्थान ऊपर चढ़ता है, ऐसा गुरुका उपदेश है।

१ प्रतिषु सख्येयं ' लभामो त्ति ' इत्यतः पश्चादुपलभ्यते। २ प्रतिषु ६५५३५ एवंविधात्र सख्या समुपलभ्यते।

वादरेइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि
असंखेज्जगुणाणि ॥ ५४ ॥

को गुणगारो ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एत्थ गुणगारसाहणं पुत्तं व वत्तं ।

वीइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि
असंखेज्जगुणाणि ॥ ५५ ॥

वादरेइंदियपज्जत्तयस्स द्विदिवंघट्टाणेहिंतो वीइंदियअपज्जत्तयस्स पल्लिदोवमस्स
असंखेज्जदिभागमेत्तद्विदिवंघट्टाणाणि जेण असंखेज्जगुणाणि तेण संकिलेस-विसोहिट्टाणाणं
पि असंखेज्जगुणत्तं ण विरुज्जदे । एत्थ गुणगारो पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

वीइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि
असंखेज्जगुणाणि ॥ ५६ ॥

को गुणगारो ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कुदो ? विसोहि-संकिलेसाणं वमेण
हेट्ठा उर्वरं च अप्पिदद्विदिवंघट्टाणेहिंतो संखेज्जगुणद्विदिवघट्टाणाणमुवलभादो ।

तीइंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि
असंखेज्जगुणाणि ॥ ५७ ॥

कवं पज्जत्तयस्स द्विदिवंघट्टाणेहिंतो अपज्जत्तयस्स द्विदिवंघट्टाणाणं असंखेज्जगुणत्तं ?

उत्तसे चादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके संकलेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५४ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है । यहां गुणकारकी
सिद्धिका कथन पहिलेके ही समान कहना चाहिये ।

उत्तमे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके संकलेश-विशुद्धिस्थान अमंख्यातगुणे हैं ॥ ५५ ॥

चादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानोंकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके
पत्योपमके असंख्यातवां भाग मात्र स्थितिवन्धस्थान चूंकि असंख्यातगुणे है, अतएव
संकलेश-विशुद्धिस्थानोंके भी असंख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है । यहां गुणकार
पत्योपमका असंख्यातवां भाग है ।

द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके संकलेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५६ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, विशुद्धि
अथवा संकलेशके वशसे नीचे व ऊपर विवक्षित स्थितिवन्धस्थानोंकी अपेक्षा संख्यातगुणे
स्थितिवन्धस्थान पाये जाते हैं ।

त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके संकलेश-विशुद्धिस्थान अमंख्यातगुणे हैं ॥ ५७ ॥

शंका—पर्याप्तक जीवके स्थितिवन्धस्थानोंकी अपेक्षा अपर्याप्तक जीवके स्थिति-
वन्धस्थान असंख्यातगुणे कैसे हो सकते हैं ?

१ अ-आ-काप्रतिषु ' संखेज्जगुणत्त', ताप्रती ' [अ] संखेज्जगुणत्तं ' इति पाठः ।

जादिविसेसत्तादो^१ । तेणेव कारणेण संकिलेस-विसोहिट्टाणाणं पि सिद्धमसंखेज्जगुणत्तं । एत्थ वि गुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो होदि ।

तीइंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि
असंखेज्जगुणाणि ॥ ५८ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कारणं जाणिय वत्तव्व ।

चउरिंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि
असंखेज्जगुणाणि ॥ ५९ ॥

कुदो ? तीइंदियपज्जत्तयस्स ट्टिदिवंधट्टाणेहिंतो चउरिंदियअपज्जत्तयस्स ट्टिदिवंध-सखेज्जगुणत्तुवलभादो । तं पि कथं णव्वदे ? जादिविसेसादो । को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कारणं चिंतिय वत्तव्वं ।

चउरिंदियपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि
असंखेज्जगुणाणि ॥ ६० ॥

समाधान—भिन्नजातीय होनेसे उनके सख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है । इसी कारण संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंके भी असंख्यातगुणत्व सिद्ध होता है ।

यहा भी गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग हैं ।

त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५८ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवा भाग है ? इसका कारण जानकर कहना चाहिये ।

चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ५९ ॥

शंका—वे असंख्यातगुणे किस कारणसे हैं ?

समाधान—चूंकि त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानोंकी अपेक्षा चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान सख्यातगुणे पाये जाते हैं, अतः उसके संक्लेशविशुद्धि-स्थानोंके असंख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

शंका—वह भी कैसे जाना जाता है ?

समाधान—भिन्न जातीय होनेसे त्रीन्द्रिय पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानोंकी अपेक्षा चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं, यह जाना जाता है ।

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । कारण विचार कर कहना चाहिये ।

चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६० ॥

^१ ताप्रती ' विसेसादो ' इति पाठः ।

कुदो ? विसोहि-संकिलेसवयेण अपिदट्टिदिवंधट्टाणेहितो हेट्टा उवरि च संखेज्जगुण-
ट्टिदिवंधट्टाणेषु वीचाखलंभादो । एत्थ वि गुणगारो पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।
सेसं सुगमं ।

असण्णिपंचिंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि
असंखेज्जगुणाणि ॥ ६१ ॥

को गुणगारो ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदि भागो । कारणं चिंतिय वत्तव्व ।

असण्णिपंचिंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि
असंखेज्जगुणाणि ॥ ६२ ॥

को गुणगारो ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदि भागो । कारणं सुगमं ।

सण्णिपंचिंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि
असंखेज्जगुणाणि ॥ ६३ ॥

जादिविसेसेण संखेज्जगुणट्टिदिवंधट्टाणेषु संकिलेस-विसोहिट्टाणाणं पि असंखेज्जगुणत्तं
पडि विरोहाभावादो । सेसं सुगमं ।

सण्णिपंचिंदियअपज्जत्तयस्स संकिलेस-विसोहिट्टाणाणि
असंखेज्जगुणाणि ॥ ६४ ॥

इसका कारण यह कि विशुद्धि और संक्लेशके वशसे विवक्षित स्थितिवन्धस्थानोंसे
नीचे व ऊपर संख्यातगुणे स्थितिवन्धस्थानोंमें वीचार पाया जाता है । यहां भी गुणकार
पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । शेष कथन सुगम है ।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६१ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । कारण विचारकर
कहना चाहिये ।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६२ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग हैं । कारण इसका
सुगम है ।

संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६३ ॥

क्योंकि, जातिमेदसे संख्यातगुणे स्थितिवन्धस्थानोंमें संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंके
असंख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है । शेष कथन सुगम है ।

संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ ६४ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । सेसं सुगम ।

वध्यते इति बन्धः, स्थितिश्चासौ बन्धश्च स्थितिवन्धः, तस्य स्थानमवस्थाविशेषः स्थितिवधस्थानम् । एदमत्यपदमस्सिद्वण पस्वणट्टमुवरिमसुत्तकलाओ आगदो

सव्वत्थोवो संजदस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो' ॥ ६५ ॥

जहण्णुक्कस्सट्टिदिपस्वणा किमट्टमागदा ? ट्टिदिवंधट्टाणाणि एत्तियाणि होति ति पुच्चं पस्विदाणि । संपहि तत्य एगेगट्टिदिवंधट्टाणमेत्तिए समए घेतूण होदि ति पस्वणट्टमागदा । एत्य जहण्णुक्कस्सट्टिदिपस्वणाए संतपमाणाणियोगहारे मोत्तूण अप्पाचहुगं चव किमट्टं पस्विदं ? ण एस दोसो, पस्वणा-पमाणाविणाभाविअप्पाचहुअं ति कट्टु तदपस्वणादो । तम्हा अप्पाचहुअंतम्भूदपस्वणा-पमाणाणि वत्तइस्सामो । तं जहा— चोदसण्हं जीवसमासाणमत्थि जहण्णुक्कस्सट्टिदीयो । पस्वणा गदा ।

चदुण्हं पि इण्दियाणं मोहजहण्णट्टिदी सागरोवम पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊगय । णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीय-अतराइयाणं जहण्णट्टिदी सागरोवमस्स

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । शेष कथन सुगम है । जो बांधा जाता है वह बन्ध है । स्थितिस्वरूप जो बन्ध वह स्थितिवन्ध । [इस प्रकार यथा कर्मधारयसमास है ।] उसके स्थान अर्थात् अवस्थाविशेषका नाम स्थितिवन्धस्थान है । इस अर्थपदका आश्रय करके प्ररूपणा करनेके लिये आगेका सूत्रकलाप प्राप्त होता है—

सयत जीवका जघन्य स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है ॥ ६५ ॥

शका—जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिकी प्ररूपणाका अवतार किसलिये हुआ है ?

समाधान—स्थितिवन्धस्थान इतने होते हैं, यह पूर्वमें कहा जा चुका है । अब उनमेंसे एक एक स्थितिवन्धस्थान इतने समयोंको ग्रहण करके होता है, यह बतलानेके लिये इस प्ररूपणाका अवतार हुआ है ।

शका—इस जघन्य-उत्कृष्टस्थितिप्ररूपणामें सत् . (प्ररूपणा) और प्रमाण अनु-अनुयोगद्वारोंको छोड़कर एक मात्र अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा किसलिये की गई है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, अल्पबहुत्व प्ररूपणा और प्रमाणका अविनाभावी है, ऐसा जानकर उन दोनों अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा यहां नहीं की गई है ।

इसी कारण अल्पबहुत्वके अन्तर्गत होनेसे प्ररूपणा और प्रमाण अनुयोगद्वारोंका कथन करते हैं । यथा—चौदह जीवसमासोंके जघन्य व उत्कृष्ट स्थितियां हैं । प्ररूपणा समाप्त हुई ।

चारों ही पकेन्द्रियोंके मोहकी जघन्य स्थिति पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन एक सागरोपम प्रमाण है । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तरायकी जघन्य

१ तत्र सूक्ष्मसांपरायस्य जघन्यस्थितिवन्धः सर्वस्तोकः (१) । क. प्र (मलय) १,८०-८१.
२ अप्रती ' पमाणविणाभावि ' इति पाठः ।

तिण्णि-सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणया । णामा-गोदाणं [जहण्णट्टिदी] सागरोवमस्स वे-सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणया । आउअस्स जहण्णट्टिदी खुदाभवग्गहणं^१ ।

एदेसिमुक्कस्सट्टिदिपमाणं उच्चदे । तं जहाँ—मोहणीयस्स एग सागरोवमं [१] णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं सागरोवमस्स तिण्णि-सत्त भागा पडिवुण्णा [३।७] णामा-गोदाणं वे-सत्त भागा पडिवुण्णा [२।७] । णवरि सुहुमेइंदियपज्जत्ता-पज्जत्त-वादरेइंदियअपज्जत्ताणमुक्कस्सट्टिदिवधो वादरेइंदियपज्जत्तस्सुक्कस्सट्टिदिवधादो^३ पलिदोव-मस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणो । आउअस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवधो पुच्चकोडी सग-सगउक्कस्सा-वाहाए अहिया ।

स्थिति पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन एक सागरोपमके सात भागोंमेंसे तीन भाग ($\frac{3}{7}$) प्रमाण है । नाम और गोत्रकी जघन्य स्थिति पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन एक सागरोपमके सात भागोंमें दो भाग ($\frac{2}{7}$) प्रमाण है । आयुकी जघन्य स्थिति क्षुद्रभव ग्रहण प्रमाण है ।

अब इन चारों एकेन्द्रियोंके उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण कहते हैं । यथा—मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति एक (१) सागरोपम प्रमाण है । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तरायकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपमके सात भागोंमेंसे परिपूर्ण तीन $\frac{3}{7}$ प्रमाण हैं ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियसे लेकर असंखी पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवोंके आयुको छोड़कर शेष ज्ञानावरणादि कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति मोहनीयके आधारसे निम्न प्रकार त्रैराशिकके द्वारा निकाली जाती है—यदि सत्तर कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवाले मोहनीय (मिथ्यात्व) कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति एकेन्द्रियके एक सागर प्रमाण बंधती है तो उसके तीस कोड़कोड़ी सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वाले ज्ञानावरणीय कर्मकी कितनी उत्कृष्ट बंधेगी, $\frac{30 \text{ को को सा. } \times 1}{70 \text{ को को सा}} = \frac{3}{7}$ सागरोपम । इसी प्रकारसे डीन्द्रियादि जीवोंके

भी समझना चाहिये । मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका डीन्द्रियके २५ सागरोपम, त्रीन्द्रियके ५० सा चतुरिन्द्रियके १०० सा और असंखी पंचेन्द्रियके १००० सा प्रमाण बंध है ।

नाम व गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति सागरोपम सात भागोंमेंसे परिपूर्ण दो भाग [$\frac{20 \text{ को. सा. } \times 1}{70 \text{ को सा.}} = \frac{2}{7}$ सा] प्रमाण है । विशेष इतना है कि सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त

अपर्याप्त तथा वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन होता है । आयुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अपनी अपनी उत्कृष्ट आवाधासे अधिक एक पूर्वकोटि प्रमाण है ।

१ तिर्यगायुषो मनुष्यायुषश्च जघन्या स्थितिः क्षुद्रकभवः । तस्य किं मानमिति चेदुच्यते-आवलिकाना द्वे शते पट्पचशदधिके । क प्र. (मलय.) १, ७८. २. ताप्रतौ 'एदेसिमुक्कस्सट्टिदिपमाणं उच्चदे । तं जहा' इत्येतावानयं पाठस्तुटितो जातः । ३. आ-काप्रत्यो 'पज्जत्तस्सुक्कस्सवधो', ताप्रतौ 'पज्जत्तुक्क-स्सट्टिदिवधो' इति पाठः ।

वेइंदियादि जाव असण्णिपंचिंदियो ति जहाकमेण मोहणीयस्स जहण्णओ ट्टिदिबंधो पणुवीससागरोवमाणि, पण्णारससागरोवमाणि, सागरोवमसदं, सागरोवमसहस्सं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण उणयं । णाणावरणादिचदुण्हं कम्माणमेवं चेव वत्तव्वं । णवरि पणुवीस. पण्णारस-सद-सहस्ससागरोवमाणं तिण्णिसत्त भागा पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण उणया । एवं णामा-गोदाणं । णवरि बे-सत्त भागा ति वत्तव्वं । आउअस्स जहण्णट्टिदिबंधो खुद्दाभव-ग्गहणं जहण्णावाहाए अन्नहियं ।

उक्कस्सट्टिदिबंधो वेइंदिएसु मोहणीयस्स पणुवीसं सागरोवमाणि । चदुण्णं कम्माणं पणुवीससागरोवमाणं तिण्णि-सत्त भागा । णामा-गोदाणं पणुवीससागरोवमाणं बे-सत्त भागा २५-१० । ५ । ७; ७ । १ । ७^४ । आउअस्स उक्कस्सट्टिदी पुव्वकोडी । तेइंदि-यस्स जहाकमेण पण्णारससागरोवमाणं सत्त-सत्त भागा तिण्णि-सत्त भागा बे-सत्त भागा उक्कस्सट्टिदी होदि ५०-२१ । ३ । ७; १४ । २ । ७ । आउअस्स पुव्वकोडी । चउरिंदि-

द्वीन्द्रियसे लेकर असंखी पचेन्द्रिय तक यथाक्रमसे मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध पल्पोपमके संख्यातवें भावसे हीन पच्चीस सागरोपम, पचास सागरोपम, सौ सागरोपम और हजार सागरोपम प्रमाण होता है । ज्ञानावरणादि चार कर्मोंकी जघन्य स्थितिवन्धका भी कथन इसी प्रकारसे करना चाहिये । विशेष इतना है कि उनका जघन्य स्थितिवन्ध द्वीन्द्रियादिकोंके क्रमशः पल्पोपमके संख्यातवें भागसे हीन पच्चीस, पचास, सौ और हजार सागरोपमोंके तीन सात भाग ($\frac{3}{7}$) प्रमाण होता है - [२५× $\frac{3}{7}$, ५०× $\frac{3}{7}$, १००× $\frac{3}{7}$; १०००× $\frac{3}{7}$ सा.] । इसी प्रकार नाम व गोत्र कर्मके भी कहना चाहिये । विशेष इतना है कि यहां दो सात भाग कहना चाहिये [२५× $\frac{3}{7}$, ५०× $\frac{3}{7}$, १००× $\frac{3}{7}$, १०००× $\frac{3}{7}$ सागरोपम (पल्पोपमके संख्यातवें भागसे हीन) । आयुका जघन्य स्थितिवन्ध जघन्य आवाधासे सहित श्रुद्रभवग्रहण प्रमाण है ।

द्वीन्द्रिय जीवोंमें मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पच्चीस सागरोपम प्रमाण होता है । चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पच्चीस सागरोपमोंके तीन सात ($\frac{3}{7}$) भाग प्रमाण होता है — [$\frac{३० \text{ को. सा. } \times २५}{७० \text{ को. सा.}} = ३ \times \frac{३}{७} = १ \frac{३}{७}$] सागरोपम । नाम गोत्रका उत्कृष्ट

स्थितिवन्ध पच्चीस सागरोपमोंके दो सात ($\frac{2}{7}$) भाग प्रमाण होता है—

$\frac{२० \text{ को. सा. } \times २५}{७० \text{ को. सा.}} = \frac{२ \times २५}{७} = ७ \frac{३}{७}$ सागरोपम । आयुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक पूर्वकोटि

प्रमाण होता है ।

त्रीन्द्रिय जीवके मोहनीय, ज्ञानावरणादिक एवं नाम-गोत्र कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति क्रमशः पचास सागरोपमोंके सात-सात भाग ($\frac{3}{7}$), तीन-सात भाग ($\frac{2}{7}$) और दो-सात भाग ($\frac{1}{7}$) प्रमाण है— ५०× $\frac{3}{7}$ =५०, ५०× $\frac{2}{7}$ =२१ $\frac{३}{७}$, ५०× $\frac{1}{7}$ =७ $\frac{३}{७}$ । आयुकी उत्कृष्ट स्थिति एक पूर्वकोटि प्रमाण होती है ।

१ प्रतिषु 'पण्णारस' इति पाठः । २ प्रतिषु 'असखेज्जदिभागेण' इति पाठः । ३ एयं पणकदि पण्ण सय सहस्सं च मिच्छवरबंधो । इगिबिगलाणं अवर पल्लासंखूण-संखूण ॥ नदि सत्तरिस्स एत्थियमेत्त किं होदि तीसियादीण । इदि संपाते सेसाण इगि-विगळेसु उभयठिदी ॥ गो क. १४५. ४ ष. ख. पु. ६ पृ १९५.

एसु सागरोवमसदस्स सत्त-सत्त भागा तिणिसत्त भागा वे-सत्त भागा पडिवुण्णा १००-
 ४२।६।७; २८।४।७। आउअस्स पुव्वकोडी । असण्णिपंचिदिएसु सागरोवमसहस्सस्स
 सत्त-सत्त भागा तिणि-सत्त भागा वे-सत्त भागा उक्कस्सट्टिदिवंधो १०००-४२८।
 ४।७; २८५।५।७। आउअस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदि-
 मागो^१। सण्णिपंचिदियअपज्जत्तयस्स सत्तण्णं कम्माणं जहण्णट्टिदिवंधो उक्कस्सट्टिदिवंधो
 च अंतो कोडाकोडीए । सण्णिपंचिदियपज्जत्तयस्स वेयणीयस्स जहण्णट्टिदिवंधो चारस
 मुहुत्ता । णामागोदानमट्टमुहुत्ता । सेसाणं कम्माणं भिण्णमुहुत्तं । उक्कस्सट्टिदिवंधो
 मोहणीयस्स सत्तरि, चदुण्णं कम्माणं तीसं, णामागोदानं वीसं सागरोवमकोडीयो ।
 आउअस्स तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरैयाणि । एव पमाणपरुवणा गदा ।

संपहि एदेसिं ट्टिदिवंधट्टाणाणं^२ अप्पाचहुगं उच्चदे । तं जहा—सव्वत्थोवो संजदस्स
 जहण्णट्टिदिवंधो । एत्थ सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदस्स चरिमट्टिदिवंधो जहण्णो त्ति वेत्तव्वो ।

चतुरिन्द्रिय जीवोंमें मोहनीय, ज्ञानावरणादिक एवं नाम गोत्र कर्मोंका उत्कृष्ट स्थिति-
 वन्ध सौ सागरोपमोंके सात-सात भाग, तीन-सात भाग और दो-सात भाग प्रमाण होता
 है—१००, ४२६, २८६ । आयुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक पूर्वकोटि प्रमाण होता है ।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंमें उपर्युक्त कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध क्रमशः एक हजार
 सागरोपमोंके सात-सात भाग, तीन-सात भाग और दो-सात भाग प्रमाण होता है—
 १०००, ४२८६, २८५६ । आयुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पत्योपमके असंख्यातवें भाग
 प्रमाण होता है ।

संज्ञी पंचेन्द्रिय अर्यासक जीवके आयुके विना सात कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध
 और उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अन्तः कोडाकोडि सागरोपम प्रमाण होता है । संज्ञी पंचेन्द्रिय
 पर्यासकके वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध वारह मुहूर्त प्रमाण होता है । नाम एवं गोत्रका
 जघन्य स्थितिवन्ध उसके आठ अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होता है । शेष कर्मोंका जघन्य स्थिति-
 वन्ध उसके अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होता है । उक्त जीवके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सत्तर
 कोडाकोडि सागरोपम, ज्ञानावरणादि चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तीस कोडाकोडि
 सागरोपम और नाम व गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध वीस कोडाकोडि सागरोपम प्रमाण
 होता है । आयुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध साधिक तेतीस सागरोपम प्रमाण होता है । इस
 प्रकार प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई ।

अब इन स्थितिवन्धस्थानोंके अल्पबहुत्वको कहते हैं । यथा—संयतका जघन्य
 स्थितिवन्ध सबसे स्तोत्र है । यहाँ सूक्ष्मसाम्परायिक शुद्धिसंयतके अन्तिम स्थितिवन्धको
 जघन्य ग्रहण करना चाहिये ।

१ आउचउक्ककोसो पल्लासखेज्जमागमणेषु । सेसाण पुव्वकोडी साउतिभागो आवाहा सिं ॥
 क प्र १, ७४. २ अ-आ-का-प्रतिषु 'ट्टिदिवंधट्टाणं' इति पाठः ।

उवरि किण्ण घेप्पदे ? ण, तत्थ कसायाभावेण ट्टिदिबंधाभावादो । खीणकसाए वि एगसमइया ट्टिदी अंतोमुहुत्तमेत्तसुहुमसांपराइयचरिमट्टिदिबंधादो असंखेज्जगुणहीणा लब्भदि । सा किण्ण घेप्पदे ? ण, विदियादिसमएसु अवट्टाणस्स ट्टिदि त्ति ववएसादो । ण च उप्पत्तिकाले ट्टिदी होदि, विरोहादो ।

**बादरेइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिबंधो
असंखेज्जगुणो ॥ ६६ ॥**

को गुणगारो ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कुदो ? अंतोमुहुत्तमेत्तसंजदजहण्ण-ट्टिदिबंधेण पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागोपूणसागरोवममेत्तबादरेइंदियपज्जत्तजहण्णट्टिदिबंधे भागे हिदे पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागुवलंभादो ।

**सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिबंधो
विसेसाहियो ॥ ६७ ॥**

केत्तियमेत्तेण ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तेण ।

**बादरेइंदियअपत्तज्जयस्सं जहण्णओ ट्टिदिबंधो
विसेसाहियो ॥ ६८ ॥**



शंका—इससे ऊपरके स्थितिवन्धको जघन्य स्वरूपसे क्यों नहीं ग्रहण करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ऊपर कषायका अभाव होनेसे स्थितिवन्धका अस्तित्व भी नहीं है ।

शंका—क्षीणकषाय गुणस्थानमें भी एक समयवाली स्थिति सूक्ष्मसाम्परायिकके अन्तर्मुहूर्त मात्र अन्निम स्थितिवन्धकी अपेक्षा असंख्यातगुणी हीन पायी जाती है । उसका ग्रहण क्यों नहीं करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, द्वितीयादि समयोंमें स्थित रहनेका नाम स्थिति है । उत्पत्ति समयमें कहीं स्थिति नहीं होती, क्योंकि, वैसा होनेमें विरोध है ।

उससे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है ॥ ६६ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्लोपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, संयतके अन्तर्मुहूर्त परिमित स्थितिवन्धका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके पल्लोपमके असंख्यातमें भागसे हीन सागरोपम प्रमाण जघन्य स्थितिवन्धमें भाग देनेपर पल्लोपमका असंख्यातवां भाग पाया जाता है ।

उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ६७ ॥

वह कितने प्रमाणसे अधिक है ? पल्लोपमके असंख्यातवें भाग मात्रसे वह अधिक है

उससे बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ६८ ॥

१ ततो बादरपर्याप्तस्य जघन्यः स्थितिवन्धोऽसंखेयगुणः (२) । क. प्र. (मलय,) १,८०-८१. (अतोऽग्रे वक्ष्यमाणमिदं सर्वमेवाल्पबहुस्वमत्र यथाक्रम षट्त्रिंशत्पदेषुपलभ्यते).

केत्तियमेत्तो^१ विसेसो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपमाणवीचारट्टाणमेत्तो ।

सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो

विसेसाहिओ ॥ ६९ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णट्टिदिवंधादो सुहुमेइंदिय-
अपज्जत्तयस्स हेट्टिमवीचारट्टाणमेत्तो ।

तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो

विसेसाहिओ ॥ ७० ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स वीचारट्टाणमेत्तो ।

वादरेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो

विसेसाहिओ ॥ ७१ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? सुहुमेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्कस्सट्टिदिवंधादो उवरिमवादरे-
इंदियअपज्जत्तवीचारट्टाणमेत्तो ।

सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो

विसेसाहिओ ॥ ७२ ॥

केत्तियमेत्तेण ? वादरेइंदियअपज्जत्त-उक्कस्सट्टिदिवंधादो उवरिमेण वादरेइंदियअपज्जत्त-

विशेष कितना है ? वह पल्योपमके असंख्यातर्षे भाग प्रमाण वीचारस्थानके बराबर है ।

उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ६९ ॥

विशेष कितना है ? वह वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके जघन्य स्थितिवन्धसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त सम्बन्धी नीचेके वीचारस्थानके बराबर है ।

उसी अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ७० ॥

विशेषका प्रमाण कितना है ? सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके वीचारस्थानके बराबर है ।

वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ७१ ॥

विशेष कितना है ? वह सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे ऊपरके वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके वीचारस्थानके बराबर है ।

सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ७२ ॥

वह कितने प्रमाणसे अधिक है ? वह वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थिति-

वीचारट्टाणोहितो संखेज्जगुणेण सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स वीचारट्टाणेण पलिदोवमस्स असं-
खेज्जदिभागमेत्तेण ।

वादरेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो
विसेसाहिओ ॥ ७३ ॥

सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सट्टिदिवंधादो उवरिमेहि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग-
मेत्तवादरेइंदियपज्जत्तवीचारट्टाणेहि विसेसाहिओ ।

वीइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो
संखेज्जगुणो ॥ ७४ ॥

को गुणगारो ? किंच्चणपणुवीसरुवाणि । सेसं सुगमं ।

तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो
विसेसाहिओ ॥ ७५ ॥

वीइंदियपज्जत्तजहण्णट्टिदिवंधादो हेट्टा पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तवीचार-
ट्टाणाणि ओसरिय वीइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णट्टिदिवंधस्स अवट्टाणादो ।

तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो
विसेसाहिओ ॥ ७६ ॥

सगजहण्णट्टिदिवंधादो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तवीचारट्टाणाणि उवरि चडिय
सगुक्कस्सट्टिदिवंधसमुप्पत्तीदो ।

वन्धसे ऊपरके वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके वीचारस्थानसे संख्यातगुणे व पल्योपमके
असंख्यातवें भाग प्रमाण सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तके वीचारस्थानसे अधिक है ।

वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ७३ ॥

वह सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे ऊपर पल्योपमके असंख्यातवें
भाग मात्र वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके वीचार स्थानोंसे विशेष अधिक है ।

द्वीन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ७४ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार कुछ कम पच्चीस रूप है । शेष कथन सुगम है ।

उसी अपर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ७५ ॥

क्योंकि, द्वीन्द्रिय अपर्याप्तके जघन्य स्थितिवन्धसे नीचे पल्योपमके संख्यातवें
भाग मात्र वीचारस्थान हटकर द्वीन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध अवस्थित है ।

उसी अपर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ७६ ॥

क्योंकि, अपने जघन्य स्थितिवन्धसे पल्योपमके संख्यातवें भाग मात्र वीचारस्थान
ऊपर चढ़कर अपना उत्कृष्ट स्थितिवन्ध उत्पन्न होता है ।

तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कसओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ॥ ७७ ॥

वीइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सट्टिदिवंधादो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तट्टिदिवंध-
ट्टाणाणि उवरि अच्चुस्सरिदृण वीइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सट्टिदिवंधावट्टाणादो ।

तीइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो

विसेसाहिओ^१ ॥ ७८ ॥

कत्तियमेत्तो विसेसो ? पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण्णपणुवीससागरोवममेत्तो ।

तीइंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो

विसेसाहिओ ॥ ७९ ॥

केत्तियमेत्तेण ? पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तेण । कुदो ? तीइंदियअपज्जत्तजहण्ण-
ट्टिदिवंधादो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तट्टिदिवंधट्टाणाणि हेट्टा ओसरिय्ण तीइंदिय-
पज्जत्तयस्स जहण्णट्टिदिवंधावट्टाणादो ।

तस्सेव उक्कस्सट्टिदिवंधो विसेसाहिओ ॥ ८० ॥

केत्तियमेत्तेण ? पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागपमाणसगवीचाग्गट्टाणमेत्तेण ।

तीइंदियपज्जत्तयस्स उक्कसओ द्विदिवंधो

विसेसाहिओ ॥ ८१ ॥

उसी पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ७७ ॥

क्योंकि, द्वीन्द्रिय पर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे पत्योपमके संख्यातवें भाग मात्र
स्थितिवन्धस्थान ऊपर जाकर द्वीन्द्रिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अवस्थित है ।

त्रीन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ७८ ॥

विशेषका प्रमाण कितना है ? उसका प्रमाण पत्योपमके संख्यातवें भागसे हीन
पच्चीस सागरोपम प्रमाण है ।

त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ७९ ॥

कितने मात्रसे वह विशेष अधिक है ? वह पत्योपमके संख्यातवें भाग मात्रसे
अधिक है, क्योंकि, त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके जघन्य स्थितिवन्धसे पत्योपमके संख्यातवें भाग
मात्र स्थितिवन्धस्थान नीचे जाकर त्रीन्द्रिय पर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध अवस्थित है ।

उसीका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ८० ॥

वह कितने प्रमाणसे अधिक है ? वह पत्योपमके संख्यातवें भाग मात्र अपने
धीचारस्थानोंके प्रमाणसे अधिक है ।

त्रीन्द्रिय पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ८१ ॥

१ ततोऽपि पर्याप्तत्रीन्द्रियस्य जघन्यः स्थितिवन्धः सख्येयगुणः (१४) । क. प्र. (मल्ल्य) १, ८०-८१.

तीइदियअपजत्तयस्स उक्कस्सट्टिदीदो उवरिमतेइंदियपजत्तवीचारट्टाणेहि पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तेहि विसेसाहिओ ।

चउरिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिबंधो
विसेसाहिओ ॥ ८२ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेणपण्णाससागरोवममेत्तो ।

तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिबंधो
विसेसाहिओ ॥ ८३ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तो । कुदो ? चउरिंदियअपजत्त-
जहण्णट्टिदिबंधादो हेट्ठां पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तट्टिदिबंधट्टाणाणि चउरिंदियअपजत्त-
ट्टिदिवघट्टाणेहिंता संखेज्जगुणाणि ओसरिय चउरिंदियपजत्तजहण्णट्टिदिबंधावट्टाणादो ।

तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ^१ ट्टिदिबंधो
विसेसाहिओ ॥ ८४ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिबंधो
विसेसाहिओ ॥ ८५ ॥

वह त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे ऊपरके पल्योपमके संख्यातवें भाग
मात्र एकैन्द्रियके बीचारस्थानोंसे विशेष अधिक है ।

चतुरिन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ८२ ॥

विशेषका प्रमाण कितना है ? उसका प्रमाण पल्योपमके संख्यातवें भागसे हीन
पचास सागरोपम है ।

उसी अपर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ८३ ॥

विशेषका प्रमाण कितना है ? उसका प्रमाण पल्योपमका संख्यातवां भाग है,
अर्थात् चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके जघन्य स्थितिवन्धसे नीचे पल्योपमके संख्यातवें भाग
मात्र होकर चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानोंसे संख्यातगुणे स्थितिवन्धस्थान
हटकर चतुरिन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध अवस्थित है ।

उसी अपर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ८४ ॥

विशेषका प्रमाण कितना है ? वह पल्योपमके संख्यातवें भाग प्रमाण है ।

उसी पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ८५ ॥

१ ताप्रती ' हेट्ठिम ' इति पाठः । २ अ-आ-का-प्रतिषु ' तस्सेव उक्कस्सओ ' इति पाठः ।

केत्तियमेत्तेण ? चउरिंदियअपज्जत्तट्टिदिवंधाणेहिंतो संखेज्जगुणेण चउरिंदियअपज्जत्त-
उक्कस्सट्टिदिवंधादो उवरिमेण चउरिंदियपज्जत्तवीचारट्टाणमेत्तेण विसेसाहिओ ।

असण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो
संखेज्जगुणो ॥ ८६ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया । कारणं सुगमं ।

तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो
विसेसाहिओ ॥ ८७ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तो ।

तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो
विसेसाहिओ ॥ ८८ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? सगवीचारट्टाणमेत्तो ।

तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो
विसेसाहिओ ॥ ८९ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तो ।

संजदस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो संखज्जगुणो ॥ ९० ॥

वह कितने प्रमाणसे अधिक है ? वह चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थानोंसे संख्यातगुणे ऐसे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे ऊपरके चतुरिन्द्रिय पर्याप्तके वीचारस्थानप्रमाणसे विशेष अधिक है ।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ८६ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय है । इसका कारण सुगम है ।

उसी अपर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ८७ ॥

विशेष कितना है ? वह पल्योपमके संख्यातत्रेण भाग प्रमाण है ।

उसी अपर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ८८ ॥

विशेष कितना है ? वह अपने वीचारस्थानके वरावर है ।

उसीके पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ ८९ ॥

विशेष कितना है ? वह पल्योपमके संख्यातत्रेण भाग प्रमाण है ।

संयतका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९० ॥

१ काप्रती 'सगवीचारट्टाणमेत्तो' इति पाठः । २ अ-आ-का-प्रतिपु 'पज्जत्तयस्स' इति पाठः ।

को गुणगारो ? संखेज्जा समया । कुदो ? सागरोवमसहस्सेण अंतोकोडाकोडीए ओवट्टिदाए संखेजसमओवलभादो ।

संजदासंजदस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो ॥ ९१ ॥

कुदो मिच्छत्ताहिमुहचरिमसमयपमत्तंसजदुक्कस्सट्टिदिवंधादो वि संजदासंजदजहण्ण-ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो त्ति ? ण, देसघादिसंजलणोदयं पेक्खिद्वण सव्वघादिपच्चक्खाणो-दयस्स अणतगुणत्तादो । ण च कारणे थोवे संते कज्जस्स बहुत्त संभवइ, विरोहादो ।

तस्सेव उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो ॥ ९२ ॥

कुदो ? मिच्छत्ताहिमुहचरिमसमयसंजदासंजदउक्कस्सट्टिदिवंधगहणादो ।

असंजदसम्मादिट्टिपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो

संखेज्जगुणो ॥ ९३ ॥

कुदो ? उदयगदपच्चक्खाणादो तस्सेव गदअपच्चक्खाणस्स अणंतगुणत्तादो ।

तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो

संखेज्जगुणो ॥ ९४ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात समय हैं, क्योंकि, हजार सागरोपमोंका अन्तः कोडाकोडिमें भाग देनेपर संख्यात समय प्राप्त होते हैं ।

संयतासंयतका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९१ ॥

शंका—मिथ्यात्वके अभिमुख हुए अन्तिम समयवर्ती प्रमत्तसंयतके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे भी संयतासंयत जीवका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा क्यों है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि देशघाती संज्वलन कपायके उदयकी अपेक्षा सर्वघाती प्रत्याख्यानावरण कपायका उदय अनन्तगुणा है । और कारणके स्तोक होनेपर कार्यका आधिक्य सम्भव नहीं है, क्योंकि, वैसा होनेमें विरोध है ।

उक्त जीवका ही उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९२ ॥

कारण कि यहां मिथ्यात्वके अभिमुख हुए अन्तिम समयवर्ती संयतासंयतके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका ग्रहण किया गया है ।

असंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९३ ॥

कारण कि उसके प्रत्याख्यानावरणके उदयकी अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरणका उदय अनन्तगुणा है ।

उसीके अपर्याप्तका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९४ ॥

कुदो ? अपज्जत्तकाले अइविसोहीएँ द्विदिवंधापसरणणिमित्ताए अभावादो ।

तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो

संखेज्जगुणो ॥ ९५ ॥

अपज्जत्तकाले सव्वविसुद्धेण असंजदसम्मादिट्ठिणा बज्झमाणद्विदिवंधादो अपज्जत्तकाले चेव असंजदसम्मादिट्ठिणा सव्वुक्कट्ठसंकिलेसेण बज्झमाणद्विदीए संखेज्जगुणत्तं पडि विरोहाभावादो ।

तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो

संखेज्जगुणो ॥ ९६ ॥

कुदो ? अपज्जत्तअसंजदसम्मादिट्ठिसव्वुक्कट्ठसंकिलेसादो पज्जत्तअसंजदसम्मादिट्ठिसव्वुक्कट्ठसंकिलेसस्स अणंतगुणत्तुवलंभादो ।

सण्णिमिच्छाइट्ठिपंचिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो

संखेज्जगुणो ॥ ९७ ॥

कुदो ? असंजदसम्मादिट्ठिस्स सव्वुक्कट्ठसंकिलेसादो सण्णिमिच्छाइट्ठिपंचिंदियपज्जत्तसव्वजहण्णसंकिलेसस्स अणंतगुणत्तुवलंभादो, संकिलेसवड्डीए द्विदिवंधवट्ठिणिमित्त्तादो ।

क्योंकि, अपर्याप्तकालमें स्थितिबन्धापसरणमें निमित्तभूत अतिशय विशुद्धिका अभाव है ।

उसीके अपर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९५ ॥

क्योंकि, अपर्याप्तकालमें सर्वविशुद्ध असंख्यात सम्यग्दृष्टि जीवके द्वारा बांधे जानेवाले स्थितिबन्धकी अपेक्षा अपर्याप्तकालमें ही सर्वोत्कृष्ट संक्लेशसे संयुक्त असंयत सम्यग्दृष्टिके द्वारा बांधे जानेवाले स्थितिबन्धके संख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

उसीके पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९६ ॥

इसका कारण यह है कि अपर्याप्त असंयत सम्यग्दृष्टिके सर्वोत्कृष्ट संक्लेशकी अपेक्षा पर्याप्त असंयत सम्यग्दृष्टिका सर्वोत्कृष्ट संक्लेश अनन्तगुणा पाया जाता है ।

संज्ञी मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९७ ॥

कारण कि असंयत सम्यग्दृष्टिके सर्वोत्कृष्ट संक्लेशकी अपेक्षा संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तका सर्वजघन्य संक्लेश अनन्तगुणा पाया जाता है, और संक्लेशकी वृद्धि ही स्थितिबन्धवृद्धिका निमित्त है । अथवा, मिथ्यात्वके उदय वश असंयत सम्यग्दृष्टिके सर्वोत्कृष्ट

१ प्रतिषु 'अइसुद्धविसोहीए' इति पाठः । २ अप्रतौ 'सव्वुक्कस्स' इति पाठः । ३ सन्नीपज्जत्तियरे अग्निमतरओ य (उ) कोडिकोडीओ । ओधुक्कोसो सन्निस्स होइ पज्जत्तगस्सेव ॥ क. प्र. १,८२

मिच्छतोदयणिमित्तेण वा असंजदसम्माइट्टिसव्वुक्कस्सट्टिदिवधादो संजमाहिमुह-चरिमसमय-
मिच्छाइट्टिस्स जहण्णट्टिदिवधो संखेज्जगुणो ।

तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो
संखेज्जगुणो ॥ ९८ ॥

कुदो ? सजमाहिमुहचरिमसमयमिच्छाइट्टिसकिलेसादो अपज्जत्तमिच्छाइट्टिसव्वज-
हण्णसंकिलेसस्स अणतगुणत्तुवलभादो ।

तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो
संखेज्जगुणो ॥ ९९ ॥

मुगममेद ।

तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो
संखेज्जगुणो ॥ १०० ॥

अपज्जत्तकालसकिलेसादो पज्जत्तद्दाए सव्वुक्कस्ससकिलेसस्स अणंतगुणत्तुवलंभादो ।

एव ट्टिदिवधट्टाणपरूवणा त्ति समत्तमणियोगद्वारं ।

णिसेयपरूवणदाए तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्वाराणि
अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा ॥ १०१ ॥

निपेचन निपेक.. कम्मपरमाणुक्खधणिकखेवो णिसेगो णाम । तस्स परूवणदाए
स्थितिवन्धकी अपेक्षा संयमके अभिमुख हूप अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिका जघन्य
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ।

उसीके अपर्याप्तकका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९८ ॥

कारण कि संयमके अभिमुख हूप अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके संक्लेशकी अपेक्षा
अपर्याप्त मिथ्यादृष्टिका सर्वजघन्य संक्लेश अनन्तगुणा पाया जाता है ।

उसीके अपर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ ९९ ॥

यह मूत्र मुगम है ।

उसीके पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ १०० ॥

कारण कि अपर्याप्तकालीन संक्लेशकी अपेक्षा पर्याप्तकालीन सर्वोत्कृष्ट संक्लेश
अनन्तगुणा पाया जाता है ।

इस प्रकार स्थितिवन्धस्थान प्ररूपणानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

निपेकप्ररूपणामें ये दो अनुयोगद्वार हैं—अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा ॥१०१॥

‘निपेचनं निपेकः’ इस निरुक्तिके अनुसार कर्मपरमाणुओंके स्कन्धोंके निक्षेपण
करनेका नाम निपेक है । उसके दो अनुयोगद्वार हैं, क्योंकि, अनन्तर प्ररूपणा और

दुवे अणियोगद्वाराणि होति, अणतर-परंपरपरस्वणं मोत्तूण तदियपरस्वणाए अभावादो ।

अणंतरोवणिधाए पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्ठीणं पज्जत्त-
याणं णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीयअंतराइयाणं तिण्णिवास-
सहस्साणि आवाधं मोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं,
जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमए
पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव
उक्कस्सेण तीसं सागरोवमकोडीयो ति' ॥ १०२ ॥

विगलिंदियपडिसेहट्ट पंचिंदियणिहेसो कडो । विगलिंदियपडिसेहो किमट्टं कीरदे ?
तत्थ उक्कस्सट्टिदीए उक्कस्सावाहाए च अभावादो । णिसेयपरस्वणाए कीरमाणाए
उक्कस्सट्टिदिउक्कस्सावाहाणं च परस्वणाए को एत्थ सवधो ? ण केवलं एसा णिसेयपरस्वणा
चेव, किंतु उक्कस्सट्टिदि-उक्कस्सावाहा-णिसेगाण च परस्वणत्तादो । ट्टिट्ठिवंधट्टाणपरस्वणाए

परम्परा प्ररूपणाको छोड़कर तीसरी कोई प्ररूपणा नहीं है ।

अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय मंजी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक जीवोंके ज्ञानावरणीय,
दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मकी तीन हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोड़कर
जो प्रदेशाय प्रथम समयमें निक्षिप्त है वह बहुत है, जो प्रदेशाय द्वितीय समयमें निक्षिप्त
है वह उससे विशेष हीन है, जो प्रदेशाय तृतीय समयमें निक्षिप्त है वह उससे विशेष हीन
है, इस प्रकार वह उत्कर्षसे तीस कोड़ाकोडी सागरोपम तक उत्तरोत्तर विशेष हीन होता
गया है ॥ १०२ ॥

विकलेन्द्रिय जीवोंका प्रतिषेध करनेके लिये सुत्रमें पंचेन्द्रिय पदका निर्देश किया
गया है ।

शका—विकलेन्द्रिय जीवोंका प्रतिषेध किसलिये किया जाता है ?

समाधान—चूंकि उनमें उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट आवाधाका अभाव है, अतः
उनका यहाँ प्रतिषेध किया गया है ।

शका—नियेकप्ररूपणा करते समय यहाँ उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट आवाधाकी
प्ररूपणाका क्या सम्बन्ध है ?

समाधान—यह केवल नियेकप्ररूपणा ही नहीं है, किन्तु उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट
आवाधा और नियेकोंकी भी यह प्ररूपणा है ।

१ मोत्तूण सगमवाहे (६) पढमाए ठिइए बहुतर दव्व । एत्तो विसेसहीण जाडुक्कोवं ति
सव्वस्सि ॥ क. प्र. १,८३. । २ अ-आ काप्रतिपु 'कुदो' इति पाठः ।

उक्कस्मओ द्विदिवयो उक्कस्सिया आवाहा च परुविदा । पुव्वं तेसिं परुविदाण पुणो पन्वणा एत्य किमट्टं कीरदे ? ण एम दोसो. द्विदिवधट्ठाणपरुवणाए सचिदाणं परुवणाए कीरमाणाए पउणरुत्तियाभावादो । जदि एव तो एदस्साणियोगहारस्स गिसेयपरुवणा त्ति ववण्णो कथं जुज्जदे ? ण, गिमेयरचनाए पहाणभावेणं तस्स तव्ववएससभवादो ।

असण्णिपडिसेहट्ट सण्णीणमिदि णिहेसो कदो । सम्मादिट्ठीसु उक्कस्सद्विदिवध-पडिसेहट्टं मिच्छाडट्ठीणमिदि णिहेसो कदो । अपञ्जत्तकाले उक्कस्सद्विदिवधो णत्थि त्ति जाणावणट्टं पडत्तयमिदि णिहेसो कदो । सेक्कमपडिसेहट्ट णाणावरणादिणिहेसो कदो । उक्कस्सद्विट्ठिं वंथमाणस्स तिसु वामसहस्सेसु पदेमणिकखेवो णत्थि त्ति जाणावणट्टं तिण्णिग्वाममहस्साणि आवाह मोत्तणे त्ति भणिट्ठि ।

एत्य एदेहि दोहि अणियोगहारहि सेडिपरुवणासामण्णेण एगत्तमावण्णेहि सेस-पचणियोगहारणि जेण काण्णेण सचिदाणि तेण एत्य परुवणा पमाण सेही अवहारो

शका—स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणामें उत्कृष्ट स्थितिवन्ध और उत्कृष्ट आवाधाकी भी प्ररूपणा की जा चुकी है । अतः पूर्वमें प्ररूपित उन दोनोंकी प्ररूपणा यहां फिरसे किसे लिये की जा रही है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, स्थितिवन्धस्थान प्ररूपणामें उन दोनोंकी सूचना मान की गई है । अतः एव उनकी यहां प्ररूपणा करनेमें पुनरुक्ति दोषकी सम्भावना नहीं है ।

शका—यदि ऐसा है तो फिर इस अनुयोगद्वारकी ' निषेक-प्ररूपणा ' यह संज्ञा कैसे उच्यते है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि निषेक रचनाकी प्रधानता होनेसे उसकी उक्त संज्ञा सम्भव ही है ।

असंक्रियोंका प्रतिषेध करनेके लिये सूत्रमें ' सण्णीणं ' पदका निर्देश किया गया है । सम्यग्प्रति जीवोंमें उत्कृष्ट स्थितिवन्धका निषेध करनेके लिये ' मिच्छाडट्ठीण ' पदका उपादान किया है । अपर्याप्तकालमें उत्कृष्ट स्थितिवन्ध नहीं होता, इस बातके ज्ञापनार्थ ' पर्याप्तक ' का ग्रहण किया है । जेप कमाका प्रतिषेध करनेके लिये ज्ञानावरणादिकोंका निर्देश किया है । उत्कृष्ट स्थितिको बाधनेवाले जीवके तीन हजार वर्षोंमें प्रदेशोंका निक्षेप नहीं होता, इस बातको बतलानेके लिये ' तीन हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोड़कर ' ऐसा कहा है ।

यहाँ ' श्रेणिप्ररूपणा ' सामान्यकी अपेक्षा एकत्वको प्राप्त हुए इन दो (अनन्तरोप-निश्चय और परस्पररोपनिश्चय) अनुयोगद्वारोंके द्वारा चूँकि जेप पाँच अनुयोगद्वारोंकी सूचना की गई है अतः यहाँ प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणि, अवहार, भागाभाग और अल्पबहुत्व,

भागाभागो अप्पावहुगं चेदि छ अणियोगद्वाराणि वत्तव्वाणि भवंति । एत्थ ताव परूवणं पमाणं च वत्तइस्सामो । तं जहा—चदुणं कम्माणं तिण्णिवाससहस्साणि आवाधं मोत्तूण जो उवरिमसमओ तत्थ णिसित्तपदेसग्गमत्थि । तत्तो अणतरउवरिमसमए णिसित्तपदेसग्गं पि अत्थि । तत्तो उवरिमतदियसमए णिसित्तपदेसग्गं पि अत्थि । एवं णेद्वं जाव तीसंसागरोवमकोडाकोडीणं चरिमसमओ त्ति । परूवणा गदा ।

पढमाए ट्टिदीए णिसित्तपरमाणु अभवसिद्धिएहि अणंतगुणा सिद्धाणमणंतभागमेत्ता । एवं णेयव्वं जाव उवकस्सट्टिदि त्ति । पमाणपरूवणा गदा ।

सेडिपरूवणा दुविहा—अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा चेदि । तत्थ अणंतरोवणिधा वुच्चदे—तिण्णिवाससहस्साणि आवाधं मोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं वहुग । जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं णिसेगभागहारेण खंडिदेगखंडमेत्तेण । जं तिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं रूवणणिसेगभागहारेण खंडिदेगखंडमेत्तेण । जं चउत्थसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं दुस्सव्वणणिसेगभागहारेण खंडिदेगखंडमेत्तेण । एवं णेयव्वं जाव पढमणिसेयस्स अद्धं चेत्तिदं त्ति । पुणो विदियगुणहाणिपढमणिसेयादो

इन छह अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणाकरने योग्य है। इनमें पहिले प्ररूपणा और प्रमाणका कथन करते हैं। वह इस प्रकार है—चार कर्मोंकी तीन हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोड़कर जो अगला समय है उसमें निषिक्त प्रदेशाग्र है। उससे अव्यवहित आगेके समयमें निषिक्त प्रदेशाग्र भी है। उससे आगेके तीसरे समयमें निषिक्त प्रदेशाग्र भी है। इस प्रकार तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये। प्ररूपणा समाप्त हुई।

प्रथम स्थितिमें निषिक्त परमाणु अभवसिद्धोंसे अनन्तगुणे व सिद्धोंके अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। [द्वितीय स्थितिमें निषिक्त परमाणु विशेष हीन हैं।] इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिये। प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई।

श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकार है—अनन्तरोपनिधा और परस्पररोपनिधा। इनमें अनन्त रोपनिधाको कहते हैं—

तीन हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें निषिक्त प्रदेशाग्र (२५६) है वह बहुत है। जो द्वितीय समयमें निषिक्त प्रदेशाग्र है वह निषेकभागहारका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध हो उतने (२५६-१६=१६) मात्रसे विशेष हीन है। जो प्रदेशाग्र तृतीय समयमें निषिक्त है वह एक अंक कम निषेकभागहारका भाग देनेपर जो एक भाग प्राप्त हो उतने [२४०- (१६-१)=१६] मात्रसे विशेष हीन है। चतुर्थ समयमें जो प्रदेशाग्र निषिक्त है वह दो अंक कम निषेक भागहारका भाग देनेपर जो एक भाग प्राप्त हो उतने [२२४- (१६-२)+१६ मात्रसे विशेष हीन है। इस प्रकार प्रथम निषेकके अर्ध भाग तक ले जाना चाहिये।

तत्येव विदियणिसेयो विसेसहीणो । केत्तियमेत्तेण ? णिसेगभागहारेण खंडिदेयखंडमेत्तेण । तत्येव तदियसमए णिसित्त पदेसगं विसेसहीणं रूवृणणिसेगभागहारेण खंडिदेयखंडमेत्तेण । एव णेयव्व जाव एत्थतणपढमणिसेयस्स अद्ध^१ चेट्टिदं ति । एवं णेयव्वं जाव चरिमगुणहाणि त्ति । एत्थ संदिट्ठी—

१४४	७२	३६	१८	९
१६०	८०	४०	२०	१०
१७६	८८	४४	२२	११
१९२	९६	४८	२४	१२
२०८	१०४	५२	२६	१३
२२४	११२	५६	२८	१४
२४०	१२०	६०	३०	१५
२५६	१२८	६४	३२	१६

दोगुणहाणिप्पहुडि रूवृणणकमेण जाव रूवाहियगुणहाणि त्ति ठवेदूण रूवृणणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्भत्थरा-सिणा पादेकं गुणिय पुणो रूवृणणाणागुणहाणिसलागमेत्त-पडिरासीयो अद्धदं काऊण ट्वेदव्वाओ । पुणो एदे पक्खेवे सव्वे वि मेलाविय समयपवद्धे भागे हिदे जं लद्धं तेण सव्वपक्खेवेसु पादेकं गुणिदेसु इच्छिद-इच्छिदणिसेगा होति,

प्रक्षेपकसंक्षेपेण विभक्ते यद्धनं समुपलद्धं ।

प्रक्षेपास्तेन गुणा प्रक्षेपसमानि खंडानि ॥ ६ ॥

इति सख्यानगाम्ने उक्तत्वात् ।

पश्चात् द्वितीय गुणहानिके प्रथम निपेककी अपेक्षा उसका ही द्वितीय निपेक विशेष हीन है । कितने मात्रसे वह विशेष हीन है ? निपेकभागहारका भाग देनेसे जो प्राप्त हो उतने मात्रसे वह विशेष हीन है । द्वितीय गुणहानिके तृतीय समयमें निपेक प्रदेशाप्र एक अरु कम निपेकभागहारका भाग देनेपर जो प्राप्त हो उतने मात्रसे विशेष हीन है । इस प्रकार यहाँके प्रथम निपेकका अर्ध भाग स्थित होने तक ले जाना चाहिये । इस प्रकार अन्तिम गुणहानि तक लेजाना चाहिये । यहाँ संदृष्टि— (मूलमें देखिये) ।

दो गुणहानियों ($८ \times २ = १६$) को आदि लेकर एक एक अंक कमके क्रमसे एक अधिक गुणहानिप्रमाण (१६, २५, १४, १३, १२, ११, १०, ९) तक स्थापित करना चाहिये । पश्चात् उनमेंसे प्रत्येकको एक कम नानागुणहानिशलाकाओं (५-१) की अन्योन्याभ्यस्तराशि (१६) से गुणित (१६×१६) करके एक कम नानागुणहानिशलाका (४) प्रमाण प्रतिराशियोंको आधी आधी करके (१२८, ६४, ३२, १६) स्थापित करना चाहिये । पश्चात् इन सभी प्रक्षेपोंको मिलाकर प्राप्त राशिका समयप्रवद्धमें भाग देनेपर जो लब्ध हो उससे सब प्रक्षेपोंमेंसे प्रत्येकको गुणित करनेपर इच्छित-इच्छित निपेकोंका प्रमाण होता है, क्योंकि—

प्रक्षेपोंके संक्षेप अर्थात् योगफलका विवक्षित राशियोंमें भाग देनेपर जो धन प्राप्त हो उससे प्रक्षेपोंको गुणा करनेपर प्रक्षेपोंके बराबर खण्ड होते हैं ॥ ६ ॥

ऐसा गणितशास्त्रमें कहा गया है । (पु. ६, पृ. १५८) देखिये ।

१ अ-आ-का-प्रतिपु ' अत्य ' इति पाठः । २ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का ताप्रतिषु ' संख्यानि रासी उक्तत्वात् ' इति पाठः ।

संपहि पस्वणा-पमाणाणियोगद्वाराणि अणंतरोवणिधाए णिवदंति त्ति ताणि अभिण्णूण मोहणीयस्स अणंतरोवणिधापस्वणहमुत्तरसुत्तं भणदि—

पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्ठीणं पज्जत्तयाणं मोहणीयस्स सत्तवाससहस्साणि आवाहं मोत्तूणं जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुअं, जं बिदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण सत्तरिसागरोवमकोडाकोडि त्ति ॥ १०३ ॥

पुच्वं णाणावरणादीणं चदुण्णं कम्माणं तिण्णिवाससहस्साणि त्ति आवाहा पस्विदा । संपहि मोहणीयस्स सत्तवाससहस्साणि आवाधा त्ति किमट्टं बुच्चे ? ण, सगट्टिदिपडिभागेण आवाधुप्पत्तीदो । त जहा—दससागरोवमकोडाकोडीणं वस्ससहस्समावाहा लब्भदि' । कधमेदं णव्वेदे ? परमगुस्वदेसादो । जदि दससागरोवमकोडाकोडीणं वस्ससहस्समावाहा

अब चूँकि प्ररूपणा और प्रमाण ये दो अनुयोगद्वार अनन्तरोपनिधाके अन्तर्गत हैं अतः उनको न कहकर मोहनीय कर्मकी अनन्तरोपनिधाके प्ररूपणार्थ उत्तरसूत्र कहते हैं—

पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक जीवोंके मोहनीय कर्मकी सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रदेशाग्र प्रथम समयमें निषिक्त है वह बहुत है, जो प्रदेशाग्र द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, जो प्रदेशाग्र तृतीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, इस प्रकार उत्कर्षसे सत्तर कोड़ाकोड़ि सागरोपम तक विशेष हीन विशेष हीन होता गया है ॥ १०३ ॥

शंका—पहिले ज्ञानावरणादि चार कर्मोंकी आवाधा तीन हजार वर्ष प्रमाण कही जा चुकी है । अब मोहनीय कर्मकी सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधा किसलिधे बतलाई जा रही है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि आवाधाकी उत्पत्ति अपनी स्थितिके प्रतिभागसे होती है । यथा—दस कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण स्थितिकी आवाधा एक हजार वर्ष प्रमाण पायी जाती है ।

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—वह परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है ।

१ उदय पडि सत्तण्ह आवाहा कोडकोडि उवहीण । वाससय तप्पडिभागेण य सेसट्टिदीणं च ॥ गो. क. १५६. वाससहस्समवाहा कोडाकोडीदसग्गस्स सेसाण । अणुवाधो अणुवट्टणगाउसु छम्मासिगुक्कोसो ॥ क प्र. १, ७५

लब्भदि तो सत्तरि-तीस-वीससागरोवमकोडाकोडीणं किं लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए जहाकमेण सत्त तिण्णि वेण्णि वाससहस्साणि आवाहाओ होंति । मोहणीयस्स आवाधा एसा ७००० । णाणावरणादीणं चदुण्णं कम्माणमावाहा एत्तिया होदि ३००० । णामागोदाणमावाहा एत्तिया होदि २००० । एदेण अत्थपदेण सेसउत्तरपयडीणं पि आवाहापरूपणा कायव्वा । एवं कदे सोलसण्णं कसायाणं चत्तारि वाससहस्साणि आवाधा होदि । एवं सेसउत्तरपयडीणं पि जाणिट्ठण वत्तव्वं । एवमेइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिपंचिंदिएसु वि आवाहापरूपणा सग-सगट्टिदीसु कायव्वा । णवरि आउअस्स आवाधाणियमो णत्थि, पुव्वकोडितिभागमावाहं काऊण खुद्दाभवगहणमेत्तट्टिदीए वि बंधु-वलंभादो असंखेवद्धावाहाए वि तेत्तीससागरोवममेत्तट्टिदिवंधुवलंभादो । सेसं णाणावरणादि-चदुण्णं कम्माणं जहा परूविदं तथा णिस्सेसं परूवेदव्वं, विसेसाभावादो ।

एत्थ मोहसन्वपयडीणं पदेसपिंडं घेतूण किमणंतरोवणिधा बुच्चदे, आहो पुष-पुष-पयडीणं णिसेगस्स अणंतरोवणिधा बुच्चदि त्ति ? ण ताव पढमवियप्पो जुज्जदे, चालीस-

यदि दस कोड़ाकोड़ि सांगरोपम प्रमाण स्थितिकी परू हजार वर्ष प्रमाण आवाधा पायी जाती है तो सत्तर, तीस और बीस कोड़ाकोड़ि सांगरोपम प्रमाण स्थितियोंकी आवाधा इतनी होगी, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर क्रमशः उनकी सात, तीन और दो हजार वर्ष प्रमाण आवाधा होती है । मोहनीय कर्मकी आवाधा ७००० वर्ष प्रमाण है । ज्ञानावरणादिक चार कर्मोंकी आवाधा इतनी होती है— ३००० वर्ष । नाम व गोत्रकी आवाधा इतनी होती है— २००० वर्ष । इस अर्थपदसे शेष उत्तर प्रकृतियोंकी भी आवाधाकी प्ररूपणा करना चाहिये । ऐसा करनेपर सोलह कषायोंकी चार हजार वर्ष प्रमाण आवाधा होती है । इसी प्रकार शेष उत्तर प्रकृतियोंके विषयमें भी जानकर प्ररूपणा करना चाहिये ।

इस प्रकार एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंखी पंचेन्द्रिय जीवोंमें भी अपनी अपनी कर्मस्थितिके अनुसार आवाधाकी प्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना है कि आयु कर्मकी आवाधाका ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि, पूर्वकोटिके तृतीय भाग प्रमाण आवाधा करके क्षुद्रभवग्रहण मात्र स्थितिका भी बन्ध पाया जाता है, तथा असंक्षेपाद्धा मात्र आवाधामें भी तेत्तीस सांगरोपम प्रमाण स्थितिका बन्ध पाया जाता है । शेष जैसे ज्ञानावरणादिक चार कर्मोंकी प्ररूपणा की गई है वैसेही पूर्ण रूपसे प्ररूपणा करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई भेद नहीं है ।

शंका—यहां मोहनीय कर्मकी समस्त प्रकृतियोंके प्रदेशपिण्डको ग्रहण करके क्या अनन्तरोपनिधा कही जाती है, अथवा उसकी पृथक् पृथक् प्रकृतियोंके निषेककी अनन्तरोपनिधा कही जाती है ? इनमें प्रथम विकल्प तो योग्य नहीं है, क्योंकि, अनन्तरोपनिधाकी

सागरोवमाणि अणंतरोवणिधाए विसेसहीणकमेण गंतण तदर्णतरउवरिमसमए अणंतगुणहीण-
 प्पदेसणिसेगप्पसंगादो, देसधादिपदेसर्पिंडो अणंतगुणहीणो त्ति कसायपाहुडे णिद्विट्तादो ।
 ण च अणंतगुणहीणत्तं वोत्तुं जुत्तं, विसेसहीणं सव्वत्थ णिसिंचदि त्ति सुत्तेण सह विरोहादो ।
 ण विदियपक्खो वि, सव्वपयडीणं ठिदीयो अस्सिद्वण पुध पुध णिसेयपरूवणापसंगादो ।
 ण च एवं, विसेसहीणा विसेसहीणा सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीयो त्ति सुत्तेण सह विरोहादो
 त्ति ? एत्थ परिहारो उच्चदे । तं जहा—ण ताव विदियपक्खम्मि वुत्तदोसाण संभवो,
 तदब्भुवगमामावादो^१ । ण पढमपक्खे वुत्तदोससभवो वि, भिच्छत्तपदेसग्गं चेव वेत्तण
 अणंतरोवणिधं परूवेमाणस्स तद्दोससमागमामावादो । ण च सामण्णे विसेसो णत्थि,
 विसेसाणुविद्धाणं चेव सामण्णाणमुवलंभादो । ण च सामण्णे अप्पिदे विसेसप्पणा विरुज्जदे,
 विसेसवदिरित्तसामण्णाभावादो त्ति ।

संपहि उवरिल्लीणं द्विदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदे त्ति सुत्ते वक्खाणिज्जमाणे
 उक्कस्सियाए द्विदीए बहुगं पदेसग्ग देदि, दुचरिमादिद्विदीसु विसेसहीणं देदि त्ति जं
 भणिदं तमेदेण सुत्तेण सह कथं ण विरुज्जदे ? ण, गुणिदकम्मसियमस्सिद्वण सा परूवणा

अपेक्षा विशेषहीन क्रमसे चालीस सागरोपम जाकर उससे अव्यवहित आगेके समयमें
 अनन्तगुणे हीन प्रदेशवाले निषेकका प्रसंग आता है, क्योंकि, [सर्वघातीकी अपेक्षा]
 देशघाती प्रकृतियोंका प्रदेशपिण्ड अनन्तगुणा हीन है, ऐसा कसायपाहुडमें कहा गया है ।
 परन्तु अनन्तगुणी हीनताका कथन उचित नहीं है, क्योंकि, सर्वत्र विशेषहीन देता है, इस
 सूत्रके साथ विरोध होता है । दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि, समस्त प्रकृतियोंकी
 स्थितियोंका आश्रय करके पृथक् पृथक् निषेकोंकी प्ररूपणाका प्रसंग आता है । परन्तु
 ऐसा है नहीं, क्योंकि, सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक त्रे विशेषहीन विशेषहीन हैं, इस
 सूत्रके साथ विरोध आता है ?

समाधान—यहां उपर्युक्त शंकाका परिहार कहते हैं । वह इस प्रकार है—दूसरे
 पक्षमें दिये गये दोषोंकी सम्भावना तो है ही नहीं, क्योंकि, वैसा स्वीकार ही नहीं किया
 गया है । प्रथम पक्षमें कहे हुए दोषोंकी भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि एक मात्र मिथ्यात्व
 प्रकृतिके प्रदेशपिण्डको ग्रहण करके अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा करनेपर उक्त दोषोंका
 आना सम्भव नहीं है । सामान्यमें विशेष न हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि,
 विशेषोंसे सम्बद्ध ही सामान्य पाये जाते हैं । सामान्यकी मुख्यता होनेपर विशेषकी
 विवक्षा विरुद्ध हो, सो भी नहीं है, क्योंकि, विशेषोंसे भिन्न सामान्यका अभाव है ।

शंका—अब 'उवरिल्लीणं द्विदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदे' इस सूत्रका व्याख्यान
 करते हुए " उक्कष्ट स्थितिमें बहुत प्रदेशपिण्डको देता है, द्विचरम आदिक स्थितियोंमें
 विशेषहीन देता है " यह जो कहा है वह इस सूत्रसे कैसे विरुद्ध नहीं होगा ?

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु ' तदब्भुवगमादो ' इति पाठः ।

कदा, इमा पुण खविदग्गुण्ड-धोलमाणजीवे अस्सिद्वण कदा त्ति विरोहाभावादो ।

सपहि सगतोक्खित्तपरूवणा-प्रमाणणियोगद्दारमणंतरोवणिधमाउअस्स परूवणट्ट-
मुत्तरसुत्तं भणदि—

पंचिंदियाणं सण्णीणं सम्मादिट्ठीणं वा मिच्छादिट्ठीणं वा
पज्जत्तयाणमाउअस्स पुव्वकोडितिभागमावाधं मोत्तूण जं पढमसमए
पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं, जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं
विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसे-
सहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण तेतीससागरोवमाणि त्ति ॥१०४॥

एत्थ पुव्वकोडितिभागमावाधं त्ति जं भणिदं तेण अण्णजोगववच्छेदो^१ ण कीरदे, किंतु
अजोगववच्छेदो^२ चैव; पुव्वकोडितिभागमादि कादृण जाव असंखेवद्धा त्ति ताव सव्वावाधाहि
तेतीससागरोवममेत्तट्टिदिवंधसंभवादो । जदि एवं तो उक्कस्सावाहाए चैव किमट्ट णिसेय-
परूवणा कीरदे ? ण, आउअस्स उक्कस्सावाहा एत्तिया चैव होदि, उक्कस्सावाहाए सह

समाधान—नहीं, क्योंकि, वह प्ररूपणा गुणितकर्माशिकका आश्रय करके की गई
है, किन्तु यह प्ररूपणा क्षपित गुणित-धोलमान जीवोंका आश्रय करके की गई है, अतः
उससे विरुद्ध नहीं है ।

अब प्ररूपणा और प्रमाण अनुयोगद्वारोंसे गर्भित आयु कर्मकी अनन्तरोपनिधाकी
प्ररूपणा करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

पंचेन्द्रिय संज्ञी सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक जीवोंके आयु कर्मकी एक
पूर्वकोटिके तृतीय भाग प्रमाण आवाधाको छोड़कर प्रथम समयमे जो प्रदेशपिण्ड दिया
गया है वह बहुत है, द्वितीय समयमें जो प्रदेशपिण्ड दिया गया है वह उससे विशेष
हीन है, तृतीय समयमें जो प्रदेशपिण्ड दिया गया है वह विशेष हीन है; इस प्रकार
उत्कर्षसे तीस सागरोपम तक वह विशेषहीन विशेषहीन होता गया है ॥ १०४ ॥

यहां सूत्रमें 'पुव्वकोडितिभागमावाधं' यह जो कहा गया है उससे अन्ययोग-
व्यवच्छेद (अन्य आवाधाओंकी ध्यावृत्ति) नहीं किया जा रहा है, किन्तु अयोगव्यवच्छेद
ही किया जा रहा है, क्योंकि, पूर्वकोटिके त्रिभागको आदि लेकर असंक्षेपाद्धा तक समस्त
आवाधाओंके साथ तेतीस सागरोपम प्रमाण आयु कर्मका बन्ध सम्भव है ।

शका—यदि ऐसा है तो उत्कृष्ट आवाधामें ही किसलिये निषेकप्ररूपणा की जाती है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि आयु कर्मकी उत्कृष्ट आवाधा इतनी ही होती है तथा
उत्कृष्ट आवाधाके साथ तेतीस सागरोपम मात्र उत्कृष्ट स्थिति भी होती है, यह बतलानेके

१ अ-आ-काप्रतिपु 'अण्णजोगववएसो' इति पाठः । २ विशेषणसगतैवकारअयोगव्यवच्छेद-
बोधकः, यथा शखः पाण्डुर एवेति । अयोगव्यवच्छेदो नाम उद्देश्यतावच्छेदक समानाधिकरणभावाप्र-
तियोगित्वम् । × × × विशेष्यसङ्गतैवकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदबोधकः, यथा पार्थ एव घनुर्घर इति ।
अन्ययोगव्यवच्छेदो नाम विशेष्यभिन्नतादात्म्यादिव्यवच्छेदः । सप्त. त. पृ. २५-२६.

तेतीससागरोवमाणि उक्कस्सिया द्विदी च होदि ति जाणावणट्ठं तदुत्तीए । देवाउअं पडुच्च सम्मादिट्ठीणं वा ति भणिदं, संजदेसु सम्मादिट्ठीसु पुव्वकोडितिभागपढमसमय-
द्विदीसु देवाउअस्स केसु वि तेतीससागरोवमपमाणस्स बंधुवलंभादो । णिरयाउअं
पडुच्च मिच्छाइट्ठीणं वा ति वुत्तं, पुव्वकोडितिभागपढमसमए वट्टमाणमिच्छाइट्ठीसु केसु वि
तेतीससागरोवममेत्तणिरयाउअस्स बंधुवलंभादो । सेसं जहा णाणावरणीयस्स परूविदं तथा
परूवेदव्वं, विसेसाभावादो ।

अंतोखित्तपरूवणा-पमाणमणंतरोवणिधं णामा-गोदाणमुत्तरसुत्तेण भणदि—

पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्ठीणं पज्जत्तयाणं णामागोदाणं
वेवाससहस्साणि आबाधं मोत्तूणं जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं
बहुगं, जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदिय-
समए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं
जाव उक्कस्सेण वीसं सागरोवमकोडीयो ति ॥ १०५ ॥

णिसेगभागहारो सव्वकम्मेसु सरिसो, सव्वत्थ गुणहाणीणं सरिसतुवलंभादो ।
गोबुच्छविसेसा ण सव्वगुणहाणीसु सरिसा, कित्तु आदिगुणहाणिप्पहुडि अद्धद्धगया,
लिये उक्त प्ररूपणा की जा रही है ।

देवायुकी अपेक्षा करके 'सग्मादिट्ठीणं वा' ऐसा कहा गया है, क्योंकि, पूर्वकोटिके
त्रिभागके प्रथम समयमें स्थित किन्हीं सम्यग्दृष्टि संयत जीवोंमें तेतीस सागरोपम प्रमाण
देवायुका बन्ध पाया जाता है । नारकायुकी अपेक्षा करके 'मिच्छाइट्ठीणं वा' ऐसा कहा
गया है, क्योंकि, पूर्वकोटिके त्रिभागके प्रथम समयमें वर्तमान किन्हीं मिथ्यादृष्टि जीवोंमें
तेतीस सागरोपम प्रमाण नारकायुका बन्ध पाया जाता है । शेष प्ररूपणा जैसे ज्ञाना-
वरणीयके विषयमें की गई है, वैसे ही यहां करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई
विशेषता नहीं है ।

अब आगेके सूत्रसे प्ररूपणा व प्रमाण अनुयोगद्वारोंसे गर्भित नाम व गोत्रकी
अनन्तरोपनिधाको कहते हैं—

पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक जीवोंके नाम व गोत्र कर्मकी दो हजार वर्ष
प्रमाण आबाधाको छोड़कर जो प्रदेशपिण्ड प्रथम समयमे निषिक्त है वह बहुत है, जो
प्रदेशपिण्ड द्वितीय समयमे निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, जो प्रदेशपिण्ड तृतीय
समयमें निषिक्त है, वह उससे विशेष हीन है, इस प्रकार उत्कर्षसे बीस कोटाकोड़ि
सागरोपमो तक विशेषहीन विशेषहीन होता गया है ॥ १०५ ॥

निषेकभागहार सब कर्मोंमें समान है, क्योंकि सर्वत्र गुणहानियोंकी सदृशता देखी
जाती है । गोबुच्छविशेष सब गुणहानियोंमें सदृश नहीं है, किन्तु प्रथम गुणहानिसे लेकर

गुणहाणीसु अवट्टिदासु गोबुच्छविसेसाणमवट्टाणाविरोहादो । सेसं जहं णाणावरणीयस्स परुविदं तहा परुवेदव्वं ।

सयहि सण्णीसु पज्जत्तेसु सव्वकम्माणं पदेसणिसेगस्स अणंतरोवणिधं परुविय सण्णि-
अपज्जत्ताण तप्परुवणट्टमुत्तरसुत्तं भणदि—

पांचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्ठीणमपज्जत्तयाणं सत्तण्णं
कम्माणमाउववज्जाणमंतोमुहुत्तमाबाधं मोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गं
णिसित्तं तं बहुगं, जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं,
जं तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं
विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण अंतोकोडाकोडीयो त्ति ॥ १०६ ॥

एत्य आउअ किमट्ट एदेहि सह ण भणिदं ? ण एस दोसो, एदेसिं ट्टिदिव्वेण
समाणाउअट्टिदिव्वंधाभावेण सह वोत्तुमसत्तीदो । णामा-गोदाणमंतोकोडाकोडीदो चट्टुण्णं
कम्माणमंतोकोडाकोडी दुभागम्भहिया । मोहस्स अतोकोडाकोडी चट्टुण्णं कम्माणमंतो-

उत्तरोत्तर आधे आधे होते गये हैं, क्योंकि, गुणहानियोंके अवस्थित होनेपर गोपुच्छ-
विशेषोंके अवस्थानका विरोध है । शेष प्ररूपणा जैसे ज्ञानावरणीयके सम्बन्धमें की गई है
वैसे ही करना चाहिये ।

अब संज्ञी पर्याप्तक जीवोंके सब कर्मोंके प्रदेशनिषेककी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा
करके संज्ञी अपर्याप्तक जीवोंके उसकी प्ररूपणा करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

पांचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि अपर्याप्तक जीवोंके आयुको छोड़कर शेष सात
कर्मोंकी अन्तर्मुहूर्त मात्र आवाधाको छोड़कर जो प्रदेशपिण्ड प्रथम समयमें निषिक्त
है वह बहुत है, जो प्रदेशपिण्ड द्वितीय समयमें निषिक्त है वह विशेषहीन है, जो
प्रदेशपिण्ड तृतीय समयमें निषिक्त है वह विशेषहीन है, इस प्रकार उत्कर्षसे अन्तः-
कोडाकोड़ि सागरूपम तक विशेषहीन विशेषहीन होता गया है ॥ १०६ ॥

शंका—यहां इनके साथ आयु कर्मका कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इनके स्थितिवन्धके समान आयु
कर्मका स्थितिवन्ध नहीं होता, अतएव उनके साथ आयु कर्मका कहना शक्य नहीं है ।

शंका—नाम व गोत्रके अन्तः कोडाकोड़ि मात्र स्थितिवन्धकी अपेक्षा चार कर्मोंका
स्थितिवन्ध द्वितीय भागसे अधिक अन्तः कोडाकोड़ि प्रमाण होता है । मोहनीय कर्मकी
अन्तःकोडाकोड़ि चार कर्मोंकी अन्तःकोडाकोड़िकी अपेक्षा एक तृतीय भाग सहित दो

कोडाकोडीहितो सतिभाग-दोरुवगुणा त्ति । सेसकम्माट्टिदी विसरिसा त्ति । तेण सेसकम्माणं पि एगजोगो मा होदु त्ति वुत्ते ण, अंतोकोडाकोडित्तणेण तेसिं ट्टिदीणं समाणत्तुवलंभादो । अतोमुहुत्तमावाधं मोत्तूणेत्ति भण्णिदे पढमसमयप्पहुडि संखेज्जावलियाथो वज्जिदण उवरि णिसेयरचण करोदि त्ति घेतत्व्व । सेस सण्णिपंचिदियपञ्जत्तणाणावरणीयस्स जहा वुत्तं तथा वत्तत्व्व, अविसेसादो ।

पंचिदियाणं सण्णीणमसण्णीणं चउरिंदिय-तीइंदिय-वीइंदियाणं बादरेइंदियअपज्जत्तयाणं सुहुमेइंदियपज्जत्तापज्जत्ताणमाउअस्स अंतो मुहुत्तमावाधं मोत्तूण जाव पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुअं, जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं नदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण पुव्वकोडीयो त्ति ॥ १०७ ॥

एदे सत्त अपज्जत्तजीवसमासस्वरूवेण परिणयजीवा सुहुमेइंदियपज्जत्तजीवा च आउअस्स सन्नुक्कस्सट्टिदिं वंधमाणा पुव्वकोडिं चैव जेण वंधंति तेण पुव्वकोडिमेत्ता चैव पदेसरूपों (२३) से गुणित है । शेष कर्मोंकी स्थिति विसदृश है । इसलिये शेष कर्मोंका भी एक योग नहीं होना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अन्तःकोडाकोडि स्वरूपसे उनकी स्थितियोंके समानता पायी जाती है ।

‘ अंतोमुहुत्तमावाधं मोत्तूण ’ ऐसा कहनेपर प्रथम समयसे लेकर संख्यात आवलियोंको छोड़कर इसके आगे निपेकरचनाको करता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । शेष कथन जैसे संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके ज्ञानावरणीयके विषयमें किया है वैसा ही इसके भी करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है ।

संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय व वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक एव अपर्याप्तक जीवोंके आयु कर्मकी अन्तर्मुहूर्त मात्र आवाधाको छोड़कर प्रथम समयमें जो प्रदेशाग्र निषिक्त है वह बहुत है, जो प्रदेशाग्र द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेष हीन है, जो प्रदेशाग्र तृतीय समयमें निषिक्त है वह विशेष हीन है, इस प्रकार उत्कर्षसे पूर्वकोटि तक विशेषहीन विशेषहीन होता गया है ॥ १०७ ॥

अपर्याप्त जीवसमास स्वरूपसे परिणत ये सात जीव तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीव आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधते हुए चूँकि पूर्वकोटि प्रमाण ही बाँधते हैं, अतएव पूर्वकोटि मात्र ही प्रदेशरचना कही गई है । पूर्वकोटिमेंसे एक अंक कम इत्यादि क्रमसे

रचनापरूविदा पुव्वकोडीदो रुव्वणादिकमेण परिहीणा वि पदेसरचना अत्थि, अण्णहा उक्कस्सेण जाव पुव्वकोडि त्ति णिदेसाणुववत्तीदो । एदे पुव्वकोडीदो अब्भहियमाउअं किण्ण वंधंति ? सहावदो अच्चंताभावेण निरुद्धसत्तितादो वा । एदेसिमावाहा अंतोमुहुत्तमेत्ता चेवे त्ति किमट्ठं बुच्चदे ? ण, एदेसिमंतोमुहुत्तआउआणं सगआउअतिभागे अंतोमुहुत्तभावस्सेव उवलंभादो । सेसं सुगमं ।

पंचिंदियाणमसणीणं चउरिंदियाणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं वादरएइंदियपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणं आउअवज्जाणं अंतो-मुहुत्तमावाधं मोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुअं, जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण सागरोवमसहस्सस्स सागरोवमसदस्स सागरोवमपण्णासाए सागरोवमपणुवीसाए सागरोवमस्स तिण्णिण-सत्तभागा सत्त-सत्तभागा

हीन भी प्रदेशरचना होती है, क्योंकि, अन्यथा ' उक्कस्सेण जाव पुव्वकोडि त्ति ' यह निर्देश घटित नहीं होता ।

शंका—ये जीव पूर्वकोटिसे अधिक आयुको क्यों नहीं बँधते हैं ?

समाधान—उक्त जीव स्वभावतः उससे अधिक आयुको नहीं बँधते हैं, अथवा अत्यन्ताभावसे निरुद्धशक्ति होनेसे वे अधिक आयुका बन्ध नहीं करते हैं ।

शंका—इन जीवोंके उक्त कर्मोंकी आवाधा अन्तर्मुहूर्त मात्र ही किसलिये कही जाती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि इन जीवोंकी आयु अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही होती है, अतएव अपनी आयुके त्रिभागमें अन्तर्मुहूर्तता ही पायी जा सकती है ।

शेष कथन सुगम है ।

पंचेन्द्रिय असंज्ञी, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और वादर एकेन्द्रिय जीवोंके आयु कर्मसे रहित सात कर्मोंकी अन्तर्मुहूर्त मात्र आवाधाको छोड़कर प्रथम समयमें जो प्रदेशपिण्ड निषिक्त है वह बहुत है, जो प्रदेशपिण्ड द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, जो प्रदेशपिण्ड तृतीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है; इस प्रकार विशेषहीन विशेषहीन होकर उत्कर्षसे हजार सागरोपमोंके, सौ सागरोपमोंके, पचास सागरोपमोंके और पच्चीस सागरोपमोंके चार कर्मों, मोहनीय एवं नाम-गोत्र कर्मोंके क्रमसे सात भागोंमेंसे परिपूर्ण तीन भाग (३।७), सात भाग (७।७)

बे-सत्तभागा पडिवुण्णा ति ॥ १०८ ॥

एत्थ पुच्चाणुपुच्चीए जेण णिहेसो कदो तेण असाण्णिपंचिंदियाणं सागरोवमसहस्सस्सं तिण्णि-सत्तभागा चदुण्णं कम्माणमणुक्कस्सट्ठिदी^१ होदि, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा, णामा-गोदाणं बे-सत्तभागा । चउरिंदियाणं सागरोवमसदरस तिण्णि-सत्तभागा चदुण्णं कम्माण-मुक्कस्सट्ठिदी होदि, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा, णामा-गोदाणं बे-सत्तभागा । तीइंदिय-पज्जत्तएसु सागरोवमपण्णासाए तिण्णि-सत्तभागा चदुण्णं कम्माणं उक्कस्सट्ठिदी, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा, णामा-गोदाणं बेसत्तभागा होदि । वीइंदियपज्जत्तएसु सागरोवमपणुवीसाए तिण्णि-सत्तभागा चदुण्णं कम्माणमुक्कस्सट्ठिदी, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा, णामा-गोदाणं बे-सत्तभागा होदि । बादरएइंदियपज्जत्तएसु सागरोवमाए तिण्णि-सत्तभागा चदुण्णं कम्माण-मुक्कस्सट्ठिदी, मोहणीयस्स सत्त-सत्तभागा, णामा-गोदाणं बे-सत्तभागा होदि । एत्थ एदाओ ट्ठिदीओ तेरासियकमेण जाणिवृण आणेदच्चाओ । सत्तरिकोडाकोडिस्स्वेहि सत्त-वाससहस्समोवट्ठिय लद्धे सग-सगकम्मं^२ट्ठिदीणं सागरोवमसलागाहि गुण्णिदे इच्छिदजीवसमा-सकम्मट्ठिदीणमावाहाओ होति । सेसं जाणिय वत्तच्च ।

और दो भागों (२।७) तक चला गया है ॥ १०८ ॥

यहाँ सूत्रमें चूँकि पूर्वानुपूर्वीके क्रमसे निर्देश किया गया है, अतः असंखी पंचेन्द्रिय जीवोंके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति हजार सागरोपमोंके तीन-सात भाग (३) प्रमाण, मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति सात सात भाग (७) प्रमाण, और नाम-गोत्रकी दो-सात भाग (३) प्रमाण है । चतुरिन्द्रिय जीवोंके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति सौ सागरोपमोंके तीन सात भाग प्रमाण, मोहनीयकी सात सात भाग प्रमाण और नाम गोत्रकी दो सात भाग प्रमाण है । त्रीन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें चार कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति पचास सागरोप-मोंके तीन सात भाग, मोहनीयकी सात-सात भाग और नाम-गोत्रकी दो-सात भाग प्रमाण है । द्वीन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें चार कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति पच्चीस सागरोपमोंके तीन-सात भाग, मोहनीयकी सात-सात भाग और नाम-गोत्रकी दो सात भाग प्रमाण है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें चार कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपमके तीन-सात भाग, मोहनीयकी सात-सात भाग और नाम-गोत्रकी दो सात भाग प्रमाण है । यहाँ इन स्थितियोंको त्रैराशिक क्रमसे जानकर ले जाना चाहिये । सत्तर कोडाकोडि रूपोंसे सात हजार वर्षोंको अपवर्तित करके जो लब्ध हो उसे अपनी कर्मस्थितियोंकी सागरोपमशला-काओं द्वारा गुणित करनेपर अभीष्ट जीवसमासकी कर्मस्थितियोंकी आवाधायें होती हैं । शेष कथन जानकर करना चाहिये ।

१ अ-आ-काप्रतिषु 'सहस्स' इति पाठः । २ अप्रतौ 'कम्माणमणुक्कट्ठिदी', आ-काप्रत्योः 'कम्माणमणुक्कस्सट्ठिदी' इति पाठः । ३ ताप्रतौ 'गोदाणं चैय वेसत्तभागा' इति पाठः । ४ ताप्रतौ 'सगकम्म' इति पाठः ।

पंचिंदियाणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं वादरएइंदियपज्जत्तयाणमाउअस्स पुव्वकोडित्तिभागं वेमासं सोलसरादिंदियाणि सादिरेयाणि चत्तारिवासाणि सत्तवाससहस्साणि सादिरेयाणि आवाहं भोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं, जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदियसमए पदेसग्गं निसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो पुव्वकोडि ति ॥१०९॥

असण्णिपंचिंदियपज्जत्ताणं पुव्वकोडित्तिभागो आवाहा होदि, तेसु भुंजमाणाउअस्स पुव्वकोडिपमाणस्स उवलंभादो । चउरिंदिएसु उक्कस्सावाहा वे मासा, तत्थ सब्बुक्कस्स-भुंजमाणाउअस्स छम्मासपमाणत्तुवलंभादो । तेइंदिएसु सोलसरादिंदियाणि सादिरेयाणि उक्कस्सावाहा होदि, तेसु एग्गणवण्णरादिंदियमेत्तपरमाउदंसणादो । बीइंदिएसु चत्तारिवासाणि उक्कस्सावाहा होदि, तत्थ चारसवासमेत्तपरमाउदंसणादो । वादरेइंदियपज्जत्तएसु सत्तसहस्स-तिण्णिसदतेतीसवासाणि चत्तारिमासा च उक्कस्सावाहा होदि, तत्थ वावीससहस्समेत्त-

असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयु कर्मकी क्रमशः पूर्वकोटिके तृतीय भाग, दो मास साधिक सोलह दिवस, चार वर्ष, और साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रदेशपिण्ड प्रथम समयमें निषिक्त है वह बहुत है, जो प्रदेशपिण्ड द्वितीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, जो प्रदेशपिण्ड तृतीय समयमें निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, इस प्रकार उत्कर्षसे पत्योपमके असंख्यातवें भाग व पूर्वकोटि तक विशेषहीन विशेषहीन होता गया है ॥ १०९ ॥

असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयु कर्मकी आवाधा पूर्वकोटिके त्रिभाग प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें भुज्यमान आयु पूर्वकोटि प्रमाण पायी जाती है । चतुरिन्द्रिय जीवोंमें उसकी उत्कृष्ट आवाधा दो मास प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें सर्वोत्कृष्ट भुज्यमान आयु छह मास प्रमाण पायी जाती है । त्रीन्द्रिय जीवोंमें उत्कृष्ट आवाधा साधिक सोलह दिवस प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें उनंचास दिवस प्रमाण उत्कृष्ट आयु देखी जाती है । द्वीन्द्रिय जीवोंमें चार वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट आवाधा होती है, क्योंकि, उनमें बारह वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट आयु देखी जाती है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें उत्कृष्ट आवाधा सात हजार तीन सौ तेतीस वर्ष व चार मास प्रमाण होती है, क्योंकि, उनमें बाईस हजार वर्ष

परमाउदंसणादो । एदाओ आवाहाओ वज्जिदूण पदेसरचना कीरदि ति उत्तं होदि । पदेसविण्णासस्स आयामो पुण असण्णिपंचिंदियपज्जत्तएस्स आउअस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-
भागमेत्तो, तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तणिरयाउट्टिदीए वंधुवलंभादो । चउरिंदि-
यादीणं आउअस्स पदेसविण्णासायामो पुव्वकोडिमेत्तो चेव, तत्थ एदम्हादो अहियवंधा-
भावादो । सेसं सुगमं ।

पंचिंदियाणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तीइंदियाणं बीइंदियाणं
बादरेइंदियअपज्जत्तयाणं सुहुमेइंदियपज्जत्तअपज्जत्तयाणं सत्तण्हं
कम्माणमाउक्खवज्जाणमंतोमुहुत्तयाबाधं मोत्तूणं जं पढमसमए पदेसग्गं
णिसित्तं तं बहुगं, जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं,
जं तदियसमए पदेसग्गं निसित्तं तं विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं
विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण सागरोवमसदस्स सागरोवमपण्णासाए
सागरोवमपणुवीसाए सागरोवमस्स तिण्णिसत्तभागा, सत्त-सत्तभागा,
वे-सत्तभागा पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणया पलिदोवमस्स
असंखेज्जदिभागेण ऊणया ति ॥ ११० ॥

प्रमाण उत्कृष्ट आयु देखी जाती है । इन आवाधाओंको छोड़कर प्रदेशरचना की जाती है, यह उक्त कथनका अभिप्राय है ।

परन्तु असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें आयु कर्मके प्रदेशविन्यासका आयाम पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, क्योंकि, उनमें पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण नारकायुका स्थितिवन्ध पाया जाता है । चतुरिन्द्रिय आदिक जीवोंके आयु कर्मके प्रदेश-
विन्यासका आयाम पूर्वकोटि प्रमाण ही है, क्योंकि, उनमें इससे अधिक स्थितिवन्धका अभाव है । शेष कथन सुगम है ।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय द्वीन्द्रिय और चादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक एवं अपर्याप्तक जीवोंके आयु कर्मसे रहित शेष सात कर्मोंकी अन्तर्मुहूर्त मात्र आवाधाको छोड़कर प्रथम समयमें जो प्रदेशपिण्ड निषिक्त है वह बहुत है, द्वितीय समयमें जो प्रदेशपिण्ड निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, तृतीय समयमें जो प्रदेशपिण्ड निषिक्त है वह उससे विशेषहीन है, इस प्रकार उत्कर्षसे सौ सागरोपम, पचास सागरोपम, पच्चीस सागरोपम और एक सागरोपमके सात भागोंमेंसे पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन तीन, सात और दो भाग तक विशेषहीन विशेषहीन होता चला गया है ॥ ११० ॥

१ ताप्रती ' उक्कस्सेण [सागरोवमसदस्स] सागरोवम ' इति पाठः ।

एत्थ अपज्जत्तसद्दो असण्णिपंचिदियादिसु पादेक्कमहिसंवंधणिज्जो, तस्संवधेण विणा पउणरुत्तियप्पसंगादो । असण्णिपंचिदियअपज्जत्तप्पहुडि जाव वीइंदियअपज्जत्तो त्ति ताव एदेसिं ट्टिदीयो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणाओ । वादरेइंदियअपज्जत्त-सुहुमेइंदिय-पज्जत्तापज्जत्ताणमुक्कस्साउट्टिदीयो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणूणसागरोवममेत्ताओ । सेसं सुगमं । एवमणंतरोवणिधा समत्ता ।

परंपरोवणिधाए पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं पज्जत्तयाणं अट्टणं कम्माणं जं पढमसमए पदैसग्गं तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणहीणा, एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव उक्कस्सिया ट्टिदी त्ति ॥ १११ ॥

विसेसहीणकमेण गच्छंता णिसेगा किं कथं वि दुगुणहीणा जादा त्ति पुच्छिदे असंखेज्जगोवुच्छविसेसे गंतूण दुगुणहीणा जादा त्ति जाणावणट्ठं परंपरोवणिधा आगदा । पढमणिसेगादो प्पहुडि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणहीणा त्ति वयणेण कम्मट्टिदिअमंतरे असंखेजाओ दुगुणहाणीयो अत्थि त्ति णव्वदे । तं जहा—पलिदोवमस्स

सूत्रमें प्रयुक्त अपर्याप्त शब्दका सम्यन्ध असंज्ञी पंचेन्द्रिय आदिक जीवोंमेंसे प्रत्येकके साथ करना चाहिये, क्योंकि, उसका सम्यन्ध न करनेसे पुनरुक्ति दोषका प्रसंग आता है । असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकसे लेकर द्वीन्द्रिय अपर्याप्तक तक इन जीवोंकी स्थितियाँ पल्योपमके संख्यातवें भागसे हीन हैं । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक और सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक व अपर्याप्तक जीवोंकी उत्कृष्ट स्थितियाँ पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन सागरोपम प्रमाण हैं । शेष कथन सुगम है । इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई ।

परम्परोपनिधाकी अपेक्षा सज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आठ कर्मोंका जो प्रथम समयमें प्रदेशाग्र है उससे पल्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर दुगुणहीन है, इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक दुगुणहीन दुगुणहीन होता चला गया है ॥ १११ ॥

विशेषहीनताके क्रमसे जाते हुए निपेक कहींपर दुगुण हीन भी हो जाते हैं अथवा नहीं होते हैं, पेसा पूछनेपर उत्तरमें कहते हैं कि असंख्यात गोपुच्छविशेष जाकर वे दुगुण हीन हो जाते हैं, इस बातके द्वापनार्थ परम्परोपनिधाका अवतार हुआ है । प्रथम निपेकसे लेकर पल्योपमके असंख्यात बहुभाग जाकर दुगुण हीन होते हैं, इस वचनसे कर्मस्थितिके भीतर असंख्यात दुगुणहानिया हैं, यह जाना जाता है । यथा—

१ पल्लासंखियभागं गतु दुगुणूणमेवमुक्कोसा । नाणतराणि पल्लस्स मूलभागो असंखतमो ॥ क. प्र. १, ८४. २ अ-आ-का प्रतिपु 'भागे' इति पाठः ।

असंखेज्जदिभागं गंतुण जदि एगा दुगुणहाणिसलागा लब्भदि तो कम्मट्टिदिअब्भंतरसंखेज्ज-
 पलिदोवमेषु केत्तियाओ दुगुणहाणिसलागाओ लभामो त्ति पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण
 कम्मट्टिदीए ओवट्टिदाए पलिदोवमरस असंखेज्जदिभागो उवलब्भदि त्ति आवाधुणकम्मट्टिदीए
 एगगुणहाणीए भागे हिदाए रूव्वणणाणागुणहाणिसलागाओ एक्किस्से गुणहाणिसलागाए
 असंखेज्जा भागा च आगच्छंति । कुदो ? णाणागुणहाणिसलागाहि कम्मट्टिदीए ओवट्टिदाए
 एगगुणहाणी आगच्छदि त्ति गुरूवदेसादो । तम्हा सव्वकम्माणं णाणागुणहाणि-
 सलागाओ सच्छेदाओ होंति । अद्धगुणहाणिणा आवाधाऊणकम्मट्टिदीए ओवट्टिदाए
 जदि अच्छेदरासी आगच्छदि तो णाणागुणहाणिसलागाहि सयलकम्मट्टिदीए
 ओवट्टिदाए सादिरेयगुणहाणिअद्धाणमागच्छदि । कुदो ? णाणागुणहाणिसलागाहि
 अहियावाहाए ओवट्टिदाए एगरूवस्स असंखेज्जदिभागुवलंभादो । ण च णाणागुणहा-
 णिसलागाणं गुणहाणिअद्धाणस्स वा सच्छेदत्तं, तहोवएसाभावादो । तम्हा गुणहाणिणा
 आवाहूणकम्मट्टिदीए ओवट्टिदाए णाणागुणहाणिसलागाओ आगच्छंति । पुणो ताहि
 वि ताए ओवट्टिदाए एगगुणहाणिअद्धाणमागच्छदि त्ति वेत्तव्वं । एत्थ गुणहाणि-
 अद्धाणं सव्वकम्माणमवट्टिदं । कुदो ? अण्णोण्णव्भत्थरासीणं विसरिसत्तच्चुवगमादो । तदो

पल्पोपमके असंख्यातवें भाग जाकर यदि एक दुगुणहानिशलाका प्राप्त होती है तो कर्म-
 स्थितिके भीतर असंख्यात पल्पोपमोंमें कितनी दुगुणहानिशलाकायें प्राप्त होंगी, इस
 प्रकार पल्पोपमके असंख्यातवें भागसे कर्मस्थितिको अपवर्तित करनेपर पल्पोपमका
 असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है । अत एव आवाधासे हीन कर्मस्थितिमें एक गुणहानिका
 भाग देनेपर एक कम नानागुणहानिशलाकायें और एक गुणहानिशलाकाके असंख्यात
 बहुभाग आते हैं, क्योंकि, नानागुणहानिशलाकाओंका कर्मस्थितिमें भाग देनेपर एक
 गुणहानि लब्ध होती है, ऐसा गुरूका उपदेश है । इस कारण सब कर्मोंकी नानागुण-
 हानिशलाकायें सच्छेद होती हैं । अर्ध गुणहानिका आवाधासे हीन कर्मस्थितिमें भाग
 देनेपर यदि अछेद् राशि प्राप्त होती है, (ऐसा अभीष्ट है) तो नानागुणहानिशलाकाओंका
 समस्त कर्मस्थितिमें भाग देनेपर साधिक गुणहानि अध्वान आता है, क्योंकि, नानागुणहा-
 निशलाकाओंसे अधिक आवाधाको अपवर्तित करनेपर एक रूपका असंख्यातवां भाग पाया
 जाता है । परन्तु नानागुणहानिशलाकायें अथवा गुणहानिअध्वान सच्छेद नहीं हैं, क्योंकि,
 वैसा उपदेश नहीं है । इस कारण आवाधासे हीन कर्मस्थितिमें गुणहानिका भाग देनेपर
 नानागुणहानिशलाकायें प्राप्त होती हैं । पश्चात् उनके द्वारा उसीको अपवर्तित करनेपर
 एक गुणहानि अध्वान आता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । यहां सब कर्मोंका गुणहानि-
 अध्वान अवस्थित है, क्योंकि, अन्योन्याम्यस्त राशियां विसदृश स्वीकार की गई हैं ।

१ ताप्रतौ 'एगा गुणहाणि-' इति पाठः । २ अ-आ काप्रतिपु 'आवाहाण' इति पाठः ।

णामा-गोदणाणागुणहाणिसलागाहितो चटुणं कम्माणं णाणागुणहाणिसलागाओ दुभागा-
हियाओ । मोहणीयस्स णाणागुणहाणिसलागाओ आहुट्टगुणाओ । आउअस्स णाणागुण-
हाणिसलागाओ णामा-गोदणाणागुणहाणिसलागाण संखेज्जदिभागमेत्तीयो । एवमसण्णीण-
मट्टण कम्माण पि तेरासियं काऊण णाणागुणहाणिसलागाओ उप्पाएयव्वाओ ।
असण्णीणमुक्कस्सट्टिदिवंधो^१ पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागमेत्तो । गुणहाणिअद्धाणं पि
पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागमेत्तं चेव । किंतु गुणहाणिअद्धाणादो असण्णीणं उक्कस्साउ-
ट्टिदिवंधो असंखेज्जगुणो^२ ति एत्थ वि असंखेज्जाओ णाणागुणहाणिसलागाओ लब्भंति ति
वेत्तव्वं । एवमसण्णिपंचिंदियपज्जत्तणाणावरणादीणं णाणागुणहाणिसलागाओ तेरासिएण
आणेदव्वाओ ।

सपहि एत्थ णाणागुणहाणिसलागाणं गुणहाणीए च पमाणपरूवणट्टमुत्तरसुत्तं भणदि-

एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरं असंखेज्जाणि पलिदो-

वमवग्गमूलाणि^३ ॥ ११२ ॥

एत्थ पलिदोवमस्स वग्गमूलमिदिवुत्ते पलिदोवमपढमवग्गमूलस्सेव ग्रहणं कायव्वं, ण
विदियादीण; पलिदोवमस्स वग्गमूले ग्रहिदे पढमवग्गमूलस्सेव उप्पत्तिदंसणादो । ताणि च

इस कारण नाम व गोत्रकी नानागुणहानिशलाकाओंकी अपेक्षा चार कर्मोंकी नानागुण-
हानिशलाकायें द्वितीय भागसे अधिक हैं । मोहनीयकी नानागुणहानिशलाकायें उनसे
साढेतीन गुणी हैं । आयुकर्मकी नानागुणहानिशलाकायें नाम-गोत्रकी नानागुणहानिशलाका-
ओंके संख्यातवें भाग प्रमाण है ।

इसी प्रकार असंखी जीवोंके आठों कर्मोंकी नानागुणहानिशलाकाओंको त्रैराशिक
करके उत्पन्न कराना चाहिये । असंखी जीवोंके आयुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पल्योपमके
असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है । गुणहानिअध्वान भी पल्योपमके असंख्यातवें भाग
प्रमाण ही है । किन्तु गुणहानिअध्वानसे असंखी जीवोंके आयुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध
असंख्यातगुणा होता है, अतएव यहाँ भी असंख्यात नाना गुणहानिशलाकायें पायी जाती हैं,
ऐसा ग्रहण करना चाहिये । इसी प्रकार असंखी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके ज्ञानावरणादिक
कर्मोंकी नानागुणहानिशलाकाओंको त्रैराशिक द्वारा ले आना चाहिये ।

अब यहाँ नानागुणहानिशलाकाओं और गुणहानिके प्रमाणकी प्ररूपणाके लिये
आगेका सूत्र कहते हैं—

एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है ॥ ११२ ॥

यहाँ 'पल्योपमका वर्गमूल' ऐसा कहनेपर पल्योपमके प्रथम वर्गमूलका ग्रहण
करना चाहिये, द्वितीयादि वर्गमूलोका नहीं, क्योंकि, पल्योपमके प्रथम वर्गमूलको ग्रहण
करनेपर प्रथम वर्गमूलकी ही उत्पत्ति देखी जाती है । वे वर्गमूल असंख्यात हैं, क्योंकि,

१ अ-आ काप्रतिषु 'मुक्कस्साउट्टिदिवंधो' इति पाठः । २ अ-आ-काप्रतिषु 'उक्कस्साउट्टिदिवंधो
असंखेज्जगुणा' इति पाठः । ३ एकस्मिन् द्विगुणवृद्धयोरन्तरे स्थितिस्थानानि पल्योपमवर्गमूलान्यसंखेयानि ।
फ. प्र. (मलय.) १,८८

पढमवगमृलाणि असंखेज्जाणि, णाणागुणहाणिसलागाहि कम्मट्टिदीए ओवट्टिदाए गुणहाणिपमाणुप्पत्तीदो । एसा गुणहाणी सव्वकम्माणं सरिसा; कम्मट्टिदिभागहारभूद- णाणागुणहाणिसलागाणं कम्मट्टिदिपडिभागेण पमाणत्तुवलंभादो ।

णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि पलिदोवमवगमूलस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ११३ ॥

एत्थ मोहणीयस्स णाणागुणहाणिसलागाओ पलिदोवमस्स किंचूणद्धच्छेदनयमेत्ताओ । तं कथं णव्वदे ? चरिमगुणहाणिदव्वादो पढमणिसेयो असंखेज्जगुणो त्ति पदेसविरइयअप्पा- वहुगादो । णाणावरणादीणं पुण णाणागुणहाणिसलागाओ पलिदोवमपढमवगमूलअद्धच्छेद- णेहिंतो थोवाओ । कुदो ? एदाओ विरलिय विगं करिय अण्णोण्णभत्थे कदे असंखेज्ज- पलिदोवमविदियवगमूलुप्पत्तीदो । तं पि कुदो णव्वदे ? मोहणीयणाणागुणहाणिसलागाणं दो-तिणिण-सत्तभागोसु विसेसाहियविदियवगमूलछेदाणुवलंभादो ।

नानागुणहानिशलाकाओंका कर्मस्थितिमें भाग देनेपर गुणहानिका प्रमाण प्राप्त होता है । यह गुणहानि सब कर्मोंकी समान है, क्योंकि, कर्मस्थितिके भागहारभूत नानागुणहानि- शलाकाओंका प्रमाण कर्मस्थितिप्रतिभागसे पाया जाता है ।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पल्योपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ॥ ११३ ॥

यहां मोहनीयकी नानागुणहानिशलाकायें पल्योपमके कुछ कम अर्धच्छेदोंके बराबर हैं ।

शंका—वह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—वह 'अन्तिम गुणहानिके द्रव्यसे प्रथम निषेक असंख्यातगुणा है' इस प्रदेशविरचित अल्पबहुत्वसे जाना जाता है ।

परन्तु ज्ञानावरणादिकोंकी नानागुणहानिशलाकायें पल्योपम सम्बन्धी प्रथम वर्गमूलके अर्धच्छेदोंसे स्तोक हैं, क्योंकि, इनका विरलन कर द्विगुणित करके परस्पर गुणा करनेपर पल्योपमके असंख्यात द्वितीय वर्गमूल उत्पन्न होते हैं ।

शंका—वह भी कहांसे जाना जाता है ?

समाधान—चूंकि मोहनीयकी नानागुणहानिशलाकाओंके दो-तीन सात भागोंमें विशेष अधिक द्वितीय वर्गमूलके अर्धच्छेद पाये जाते हैं, अतः इसीसे उतने द्वितीय वर्गमूलोंकी उत्पत्तिका ज्ञान होता है ।

१ नानाद्विगुणवृद्धिस्थानानि चागुलवर्गमूलच्छेदनकासख्येयतमभागप्रमाणानि । एतदुक्तं भवति — अंगुलमात्रक्षेत्रगतप्रदेशराशेर्यत् प्रथमं वर्गमूलं तन्मनुष्यप्रमाणहेतुराशिषणवतिच्छेदनविधिना तावच्छिद्यते यावद् भाग न प्रयच्छति । तेषां च छेदनकानामसंख्येयतमे भागे यावन्ति छेदकानि तावत्सु यावानाकाश- प्रदेशराशिस्तावत्प्रमाणानि नानाद्विगुणस्थानानि भवन्ति । क. प्र. (मलय) १,८८. २ ताप्रतौ ' पलिदो- वमस्स त्रिदिय ' इति पाठः ।

णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि थोवाणि ॥ ११४ ॥

कुदो ? थोव्वणपलिदोवमद्धच्छेदणयपमाणत्तादो थोव्वणपलिदोवमपढमवग्गमूलच्छेद-
णयमेत्तादो ।

एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ ११५ ॥

को गुणगारो ? असंखेज्जाणि पलिदोवमपढमवग्गमूलाणि ।

पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणमपज्जत्तयाणं चउरिंदिय-तीइंदिय-
वीइंदिय-एइंदिय-वादर-सुहुमपज्जत्तापज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणमाउव-
वज्जाणं जं पढमसमए पदेसग्गं तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-
भागं गंतूण दुगुणहीणा, एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव
उक्कस्सिसया ट्ठिदि ति ॥ ११६ ॥

एत्थ जधा सण्णिपज्जत्तणाणावरणादीण परूवणा कदा तथा कायव्वा । णवरि एत्थ
अप्पणो ट्ठिदीणं पमाणं जाणिदुण वत्तव्वं ।

एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जाणि पलिदोवमवग्ग-
मूलाणि ॥ ११७ ॥

सुगमभेदं ।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर स्तोके हैं ॥ ११४ ॥

कारण यह कि वे पत्योपमके कुछ कम अर्धच्छेदोंके बराबर होनेसे पत्योपमके
प्रथम वर्गमूलके अर्धच्छेदोंसे कुछ कम हैं ।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ ११५ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल हैं ।

संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय तथा
एकेन्द्रिय वादर व सूक्ष्म इन पर्याप्तक अपर्याप्तक जीवोंके आयुको छोड़ शेष सात कर्मोंका
जो प्रदेशाग्र प्रथम समयमें है उससे पत्योपमके असंख्यातवे भाग जाकर वह दुगुणहीन
हो जाता है, इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक वह दुगुणहीन दुगुणहीन होता जाता है ॥ ११६ ॥

यहां जैसे संज्ञी पर्याप्तकके ज्ञानावरणादिकोंकी प्ररूपणा की गई है वैसे ही करना
चाहिये । विशेषता इतनी है कि यहां अपनी स्थितियोंका प्रमाण जानकर कहना चाहिये ।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पत्योपमके असंख्यात वर्गमूलोंके बराबर है ॥ ११७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ११८ ॥

एदं पि सुगमं ।

णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि थोवाणि ॥ ११९ ॥

गुणहाणिणा कम्मट्टिदीए ओवट्टिदाए तेसिमुपत्तिदंसणादो ।

एयपदेसगुणहाणिट्टाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १२० ॥

को गुणगारो ? असंखेजाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि । एवं परम्परोवणिधा समत्ता ।

संपहि सेट्ठिपस्वणाए सूचिदानमवहार-भागाभाग-अप्पावहुआणियोगद्वाराणं पस्वणं कस्सामो । तं जहा—सव्वासु ट्टिदीसु पदेसगं पढ्माए ट्टिदीए पदेसपमाणेण केवचिरेण कालेण अवहिरिज्जदि ? दिवहुगुणहाणिट्टाणंतरेण कालेण अवहिरिज्जदि । एदस्स कारणं बुच्चदे । तं जहा—विदियादिगुणहाणिदच्चे पढ्मगुणहाणिदच्वपमाणेण कदे चरिमगुणहाणि-

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पल्योपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ॥ ११८ ॥
यह सूत्र भी सुगम है ।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं ॥ ११९ ॥

कारण कि गुणहानि द्वारा कर्मस्थितिको अपवर्तित करनेपर उनकी उत्पत्ति देखी जाती है ।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १२० ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमके असंख्यात वर्गमूल हैं । इस प्रकार परम्परोप-निधा समाप्त हुई ।

अव श्रेणिप्ररूपणा द्वारा सूचित अवहार, भागाभाग और अल्पवहुत्व अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—सव स्थितियोंका प्रदेशपिण्ड प्रथम स्थितिके प्रदेशपिण्डके प्रमाण द्वारा कितने कालसे अपहृत होता है ? उक्त प्रमाणके द्वारा वह डेढ़ गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है । इसका कारण वतलाते हैं । वह इस प्रकार है—द्वितीयादिक गुणहानियोंके द्रव्यको प्रथम गुणहानिके द्रव्यप्रमाणसे करनेपर वह अन्तिम गुणहानिके द्रव्यसे रहित प्रथम गुणहानिका द्रव्य होता है । उसका प्रमाण यह है—

द्वि गु	१२८	१२०	११२	१०४	९६	८८	८०	७२
तु "	६४	६०	५६	५२	४८	४४	४०	३६
च. "	३२	३०	२८	२६	२४	२२	२०	१८
प "	१६	१५	१४	१३	१२	११	१०	९
योग	२४०	२२५	२१०	१९५	१८०	१६५	१५०	१३५
अन्तिम								
गुण	१६	१५	१४	१३	१२	११	१०	९
प्रथम								
गुण.	२५६	२४०	२२४	२०८	१९२	१७६	१६०	१४४

द्वेषूणपढमगुणहाणिद्वं होदि । तस्स पमाणमेदं २४० । २२५ । २१० । १९५ । १८० । १६५ । १५० । १३५ । चरिमगुणहाणिद्वपमाणमेदं १६ । १५ । १४ । १३ । १२ । ११ । १० । ९ । एदम्मि दवे पुव्वदव्वम्हि पक्खित्ते पढमगुणहाणिद्वपमाणं होदि । २५६ । २४० । २२४ । २०८ । १९२ । १७६ । १६० । १४४ । पुणो एदं पढमगुणहाणिद्वं दोखडे काढूण तत्थ एगखंडमधोसिरं करिय विदियखंडपासे ठविदे एत्तियं होदि । २०० । २०० । २०० । २०० । २०० । २०० । २०० । २०० । एदस्स पमाणं पढमणिसेयस्स तिण्णि-चदुब्भागा सादिरेया । पुणो एत्थ सादिरेये अवणिदे सुद्धा पढमणिसेयस्स तिण्णि-चदुब्भागा चेव चेदंति । तेसिं पमाणमेदं १९२ । १९२ । १९२ । १९२ । १९२ । १९२ । १९२ । सादिरेयं पि एदं ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । पढमगुणहाणिद्वे वि समकरणे कीरमाणे पढमणिसेगस्स तिण्णिचदुब्भागा सादिरेया होति । पुणो तेसु चदुब्भागे अवणिदे सेसं बे-चदुब्भागपमाण-मेत्तियं होदि १२८ । १२८ । १२८ । १२८ । १२८ । १२८ । १२८ । १२८ । १२८ । सेसचदुब्भागपमाणमेदं ६४ । ६४ । ६४ । ६४ । ६४ । ६४ । ६४ । ६४ । पुणो इमं चदुब्भागं घेतूण पुव्विल्लतिण्णि-चदुब्भागेषु पक्खित्ते गुणहाणिमेत्तपढमणिसेया होंति । तेसिं पमाणमेदं २५६ । २५६ । २५६ । २५६ । २५६ । २५६ । २५६ । २५६ । पुणो पढमणिसेयस्स अद्वाणि गुणहाणिमेत्ताणि अत्थि । ताणि पढमणिसेयपमाणेण कदे गुणहाणीए अद्दमेत्ता पढमणिसेया होंति । तेसिं पमाणमेदं २५६ । २५६ । २५६ ।

अन्तिम गुणहानिके द्रव्यका प्रमाण यह है । इस द्रव्यको पूर्व द्रव्यमें मिलानेपर प्रथम गुणहानिके द्रव्यका प्रमाण होता है । (संदृष्टिमें देखिये) । पुनः प्रथम गुणहानिके इस द्रव्यके दो खण्ड करके उनमेंसे एक खण्डको अधःशिर करके द्वितीय खण्डके पार्श्वमें स्थापित करनेपर इतना है— $२००+२००+२००+२००+२००+२००+२००+२००=१६००$ । इसका प्रमाण प्रथम निषेकके तीन चतुर्थ भाग ($\frac{३}{४}$) से कुछ (८) अधिक होता है । इसमेंसे अधिकताके प्रमाणको कम कर देनेपर अवशिष्ट प्रथम निषेकके शुद्ध तीन चतुर्थ भाग ही रहते हैं— $(२००-८=) १९२, १९२, १९२, १९२, १९२, १९२, १९२, १९२$, साधिकताका भी प्रमाण यह है— $८, ८, ८, ८, ८, ८, ८, ८$ । प्रथम गुणहानिके द्रव्यका भी समकरण करनेपर $(१६००-८=२००)$ वह प्रथम निषेकके साधिक (८) तीन चतुर्थ भाग प्रमाण होता है । फिर उनमेंसे एक चतुर्थ भागको अलग कर देनेपर शेष दो चतुर्थ भागोंका प्रमाण इतना होता है— $\left[१९२-६४=१२८=\frac{२५६ \times २}{४} \right] १२८, १२८, १२८, १२८, १२८, १२८, १२८, १२८$ ।

अवशेष चतुर्थ भागका प्रमाण यह है— $६४, ६४, ६४, ६४, ६४, ६४, ६४, ६४$ । अब इस चतुर्थ भागको ग्रहण करके पूर्वके तीन चतुर्थ भागोंमें मिला देनेपर गुणहानिके बराबर प्रथम निषेक होते हैं । उनका प्रमाण यह है— $(१९२+६४=२५६, २५६, २५६, २५६, २५६, २५६, २५६, २५६)$ । प्रथम निषेकके अर्ध भाग गुणहानिके बराबर अर्थात् आठ हैं $(२ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २=२५६)$ । उनको प्रथम निषेकके प्रमाणसे करनेपर गुणहानिके अर्ध भाग प्रमाण

२५६ । पुणो एदे^१ गुणहाणिअद्धमेत्तपढमणिसेगे घेतूण गुणहाणिमेत्तपढमणिसैंगेसु पक्खित्तैसु दिवङ्गुणहाणिमेत्तपढमणिसेया होति २५६ । १२ । पुणो सेसअधियदव्वे वि पढमणिसेयपमाणेण कदे तस्सद्धमेत्तं होदि १२८ । पुणो एदमप्पहाणं कादूण पढमणिसेगेण दिवङ्गुणहाणीए गुणिदाए सव्वदव्वमेत्तियं होदि ३०७२ । पुणो एदमिहं दिवङ्गुणहाणीए १२ । भागे हिदे पढमणिसेयो आगच्छदि । एव^३ पढमणिसेयपमाणेण सव्वदव्वं दिवङ्गुणहाणिट्ठाणंतरेण कालेण अवहिरिज्जदि त्ति सिद्धं ।

विदियाए द्विदीए पदेसग्गपमाणेण सव्वट्ठिदिपदेसग्गं केवचिरेण कालेण अवहिरिज्जदि ? सादिरेयदिवङ्गुणहाणिट्ठाणंतरेण कालेण । तं जहा—दिवङ्गुणहाणीयो विरलेदूण सव्वदव्वं समखंडं कादूण दिण्णे एक्केक्कस्स स्वस्स पढमणिसेयपमाणं पावदि । पुणो हेट्ठा णिसेगभागहारं विरलेदूण उवरिमैगस्वधरिदं समखंडं कादूण दिण्णे विरलणस्व पडि एगेग-गोबुच्छविसेसपमाणं पावदि । पुणो एदेण पमाणेण उवरिमसव्वस्वधरिदेसु अवणिदेसु दिवङ्गुणहाणिमेत्तगोबुच्छविसेसा अधिया होति । पुणो उव्वरिदव्वं^४ पि दिवङ्गुणहाणिमेत्तविदियणिसेयपमाणं होदि । पुणो अधियगोबुच्छविसेसे विदियणिसेयपमाणेण कस्सामो ।

प्रथम निषेक होते हैं । उनका प्रमाण यह है—२५६, २५६, २५६, २५६ । पश्चात् गुणहानिके अर्ध भाग प्रमाण इन प्रथम निषेकोंको ग्रहण करके गुणहानिके बराबर प्रथम निषेकोंमें मिला देनेपर डेढ़ गुणहानि प्रमाण प्रथम निषेक होते हैं—२५६×१२ । अवशिष्ट अधिक द्रव्यको भी प्रथम निषेकके प्रमाणसे करनेपर वह उसके अर्ध भागके बराबर होता है १२८ । अब इसको गौण करके प्रथम निषेकसे डेढ़ गुणहानिको गुणित करनेपर सब द्रव्य इतना होता है—२५६×१२=३०७२ । इसमें डेढ़ गुणहानिका (१२) भाग देनेपर प्रथम निषेक प्राप्त होता है । इस प्रकार प्रथम निषेकके प्रमाणसे सब द्रव्य डेढ़ गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है, यह सिद्ध होता है ।

द्वितीय स्थिति सम्बन्धी प्रदेशाग्रके प्रमाणसे सब स्थितियोंका प्रदेशपिण्ड कितनेकालसे अपहृत होता है ? वह साधिक डेढ़ गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है । यथा—डेढ़ गुणहानियोंको विरलित करके सब द्रव्यको समखण्ड करके देनेपर एक एक अंकके प्रति प्रथम निषेकका प्रमाण प्राप्त होता है (३०७२-१२=२५६) । इसके नीचे निषेकभागहारका विरलन कर उपरिम एक अंकके प्रति प्राप्त राशिको समखण्ड करके देनेपर विरलन अंकके प्रति एक एक गोबुच्छविशेषका प्रमाण प्राप्त होता है (२५६-१६=१६) । इस प्रमाणसे ऊपरकी सब एक अंकके प्रति प्राप्त राशियोंका अपनयन करनेपर डेढ़ गुणहानि प्रमाण गोबुच्छविशेष अधिक होते हैं (१६×१२=१९२) । अवशिष्ट द्रव्य भी डेढ़ गुणहानि मात्र द्वितीय निषेकके बराबर होता है (२४०×१२=२८८०) ।

१ ताप्रतौ 'एदेण' इति पाठः । २ ताप्रतौ 'एदं' इति पाठः । ३ प्रतिपु 'एद' इति पाठः । ४ आप्रतौ 'उवरिदव्वं', ताप्रतौ 'उवरि दव्वं' इति पाठः ।

तं जहा—१६।१५।१।१६।१२ खूवणणिसेयभागहारमेत्तगोबुच्छविसेसे घेतूण जदि एग विदियणिसेयपमाणं लब्भदि, तो दिवङ्गुणहाणिमेत्तगोबुच्छविसेसे किं लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए संदिट्ठीए चत्तारि पंचभागा होंति ४।५। पुणो एदं दिवङ्गुणहाणीसु सरिसच्छेदं^१ कादृण पक्खित्ते एत्तियं होदि ६४।५।^२ पुणो एदेण सव्वदव्वे भागे हिदे विदियणिसेगो आगच्छदि ।

तदियाए ट्टिदीए पदेसग्गपमाणेण सव्वट्टिदिपदेसग्गं केवचिरेण कालेण अवहिरि-ज्जदि ? सादिरैयखूवाहियदिवङ्गुणहाणिट्ठाणंतरेण कालेण अवहिरिज्जदि १६।१४।१। १६।२४। दोखूवणणिसेयभागहारमेत्तगोबुच्छविसेसेहितो जदि एगं तदियणिसेयपमाणं लब्भदि तो तिण्णिगुणहाणिमेत्तगोबुच्छविसेसेसु केवडिए तदियणिसेगे लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए एत्तियं होदि १।५।७। पुणो एदम्मि दिवङ्गुणहाणिम्मि पक्खित्ते एत्तियं होदि ९६।७ पुणो एदेण सव्वदव्वे भागे हिदे तदियणिसेयो आगच्छदि । एव जाणिद्वण उवरि णेदव्वं जाव पढमगुणहाणीए अद्धं गदं ति ।

अब अधिक गोपुच्छविशेषोंको द्वितीय निपेकके प्रमाणसे करते हैं। यथा—एक कम निपेकभागहार प्रमाण गोपुच्छविशेषोंको ग्रहण कर यदि एक द्वितीय निपेकका प्रमाण पाया जाता है, तो डेढ़ गुणहानि प्रमाण गोपुच्छविशेषोंमें कितना द्वितीय निपेकका प्रमाण प्राप्त होगा, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर वह पाँच भागोंमेंसे चार भाग ($\frac{४}{५}$) प्रमाण होता है।

उदाहरण—यहा निपेकभागहारका प्रमाण १६ और गोपुच्छविशेषका प्रमाण भी १६ है, अतः निम्न प्रकार त्रैराशिक करनेपर उपर्युक्त प्रमाण प्राप्त होता है—
 $\frac{१६}{५} \times \frac{१६}{५} = \frac{२५६}{५} = (\frac{२५६}{५} \times \frac{५}{५}) = १९२ ।$

पुन. इसको समच्छेद करके डेढ़ गुणहानियोंमें मिलानेपर इतना होता है— $१६ + \frac{४}{५} = \frac{८४}{५}$ । इसका सव द्रव्यमें भाग देनेपर द्वितीय निपेक प्राप्त होता है— $३०७२ - \frac{८४}{५} = २४० ।$

तृतीय स्थिति समन्धी प्रदेशाग्रप्रमाणसे सव स्थितियोंका प्रदेशाण्ड कितने कालसे अपहत होता है ? वह साधिक एक अंकसे अधिक डेढ़ गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहत होता है। दो रूपोंसे कम निपेकभागहार प्रमाण गोपुच्छविशेषोंसे यदि एक तृतीय निपेक प्राप्त होता है, तो तीन गुणहानियोंके बराबर गोपुच्छविशेषोंमें कितने तृतीय निपेक प्राप्त होंगे, इस प्रकार फलगुणित इच्छामें प्रमाणका भाग देनेपर इतना होता है—

उदाहरण—निपेकभागहार १६, गोपुच्छ १६, $१६ - २ = १४$, $\frac{३५४}{५} = १५ ।$

इसको डेढ़ गुणहानियोंमें मिला देनेपर इतना होता है— $१२ + \frac{१५}{५} = \frac{३९}{५}$ । अब इसका समस्त द्रव्यमें भाग देनेपर तृतीय निपेक आता है $३०७२ - \frac{३९}{५} = २२४ ।$ इस प्रकार जानकर प्रथम गुणहानिका अर्ध भाग समाप्त होने तक ले जाना चाहिये ।

पुणो उवरिमणिसेयपमाणेण सव्वट्ठिदिपदेसग्गं केवचिरेण कालेण अवहिरिज्जदि ? वेगुणहाणिट्ठाणंतरेण कालेण । तं जहा—दिवङ्कुणहाणिक्वेत्तं पढमणिसेगविक्खभेण चत्तारि फालीयो कादूण पुणो तत्थ चउत्थफालिं घेत्तूण गुणहाणिअद्धपमाणेण तिण्णि खंडाणि कादूण परावत्तिय तिण्णं फालीणं पासे ठविदेसु वेगुणहाणीयो होंति

☐☐☐ अथवा, तेरासियकमेण आणेदव्वं । तं जहा—१६ । १२ । १ । १६ । १२ । ४ । णिसेयभागहारस्स तिण्णि-चदुब्भागमेत्तविसेसे घेत्तूण जदि एगं तदित्थ-णिसेयपमाणं लब्भदि तो आयामेण दिवङ्कुणहाणिविक्खंभेण णिसेयभागहारचदु-ब्भागमेत्तविसेसेसु किं लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्ठिदाए गुणहाणीए अद्धभागच्छदि ४ । पुणो एदम्मि दिवङ्कुणहाणिम्मि पक्खित्ते दोगुणहाणीयो भवंति १६ । पुणो एदाहि सव्वदव्वे भागे हिदे तदित्थणिसेयो आगच्छदि । तदुवरि भागहारे वुच्चमाणे सादिरिय-वे-गुणहाणीयो वत्तवाओ । एव णेदव्वं जाव पढमगुणहाणिचरिमसमओ त्ति । पुणो विदियगुणहाणिपढमणिसेयपमाणेण सव्वदव्वे अवहिरिज्जमाणे केवचिरेण कालेण अवहिरिज्जदि ? तिण्णि गुणहाणिट्ठाणंतरेण कालेण । तं जहा— दिवङ्कुणहाणिक्वेत्तं ठविय ☐☐ अद्धेण

उससे अग्रिम निषेकके प्रमाणसे सब स्थितियोंका प्रदेशात्र कितने कालमें अपहृत होता है ? उक्त प्रमाणसे वह दोगुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है । यथा— डेढ़ गुणहानि मात्र क्षेत्रकी प्रथम निषेकके विस्तारप्रमाणसे चार फालियां करके पश्चात् उनमेंसे चतुर्थ फालिको ग्रहण कर गुणहानिके अर्ध प्रमाणसे तीन खण्ड करके परिवर्तन-पूर्वक तीन फालियोंके पार्श्व भागमें स्थापित करनेपर दो गुणहानियां होती हैं । (संघट्टि मूलमें देखिये ।)

अथवा, त्रैराशिकक्रमसे इसे ले थाना चाहिये । यथा—निषेकभागहारके तीन चतुर्थ भाग मात्र विशेषोंको ग्रहण करके यदि वहांके एक निषेकका प्रमाण पाया जाता है, तो आयाम (?) व डेढ़ गुणहानि विष्कम्भसे निषेकभागहारके चतुर्थ भाग मात्र विशेषोंमें वह कितना प्राप्त होगा, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर गुणहानिका अर्ध भाग आता है ।

फिर इसको डेढ़ गुणहानियोंमें मिलानेपर दो गुणहानियां (१६) होती हैं । इनका सब द्रव्यमें भाग देनेपर वहाके निषेकका प्रमाण लब्ध होता है । उससे आगेके भागहारका कथन करनेपर साधिक दो गुणहानिया कहना चाहिये । इस प्रकार प्रथम गुणहानिके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये ।

द्वितीय गुणहानि सम्बन्धी प्रथम निषेकके प्रमाणसे सब द्रव्यको अपहृत करनेपर वह कितने कालसे अपहृत होता है ? उक्त प्रमाणसे वह तीन गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है । यथा—डेढ़ गुणहानि प्रमाण क्षेत्रको स्थापित करके (संघट्टि मूलमें देखिये) अर्ध

पाडिय विदिअद्धस्सुवरि ठविदे तिण्णिगुणहाणीयो होंति । अधवा, दिवङ्गुणहाणीयो ठवेदूण एगगुणहाणिं चडिय इच्छामो त्ति एगस्सुवं विरलिय विगं करिय अण्णोण्णम्मथे कदे उप्पण्णरासिणा दिवङ्गुणहाणीए गुणिदाए तिण्णिगुणहाणीयो होंति । २४ । पुणो एदाहि सच्चद्वे भागे हिदे विदियगुणहाणीए पढमणिसेगो आगच्छदि ।

पुणो तिस्से चेव विदियणिसेगपमाणेण सच्चद्वं सादिरेयतिण्णिगुणहाणिट्ठाणंतरेण कालेण अवहिरिज्जदि । त जहा— ८ । १५ । १ । ८ । २४^१ रूवूणणिसेयभागहारमेत्त-गोबुच्छविसेसे धेतूण जदि एगपक्खेवसलागा लच्चदि तो तिण्णिगुणहाणिमेत्तगोबुच्छविसेसे-हिंतो केवडियाओ पक्खेवसलागाओ लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए एत्तियं होदि ८ । ५ । पुणो एदम्मि सरिसच्छेदं कादूण तिसुं गुणहाणीसु पक्खित्ते एत्तियं होदि १२८ । ५ । पुणो एदेण सच्चद्वे भागे हिदे विदियणिसेयो आगच्छदि । एवं [णेद्वं] जाव विदियगुणहाणीए अद्धं गदं ति । तदो तण्णिसेयपमाणेण सच्चद्वे अवहिरिज्जमाणे चत्तारिगुणहाणिट्ठाणंतरेण कालेण अवहिरिज्जदि । तं जहा—तिण्णिगुणहाणि-क्खेत्तं ठविय पुवं व चत्तारिफालीयो कादूण तत्थ तीहि फालीहि तदित्थणिसेओ होदि त्ति चउत्थफाली अधिया होदि । पुणो इम्महियफालिं तप्पमाणेण कस्सामो— ८ । १२ ।

भागसे फाइकर द्वितीय अर्ध भागके ऊपर रखनेपर तीन गुणहानिया होती हैं । अथवा, डेढ़ गुणहानियोंको स्थापित करके चूकि एक गुणहानि चढ़े है, अतः एक रूपका विरलन करके डिगुणित कर परस्परमें गुणित करनेपर उत्पन्न राशिसे डेढ़ गुणहानिको गुणित करनेपर तीन गुणहानिया (२४) होती हैं । अब इनका सब द्रव्यमें भाग देनेपर द्वितीय गुणहानिका प्रथम निषेक आता है ।

उसी (द्वितीय) गुणहानिके द्वितीय निषेकके प्रमाणसे सब द्रव्य साधिक तीन गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहत होता है । यथा—एक कम निषेकभागहार प्रमाण गोबुच्छ-विशेषोंको ग्रहणकर यदि एक प्रक्षेपशलाका प्राप्त है, तो तीन गुणहानि मात्र गोबुच्छविशेषोंसे कितनी प्रक्षेपशलाकायें प्राप्त होंगी ? इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर इतना होता है— $2\frac{1}{2} \times 3 = 7\frac{1}{2}$ । अब इसको समच्छेद करके तीन गुणहानियोंमें मिलानेपर इतना होता है— $24 + 6 = 30$ । इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर द्वितीय निषेक आता है— $30 \div 2 = 15$ । इस प्रकार द्वितीय गुणहानिका अर्ध भाग समाप्त होने तक ले जाना चाहिये ।

पश्चात् उसके आगेके निषेकप्रमाणसे सब द्रव्यको अपहत करनेपर वह चार गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहत होता है । यथा—तीन गुणहानि मात्र क्षेपको स्थापित कर पूर्वके ही समान चार फालियां करके उनमेंसे तीन फालियोंसे बहाका निषेक होता है । अतः चतुर्थ फालि अधिक है । अब इस अधिक फालिको उसके प्रमाणसे करते हैं—

१ अप्रतौ संदष्टिरियमग्रे 'भागहारमेत्त' इत्यतः पश्चादुपलभ्यते । २ ताप्रतौ 'तीसु' इति पाठः ।

१।८।४।२४। णिसेगभागहारतिणिण-चदुब्भागमेत्तगोवुच्छविसेसे धेतूण यदि एगो तदित्यणिसेगो लब्भदि तो एगफालिमेत्तगोवुच्छविसेसेसु किं लभामो त्ति पमाणेण फलगुणि-दिच्छाए ओवट्ठिदाए एत्तियं होदि ८। पुणो एदम्मि तिसुं गुणहाणीसु पक्खित्ते चत्तारि-गुणहाणीयो होति ३२। पुणो एदेण सव्वदव्वे^१ भागे हिदे तदित्यणिसेयो होदि। एवं जाणिद्वण पेयव्व जाव विदियगुणहाणिचरिमणिसेयो त्ति।

पुणो तदियगुणहाणिपढमणिसेयपमाणेण अवहिरिज्जमाणे छगुणहाणिट्ठाणंतरपमाणेण अवहिरिज्जदि। तं जहा—तिणिणगुणहाणिवखेत्ते मज्जे पाडिय एगअद्वस्सुवरि विदियअद्वे जोएद्वण^२ द्दुविदे छगुणहाणीयो होति। अधवा, वेगुणहाणीओ चट्ठिदाओ त्ति वे स्वे विरलिय विग करिय अण्णोण्णम्भत्ये कदे चत्तारि स्व्वाणि उप्पजंति। पुणो तेहि दिवङ्गुणहाणीए गुणिदाए भागहारो छगुणहाणिमेत्तो होदि ४८। पुणो एदाहि सव्वदव्वे^३ भागे हिदे इच्छिदणिसेयो आगच्छदि।

पुणो तिस्से गुणहाणीए विदियणिसेयपमाणेण सव्वदव्वे अवहिरिज्जमाणे सादिरेय-छगुणहाणिट्ठाणंतरेण कालेण अवहिरिज्जदि। एत्थ तेरासियकमेण लद्धपक्खेवस्व्वाणि ४८। १५। पुणो एदम्मि सरिसच्छेदं काद्वण छसु गुणहाणीसु पक्खित्ते सादिरेयछगुण-

निषेकभागहारके तीन चतुर्थ भाग मात्र गोपुच्छविशेषोंको ग्रहण कर यदि वहांका एक निषेक प्राप्त होता है, तो एक फालि मात्र गोपुच्छविशेषोंमें क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर इतना होता है—८। इसको तीन गुणहानियोंमें मिलानेपर चार गुणहानियां होती हैं— $२४+८=३२$ । इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर वहांका (द्वि० गु० हा० का पाचवां) निषेक होता है— $३०७२-३२=२६$ । इस प्रकार जानकर द्वितीय गुणहानिके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिये।

तृतीय गुणहानि सम्वन्धी प्रथम निषेकके प्रमाणसे सब द्रव्यको अपहृत करनेपर वह छह-गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है। यथा—तीन गुणहानि प्रमाण क्षेत्रको मध्यमें फाड़कर एक अर्ध भागके ऊपर द्वितीय अर्ध भागको जोड़कर स्थापित करनेपर छह गुणहानियां होती हैं। अथवा, चूंकि दो गुणहानियां चढे हैं अतः दो अकोंका विरलन करके दुगुणा कर परस्पर गुणित करनेपर चार अंक उत्पन्न होते हैं। पश्चात् उनके द्वारा डेढ़ गुणहानियोंको गुणित करनेपर भागहार छह गुणहानि प्रमाण होता है— $१२ \times ४ = ४८ = ८ \times ६$ । इनका सब द्रव्यमें भाग देनेपर अभीष्ट निषेक प्राप्त होता है— $३०७२ - ४८ = ६४$ ।

उक्त गुणहानिके द्वितीय निषेकके प्रमाणसे सब द्रव्यको अपहृत करनेपर वह साधिक छह गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है। यहां त्रैराशिकक्रमसे प्राप्त प्रक्षेप अक ये हैं—६६। इनको समच्छेद करके छह गुणहानियोंमें मिलाने पर साधिक

१ ताप्रती ' तीसु ' इति पाठः। २ अ-आ-ताप्रतिषु ' सव्वदव्वेण ' इति पाठः। ३ प्रतिषु ' लोएद्वण ' इति पाठः।

हाणीयो होंति । ७६८ । १५^१ । पुणो एदाहि सव्वदच्चे भागे हिदे विदियणिसेयो आगच्छदि । एवं जाणिदूण णेदच्चे जाव अग्गट्टिदिभागहारो ति । णवरि अग्गट्टिदिभाग-
हारो अंगुलस्स असखेज्जदिभागो असंखेज्जओसप्पिणि^२-उस्सप्पिणिमेत्तो । तस्स पमाणमेदं
३०७२ । ९^३ । एदेण समयपवच्चे भागे हिदे चरिमणिसेयो आगच्छदि । एवं भागहार-
परूवणा समत्ता ।

पढमाए ट्टिदीए पदेसग्गं सव्वट्टिदिपदेसग्गस्स केवडियो भागो ? असंखेज्जदिभागो,
दिवङ्गुणहाणीए खडिदे तत्थ एगखंडमेत्तं ति वुत्तं होदि । एव णेदच्चे जाव पढमगुणहाणि-
चरिमणिसेगो ति । विदियगुणहाणिपढमणिसेगो सव्वट्टिदिपदेसग्गस्स केवडियो भागो ?
असंखेज्जदिभागो । को पडिभागो ? तिण्णि गुणहाणीयो । एवं जाणिदूण णेदच्चे जाव
चरिमगुणहाणिचरिमणिसेगो ति । एवं भागाभागपरूवणा समत्ता ।

सव्वत्थोवं चरिमाए ट्टिदीए पदेसग्गं ९ । पढमाए ट्टिदीए पदेसग्गमसंखेज्जगुणं ।
को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता किंचूणणोण्णच्चत्थरासी । तस्स
पमाणमेदं २५६ । ९^४ । एदेण चरिमणिसेगो गुणिदे पढमणिसेगो होदि । २५६ ।

छह गुणहानिया होती है— $\frac{३३०}{१६} + \frac{१६६}{१६} = \frac{४९६}{१६} = ३१$ । इनका सब द्रव्यमें भाग देनेपर
तृतीय गुणहानिका द्वितीय निपेक आता है— $३०७२ - \frac{४९६}{१६} = ६०$ । इस प्रकार जानकर
अग्रस्थिति भागहार तक ले जाना चाहिये । विशेष इतना है कि अग्रस्थिति भागहार
अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र है जो असंख्यात अवसर्पिणी-उत्सर्पिणियोंके बराबर है ।
उसका प्रमाण यह है— $\frac{३०७२}{१६} = १९२$ । इसका समयप्रवद्धमें भाग देनेपर अन्तिम निपेक प्राप्त
होता है— $३०७२ - \frac{३९२}{१६} = ९$ । इस प्रकार भागहार प्ररूपणा समाप्त हुई ।

प्रथम स्थितिका प्रदेशपिण्ड समस्त स्थितियोंके प्रदेशपिण्डके कितनेवें भाग प्रमाण
है ? उनके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । समस्त स्थितियोंके प्रदेशपिण्डमें छेह गुणहानिका
भाग देनेपर जो प्राप्त हो (३०७२-१२=२५६) उतने मात्र वह है, यह उसका अभिप्राय है ।
इस प्रकार प्रथम गुणहानिके अन्तिम निपेक तक ले जाना चाहिये । द्वितीय गुणहानिका
प्रथम निपेक समस्त स्थितियोंके प्रदेशपिण्डके कितनेवें भाग प्रमाण है ? वह उसके
असंख्यातवें भाग प्रमाण है । प्रतिभाग क्या है ? प्रतिभाग तीन गुणहानियां हैं । इस
प्रकार जानकर अन्तिम गुणहानिके अन्तिम निपेक तक ले जाना चाहिये । इस प्रकार
भागाभाग प्ररूपणा समाप्त हुई ।

अन्तिम स्थितिका प्रदेशपिण्ड सबसे स्तोक (९) है । प्रथम स्थितिका प्रदेशपिण्ड
उससे असंख्यातगुणा है । गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र
कुछ कम अन्योन्याभ्यस्त राशि है । उसका प्रमाण यह है— $\frac{३५६}{१६}$ । इसके द्वारा अन्तिम

१ अ आ-ताप्रतिपु ७६८ । ५ । एवंविधात्र सदट्टिरस्ति । २ अप्रती ' भागो असंखेज्जाओसप्पिणि ',
आ काप्रत्यो ' भागो असंखेज्जासंखेज्जाओसप्पिणि ', ताप्रती ' भागो असंखेज्जाओ [संखेज्जाओ]
ओसप्पिणि ' इति पाठः । ३ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का ताप्रतिपु ३०७३ इति पाठः । ४ का ताप्रत्योः
२५६ । ४ । एवंविधात्र सदट्टिरस्ति ।

अजहण्णअणुक्कस्सदच्चमसंखेज्जगुणं । को गुणगारो ? सादिरेगेगच्चपरिहीणदिवह्वगुणहाणी । किं कारणं ? रूव्वणदिवह्वगुणहाणिसलागाहि पढमणिसेगे गुणिदे पढमणिमेयवदिरित्तउवरिम-सच्चट्टिदिदच्चं होदि २८१६ । पुणो एदम्मि चरिमट्टिदिदच्चंण विणा इच्छिज्जमाणे रूव्वण-दिवह्वगुणहाणीए एगरूव्वस्स असंखेज्जदिभागमवणिय पढमणिसेगे गुणिदे अजहण्णअणुक्कस्स-दच्चं होदि २८०७ । अपढमं विसेसाहियं । केत्तियमत्तो विसेसो ? उक्कस्सट्टिदिदच्चमेत्तो २८१६ । अणुक्कस्सं विसेसाहियं । केत्तियमत्तो विसेसो ? चरिमणिसेगण्णपढमणिसेगमेत्तो । सच्चासु ट्टिदीसु पदेसग्गं विसेसाहियं । केत्तियमेत्तेण ? चरिमट्टिदिदच्चमेत्तेण । एवं णिसेयपरूव्वणा समत्ता ।

आवाधकंदयपरूव्वणदाए ॥ १२१ ॥

किमट्टमावाधकंदयपरूव्वणा आगदा ? किं सच्चट्टिदिववट्टाणंसु एकका चव आवाहा होदि, आहो अण्णणां होदि ति पुच्छिदे एवं होदि ति जाणावणट्टमावाहाकंदयपरूव्वणा

निपेकको गुणित करनेपर प्रथम निपेक होता है— $3\frac{1}{2} \times 9 = 25\frac{1}{2}$ । उससे अजघन्या-नुत्तहृष्ट द्रव्य असंख्यातगुणा हैं । गुणकार क्या है ? गुणकार साधिक एक अंकसे हीन डेढ़ गुणहानियां हैं ।

शंका— इसका कारण क्या है ?

समाधान— इसका कारण यह है कि एक कम डेढ़गुणहानिशलाओंसे प्रथम निपेकको गुणित करनेपर प्रथम निपेकसे रहित अग्रिम सब स्थितियोंके द्रव्यका प्रमाण होता है— $[25\frac{1}{2} \times (12-1) = 281\frac{1}{2} = (3062-256)]$ ।

अब यदि यह द्रव्य अन्तिम स्थितिके द्रव्यसे रहित अभीष्ट है, तो एक कम डेढ़ गुण-हानिमेंसे एक अंकके असंख्यातवें भागको घटाकर शेषसे प्रथम निपेकको गुणित करनेपर अजघन्यअनुत्तहृष्ट द्रव्यका प्रमाण होता है— $12-1=11; 11-3\frac{1}{2}=7\frac{1}{2}; 256 \times 7\frac{1}{2} = 2007$ । इनकी अपेक्षा प्रथम स्थितिसे हीन सब द्रव्य विधेय अधिक हैं । विधेय कितना है ? वह उत्तहृष्ट अर्थात् अन्तिम स्थितिके द्रव्यके बराबर है— $2007+9=2016$ । इससे अनुत्तहृष्ट द्रव्य विधेय अधिक हैं । विधेय कितना है ? वह अन्तिम निपेकसे हीन प्रथम निपेकके बराबर है— $(256-9=247, 281\frac{1}{2}+247=534\frac{1}{2})$ । इससे सब स्थितियोंमें प्रदेशाग्र विधेय अधिक हैं । कितने मात्र विधेयसे वह अधिक है ? वह अन्तिम स्थितिके द्रव्यप्रमाणसे अधिक है— $(3062+9=3071)$ । इस प्रकार निपेकप्ररूपणा समाप्त हुई ।

आवाधाकाण्डक प्ररूपणाका अधिकार है ॥ १२१ ॥

शंका— आवाधाकाण्डक प्ररूपणाका अवतार किसलिये हुआ है ?

समाधान— सब स्थितिवन्धस्थानोंमें क्या एक ही आवाधा है, अथवा अन्य-अन्य है, ऐसा पृच्छनेपर 'इस प्रकारकी आवाधा ध्वंसस्था है' यह जतलानेके लिये आवाधाकाण्डक प्ररूपणाका अवतार हुआ है ।

आगदा । एत्थ तिण्णि अणियोगद्वाराणि परूवणा पमाणमप्पाबहुअं चैव । पमाणप्पाबहु-
आणं संभवो होदु णाम, सुत्तसिद्धत्तादो । सुत्तम्मि असतीए परूवणाए कधमेत्थ संभवो ? ण
एस दोसो, परूवणाए विणा पमाणप्पाबहुआणमणुववतीदो । तत्थ ताव सुत्तेण स्रचिदपरूवणा
वुच्चदे । तं जहा—चोदसणं जीवसमासाणं अत्थि आवाहाकंदयाणि आवाहाट्टाणाणि
च । आवाहाकदयपरूवणाए कधमावाहट्टाणाणि वुच्चंति ? ण, आवाहाकंदयपरूवणाए
आवाहट्टाणाविणाभावेण देसामासियत्तमावण्णाए आवाहट्टाणपरूवणं पडि विरोहाभावादो ।

पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं चउरिंदियाणं तीइंदियाणं
बीइंदियाणं एइंदियवादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माण-
माउववज्जाणमुक्कस्सियादो ट्टिदीदो समए समए पल्लिदोवमस्स
असंखेज्जदिभागमेत्तमोसरिदूण एयमावाहाकंदयं करेदि । एस कमो
जाव जहणिया ट्टिदि ति' ॥ १२२ ॥

समए समए इदि वुत्ते आवाधाए एगेसमए इदि वुत्तं होदि । उक्कस्सावाहाए

इस आवाधाकाण्डकप्ररूपणामें तीन अनुयोगद्वार हैं—प्ररूपणा, प्रमाण और
अल्पवहुत्व ।

शंका— प्रमाण और अल्पवहुत्व अनुयोगद्वारोंकी सम्भावना भले ही हो, क्योंकि,
वे सूत्रसे सिद्ध हैं । परन्तु सूत्रमें न पाये जानेवाले प्ररूपणा अनुयोगद्वारकी सम्भावना
यहां कैसे हो सकती है ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, प्ररूपणाके विना प्रमाण और अल्प-
वहुत्वका कथन वन ही नहीं सकता ।

उनमें पहिले सूत्रसे सूचित प्ररूपणा अनुयोगद्वारका कथन करते हैं । वह इस प्रकार
है— चौदह जीवसमासोंके आवाधाकाण्डक और आवाधास्थान दोनों हैं ।

शंका— आवाधाकाण्डकप्ररूपणामें आवाधास्थानोंका कथन क्यों किया जा रहा है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि आवाधाकाण्डकप्ररूपणाका आवाधास्थानप्ररूपणाके
साथ अविनाभाव सम्बन्ध है, अतः आवाधास्थानप्ररूपणाके प्रति देशामर्शक भावको प्राप्त
हुई आवाधाकाण्डकरूपणामें आवाधास्थानोंका कथन करना विरुद्ध नहीं है ।

संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और वादर व सूक्ष्म
एकेन्द्रिय इन पर्याप्त व अपर्याप्त जीवोंके आयुको छोड़ शेष सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिसे
समय समयमें पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र नीचे उतर कर एक आवाधाकाण्डकको करता
है । यह क्रम जघन्य स्थिति तक है ॥ १२२ ॥

सूत्रमें ' समए समए ' ऐसा कहनेसे आवाधाके एक एक समयमें, ऐसा अभिप्राय

१ मोत्तूण आउगाइ समए समए अवाहहाणीए । पल्लासंखियभागं कड कुण अप्पवहुमेसिं ॥
क. प्र. १, ८५.

चरिमसमए णिरुद्धे उक्कस्सट्टिदीदो हेट्ठा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तमोसरिद्वण
एयमावाहाकंदयं करेदि । आवाहचरिमसमय णिरुंभिद्वण उक्कस्सियं ट्टिदिं वंधदि । तत्तो
समऊणं पि वंधदि^१ । एवं दुसमऊणादिकमेण णेदव्वं जाव पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे-
ण्णट्टिदि ति । एवमेदेण आवाहाचरिमसमएण वंधपाओग्गट्टिदिविसेसाणमेगमावाहाकंदय-
मिदि सण्णा ति वुत्तं होदि । आवाधाए दुचरिमसमयस्स णिरुभण काद्वण एव चेव
विदियमावाहाकंदयं परूवेदव्वं । आवाहाए तिचरिमसमयणिरुंभणं काद्वण पुव्वं व तद्विओ
आवाहाकंदओ परूवेदव्वो । एवं णेयव्वं जाव जहणिया ट्टिदि ति । एदेण सुत्तेण
एगावाहाकंदयस्स पमाणपरूवणा कदा ।

सपहि देसामासियत्तमावण्णेण एदेण सुत्तेण सृचिदाणमावाहट्टाणाणमावाहाकंदय-
सलागाणं च पमाणपरूवणा कीरदे । तं जहा— सण्णिपंचिदियपज्जत्ताणमावाहट्टाणाणि
आवाहाकंदयाणि च दो वि संखेज्जवासमेत्ताणि । सण्णिपंचिदियथपज्जत्ताणमावाहाट्टाणाणि
आवाहाकंदयाणि च दो वि अंतोमुहुत्तमेत्ताणि । असण्णिपंचिदिय-चउरिदिय-तीइदिय-

समझना चाहिये । उत्कृष्ट आवाधाके अन्तिम समयकी विवक्षा होनेपर उत्कृष्ट स्थितिसे
पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र नीचे उतर कर एक आवाधाकाण्डकको करना है ।
आवाधाके अन्तिम समयको विवक्षित करके उत्कृष्ट स्थितिको बांधता है । उससे एक
समय कम भी स्थितिको बाधता है । इस प्रकार दो समय कम इत्यादि क्रमसे पत्योपमके
असंख्यातवें भागसे रहित स्थिति तक ले जाना चाहिये । इस प्रकार आवाधाके इस
अन्तिम समयमें बन्धके योग्य स्थितिविशेषोंकी एक आवाधाकाण्डक संज्ञा है, यह
अभिप्राय है । आवाधाके द्विचरम समयकी विवक्षा करके इसी प्रकारसे द्वितीय आवाधा-
काण्डककी प्ररूपणा करना चाहिये । आवाधाके त्रिचरम समयकी विवक्षा करके पहिलेके
ही समान तृतीय आवाधाकाण्डककी प्ररूपणा करना चाहिये । इस प्रकार जघन्य स्थिति
तक यही क्रम जानना चाहिये । इस सूत्रके द्वारा एक आवाधाकाण्डकके प्रमाणकी
प्ररूपणा की गई है ।

अब देशमार्शक भावको प्राप्त हुए इस सूत्रके द्वारा सूचित आवाधास्थानों और
आवाधाकाण्डकशलाश्रोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार हैं— संज्ञी पंचेन्द्रिय
पार्श्विक जीवोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही संख्यात वर्ष प्रमाण हैं ।
संज्ञी पंचेन्द्रिय अपार्श्विक जीवोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही अन्तर्मुहूर्त
प्रमाण हैं । असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और डीन्द्रिय [पार्श्विक अपर्याप्त]

१ ताप्रतौ 'समऊण वंधदि' इति पाठः ।

वीइदियाणमट्टण्हं जीवसमासाणमावाहट्टाणाणि आवाहाकंदयसलगाओ च आवलियाए संखेज्जदिभागमेत्ताणि । चदुण्णमेइंदियाणं आवाहट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्ताणि ।

आउअस्स आवाहाकंदयपरूवणा किमट्ट ण कदा ? ण एस दोसो, आउअस्स इमा ट्टिदी एदीए चेव आवाहाए वज्झदि त्ति णियमाभावादो । पुव्वकोडितिभागमावाहं काऊण तेत्तीसाउअं वंधदि, समऊणतेत्तीसं पि वंधदि, एवं दुसमऊणं-तिसमऊणादिकमेण पुव्वकोडितिभागावाह धुवं काट्टण णेदव्वं जाव वंधखुट्ठाभवग्गहण ति । पुणो एदे चेव आउववंवचियप्पा पुव्वकोडितिभागे समऊणे आवाधत्तणेण णिरुद्धे वि होति । एवं दुसमऊणादिकमेण णेदव्वं जाव असखेयद्धा त्ति । जेजेवमणियमो तेण आउअस्स आवाहा-कंदयपरूवणा ण कदा । ण च आवाहाकंदयाणि णत्थि त्ति आवाहट्टाणाणमसंभवो, तदभावे लिंगाभावादो । तदो आउअस्स णत्थि आवाहाकंदयाणि त्ति सिद्धं ।

इन आठ जीवसमासोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डकशलाकार्ये आवलीके संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । चार एकेन्द्रिय जीवोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ।

शंका— यहां आयु कर्मके आवाधाकाण्डकोंकी प्ररूपणा किसलिये नहीं की गई ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, कारण कि आयुकी यह स्थिति इसी आवाधामें बंधती है, ऐसा कोई नियम नहीं है । पूर्वकोटिके त्रिभागको आवाधा करके तेतीस सागरोपम प्रमाण आयुको वाधता है, एक समय कम तेतीस सागरोपम प्रमाण आयुको भी वाधता है, इस प्रकार पूर्वकोटिके त्रिभाग रूप आवाधाको ध्रुव करके दो समय कम, तीन समय कम इत्यादि क्रमसे बन्ध क्षुद्रभवग्रहण प्रमाण स्थिति तक ले जाना चाहिये । पूर्वकोटिके एक समय कम त्रिभागको आवाधा रूपसे विवक्षित करनेपर भी ये ही आयुबन्धके विकल्प होते हैं । इसी प्रकार दो समय कम, तीन समय कम इत्यादि क्रमसे असंख्येयाद्धा काल प्रमाण आवाधा तक ले जाना चाहिये । जिस कारण यहां कोई ऐसा नियम नहीं है, इसीलिये आयुके आवाधाकाण्डकोंकी प्ररूपणा नहीं की गई ।

आवाधाकाण्डक चूंकि नहीं हैं, इसलिये आवाधास्थान असम्भव हों, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि, उनके अभावमें कोई हेतु नहीं है । इस कारण आयुके आवाधा-काण्डक नहीं हैं, यह सिद्ध है ।

१ आप्रतौ 'असंखे०', ताप्रतौ 'असंखे०' इति पाठः । २ ताप्रतौ 'इमा ट्टिदीए चेव' इति पाठः । ३ अ-आ-काप्रतिपु 'दुसमऊणा' इति पाठः । ४ अ-आ ताप्रतिपु 'पुव्वकोडिभागे', इति पाठः । ५ ताप्रतौ 'दुसमयादि-' इति पाठः ।

एत्थ अप्पावहुगपरूवणा किण्ण कीरदे ? ण एस दोसो, उवरि भण्णमाणअप्पावहु
आणियोगद्वारेण तदवगमादो । एवमावाधाकदयपरूवणा समत्ता ।

अप्पावहुएत्ति ॥ १२३ ॥

जं तं चउत्थमणियोगद्वारमप्पावहुगमिदि तं वत्तइस्सामो त्ति भणिद होदि ।

पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइट्ठीणं पज्जत्तापज्जत्ताणं सत्तण्हं
कम्माणमाउववज्जाणं सव्वत्थोवा जहणिया आवाहो ॥ १२४ ॥

कुदो ? संखेज्जावलियमेत्ता होद्वण अंतोमुहुत्तपमाणत्तादो ।

आवाहट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि
संखेज्जगुणाणि ॥ १२५ ॥

कुदो ? जहण्णाचाधादो उक्कस्सावाहा सखेज्जगुणा, तेण आवाहट्टाणाणि वि

शंका—यहां अल्पवहुत्वप्ररूपणा क्यों नहीं की जाती है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, उसका ज्ञान आगे, कहे जानेवाले
अल्पवहुत्व अनुयोगद्वारसे हो जाता है । इस प्रकार आवधाकाण्डक प्ररूपणा समाप्त हुई ।

अल्पवहुत्व अनुयोगद्वारका अधिकार है ॥ १२३ ॥

जो वह चौथा अल्पवहुत्व अनुयोगद्वार है उसको कहते हैं, यह अभिप्राय है ।

संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक व अपर्याप्तक पंचेन्द्रिय जीवोके आयुको छोड़कर शेष
सात कर्मोकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है ॥ १२४ ॥

इसका कारण यह है कि उक्त आवाधा संख्यात आवली प्रमाण हो करके अन्तर्मुहूर्त
मात्र है ।

आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे है ॥ १२५ ॥

चूकि जघन्य आवाधाकी अपेक्षा उत्कृष्ट आवाधा संख्यातगुणी है, इसीलिये
आवाधास्थान भी उससे संख्यातगुणे ही हैं ।

शंका—कैसे ?

१ आप्रतौ ' त ' इति नोपलभ्यते । २ एतेपा दग्गानां स्थानानामल्पवहुत्वमुच्यते— तत्र सन्निपंचेन्द्रि-
येषु पर्याप्तेषु अपर्याप्तकेषु वा बन्धनेषु आयुर्वर्जानां सप्तानां कर्मणा सर्वस्तोका जघन्यावाधा (१) । सा च
अन्तर्मुहूर्तप्रमाणा । क प्र. (मलय. टीका) १, ८६. ३ आप्रतौ ' च तुल्लाणि दो वि संखेज्जगुणाणि ;
इति पाठः । ततोऽवाधास्थानानि कंडकस्थानानि चासख्येयगुणानि । तानि तु परस्पर तुल्यानि । तथाहि—
जघन्यामवाधामादिं कृत्वोत्कृष्टाऽवाधाचरमसमयमभिव्याप्य यावन्तः समयाः प्राप्यन्ते तावन्त्यवाधास्थानानि
भवन्ति । तद्यथा—जघन्याऽवाधा एकमवाधास्थानम् । सैव समयाधिका द्वितीयम् । द्विसमयाधिका तृतीयम् ।
एवं तावद्बान्य यावदुत्कृष्टावाधाचरमसमयः । एतावन्त्यैव चावाधाकंडकानि, जघन्यावाधात आरभ्य समयं
समयं प्रति कंडकस्य प्राप्यमाणत्वात् । एतच्च प्रागेबोक्तम् (२-३) । क. प्र. (म. टी.) १, ८६.

संखेज्जगुणाणि चैव । कथं ? समऊणजहण्णावाहाए उक्कस्सावाहादो सोहिदाए आवाह-
ट्टाणुप्पत्तीदो । कथमावाहट्टाणेहि आवाहाकंदयसलागाणं सरिसत्तं ? ण एस दोसो,
एगेगावाहट्टाणस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तट्टिदिवंधट्टाणाणमावाहाकंदयसणिदाणं
उवलंभेण समाणत्ता ।

उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहियां ॥ १२६ ॥

केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहण्णावाहमेत्तेण ।

णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि^१ ॥ १२७ ॥

कुदो ? उक्कस्सावाहाओ संखेजावलियमेत्ताओ होदूण सणीसु पज्जत्तएसु संखेज्ज-
वस्साणि अपज्जत्तएसु अतोमुहुत्तं होति । णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि पुण असंखेज्जवस्साणि
होदूण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताणि । तेण उक्कस्सआवाहादो णाणापदेसगुणहाणि-
ट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि त्ति जुज्जदे ।

एयपदेसगुणहाणिट्टाणंतरमसंखेज्जगुणं^२ ॥ १२८ ॥

समाधान— क्योंकि, उत्कृष्ट आवाधामेंसे एक समय कम जघन्य आवाधाको घटा
देनेपर आवाधास्थानोंकी उत्पत्ति होती है ।

शंका— आवाधास्थानोंसे आवाधाकाण्डकशलाकाये समान कैसे हैं ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, एक एक आवाधास्थान सम्बन्धी जो
पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र स्थितिवन्धस्थान हैं उनकी आवाधाकाण्डक संज्ञा है,
अत एव उनके समानता है ही ।

उनसे उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ॥ १२६ ॥

शंका— वह कितने प्रमाणसे अधिक है ?

समाधान— वह एक समय कम जघन्य आवाधाके प्रमाणसे अधिक है ।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १२७ ॥

कारण कि उत्कृष्ट आवाधायें संख्यात आवली प्रमाण हो करके संज्ञी पर्याप्तक जीवोंमें
संख्यात वर्ष और अपर्याप्तकोंमें अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होती हैं । परन्तु नानाप्रदेशगुणहानि-
स्थानान्तर असंख्यात वर्ष प्रमाण हो करके पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र हैं । अतएव
उत्कृष्ट आवाधाकी अपेक्षा नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरोंका असंख्यातगुणा होना
उचित ही है ।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १२८ ॥

१ तेभ्य उत्कृष्टावाधा विशेषाधिका, जघन्यावाधायास्तत्र प्रवेशात् (४) । क. प्र. (म. टी.) १,८६.
२ ततो दलिकनिषेकविधौ द्विगुणहानिस्थानानि असंख्येयगुणानि, पल्योपमप्रथमवर्गमूलासंख्येयभागगतसमय-
प्रमाणत्वात् (५) । क. प्र. (म. टी.) १,८६. ३ तत एकस्मिन् द्विगुणहान्योरन्तरे निषेकस्थानान्यसंख्येय-
गुणानि, तेषामसंख्येयानि पल्योपमवर्गमूलानि परिमाणमिति कृत्वा (६) । क. प्र. (म. टी.) १,८६.

कुदो ? असंखेज्जपलिदोवमपढमवग्गमूलपमाणत्तादो ।

एयमावाहाकंदयमसंखेज्जगुणं^१ ॥ १२९ ॥

णाणापदेसगुणहाणिसलागाहि असंखेज्जवस्सपमाणाहि कम्मट्टिदीए ओवट्टिदाए एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमागच्छदि । उक्कस्सावाहाए संखेज्जवस्समेत्ताए अंतोमुहुत्तमेत्ताए च सग-सगुक्कस्सट्टिदीए ओवट्टिदाए जेणेगमावाहाकंदयपमाणं होदि, तेणेगपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरादो एगमावाहाकंदयमसंखेज्जगुणमिदि घेतत्त्वं ।

जहण्णओ ट्टिदिवंधो असंखेज्जगुणो^२ ॥ १३० ॥

एगमावाहाकदयं णाम पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, जहण्णट्टिदिवंधो पुण अंतोकोडाकोडिमेत्तसागरोवमाणि । तेण एगमावाहाकंदयादो जहण्णओ ट्टिदिवंधो असंखेज्जगुणो जादो ।

ठिदिवंधट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि^३ ॥ १३१ ॥

जहण्णट्टिदिवंधादो उक्कस्सट्टिदिवंधो जेण संखेज्जगुणो तेण ट्टिदिवंधट्ठाणाणि वि

क्योंकि, वे पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलोंके बराबर हैं ।

एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है ॥ १२९ ॥

असंख्यात वर्ष प्रमाण नानाप्रदेशगुणहानिशललाकाओंका कर्मस्थितिमें भाग देनेपर एकगुणहानिस्थानान्तर लब्ध होता है । संख्यात वर्ष मात्र घ अन्तर्मुहूर्त मात्र उत्कृष्ट आवाधाका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर चूंकि एक आवाधाकाण्डकका प्रमाण होता है, अत एव एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरकी अपेक्षा एक आवाधाकाण्डकका असंख्यातगुणा है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है ॥ १३० ॥

चूंकि एक आवाधाकाण्डक पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, परन्तु जघन्य स्थितिवन्ध अन्तःकोडाकोडि सागरोपमों प्रमाण है, अत एव एक आवाधाकाण्डककी अपेक्षा जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा हो जाता है ।

स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १३१ ॥

चूंकि जघन्य स्थितिवन्धकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है, अतः उससे

१ तेभ्योऽपि अर्थेन कडक- [पचसंग्रहे पुनरेतस्य स्थानेऽवाधाकडकमित्येतदेवोपलभ्यते] मसख्येयगुणम् (७) । क प्र (म. टी) १,८६. २ तस्मान्नन्यः स्थितिवन्धोऽसंख्येयगुणः, अन्तःसागरोपमकोटीकोटीप्रमाणत्वात् । सञ्जिपचेन्द्रिया हि अणिमनारूढा जघन्यतोऽपि स्थितिवन्धमन्तःसागरोपमकोटीकोटीप्रमाणमेव कुर्वन्ति (८) । क प्र. (म. टी.) १,८६. ३ ततोऽपि स्थितिवन्धस्थानानि सख्येयगुणानि (९) । क. प्र. (म. टी.) १,८६.

संखेज्जगुणाणि चेव, समऊणजहणहट्टिदिवंधेणुणउक्कस्सट्टिदिवंधस्सेव ट्टिदिवंधट्टाणववएसादो ।

उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहिओ ॥ १३२ ॥

केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहणहट्टिदिवंधमेत्तेण ।

पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणं पज्जत्तयाणमाउअस्स सव्व-
त्थोवा जहणिया आवाहा ॥ १३३ ॥

कुदो ? आउअं वंधिय समयाहियसव्वजहणविस्समणकालगहणादो ।

जहणओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो ॥ १३४ ॥

कुदो ? खुद्दामवग्गहणपमाणत्तादो ।

आवाहाट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १३५ ॥

स्थितिवन्धस्थान भी संख्यातगुणे ही होने चाहिये, क्योंकि एक समय कम जघन्य स्थितिवन्धसे रहित उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी ही स्थितिवन्धस्थान संज्ञा है ।

उत्कृष्ट स्थितिवन्ध उससे विशेष अधिक है ॥ १३२ ॥

कितने मात्रसे वह अधिक है ? एक समय कम जघन्य स्थितिवन्धके प्रमाणसे वह अधिक है ।

संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयुकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है ॥ १३३ ॥

क्योंकि, यहां आयुको बांधकर एक समय अधिक सर्वजघन्य विश्रमणकालका ग्रहण है ।

उससे जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ १३४ ॥

क्योंकि, वह क्षुद्रभवग्रहणके बराबर है ।

उससे आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १३५ ॥

१ तेभ्य उत्कृष्टा स्थितिर्विशेषाधिका, जघन्यस्थितेरनाधायाश्च तत्र प्रवेशात् । क. प्र. (म. टी.) १, ८६.
२ तथा सज्जिपचेन्द्रियेष्वसंज्जिपचेन्द्रियेषु वा पर्याप्तकेषु प्रत्येकमायुषो जघन्यानाधा सर्वास्तोका (१) ।
ततो जघन्यः स्थितिवन्धः संख्येयगुणः । स च क्षुद्रकभवरूपः (२) । ततोऽनाधास्थानानि संख्येयगुणानि ।
जघन्यानाधारहितः पूर्वकोटिभिर्भाग इति कृत्वा (३) । ततोऽप्यु कृष्टानाधा विशेषाधिका, जघन्यानाधाया
अपि तत्र प्रवेशात् (४) । ततो द्विगुणहानिस्थानान्यसंख्येयगुणानि, पत्त्योपमप्रथमवर्गमूलासंख्येयमाग-
गतसमयप्रमाणत्वात् (५) । तेभ्योऽप्येकस्मिन् द्विगुणहान्योरन्तरे निषेकस्थानान्यसंख्येयगुणानि (६) ।
तत्र युक्तिः प्रागुक्ता वक्तव्या । ततः स्थितिवन्धस्थानान्यसंख्येयगुणानि (७) । तेभ्योऽप्युत्कृष्टः स्थितिवन्धो
विशेषाधिकः, जघन्यस्थितेरनाधायाश्च तत्र प्रवेशात् (८) । क. प्र. (म. टी.) १, ८६.

जहण्णओ द्विदिवंधो णाम अंतोसुहुत्तमेत्तो^१, आवाहाट्टाणाणि पुण संखेज्जपमाण-
पुव्वकोडितिभागमेत्ताणि; तेण जहण्णट्टिदिवंधादो आवाहट्टाणाणं संखेज्जगुणत्तं णव्वदे ।

उक्कसिसया आवाहा विसेसाहिया ॥ १३६ ॥

केत्तियमेत्तेण ? समज्जणजहण्णावाहमेत्तेण ।

णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १३७ ॥

पुव्वकोडितिभागं पेक्खिस्सूण पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तणाणागुणहाणिसला-
गाणमसंखेज्जगुणत्तुवलंभादो ।

एयपदेसगुणहाणिट्टाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १३८ ॥

कुदो ? पल्लिदोवमपढमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तणाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतर-
सलागाहि असंखेज्जपल्लिदोवमवग्गमूलमेत्तएगपदेसगुणहाणीए ओवट्टिदाए असंखेज्जस्सुवलंभादो ।

ठिदिवंधट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १३९ ॥

कुदो ? एयपदेसगुणहाणिट्टाणंतरं णाम पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, ठिदिवंध-
ट्टाणाणि पुण संखेज्जसागरोवममेत्ताणि पल्लिदोवमस्सासंखेज्जदिभागो^३ च; तेण एगपदेसगुण-

जघन्य स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है, परन्तु आवाधास्थान संख्यात प्रमाण
[जघन्य आवाधासे रहित] पूर्वकोटिभिभाग मात्र हैं; इसीसे जाना जाता है कि जघन्य
स्थितिवन्धकी अपेक्षा आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं ।

उनसे उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ॥ १३६ ॥

कितने प्रमाणसे वह अधिक है ? एक समय कम जघन्य आवाधाके प्रमाणसे वह
विशेष अधिक है ।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १३७ ॥

क्योंकि, पूर्वकोटिभिभागकी अपेक्षा पल्लोपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण नानागुण-
हानिशलाकाओंके असंख्यातगुणत्व पाया जाता है ।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १३८ ॥

क्योंकि, पल्लोपम सम्बन्धी प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भाग मात्र नानाप्रदेश-
गुणहानिस्थानान्तरशलाकाओंका पल्लोपमके असंख्यात वर्गमूलोंके बराबर एकप्रदेश-
गुणहानिमें भाग देनेपर असंख्यात अंक पाये जाते हैं ।

स्थितिवन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ १३९ ॥

क्योंकि, एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर पल्लोपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, परन्तु
स्थितिवन्धस्थान संख्यात सागरोपम मात्र व पल्लोपमके असंख्यातवें भाग है, इस कारण

१ अ-आ काप्रतिषु 'मेत्ता' इति पाठः । २ प्रतिषु 'असंखेज्ज' इति पाठः । ३ अ-आप्रत्योः
'पल्लिदोवमस्स संखे० भागो' इति पाठः ।

हाणिट्टाणंतरादो ट्टिदिबंधट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि त्ति^१ धेतत्वं ।

उक्कस्सओ ट्टिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ १४० ॥

केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहण्णट्टिदिबंधमेत्तेण ।

पंचिंदियाणं सण्णीणमसण्णीणमपज्जत्तयाणं चउरिंदियाणं
तीइंदियाणं वीइंदियाणं एइंदियबादर-सुहुमपज्जत्तापज्जत्तयाणमाउ-
अस्स सव्वत्थोवा जहण्णिया आवाहाँ ॥ १४१ ॥

आउअं वधिय समयाहियसव्वजहण्णविस्समणकालग्गहणादो ।

जहण्णओ ट्टिदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ १४२ ॥

कुदो ? बंधखुदाभवग्गहणादो ।

आवाहट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १४३ ॥

सग-सगउक्कस्साउआणं तिभागस्स समऊणजहण्णावाहाए परिहीणस्स गहणादो ।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरकी अपेक्षा स्थितिवन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ १४० ॥

वह कितने मात्रसे अधिक है ? एक समय कम जघन्य स्थितिवन्धके प्रमाणसे वह विशेष अधिक है ।

संज्ञी व असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकों तथा चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और वादर एवं सूक्ष्म एकेन्द्रिय, इन पर्याप्त-अपर्याप्तोंके आयुकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है ॥ १४१ ॥

क्योंकि, यहां आयुको बांधकर एक समयसे अधिक सर्वजघन्य विश्रमणकालका ग्रहण है ।

जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ १४२ ॥

क्योंकि, यहां बन्धक्षुद्रभवका ग्रहण है ।

आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १४३ ॥

क्योंकि, एक समय कम जघन्य आवाधासे हीन अपनी अपनी उत्कृष्ट आयुओंके त्रिभागका यहां ग्रहण है ?

१ ताप्रनौ ' असखेज्जगुणात्ति ' इति पाठः । २ प्रतिपु ' सुहुमपज्जत्तयाण-' इति पाठः । ३ तथा पंचेन्द्रियेषु सज्जिप्वसंजिप्वपर्याप्तेषु चतुरिन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-द्वीन्द्रिय वादरसूक्ष्मैकेन्द्रियेषु च पर्याप्तापर्याप्तेषु प्रत्येक-मायुषः सर्वस्तोका जघन्यावाधा (१) । ततो जघन्यः स्थितिवन्धः संख्येयगुणः, स च क्षुल्लकभवरूपः (२) । ततोऽवाधास्थानानि संख्येयगुणानि (३) । ततोऽप्युत्कृष्टावाधा विशेषाधिका (४) । ततोऽपि स्थितिवन्धस्थानानि संख्येयगुणानि, जघन्यस्थितिन्यूनपूर्वकोटिप्रमाणत्वात् (५) । तत उत्कृष्टः स्थितिवन्धो विशेषाधिकः, जघन्यस्थितेरवाधायाश्च तत्र प्रवेशात् (६) । क. प्र. (म. टी.) १, ८६.

उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया ॥ १४४ ॥

केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहण्णाचाहामेत्तेण ।

ठिदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ १४५ ॥

कुदो ? समऊणजहण्णट्टिदिबंधेणुणपुच्चकोडिग्गहणादो ।

उक्कस्सओ ट्टिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ १४६ ॥

केत्तियमेत्तेण ? समऊणजहण्णट्टिदिबंधमेत्तेण ।

पंचिंदियाणमसणीणं चउरिंदियाणं तीइंदियाणं वीइंदियाणं
पज्जत्त-अपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणं आउववज्जाणमावाहट्टाणाणि
आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि ॥ १४७ ॥

कुदो ? आवलियाए संखेज्जदिभागप्पमाणत्तादो ।

उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ॥ १४४ ॥

वह कितने मात्र विशेषसे अधिक है ? वह एक समय कम जघन्य आवाधा मात्रसे अधिक है ।

स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ १४५ ॥

क्योंकि, एक समय कम जघन्य स्थितिवन्धसे हीन पूर्वकोटिका ग्रहण है ।

उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ १४६ ॥

वह कितने मात्रसे अधिक है ? वह एक समय कम जघन्य स्थितिवन्धके प्रमाणसे विशेष अधिक है ।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय पर्याप्तक-अपर्याप्तक जीवोंके आयुको छोड़कर शेष सात कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं ॥ १४७ ॥

क्योंकि, वे आवलीके संख्यातवें भाग प्रमाण है ।

१ तथाऽसञ्चिपचेन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-सूक्ष्मत्रादरैकेन्द्रियेषु पर्याप्तापर्याप्तेष्वायुर्वर्जाना सप्तानां कर्मणा प्रत्येकमत्राघास्थानानि कंडकानि च स्तोकानि परस्पर च तुल्यानि, आवलिकाऽसख्येय-भागगतसमयप्रमाणत्वात् (१-२) । ततो जघन्यात्राघाऽसख्येयगुणा, अन्तर्मुहूर्तप्रमाणत्वात् (३) । ततोऽप्युत्कृष्टात्राघा विशेषाधिका, जघन्यात्राघाया अपि तत्र प्रवेशात् (४) । ततो द्विगुणहीनानि (हानि) स्थानान्यसख्येयगुणानि (५) । तत एकस्मिन् द्विगुणहान्योरन्तरे निषेकस्थानान्यसख्येयगुणानि (६) । ततोऽर्थेन कडकमसख्येयगुणम् (७) । ततोऽपि स्थितिवन्धस्थानान्यसख्येयगुणानि, पत्त्योपमा (म) संख्येयमागतसमयप्रमाणत्वात् (८) । ततोऽपि जघन्यस्थितिवन्धोऽसख्येयगुणः (९) । ततोऽप्युत्कृष्ट-स्थितिवन्धो विशेषाधिकः, पत्त्योपमासंख्येयभागेनाभ्यधिकत्वादिति (१०) । क. प्र. (म. टी.) १, ८६.

जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा ॥ १४८ ॥

कुदो ? संखेजावलियमेत्तजहणावाहाए आवलियाए संखेज्जदिभागमेत्तआवाहट्टाणेहि भागे हिदाए संखेज्जरुवोवलंभादो ।

उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया ॥ १४९ ॥

केत्तियमेत्तेण ? आवलियाए संखेज्जदिभागमेत्तेण ।

णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १५० ॥

कुदो ? संखेजावलियमेत्तउक्कस्सावाहाए पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तणाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतरेसु अवहिरिदेसु असंखेज्जरुवोवलंभादो ।

एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १५१ ॥

कुदो ? पलिदोवमच्छेदणाणं संखेज्जदिभागमेत्तणाणापदेसगुणहाणिसलागाहि असंखेज्जपलिदोवमपढमवग्गमूलमेत्तएयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरे भागे हिदे असंखेज्जरुवोवलंभादो ।

एयमावाधाकंदयमसंखेज्जगुणं ॥ १५२ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो उक्कस्सावाहाए ओवट्ठिदणाणागुणहाणिसलागाओ वा ।

जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है ॥ १४८ ॥

क्योंकि, संख्यात आवाधियों प्रमाण जघन्य आवाधामें आवलीके संख्यातवें भाग मात्र आवाधास्थानोंका भाग देनेपर संख्यात अंक प्राप्त होते हैं ।

उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ॥ १४९ ॥

कितने मात्रसे वह विशेष अधिक है ? वह आवलीके संख्यातवें भाग मात्रसे विशेष अधिक है ।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १५० ॥

क्योंकि, संख्यात आवाधी प्रमाण उत्कृष्ट आवाधाका पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरोंमें भाग देनेपर असंख्यात अंक लब्ध होते हैं ।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १५१ ॥

क्योंकि, पल्योपमके अर्धच्छेदोंके संख्यातवें भाग प्रमाण नानाप्रदेशगुणहानिशालाकाओंका पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरमें भाग देनेपर असंख्यात अंक लब्ध होते हैं ।

एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है ॥ १५२ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग अथवा उत्कृष्ट आवाधासे अपघर्तित नानागुणहानिशलाकार्यें हैं ।

ठिदिबंधट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १५३ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जस्सोवट्ठिदसगुक्कस्सावाहा ।

जहण्णओ ठिदिबंधो संखेज्जगुणो ॥ १५४ ॥

सुगमं ।

उक्कस्सओ ठिदिबंधो विसेसाहिओ ॥ १५५ ॥

केत्तियमेत्तेण ? पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तेण ।

एइंदियवादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्तयाणं सत्तण्हं कम्माणं
आउववज्जाणमावाहट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि
थोवाणि ॥ १५६ ॥

कुदो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागप्पमाणत्तादो ।

जहणिया आवाहा असंखेज्जगुणा ॥ १५७ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कुदो ? आवलियाए असंखेज्जदि-
भागमेत्तआवाहट्टाणेहि संखेज्जावलियमेत्तजहण्णावाहाए ओवट्ठिदाए आवलियाए असंखेज्जदि-
भागुवलंभादो ।

स्थितिवन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ १५३ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार संख्यात अंकोंसे अपवर्तित अपनी उत्कृष्ट आवाधा है ।

जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ १५४ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ १५५ ॥

वह कितने मात्रसे विशेष अधिक है ? वह पल्योपमके संख्यातवें भाग मात्रसे अधिक है ।

वादर और सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोंके आयुको छोड़कर शेष सात कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं ॥ १५६ ॥

क्योंकि, वे आधलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ।

जघन्य आवाधा असंख्यातगुणी है ॥ १५७ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आधलीका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, आधलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण आवाधास्थानोंका संख्यात आधली मात्र जघन्य आवाधामें भाग देनेपर आधलीका असंख्यातवां भाग पाया जाता है ?

१ ताप्रतौ 'आवलियाए' इत्येतत्पदं नोपलभ्यते ।

उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया ॥ १५८ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तो ।

णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १५९ ॥

को गुणगारो ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो उक्कस्सावाहोवट्ठिदणाणागुणहाणि-
सलागाओ वा ।

एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ १६० ॥

सुगममेदं ।

एयमावाहाकंदयमसंखेज्जगुणं ॥ १६१ ॥

एद पि सुगमं ।

टिदिवंधट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ १६२ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

जहण्णओ ट्ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो ॥ १६३ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

उक्कस्सओ ट्ठिदिवंधो विसेसाहिओ ॥ १६४ ॥

केत्तियमेत्तेण ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तेण । संपहि एदेण अण्णाबहुअसुत्तेण

उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है ॥ १५८ ॥

विशेष कितना है ? वह आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ॥ १५९ ॥

गुणकार क्या हैं ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग अथवा उत्कृष्ट आवाधासे
अपवर्णित नानागुणहानिगलाकार्यें हैं ।

एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ १६० ॥

यह सूत्र सुगम है ।

एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है ॥ १६१ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

स्थितिवन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ १६२ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है ।

जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है ॥ १६३ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है ।

उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ १६४ ॥

वह कितने मात्रसे विशेष अधिक है ? वह पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्रसे अधिक है ।

सृचिदाणं सत्याण-परत्याणअप्पावहुआणं पस्वणं कस्सामो । सत्याणे पयदं-पंचिदियाणं पञ्जत्तयाणं सण्णीणं सन्वत्थोवा आउअस्स जहण्णिया आवाहा । जहण्णओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । चटुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । णामा-गोदाण-मावाहाट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चटुण्णं कम्माणमावाहाट्टाणा आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणाणि आवाहा-कंदयाणि च दो वि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आवाहाट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणि-ट्टाणंतराणि संखेज्जगुणाणि । चटुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि संखेज्जगुणाणि । अट्टण्णं कम्माणं एगपदेसगुण-हाणिट्टाणंतरमसंखेज्जगुणं । सत्तण्णं कम्माणमेगमावाहाकंदयमसंखेज्जगुणं । आउअस्स ट्टिदिवंधट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । चटुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो ।

अब इस अल्पवहुत्वसूत्रसे सूचित स्वस्थान और परस्थान अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा करते हैं । इनमें स्वस्थान अल्पवहुत्व प्रकृत है—संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयुकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है । जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । नाम व गोत्रके आवाधास्थान व आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयके आवाधास्थान व आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य असंख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । आयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । आयु कर्मके नानाप्रदेशगुणहानि-स्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं । नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं । चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । मोहनीयके नानाप्रदेश-गुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं । आठ कर्मोंका एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यात-गुणा है । सात कर्मोंका एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है । आयुके स्थितिवन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका जघन्य

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु ' संखेज्जगुणाणि ' इति पाठः ।

मोहणीयस्म जहण्णओ द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं द्विदिवंधट्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधट्ठाणविसेसो विसेसाहियो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स द्विदिवंधट्ठाणविसेसो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो ।

पच्चिदियाणं सण्णीणमपज्जत्तयाणमाउअस्स, सन्वत्थोवा जहण्णिया आवाहा । जहण्णओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । आवाहाट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जयण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । णामा-गोदाण-मावाहाट्ठाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमावाहाट्ठाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आवाहाट्ठाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स द्विदिवंधट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि । को गुणगारो ? पल्लिदो-वमस्स वग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि संखेज्जगुणाणि । सत्तण्णं

स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । नाम गोत्रका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । चार कर्मोंका स्थितिवन्धस्थानविशेष विशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका स्थितिवन्धस्थानविशेष संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके आयुकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है । जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । नाम-गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । नाम गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । आयुके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं । गुणकार फया है । गुणकार पल्योपमके वर्गमूलका असंख्यातवा भाग है । चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं । सात

कम्माणमेगपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जगुण । को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाणि पलिदोवमवग्गमृलाणि । सत्तण्णं कम्माणमेगमावाहाकदयमसंखेज्जगुणं । को गुणगारो ? असंखेज्जावलियाओ गुणगारो । आवलियाण अमग्गेज्जदिभागो त्ति णिक्खेवा-इरियो भणदि । किंतु सो एत्थ ण उत्तो. बहुवेहि आइग्गिहि असम्मदत्तादो' । णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । को गुणगारो ? अतोमुहुत्त । चटुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्ठिदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स जहण्णओ ट्ठिदिवंधो सखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं ट्ठिदिवंधट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सओ ट्ठिदिवंधो विसेसाहियो । चटुण्ण कम्माणं ट्ठिदिवंधट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ ट्ठिदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स ट्ठिदिवंधट्ठाणाणि सखेज्जगुणाणि । उक्कस्सओ ट्ठिदिवंधो विसेसाहियो ।

पच्चिदियाणं असण्णीणं पज्जत्तयाणं णामा-गोदाणमावाहट्ठाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि । चटुण्ण कम्माणं आवाहाट्ठाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्ठाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । आउअस्स जहण्णिया आवाहा सखेज्जगुणा । जहण्णओ ट्ठिदिवंधो सखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चटुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया ।

कर्मोंका एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा हैं। गुणकार क्या है? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवा भाग है जो पल्योपमके असंख्यात वर्गमूल प्रमाण है। सात कर्मोंका एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा हैं। गुणकार क्या है? गुणकार असंख्यात आवलिया है। गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है, ऐसा निक्षेपाचार्य कहते हैं। किन्तु उसे यहा नहीं कहा गया है, क्योंकि, वह बहुतसे आचार्योंको श्रु नहीं है। नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। गुणकार क्या है? गुणकार अन्तर्मुहूर्त है। चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। नाम गोत्रके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हं। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। चार कर्मोंके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। मोहनीयके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हं। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।

असंखी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके नाम व गोत्रके आवाधास्थान एव आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं। चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं। मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं। आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है। चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है। उत्कृष्ट आवाधा विशेष

१ अप्रती 'असमुदत्तादो', आप्रती 'असमुदत्तादो', काप्रती 'असमुदत्तादो' इति पाठः ।

मोहणीयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आवाहाट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि । को गुणगारो ? पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । चदुण्ण कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिट्टाणतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि संखेज्जगुणाणि । अट्टण्णं कम्माणमेगपदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि । को गुणगारो ? असंखेज्जपलिदोवम-पढमवग्गमूलाणि । सत्तण्ह कम्माणमेयमावाहाकदयमसंखेज्जगुणं । को गुणगारो ? णाणागुण-हाणिसलागाणमसंखेज्जदिभागो । आउअस्स ट्टिदिवंधट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । को गुणगारो ? अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । णामा-गोदाणं ट्टिदिवंध-ट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । चदुण्णं कम्माणं ट्टिदिवंधट्टाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स ट्टिदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो ।

असण्णिपचिंदियअपज्जत्तयाण णामा-गोदाणं आवाहट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च

अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । आयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । आयुके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं । गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमके वर्गमूलका असंख्यातवां भाग है । नाम गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं । गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है । चार कर्मोंके नाना-प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है । मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं । आठ कर्मोंके एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं । गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल हैं । सात कर्मोंका आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है । गुणकार क्या है ? गुणकार नानागुणहानिशलाकाओंका असंख्यातवां भाग है । आयुके स्थितिवन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं । गुणकार क्या है ? गुणकार अन्तर्मुहूर्त है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम-गोत्रके स्थितिवन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं । गुणकार क्या है ? गुणकार आवलीका असंख्यातवां भाग है । चार कर्मोंके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक हैं । मोहनीयके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । नाम गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्धविशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

असंज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकोके नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक

दो वि तुल्लाणि थोवाणि । चदुण्णं कम्माणं आवाहाट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । आउअस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । जहणओ ट्टिदिवधो संखेज्जगुणो । आवाहाट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स ट्टिदिवधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सओ ट्टिदिवधो विसेसाहियो । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुहाणिट्टाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुहाणिट्टाणंतराणि संखेज्जगुणाणि । सत्तण्णं कम्माणमेगपदेसगुहाणिट्टाणंतरमसंखेज्जगुणं । सत्तण्णं कम्माणमेगमावाहाकंदयमसंखेज्जगुणं । उवरि सेसपदाणमसण्णिपंचिदियपज्जत्तभगो ।

वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियपज्जत्तयाणं णामा-गोदाणमावाहाट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । आउअस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । तस्सेव जहणओ

दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं । चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं । मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं । आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उनकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । आयुके स्थितिवन्ध-स्थान संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं । चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं । सात कर्मोंका एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है । सात कर्मोंका एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है । आगे शेष पदोंकी प्ररूपणा असंखी पचेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है ।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं । चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं । मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं । आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उसीका जघन्य

ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाण जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आवाहाट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव आउअस्स ट्टिदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । णामा-गोदाण णाणापदेसगुहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि । सेसपदाणमसण्णिपंचिदियअपज्जत्तभंगो ।

एदेसिं चैव अपज्जत्ताणं असण्णिपंचिदियअपज्जत्तभंगो । वादरेइंदियपज्जत्तएस्सु णामा-गोदाणमावाहट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि । चदुण्ण कम्माण-मावाहट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहा-ट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । आउअस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । जहण्णओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्ण कम्माण जहणिया आवाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स आवाहाट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव आउअस्स ट्टिदिवंधट्टाणाणि

स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । नाम व गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । आयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके आयुके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं । शेष पदोंकी प्ररूपणा असंक्षी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान है ।

इन्हीं ढीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंकी प्ररूपणा असंक्षी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें नाम-गोत्रके आवाधा स्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं । चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक है । मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे है । आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । नाम-गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । आयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । उसीके आयुके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध

संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणि-
ट्ठाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि विसेसाहि-
याणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि संखेज्जगुणाणि । सत्तण्णं कम्माणमेगपदेस-
गुणहाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जगुणं । सत्तण्णं कम्माणमेगमावाहाकदयमसंखेज्जगुणं । णामा-गोदाणं
द्विदिवंधट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधट्ठाणाणि विसेसाहियाणि ।
मोहणीयस्स द्विदिवंधट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि । णामा-गोदाणं जहण्णओ द्विदिवंधो
असंखेज्जगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । चदुण्णं कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो
विसेसाहियो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो
असंखेज्जगुणो । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो ।

वादरेइदियअपज्जत्त-सुहुमेइंदियपज्जत्तापज्जत्ताणं च णामा-गोदाणमावाहाट्ठाणाणि आवाहा-
कंदयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि । चदुण्णं कम्माणमावाहाट्ठाणाणि आवाहाकदयाणि
च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्ठाणाणि आवाहाकदयाणि च
दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । आउअस्स जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । जहण्णओ
द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । आउअस्स आवाहाट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा
विसेसाहिया । णामा-गोदाणं जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा
विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणं जहण्णिया आवाहा विसेसाहिया । उक्कस्सिया आवाहा

विशेष अधिक है । नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं । चार
कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानि-
स्थानान्तर संख्यातगुणे हैं । सात कर्मोंका एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ।
सात कर्मोंका एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है । नाम-गोत्रके स्थितिवन्धस्थान
असंख्यातगुणे हैं । चार कर्मोंके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक हैं । मोहनीयके स्थिति-
वन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । नाम-गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । उत्कृष्ट
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उत्कृष्ट
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । उत्कृष्ट
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोंके नाम-गोत्रके
आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक हैं । चार कर्मोंके आवाधा-
स्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक है । मोहनीयके आवाधास्थान
और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं । आयुकी जघन्य आवाधा संख्यात-
गुणी है । जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । आयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं ।
उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । नाम-गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट
आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उत्कृष्ट

विसेसाहिया । मोहणीयस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । आउअस्स ट्टिदिवंधट्टाणाणि सखेज्जगुणाणि । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि असखेज्जगुणाणि । चटुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि संखेज्जगुणाणि । सत्तण्णं कम्माणमेगपदेसगुणहाणिट्टाणंतरमसंखेज्जगुण । सत्तण्णं कम्माणमेग-मावाहाकदयमसखेज्जगुण । णामा-गोदाण ट्टिदिवंधट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । चटुण्णं कम्माणं ट्टिदिवंधट्टाणाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स ट्टिदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । णामा-गोदाण जहणओ ट्टिदिवंधो असंखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । चटुण्णं कम्माणं जहणओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स जहणओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । एव सत्थाणपावहुग समत्त ।

परत्थाणे पयद—सुहुमेइंदियअपज्जत्तयाण णामा-गोदाणमावाहाट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि । चटुण्णं कम्माणमावाहाट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । वादरएइंदियअपज्जत्तयाणं णामा-गोदाणमावाहाट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि सखेज्जगुणाणि । चटुण्णं कम्माण आवाहाट्टाणाणि

आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । आयुके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे है । चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे है । सात कर्मोंका एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है । सात कर्मोंका एक आवाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है । नाम-गोत्रके स्थितिवन्धस्थान असंख्यातगुणे है । चार कर्मोंके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक हैं । मोहनीयके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे है । नाम व गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इस प्रकार स्वस्थान अल्पवहुत्व समाप्त हुआ ।

अब परस्थान अल्पवहुत्वका अधिकार है — सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके नाम व गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य व स्तोक है । चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक है । मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके नाम-गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे है । चार

विसेसाहियाणि । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । चोदसण्हं जीवसमासाणमाउअस्स जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । जहण्णओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । सत्तणमपजत्ताण जीवसमासाणमाउअस्स आवाहाट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स आउअस्स आवाहाट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । सुहुमेइंदियपजत्तयस्य णामा-गोदाण जहणिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाण जहणिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स णामा-गोदाणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियअपजत्तयस्स उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियपजत्तयस्स णामा-गोदाणमुक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियपजत्तयस्स चदुणं कम्माणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियपजत्तयस्स चदुणं कम्माणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियअपजत्तयस्स चदुणं कम्माणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । सुहुमेइंदियअपजत्तयस्स चदुणं कम्माणं जहणिया आवाहा विसेसाहिया । तस्सेव अपजत्तयस्स चदुणं कम्माणं उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरेइंदियपजत्तयस्स चदुणं कम्माणं उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । एवं सेसपदाणि विसेसाहियाणि ति वत्तव्वाणि । वादरेइंदियपजत्तयस्स विशेष अधिक हैं । मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यात गुणे हैं । चौदह जीवसमासोंके आयुकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । सात अपर्याप्त जीवसमासोंके आयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तके आयु कर्मके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके नाम गोत्रकी जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तके नाम-गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके नाम गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके नाम-गोत्रकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके नाम-गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके [नाम-गोत्रकी] उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तके नाम-गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके नाम-गोत्रकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके चार कर्मोंकी जघन्य आवाधा विशेष अधिक है । उसीके अपर्याप्तके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके चार कर्मोंकी उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । इसी प्रकार उसके शेष पद विशेष अधिक हैं, ऐसा कहना चाहिये । वादर

संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । चदुण्णं कम्माणमावाहट्टाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । मोहणीयस्स आवाहाट्टाणाणि आवाहाकदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वादरएइंदियपज्जत्ताणमाउअस्स आवाहाट्टाणाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । पंचिदियसण्णिअसण्णीणं पज्जत्ताणमाउअस्स आवाहाट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । वारसण्ण जीवसमासाणमाउअस्स ट्टिदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो विसेसाहियो । असण्णिपंचिदियपज्जत्ताणमाउअस्स णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि । सुहुमेइंदियपज्जत्ताण णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि । वादरेइंदियपज्जत्ताणं णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदियपज्जत्ताणं णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि विसेसाहियाणि । वादरेइंदियपज्जत्ताणं णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि विसेसाहियाणि । वादरएइंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि विसेसाहियाणि । वादरेइंदियपज्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदिय-

संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । चार कर्मोंके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । मोहनीयके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों ही तुल्य संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयुके आवाधास्थान विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । पंचेन्द्रिय संज्ञी व असंज्ञी पर्याप्तक जीवोंके आयुके आवाधास्थान संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । वारह जीवसमासोंके आयुके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयुके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं । सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके नाम गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवोंके नाम गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके नाम गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर-विशेष अधिक हैं । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके चार कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं ।

अपञ्जत्तयस्सं मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि संखेज्जगुणाणि । वादरेइंदियअपञ्जत्त-
यस्स णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि । सुहुमेइंदियपञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स
णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि । वादरएइंदियपञ्जत्तयस्स मोहणीयस्स णाणा-
पदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि । वेइंदियअपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेस-
गुणहाणिट्ठाणंतराणि संखेज्जगुणाणि । तस्सेव पञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणं-
तराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव अपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि
विसेसाहियाणि । तस्सेव पञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि विसेसा-
हियाणि । तेइंदियअपञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणतराणि विसेसाहियाणि ।
तस्सेव पञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव
अपञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव
पञ्जत्तयस्स चदुण्णं कम्माणं णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि । वेइंदियअपञ्जत्त-
यस्सं मोहणीयस्स णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव पञ्जत्तयस्सं मोहणी-
यस्स णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि । चउरिंदियअपञ्जत्तयस्स णामा गोदाणं
णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणतराणि विसेसाहियाणि । तस्सेव पञ्जत्तयस्स णामा-गोदाणं णाणापदेस-
गुणहाणिट्ठाणंतराणि विसेसाहियाणि । सण्णिपंचिंदियपञ्जत्तणमाउअस्स णाणापदेसगुणहा-

सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं ।
वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । सूक्ष्म
एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । वादर
एकेन्द्रिय पर्याप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । द्वीन्द्रिय
अपर्याप्तकके नामगोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संख्यातगुणे हैं । उसीके पर्याप्तकके
नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । उसीके अपर्याप्तकके चार
कर्मोंके नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंके
नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके
नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके
नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । उसीके अपर्याप्तकके चार कर्मोंके
नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । उसीके पर्याप्तकके चार कर्मोंके नाना-
प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकके मोहनीयके नाना-
प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । उसीके पर्याप्तकके मोहनीयके नानाप्रदेश-
गुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकके नाम-गोत्रके नानाप्रदेश-
गुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक हैं । उसीके पर्याप्तकके नाम-गोत्रके नानाप्रदेशगुणहानि-
स्थानान्तर विशेष अधिक हैं । संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके आयुके नानाप्रदेशगुण

१ अ-आ-काप्रतिपु 'पञ्ज०', ताप्रतौ '[अ]पञ्ज०' इति पाठः । २ मप्रतिपाठोऽयम् ।
अ-आ-का ताप्रतिपु 'वेइंदियपञ्ज०' इति पाठः । ३ ताप्रतौ 'अपञ्ज०' इति पाठः ।

विसेसाहियो । चदुण्णं कम्माणं द्विदिवंधट्टाणाणि विसेसाहियाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो । मोहणीयस्स द्विदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो ।

संपहि सुत्तंतोणिलीणस्स एदस्स अप्पावहुगस्स विसमपदाणं भंजणप्पिया पंजियां उच्चदे । तं जहा—तिणिमाससहस्समावाहं काऊण समऊण-विसमऊणादिकमेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं जाव ओसारिय वंधदि ताव णिसेगट्टिदी च ऊणा होदि । कुदो ? एदेसु द्विदिवंधविसेसेसु उक्कसावाहं मोत्तूण अण्णावाहाणमभावादो । पुणो संपुण्णआवाहाकदएण्णउक्कस्सट्टिदिं वंधमाणस्स आवाहा समऊणतिणिवाससहस्समेत्ता होदि, पुच्चिलावाहाचरिमसमए पढमणिसेयो पडिदो त्ति तस्स णिसेयट्टिदीए अंतम्भावादो । समऊणावाहाकंदएण्णउक्कस्सट्टिदिवंधे संपुण्णावाहाकंदएण्णउक्कस्सट्टिदिवंधे च णिसेय-ट्टिदीयो समाणाओ, पुच्चिलावाधादो सपहिआवाधाए समऊणत्तुवलंभादो । पुणो^२ समऊण-तिणिवाससहस्साणि आवाहभावेण धुवं करिय समऊण-विसमऊणादिकमेण जाव पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तद्विदिवंधट्टाणाणि ओसारिय वंधदि ताव णिसेयट्टिदी च

अधिक है । चार कमोंके स्थितिवन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

अब सूत्रके अन्तर्गत इस अल्पवहुत्वके विपम पदोंकी भंजनात्मक पंजिकाको कहते हैं । यथा, तीन हजार वर्ष मात्र आवाधा करके एक समय कम, दो समय कम, इत्यादि क्रमसे पल्योपमके असंख्यातवे भाग तक नीचे हटकर स्थितिको जब तक बांधता है तब तक निषेकस्थिति ही कम होती जाती है, क्योंकि, इन स्थितिवन्धोंमें उत्कृष्ट आवाधाके अतिरिक्त अन्य आवाधाओंकी सम्भावना नहीं है । पश्चात् सम्पूर्ण आवाधाकाण्डकसे रहित उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेवाले जीवके आवाधाका प्रमाण एक समय कम तीन हजार वर्ष होता है, क्योंकि पूर्वोक्त आवाधाके अन्तिम समयमें चूंकि प्रथम निषेक आचुका है अतः वह निषेक स्थितिमें गर्भित है । एक समय कम आवाधाकाण्डकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिवन्धमें तथा सम्पूर्ण आवाधाकाण्डकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिवन्धमें निषेक स्थितियां समान हैं, क्योंकि, पहिलेकी आवाधासे इस समयकी आवाधा एक समय तक पायी जाती है । फिर एक समय कम तीन हजार वर्षोंको आवाधा रूपसे स्थिर करके एक समय कम, दो समय कम, इत्यादि क्रमसे जब तक पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र स्थितिवन्धस्थान नीचे हटकर स्थितिको बांधता है तब तक केवल निषेक स्थिति ही

१ कारिका स्वल्पवृत्तिस्तु सूत्र सूचनक स्मृतम् । टीका निरन्तर व्याख्या पञ्जिका पदमञ्जिका ॥ प्रमेयर० (वैजेयप्रियपुत्रस्येत्यादिश्लोकस्य टिप्पण्याम्) पिञ्ज्यतेऽर्थोऽस्यामिति 'पिञ्जि भाषार्थः' अस्माच्चौरादिकादधिकरणे "गुरोश्च हलः" इत्यप्रत्यये, पृषोदरत्वादिकारस्याकारे स्वार्थे कनि च, पिञ्ज्यतीति विग्रहे तु क्वनि वा पञ्जिका—निर्दोषपदस्य व्याख्या । अमरकोष ३, ५, ७. (सालाख्या टीका) २ प्रतिषु 'पुण' इति पाठः ।

ऊणा होदि, समऊणुक्कस्सावाधाए तत्थ धुवभावेण अवट्टाणदंसणादो । पुणो चिदिय-
आवाधाकंडयमेत्तमोसरिय वधे उवकस्सावाहा दुसमऊणा होदि । कुदो ? समउत्तरट्टिदि-
बंधणिसेगट्टिदीहि सह समऊणट्टिदिवंधणिसेगट्टिदीणं समाणत्तुवलंभादो । पुणो एत्तो समऊण-
दुसमऊणादिकमेण जाव पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणट्टिदिं वधदि ताव
दुसमऊणतिण्णिवाससहस्समेत्ता आवाहा होदि । संपुण्णेषु आवाहाकट्टएसु परिहीणेषु
तिसमऊणतिण्णिवाससहस्समेत्तावाहा होदि । एवं समऊणावाहाकट्टयमेत्ताथो ट्टिदीयो
जाव परिहायंति ताव एक्का चेव आवाहा होदण पुणो सपुण्णेगावाहाकट्टयमेत्तट्टिदीसु
परिहीणासु पुच्चिलावाहादो संपहियावाहा समऊणा होदि ति सच्चत्थ वत्तत्वं । एदेण
कमेण ओदारेदच्च जाव जहण्णावाहा जहण्णणिसेयट्टिदी च चिट्ठदि ति ।

जहण्णट्टिदिवंधादो समउत्तरादिकमेण जाव समऊणावाहाकट्टयमेत्तट्टिदीयो वड्ढिट्ठण
बंधदि ताव आवाहा जहण्णिया चेव होदि । पुणो सपुण्णमेगमावाहाकट्टयमेत्तं वड्ढिट्ठण
बंधमाणस्स आवाहा जहण्णावाहादो समउत्तरा होदि । आवाहावड्ढिट्ठसमए णिसेगट्टिदी
ण वड्ढदि, अक्कमेण दोण्णं ट्टिदीणं वड्ढिप्पसंगादो । दोसु समएसु जुगवं वड्ढिदसुं को
उत्तरोत्तर कम होती जाती है, क्योंकि, उनमें एक समय कम उत्कृष्ट आवाधाका ध्रुव
स्वरूपसे अवस्थान देखा जाता है । पश्चात् द्वितीय आवाधाकाण्डकके बराबर स्थितिवन्ध-
स्थान नीचे हटकर जो स्थितिवन्ध होता है, उसमें उत्कृष्ट आवाधा दो समय कम होती
है, क्योंकि, एक समय अधिक स्थितिवन्धोंकी निपेक स्थितियोंके साथ एक समय कम
स्थितिवन्धकी निपेकस्थितियोंकी समानता पायी जाती है । इसके आगे एक समय कम,
दो समय कम, इत्यादि क्रमसे जब तक पल्योपमके असंख्यातत्रै भागसे हीन स्थितिको
वांधता है तब तक आवाधा दो समय कम तीन हजार वर्ष प्रमाण होती है । सम्पूर्ण
आवाधा-काण्डकोंके हीन होनेपर आवाधा तीन समय कम तीन हजार वर्ष मात्र होती
है । इस प्रकार जब तक एक समय कम आवाधाकाण्डकके बराबर स्थितियां हीन होती
हैं तब तक एक ही आवाधा होती है । पश्चात् सम्पूर्ण एक आवाधाकाण्डकके बराबर
स्थितियोंके हीन हो जानेपर पहिलेकी आवाधासे इस समयकी आवाधा एक समय कम
होती है, ऐसा सर्वत्र कथन करना चाहिये । इस क्रमसे जब तक जघन्य आवाधा और
जघन्य निपेकस्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक नीचे उतारना चाहिये ।

जघन्य स्थितिवन्धसे एक समय अधिक, दो समय अधिक, इत्यादि क्रमसे जब तक
एक समय कम आवाधाकाण्डकके बराबर स्थितियां वृद्धिगत होकर बन्ध होता है तब
तक आवाधा जघन्य ही होती है । पुनः सम्पूर्ण एक आवाधाकाण्डकके बराबर स्थितियोंके
वृद्धिगत होनेपर स्थितिको बांधनेवाले जीवके जघन्य आवाधाकी अपेक्षा एक समय
अधिक आवाधा होती है । आवाधाकी वृद्धिके समयमें निपेकस्थितिकी वृद्धि नहीं होती,
क्योंकि, वैसा होनेपर एक साथ दोनों स्थितियोंकी वृद्धिका प्रसंग आता है ।

शंका—दो समयकी एक साथ वृद्धि होनेपर क्या दोष है ?

१ प्रतिषु ' परिहीणेषु ' इति पाठः । २ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ का-ताप्रतिषु ' वड्ढिदे ' इति पाठः ।

दोसो? ण, जहण्णट्टिदिमुक्कस्सदिग्घिं सोहिय रूवे पक्खित्ते ट्टिदिबंधट्टाणाणमणुप्पत्ति-
प्पसंगादो । ण च एवं, ट्टिदिबंधट्टाणसुत्तेण सह विरोहादो । एवं कदे अन्तोमुहुत्तूणतिण्णि-
वाससहस्समेत्ताणि आवाहाट्टाणाणि लद्धाणि^३ होंति । जत्तियाणि आवाहाट्टाणाणि
तत्तियाणि चेव आवाहाकंदयाणि लब्भंति । णवरि अंतिममावाहकंदयमेगरूवणं^३ ।
कुदो ? जहण्णट्टिदिजहण्णावाहाए चरिमसमयस्स सव्वणिसेगट्टिदीसु परिहीणासु
जहण्णट्टिदिग्गहणादो ।

मोहणीयस्स अतोमुहुत्तूणसत्तवाससहस्समेत्ताणि आवाहाट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि
च हवंति । एत्थ आवाहाकंदएसु एगरूवअवणयणस्स कारणं पुव्वं व वत्तव्वं । एवमूणिदे
आवाहाट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च तुल्लाणि त्ति अप्पाबहुगसुत्तेण विरोहो किण्ण
होदि त्ति उत्ते, ण, वीचारट्टाणेषु उप्पण्णआवाहाकंदयसलागाणं तेहि समाणत्तं
पडि विरोहाभावादो ।

णामा-गोदानमंतोमुहुत्तूणवेवाससहस्समेत्ताणि आवाहाट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि
हवंति ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा होनेसे उत्कृष्ट स्थितिमेंसे जघन्य स्थितिको कम
करके एक अंक मिलानेपर स्थितिवन्धस्थानोंकी उत्पत्तिका प्रसंग आता है । परन्तु ऐसा
है नहीं, क्योंकि, स्थितिवन्धस्थान सूत्रके साथ विरोध आता है ।

इस प्रकार करनेपर अन्तर्मुहूर्तसे रहित तीन हजार वर्ष प्रमाण आवाधास्थान प्राप्त
होते हैं । जिनने आवाधास्थान प्राप्त हैं उतने ही आवाधाकाण्डक प्राप्त होते हैं । विशेष
इतना है कि अन्तिम आवाधाकाण्डक एक अंकसे हीन होता है, क्योंकि, जघन्य स्थिति
सम्बन्धी जघन्य आवाधाके अन्तिम समयकी सब निषेकस्थितियोंकी हानि हो जानेपर
जघन्य स्थितिका ग्रहण किया गया है ।

मोहनीय कर्मके अन्तर्मुहूर्तसे हीन सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधास्थान और
आवाधाकाण्डक होते हैं । यहाँ आवाधाकाण्डकोंमेंसे एक अंक कम करनेका कारण पहिलेके
ही समान कहना चाहिये ।

शंका—इस प्रकार कम करनेपर 'आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक दोनों
तुल्य हैं' इस अल्पबहुत्वसूत्रके साथ विरोध क्यों नहीं होगा ?

समाधान—इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि उससे विरोध नहीं होगा, क्योंकि,
वीचारस्थानोंमें उत्पन्न आवाधाकाण्डकशलाकाओंकी उनके साथ समानतामें कोई
विरोध नहीं है ।

नाम व गोत्रके आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक अन्तर्मुहूर्त कम दो हजार वर्ष
प्रमाण हैं ।

१ अ-आ-काप्रतिपु 'ट्टिदीहि' इति पाठः । २ अ-आ का प्रतिपु 'अद्धाणि' इति पाठः ।

३ अ-आ-काप्रतिपु 'रूवाणं' इति पाठः ।

आउअस्स अंतोमुहुत्तूणपुच्चकोडितिभागमेत्ताणि आवाहट्टाणाणि । आवाहाकंदयाणि पुण णत्थि । कारणं चित्थिय वत्तव्वं ।

जेणेवंविहमावाहाकंदयं तेणेगावाहाकंदएण समऊणजहण्णट्टिदिमोवट्टिय लद्धम्मि एगस्सवे पक्खित्ते जहणिया आवाहा आगच्छदि । अथवा, जहण्णावाहाए आवाहाट्टाण- गुणिएगावाहाकंदए भागे हिदे जं लद्धं तेणं ट्टिदिवंधट्टाणेसु भागे हिदे जहणिया आवाहा आगच्छदि । अथवा, जहण्णावाहाए उक्कस्सावाहमोवट्टिय लद्धेण एगमावाहाकंदयं गुणिय तेण उक्कस्सट्टिदीए भागे हिदाए जहणियावाहा होदि ।

एक्केण आवाहाकंदएण ट्टिदिवंधट्टाणेसु भागे हिदेसु आवाहट्टाणाणि आगच्छंति । जहण्णावाहमुक्कस्सावाहादो सोहिदे सुद्धसेसमावाहट्टाणविसेसो णाम । एक्केणावाहाकंदएण उक्कस्सट्टिदीए भागे हिदाए उक्कस्सावाहा होदि । एगपदेसगुणहाणिट्टाणंतरेण कम्मट्टिदिम्हिं भागे हिदे णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि आगच्छंति । णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतरेहि कम्मट्टिदीए ओवट्टिदाए एगपदेसगुणहाणिट्टाणंतरं होदि । उक्कस्सियाए आवाहाए उक्कस्स- ट्टिदीए ओवट्टिदाए एगमावाहाकंदयं होदि । अथवा, आवाहाट्टाणेहि ट्टिदिवंधट्टाणेसु ओवट्टिदेसु एगमावाहाकंदयं होदि । जहणियाए आवाहाए एगमावाहाकंदयं गुणिय पुणो

आयुके आवाधास्थान अन्तमुहूर्तं कम पूर्वकोटिके तृतीय भाग प्रमाण हैं । उसके आवाधाकाण्डक नहीं होते । इसका कारण विचारपूर्वक कहना चाहिये ।

जिस कारण इस प्रकारका आवाधाकाण्डक है इसीलिये एक आवाधाकाण्डकका एक समय कम जघन्य स्थितिमें भाग देनेपर जो लब्ध हो उसमें एक अंक मिला देनेपर व य आवाधाका प्रमाण आता है । अथवा, जघन्य आवाधाका आवाधास्थानोंसे गुणित एक आवाधाकाण्डकमें भाग देनेपर जो लब्ध हो उसका स्थितिवन्धस्थानोंमें भाग देनेसे जघन्य आवाधा आती है । अथवा, उत्कृष्ट आवाधामें जघन्य आवाधाका भाग देकर जो प्राप्त हो उससे एक आवाधाकाण्डकको गुणित करना चाहिये । पश्चात् प्राप्त राशिका उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर जघन्य आवाधाका प्रमाण आता है ।

स्थितिवन्धस्थानोंमें एक आवाधाकाण्डकका भाग देनेपर आवाधास्थानोंका प्रमाण आता है । उत्कृष्ट आवाधामेंसे जघन्य आवाधाको कम करनेपर जो शेष रहे वह आवाधास्थानविशेष कहलाता है । उत्कृष्ट स्थितिमें एक आवाधाकाण्डकका भाग देनेपर उत्कृष्ट आवाधाका प्रमाण आता है । कर्मस्थितिमें एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका भाग देनेपर नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका प्रमाण आता है । नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका कर्मस्थितिमें भाग देनेपर एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका प्रमाण आता है । उत्कृष्ट स्थितिमें उत्कृष्ट आवाधाका भाग देनेपर आवाधाकाण्डकका प्रमाण होता है । अथवा, स्थितिवन्धस्थानोंमें आवाधास्थानोंका भाग देनेपर एक आवाधाकाण्डकका प्रमाण

१ अप्रतौ 'ज वंध ति तेण', आप्रतौ 'जं वध तेण', इति पाठः । २ अ-आ-ताप्रतिपु 'कम्मट्टिदि', काप्रतौ 'कम्मट्टिदि' इति पाठः ।

तत्थ रूवणे आवाहाकंदए अवणिदे जहण्णट्टिदिवंधो होदि । आवाहट्टाणविसेसेहि एगमा-
वाहाकंदयं गुणिय तत्थ रूवणावाहाकंदए पक्खित्ते ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो होदि । उक्कस्सियाए
आवाहाए एगआवाहाकंदए गुणिदे उक्कस्सट्टिदिवंधो होदि ।

संपहि चदुण्णमेइंदियजीवसमासाणमट्टण्णं विगळिंदियजीवसमासाणं च आवाहा-
ट्टाणार्णमावाहाकंदयाणं च पमाणपरुवणं कस्सामो । तं जहा—संखेज्जपलिदोवममेत्तवीचार-
ट्टाणेहि जदि संखेज्जावलियमेत्ताणि आवाहट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च लम्भंति^३ तो
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तवीचारट्टाणाणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तवीचारट्टाणाणं
च केत्तियाणि आवाहाट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए
ओवट्टिदाए चदुण्णमेइंदियजीवसमासाणमावलियाए असंखेज्जदिभागमेत्ताणि आवाहाट्टाणाणि
आवाहाकंदयाणि च^४ होंति । वेइंदियादिअट्टण्णं पि जीवसमासाणमावलियाए संखेज्जदि-
भागमेत्ताणि आवाहाट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च होंति । एवं णाणापदेसगुणहाणि-
ट्टाणंतराणमेगपदेसगुणहाणिट्टाणंतरस्स च तेरासियं काऊण सव्वजीवसमाससव्वकम्मट्टिदीणं
पमाणपरुवणं कायव्वं ।

होता है । जघन्य आवाधासे एक आवाधाकाण्डकको गुणित करके उसमेंसे एक कम
आवाधाकाण्डकको घटा देनेपर जघन्य स्थितिवन्ध होता है । आवाधास्थानविशेषोंसे एक
आवाधाकाण्डकको गुणित करके प्राप्त राशिमें एक कम आवाधाकाण्डकको मिलानेपर
स्थितिवन्धस्थानविशेष प्राप्त होता है । उत्कृष्ट आवाधासे एक आवाधाकाण्डकको गुणित
करनेपर उत्कृष्ट स्थितिवन्ध प्राप्त होता है ।

अब चार एकेन्द्रिय समासों और आठ विकलेन्द्रिय जीवसमासोंके आवाधास्थानों
व आवाधाकाण्डकोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—संख्यात
पल्योपम प्रमाण वीचारस्थानोंसे यदि संख्यात आवलि प्रमाण आवाधास्थान व
आवाधाकाण्डक प्राप्त होते हैं, तो पल्योपमके संख्यातवें भाग मात्र वीचारस्थानों और
पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र वीचारस्थानोंके कितने आवाधास्थान और आवाधा-
काण्डक प्राप्त होंगे, इस प्रकार प्रमाणसे फलगुणित इच्छाको अपवर्तित करनेपर चार
एकेन्द्रिय जीवसमासोंके आवलिके असंख्यातवें भाग मात्र आवाधास्थान और आवाधा-
काण्डक प्राप्त होते हैं । द्वीन्द्रियादिक आठोंही जीवसमासोंके आवलिके संख्यातवें
भाग मात्र आवाधास्थान व आवाधाकाण्डक होते हैं । इसी प्रकार नानाप्रदेशगुणहानि-
स्थानातरों और एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका त्रैराशिक करके समस्त जीवसमासों
सम्बन्धी कर्मस्थितियोंके प्रमाणकी प्ररूपणा करना चाहिये ।

१ काप्रतौ 'आवाहाट्टाणाणि', ताप्रतौ 'आवाहाट्टाणाणि (णं)' इति पाठः । २ अ-आप्रत्योः
'विचारट्टाणेहियो जदि', काप्रतौ 'विचारट्टाणेहियो जदि', ताप्रतौ 'विचारट्टाणेहिय (हियो) इति
पाठः । ३ ताप्रतौ 'लम्भदि (म्भति)', इति पाठः । ४ ताप्रतौ 'असखे०' इति पाठः । ५ ताप्रतौ
'संखेज्जदि' इति पाठः ६ ताप्रतौ 'च' इत्येतत्पद नास्ति ।

सव्वत्थोवा आउअस्स जहण्णाचाहा इदि वुत्ते असंखेयद्धाँपढमसमए आउअकम्मबंध-
माढविय जहण्णबंधगद्धाए चरिमसमए वट्टमाणस्स जा आवाहा सा वेत्तव्वाँ, तत्तो ऊणाएँ
अण्णावाहाए अणुवलंभादोँ । खुद्दाभवग्गहणप्पहुडि समउत्तर-दुसमउत्तरादिकमेण जाव
अपज्जत्तउक्कस्साउअं ति ताव णिरंतरं गंतवण पुणो उवरि अंतोमुहुत्तमंतरं होद्वण सण्णि-असण्णि-
पज्जत्ताणं जहण्णाउअं होदि । पुणो एदमादिं काद्वण उवरि णिरंतर गच्छदि जाव
तेत्तीससागरोवमाणि ति । तेण जहण्णाट्टिदिवंधमुक्कस्सट्टिदिवंधमिह सोहिदे सेसकम्माणं
व आउअस्स ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो ण उप्पज्जदि ति वेत्तव्वं । एवमप्पावहुगं समतं ।

(विद्या चूलिया)

ठिदिबंधज्झवसाणपरूवणदाए तत्थ इमाणि तिण्णि अणिआग-
हाराणि जीवसमुदाहारो पयडिसमुदाहारो ट्टिदिसमुदाहारो तिँ ॥१६५॥

संपधि इमा कालविहाणस्स विद्या चूलिया किमट्टमागदा ? ठिदिबंधट्टाणाणं
कारणभूदअज्झवसाणट्टाणपरूवणट्टं । ट्टिदिवंधट्टाणबंधकारणसंकिलेस-विसोहिट्टाणाणं परूवणा

‘ आयुकी जघन्य आवाधा सबसे स्तोक है पेसा ’ कहनेपर असंखेयाद्धा
(असंक्षेपाद्धा) के प्रथम समयमें आयु कर्मके बन्धको प्रारम्भ करके जघन्य बन्धककालके
अन्तिम समयमें वर्तमान जीवके जो आवाधा होती है उसका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि
उससे हीन और अन्य आवाधा पायी नहीं जाती । शुद्धभवग्रहणको आदि लेकर एक
समय अधिक दो समय अधिक इत्यादि क्रमसे जब तक अपर्याप्तिककी उत्कृष्ट आयु नहीं
प्राप्त होती तब तक निरन्तर जाकर, तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्त अन्तर होकर संज्ञी व असंज्ञी
पर्याप्तिकोंकी जघन्य आयु होती है । फिर इरुको आदि लेकर आगे तेतीस सागरोपम
तक निरन्तर जाते हैं । इसलिये उत्कृष्ट स्थितिवन्धमेंसे जघन्य स्थितिवन्धको कम करनेपर
शेष कर्मोंके समान आयु कर्मका स्थितिवन्धविशेष उत्पन्न नहीं होता, ऐसा ग्रहण करना
चाहिये । इस प्रकार अल्पवहुत्व समाप्त हुआ ।

(द्वितीय चूलिका)

स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानपरूपणा अधिकृत है । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं—
जीवसमुदाहार, प्रकृतिसमुदाहार और स्थितिसमुदाहार ॥ १६५ ॥

शंका—अब यह कालविधानकी द्वितीय चूलिका किसलिये आयी है ?

समाधान—वह स्थितिवन्धस्थानोंके कारणभूत अध्यवसानस्थानोंकी परूपणा
करनेके लिये प्राप्त हुई है ।

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ आ-का-ताप्रतिषु ‘ संखेयद्धा—’ इति पाठः । २ अ-आ-काप्रतिषु ‘ जाव
आवाहा वेत्तव्वा ’, मप्रतौ ‘ जाव आवाहा सा वेत्तव्वा ’ इति पाठः । ३ प्रतिषु ‘ ऊणए ’ इति पाठः । ४ मप्रति-
पाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु ‘ अण्णावाहाअणुवलंभादो ’ इति पाठः । ५ तदेवमुक्तमल्पबहुत्वम् । इदानीं
स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानपरूपणा कर्तव्या । तत्र त्रीण्यनुयोगद्वाराणि । तद्यथा—स्थितिसमुदाहारः १, प्रकृति-
समुदाहारः २, जीवसमुदाहारश्च ३ । समुदाहारः प्रतिपादनम् । क.प्र. (म.टी.) १, ८७ गाथाया उत्थानिका ।

पढमाए चूलियाए कदा चेव, पुणो तत्थ परुविदाणं संकिलेस-विसोहिट्टाणाणं परुवणा ण कायव्वा; पुणरुत्तदोसप्पसंगादो । ण च कसाउदयट्टाणाणि मोत्तूण द्विदिबंधस्स अण्णं कारणमत्थि, द्विदिअणुभागे कसायदो कुणदि त्ति वयणेण विरोहप्पसंगादो त्ति ? एत्थ परिहारो उच्चदे । तं जहा—असादबंधपाओग्गकसाउदयट्टाणाणि संकिलेसो णाम । ताणि च जहण्णद्विदीए थोवाणि होदृण विदियद्विदिप्पहुडि विसेसाहिय कमेण ताव गच्छंति जाव उक्कस्सद्विदि त्ति । एदाणि च सव्वमूलपयडीणं समाणाणि, कसाएण विणा वज्जमाणमूलपयडीए अणुवलंभादो । सादबंधपाओग्गाणि कसाउदयट्टाणाणि विसोहिट्टाणाणि । एदाणि च उक्कस्सद्विदीए थोवाणि होदृण दुचरिमद्विदिप्पहुडिप्पगणणादो विसेसाहियकमेण ताव गच्छंति जाव जहण्णद्विदि त्ति । संकिलेसट्टाणेहिंतो किमट्ठं विसोहिट्टाणाणि उणत्तमुवगयाणि ? ण, साभावियादो । एदाणि संकिलेसविसोहिट्टाणाणि णाम द्विदिबंधमूलकारणभृदाणि एदोसिं द्विदिबंधट्टाणपरुवणाए वण्णणा कदा । ण च एत्थ एदोसिं पुव्वं परुविदाणं परुवणा अत्थि जेण पुणरुत्तदोसो होज्ज, किंतु एत्थ द्विदिबंधट्टाणाणं विसेसपच्चयस्स द्विदिबंधवजाणसण्णिदस्स परुवणा कीरदे । ण पुणरुत्तदोसो वि दुक्कदे, पुव्वमपरुविदद्विदि-

शंका—स्थितिवन्धस्थानोंके कारणभूत संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंकी प्ररूपणा प्रथम चूलिकामें की ही जा चुकी है, अतः वहां वर्णित संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंकी प्ररूपणा फिरसे नहीं की जानी चाहिये, क्योंकि, वैसा करनेपर पुनरुक्त दोषका प्रसंग आता हैं । कपायोदयस्थानोंको छोड़कर स्थितिवन्धका और कोई दूसरा कारण संभव नहीं है, क्योंकि, वैसा होनेपर “ स्थिति व अनुभागको कपायसे करता है ” इस आगम वाक्यके साथ विरोधका प्रसंग आता है ?

समाधान—यहां इस शंकाका उत्तर कहते हैं । वह इस प्रकार है—असाता वेदनीयके बन्ध योग्य कपायोदयस्थानोंको संक्लेश कहा जाता है । वे जघन्य स्थितिमें स्तोक होकर आगे द्वितीय स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक विशेषाधिकताके क्रमसे जाते हैं । ये सब मूल प्रकृतियोंके समान हैं. क्योंकि, कपायके विना बंधको प्राप्त होनेवाली कोई मूल प्रकृति पायी नहीं जाती । सातावेदनीयके बन्ध योग्य परिणामोंको विशुद्धिस्थान कहते हैं । ये उत्कृष्ट स्थितिमें स्तोक होकर आगे द्विचरम स्थितिसे लेकर जघन्य स्थिति तक गणनाकी अपेक्षा विशेष अधिकताके क्रमसे जाते हैं ।

शंका—विशुद्धिस्थान संक्लेशस्थानोंकी अपेक्षा हीनताको क्यों प्राप्त हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वे स्वभावसे ही हीनताको प्राप्त हैं ।

ये संक्लेश-विशुद्धिस्थान स्थितिबन्धके मूल कारणभूत हैं । इनका वर्णन स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणामें किया गया है । यहां पूर्वमें वर्णित इनकी पुनः प्ररूपणा नहीं की जा रही है, जिससे कि पुनरुक्त दोष होनेकी सम्भावना हो । किन्तु यहां स्थितिवन्धाध्यवसान नामसे प्रसिद्ध स्थितिवन्धस्थानोंके विशेष प्रत्यय (कारण) की प्ररूपणा की जा रही है । अतः पुनरुक्त दोष भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, यहां पूर्वमें जिनकी प्ररूपणा नहीं की गयी है, उन बन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणा की गयी है ।

१ अ-आप्रतो: ' जेण पुणरुत्तदोसो ण होज्ज ' काप्रती ' जे.पुण रुत्तदोसो ण होज्ज ' इति पाठः ।

बंधज्जवसाणट्टाणपरुवणत्तादो^१ । ट्टिदिवंधज्जवसाणट्टाणाणि कसाउदयट्टाणाणि ण होति त्ति कथं णव्वदे ? णामा-गोदाणं ट्टिदिवंधज्जवसाणट्टाणेहिंतो चदुण्णं कम्माणं ट्टिदिवंध-ज्जवसाणट्टाणाणि [असंखेज्जगुणाणि त्ति अप्पावहुगसुत्तादो । जदि पुण कसाउदयट्टाणाणि चेव ट्टिदिवंधज्जवसाणट्टाणाणि] होति तो णेदमप्पावहुगं धडदे, कसायोदयट्टाणेण विणा मूलपयडिबंधाभावेण सव्वपयडिट्टिदिवंधज्जवसाणट्टाणाणं समाणत्तप्पसंगादो । तम्हा सव्वमूलपयडीणं सग-सगउदयादो समुप्पणपरिणामाण सग-सगट्टिदिवंधकारणत्तेण ट्टिदिवंध-ज्जवसाणट्टाणसण्णिदाणं एत्थ गहणं कायव्वं, अण्णहा उत्तदोसप्पसंगादो । एदेसिं ट्टिदिवंधज्जवसाणट्टाणाणं परुवणट्टमिमा विदिया च्चलिया आगदा । तत्थ तिण्णि अणियोगहाराणि जीव-पयडि-ट्टिदिसमुदाहारभेदेण । तत्थ जीवसमुदाहारो किमट्टं आगदो ? सादासादाणं एक्केक्किस्से ट्टिदीए एत्तिया जीवा होति ण होति त्ति जाणावणट्टमागदो । पयडिसमुदाहारो किमट्टमागदो ? एदिस्से पयडीए ट्टिदिवंधज्जवसाणट्टाणाणि एत्तियाणि

शंका—स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान कपायोदयस्थान नहीं हैं, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—नाम व गोत्रके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी अपेक्षा चार कर्मोंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं, इस अल्पवहुत्वसूत्रसे वह जाना जाता है । यदि कपायोदयस्थान ही स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान हों तो यह अल्पवहुत्व घटित नहीं हो सकता है, क्योंकि, कपायोदयस्थानके विना मूल प्रकृतियोंका बन्ध न हो सकनेसे सभी मूल प्रकृतियोंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी समानताका प्रसंग आता है । अत एव सब मूल प्रकृतियोंके अपने अपने उदयसे जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनकी ही अपनी अपनी स्थितिके बन्धमें कारण होनेसे स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान संज्ञा है । उनका ही ग्रहण यहाँ करना चाहिये, क्योंकि, अन्यथा पुनरुक्त दोषका प्रसंग आता है ।

इन स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणाके लिये द्वितीय चूलिकाका अवतार हुआ है । उसमें तीन अनुयोगहार हैं—जीवसमुदाहार, प्रकृतिसमुदाहार और स्थितिसमुदाहार ।

शंका—इनमें जीवसमुदाहार किसलिये आया है ?

समाधान—साता व असाताकी एक एक स्थितिमें इतने जीव हैं व इतने नहीं है, इस बातके ज्ञापनार्थ जीवसमुदाहार प्राप्त हुआ है ।

प्रकृतिसमुदाहार किसलिये आया है ?

इस प्रकृतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान इतने होते हैं और इतने नहीं होते हैं, इस

१ अ-आ-का-ताप्रतिष्वनुपलभ्यमानमिदं हेतुवचनं मप्रतितोऽत्र योजितम् । २ अ-आ का ताप्रतिष्वनु-पलभ्यमानोऽय कोष्ठकस्थः पाठो मप्रतितोऽत्र योजितः ।

होति [एत्तियाणि] ण होति त्ति जाणावणट्टमागदो । द्विदिसमुदाहारो किमट्टमागदो ? एदिस्से द्विदीए एत्तियाणि द्विदिवंधज्झवसाणट्टाणाणि होति, एत्तियाणि ण होति त्ति जाणावणट्टं । ण च तिण्णि अणियोगद्वाराणि मोत्तूण एत्थ चउत्थमणियोगदारं संभवदि, अणुवलंभादो । पयडिद्विदिसमुदाहाराणं द्विदिवंधज्झवसाणट्टाणपरूवणट्टं^२ होदु णाम, पयडि-द्विदीओ अस्सिदृण तत्थ द्विदिवंधज्झवसाणट्टाणपरूवणुवलंभादो । ण जीवसमुदाहारस्सै, तत्थ तदणुवलंभादो त्ति ? ण एस दोसो, ठिदीणं कजे कारणोवयारेण ठिदिवंधज्झवसाण-ट्टाणववएसोवलंभादो । ण च जीवसमुदाहारो उवयारेण द्विदिवंधज्झवसाणट्टाणसण्णिद-द्विदीयो ण परूवेदि, तत्थ जीवसेसिदद्विदिपरूवणुवलंभादो । अधवा, ठिदिवंधज्झवसाण-ट्टाणमासओ त्ति जीवाणं तत्थ तव्ववएसो त्ति ण दोसो ।

**जीवसमुदाहारे त्ति जे ते णाणावरणीयस्स बंधा जीवा ते
दुविहा-सादबंधा चैव असादबंधा चैव ॥ १६६ ॥**

पुव्वुद्विद्विअहियारसंभालणट्टं जीवसमुदाहारो पयदं ति अज्झाहारो कायव्वो, अण्णहा वातका परिज्ञान करानेके लिये प्रकृतिसमुदाहारका अवतार हुआ है । स्थितिसमुदाहार किस लिये आया है ? इस स्थितिके इतने स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान होते हैं और इतने नहीं होते हैं, इसका परिज्ञान करानेके लिये स्थितिसमुदाहार प्राप्त हुआ है । इन तीन अनुयोगद्वारोंको छोड़कर यहां किसी चौथे अनुयोगद्वारकी सम्भावना नहीं है, क्योंकि, वह पाया नहीं जाता ।

शका—स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणा करनेके लिये प्रकृतिसमुदाहार व स्थितिसमुदाहारकी सम्भावना भले ही हो, क्योंकि, प्रकृति व स्थितिका आश्रय करके वहां स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणा पायी जाती है । किन्तु जीवसमुदाहारकी सम्भावना नहीं है, क्योंकि, वहां उनकी प्ररूपणा पायी नहीं जाती ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, कार्यमें कारणका उपचार करनेसे स्थितियोंकी स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान संज्ञा पायी जाती है । और जीवसमुदाहार उपचारसे स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान संज्ञाको प्राप्त हुई स्थितियोंकी प्ररूपणा न करता हो, ऐसा है नहीं, क्योंकि, उसमें जीवसे विशेषताको प्राप्त हुई स्थितियोंकी प्ररूपणा पायी जाती है । अथवा, चूँकि स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान आस्रव है, अतः वहाँ जीवोंकी उक्त संज्ञामें कोई दोष नहीं है ।

जीवसमुदाहार प्रकृत है । जो ज्ञानावरणीयके वन्धक जीव हैं वे दो प्रकार हैं—
सातवन्धक और असातवन्धक ॥ १६६ ॥

पूर्वोद्दिष्ट अधिकारका स्मरण करानेके लिये 'जीवसमुदाहार प्रकृत है' ऐसा अध्याहार करना चाहिये, क्योंकि अन्यथा परिज्ञान नहीं हो सकता । 'सादबंधा'

१ अ-आ-काप्रतिषु 'जाणावणट्टं च' इति पाठः । २ आ-का-ताप्रतिषु 'परूवणत्त' इति पाठः । ३ अप्रतौ 'जीवसमुदाहारो' इति पाठः । ४ ताप्रतौ 'त्ति' इत्येतत्पदं नास्ति ।

अत्यपडिवितीए अभावादो । सादबंधा त्ति उत्ते सादबंधया त्ति वेत्तव्वं, कत्तारणिहेसादो । णाणावरणीयस्स बंधया जीवा दुविहा चेव सादबंधया असादबंधया चेदि । ण च सादासादानं बंधेण विणा णाणावरणीयस्स बंधया जीवा अत्थि, अणुवलंभादो । एत्थ णाणावरणीयगहणेण णाणावरणादीणं धुवबंधीणं पयडीणं बंधया जीवा दुविहा त्ति वत्तव्वं । सादबंधया इदि उत्ते साद-थिर-सुभ-सुस्सर-सुभग-आदेज्ज-जसकित्ति-उच्चागोदाणमट्टणं सुहपयडीणं परियत्तमाणीणं गहणं कायव्वं, अण्णोण्णाविणाभाविवंधादो । असादबंधया इदि उत्ते असाद-अथिर-असुह-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसगित्ति-णीचागोदबंधयाणं गहणं कायव्वं, वधेण अण्णोण्णाविणाभावित्तदंसणादो । सादासादादीणमक्कमेण एगजीवम्मि बंधो किण्ण जायदे ? ण, अच्चंताभावेण पडिसिद्धअक्कमप्पउत्तीदो । सादासादादीणमक्कम-बंधे जीवाणं सत्ती णत्थि त्ति भणिदं होदि ।

तत्थ जे ते सादबंधा जीवा ते तिविहा- चउट्टाणबंधा तिट्टाण-
बंधा विट्टाणबंधा ॥ १६७ ॥

तत्थ सादबंधा जीवा त्ति णिहेसेण असादबंधयजीवाणं पडिसेहो कदो । तिविहा त्ति वयणेण चउव्विहादिपडिसेहो कदो । चउट्टाण-तिट्टाण-विट्टाणमिदि तिविहो सादाणु भागो होदि । सादावेदणीए एगट्टाणाणुभागो णत्थि, तहाणुवलंभादो । वंधं पडि एगट्टा-
कहनेपर 'सादबंधया' अर्थात् सातावेदनीयके बन्धक, ऐसा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, कर्ताका निर्देश है । ज्ञानावरणीयसे बन्धक जीव दो प्रकार ही हैं—सातबन्धक और असातबन्धक । साता व असाता वेदनीयके बन्धसे रहित ज्ञानावरणीयके बन्धक जीव नहीं हैं, क्योंकि वे पाये नहीं जाते । सूत्रमें जो ज्ञानावरणीय पदका उपादान किया है उससे ज्ञानावरणादिक ध्रुव प्रकृतियोंके बन्धक जीव दो प्रकार हैं, ऐसा कहना चाहिये । 'सादबंधया' कहनेपर साता, स्थिर, शुभ, सुस्वर, सुभग, आदेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्र, इन आठ परिवर्तमान प्रकृतियोंका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इनके बन्धमें परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है । 'असादबंधया' कहनेसे असाता, अस्थिर, अशुभ, दुर्मग, दुस्वर, अनादेय, अयशकीर्ति और नीच गोत्रके बन्धकोंका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, बन्धकी अपेक्षा उनमें अविनाभाव सम्बन्ध देखा जाता है ।

शंका—एक जीवमें एक साथ साता व असातादिकोंकाबन्ध क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, उनकी युगपत् प्रवृत्ति अत्यन्ताभावसे प्रतिषिद्ध है, अर्थात् साता व असाता आदिकोंको एक साथ बाँधनेमें जीवोंकी शक्ति नहीं है, यह अभिप्राय है ।

उनमें जो सातबन्धक जीव हैं वे तीन प्रकार हैं—चतुःस्थानबन्धक, त्रिस्थान-
बन्धक और द्विस्थानबन्धक ॥ १६७ ॥

सूत्रमें 'सादबंधा जीवा' इस निर्देशसे असातबन्धक जीवोंका निषेध किया गया है । चतुःस्थान, त्रिस्थान और द्विस्थान इस प्रकारसे साता वेदनीयका अनुभाग तीन प्रकार है । सातावेदनीयमें एकस्थान अनुभाग नहीं है, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता ।

१ बंधंती ध्रुवपगढी परित्तमाणिगसुमाण तिविहरस । चउ-तिगविट्टाणगय विवरीयगय च असुमाण ॥ क. प्र. १, १०.

णाणुभागस्स संभवो जदि वि णत्थि तो वि संतं पडुच्च अत्थि त्ति एगट्टाणाणुभागों एत्थ किण्ण परूविदो ? ण, वंधाहियारे संतंपरूवणाणुववर्तीदो । एत्थ सादाणुभागो जहण्ण-फहयप्पहुडि जाव उक्कस्सफहयो त्ति ताव रचेयव्वो सेडिआगारेण । तत्थ पढमो भागो गुडसमाणो^१ एगं ट्टाणं, विदियो भागो खंडसमाणो विदियं ट्टाणं, तदियो भागो सक्करातुल्लो तदियं ट्टाणं, चउत्थो भागो अमियसमो चउत्थट्टाणं । एदाणि चत्तारिट्टाणाणि जम्भि सादाणुभागवंधे अत्थि सो अणुभागवंधो चउत्थट्टाणो । तस्स वंधया जीवा चउट्टाणबंधया णाम । एवं तिट्टाण-विट्टाणबंधाणं पि परूवणं कायव्वं^२ । एवं सादबंधया अणुभागबंध-भेदेण तिविहा चेव होंति ।

असादबंधा जीवा तिविहाँ- विट्टाणबंधा तिट्टाणबंधा चउट्टाण-बंधा त्ति ॥ १६८ ॥

एत्थ असादाणुभागो पुव्वं व सेडिआगारेण उड्डूण चत्तारिभागेसु कदेसु तत्थ पढम-भागो णिवसमो एगट्टाणं, विदियभागो कांजीरसमो विदियट्टाणं, तदियभागो विससमो

शका—यद्यपि बन्धकी अपेक्षा एकस्थान अनुभागकी सम्भावना नहीं है, तथापि सत्त्वकी अपेक्षा तो उसकी सम्भावना है ही । फिर एकस्थानानुभागकी प्ररूपणा यहाँ क्यों नहीं की गई ?

समाधान—नहीं, क्योंकि बन्धके अधिकारमें सत्त्वकी प्ररूपणा संगत नहीं है ।

यहाँ जघन्य स्पर्धकसे लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक तक श्रेणिके आकारसे साताके अनुभागकी रचना करना चाहिये । उसमें प्रथम भाग गुड़के समान एक स्थान, द्वितीय भाग खँडके समान दूसरा स्थान, तृतीय भाग शक्करके समान तीसरा स्थान, और चतुर्थ भाग अमृतके समान चौथा स्थान है । इस प्रकार जिस साताके अनुभागमें ये चार स्थान हों वह अनुभागबन्ध चतुर्थस्थान कहा जाता है । उसको बंधनेवाले जीव चतुःस्थानबन्धक कहलाते हैं । इसी प्रकार त्रिस्थान और द्विस्थानबन्धकोंकी भी प्ररूपणा करना चाहिये । इस अनुभागके भेदसे सातबन्धक तीन प्रकारके हैं ।

असातबन्धक जीव तीन प्रकारके हैं—द्विस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और चतुःस्थानबन्धक ॥ १६८ ॥

यहाँ असाताके अनुभागको पहिलके ही समान श्रेणिके आकारसे स्थापित करके चार भाग करनेपर उनमेंसे प्रथम भाग नीमके समान एक स्थान, द्वितीय भाग कांजीरके समान दूसरे स्थान, तृतीय भाग विषके समान तीसरे स्थान, और चतुर्थ भाग हालालके

१ अ-आ-काप्रतिपु 'गुणसमाणो', ताप्रतौ 'गुण (ङ) समाणो' इति पाठः ।

२ इह शुभप्रकृतीना रसः क्षीरादिरसोपमः । अशुभप्रकृतीनां तु घोषातकी-निंबादिरसोपमः । उक्तं च—'घोसाडह-निंबुवमो असुमाण सुमाण खीर-खंडुवमो' इति । क्षीरादिरसश्च स्वाभाविक एकस्थानिक उच्यते । द्वयोस्तु कर्षयोरावर्तने कृते सति योऽवशिष्यते एकः कर्षः स द्विस्थानिकः । त्रयाणामावर्तने कृते सति य उद्धरित एकः कर्षः त्रिस्थानगतः । चतुर्णां तु कर्षणामावर्तने कृते सति योऽवशिष्टः एकः कर्ष स चतुस्थानगतः । क. प्र. (म. टी.) १, ९०. ३ अप्रतौ 'असादबंधजीवा तिविहा' इति पाठः ।

तदियं ठाणं, चउत्थो भागो हालाहलतुलो चउत्थट्टाणं । तत्थ दोण्णि ट्टाणाणि जम्हि अणु-
भागबंधे सो विट्ठाणो' णाम । तस्स बंधया जीवा विट्ठाणबंधा । एवं तिट्ठाणबंधाणं चउ-
ट्टाणबंधाणं च परूवणा कायव्वा । एवमणुभागबंधमस्सिद्वण असादबंधा तिविहा होंति ।

सर्वविसुद्धा सादस्स चउट्टाणबंधा जीवो ॥ १६९ ॥

सर्वेहितो विसुद्धा सर्वविसुद्धा । सादविट्ठाण-तिट्ठाणबंधएहितो सादस्स चउट्टाण-
बंधा जीवा सुट्ठु विसुद्धा त्ति उत्तं होदि । एत्थं का विसुद्धदा णाम ? अइतिव्वकसायाभावो
मदंकायो विसुद्धदा त्ति वेत्तव्वा । तत्थ सादस्स चउट्टाणबंधा जीवा सर्वविसुद्ध त्ति भणिदे
सुट्ठुमंदसंकिलेसा त्ति वेत्तव्वं । जहण्णट्टिदिबंधकारणजीवपरिणामो वा विसुद्धदा णाम ।

तिट्ठाणबंधा जीवा संकिलिट्टदरा ॥ १७० ॥

सादचउट्टाणबंधएहितो सादस्सेव तिट्ठाणाणुभागबंधया जीवा संकिलिट्टदरा,
कसाउक्कडा त्ति भणिदं होदि ।

समान चौथे स्थान रूप है । उनमेंसे जिस अनुभागबन्धमें दो स्थान हैं वह द्विस्थान
अनुभागबन्ध कहलाता है । उसको बांधनेवाले जीव द्विस्थानबन्धक कहे जाते हैं ।
इसी प्रकार त्रिस्थानबन्धक और चतुःस्थानबन्धक जीवोंकी प्ररूपणा करना चाहिये । इस
प्रकार अनुभागबन्धका आश्रय करके असांतबन्धक तीन प्रकारके होते हैं ।

सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जीव सबसे विशुद्ध हैं ॥ १६९ ॥

'सर्वेहितो विसुद्ध सर्वविसुद्धा' इस प्रकार सर्वविशुद्ध पदमें तत्पुरुष समास है ।
साता वेदनीयके द्विस्थानबन्धकों और त्रिस्थानबन्धकोंकी अपेक्षा उनके चतुःस्थानबन्धक
जीव अतिशय विशुद्ध हैं, यह उसका अभिप्राय है ।

शंका—यहां विशुद्धतासे क्या अभिप्राय है ?

समाधान—अत्यन्त तीव्र कषायके अभावमें जो मन्द कषाय होती है उसे विशुद्धता
पदसे ग्रहण करना चाहिये ।

सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जीव सर्वविशुद्ध हैं, ऐसा कहनेपर 'वे अतिशय
मन्द संक्लेशसे सहित हैं' ऐसा ग्रहण करना चाहिये । अथवा, जघन्य स्थितिवन्धका
कारण स्वरूप जो जीवका परिणाम है उसे विशुद्धता समझना चाहिये ।

त्रिस्थानबन्धक जीव संकिलिट्टतर हैं ॥ १७० ॥

साताके चतुःस्थानबन्धकोंकी अपेक्षा साताके ही त्रिस्थानानुभागबंधक जीव संकिलिट्ट
तर हैं, अर्थात् वे उनकी अपेक्षा उत्कट कषायवाले हैं, यह अभिप्राय है ।

१ अ-आ-काप्रतिपु 'अणुभागबंधो सो विट्ठाणू' इति पाठः । २ ये सर्वविशुद्धा रसं बध्नन्ति ।
क. प्र. (म. टी.) १, ९१. ३ अप्रतौ 'एव एत्थ' इति पाठः । ४ ये पुनर्मध्यमपरिणामास्ते त्रिस्थान-
गतं रसं बध्नन्ति । क. प्र. (म. टी.) १, ९१ ।

विट्ठाणबंधा जीवा संकिलिट्ठदरां ॥ १७१ ॥

सादतिट्ठाणुभागबंधएहिंतो सादस्सेव विट्ठाणाणुभागबंधया जीवा संकिलिट्ठदरा, संकिलेसेणं अहिया त्ति भणिदं होदि ।

सव्वविसुद्धा असादस्स विट्ठाणबंधा जीवा ॥ १७२ ॥

असादस्स तिट्ठाणाणुभागबंधएहिंतो तस्सेव विट्ठाणाणुभागबंधया मंदकसाया त्ति भणिदं होदि ।

तिट्ठाणबंधा जीवा संकिलिट्ठदरां ॥ १७३ ॥

असादस्स विट्ठाणाणुभागबंधएहिंतो तिट्ठाणाणुभागबंधया जीवा सुट्ठुक्कडसंकिलेसा होति । कुदो ? साभावियादो ।

चउट्ठाणबंधा जीवा संकिलिट्ठदरां ॥ १७४ ॥

असादतिट्ठाणाणुभागबंधएहिंतो तस्सेव चउट्ठाणाणुभागबंधयाणं कसायो अइवहुलो होदि । कुदो ? साभावियादो । संकिलेसे वड्डमाणे सादादीणं सुहपयडीणमणुभागबंधो हायदि, असादादीणमसुहपयडीणमणुभागबंधो वड्डदि । संकिलेसे हायमाणे सादादीणं

द्विस्थानबन्धक जीव संक्लिष्टतर हैं ॥ १७१ ॥

साताके त्रिस्थानुभागबन्धकोंकी अपेक्षा साताके ही द्विस्थानबन्धक जीव संक्लिष्टतर हैं, अर्थात् वे अधिक संक्लेशवाले हैं ।

असातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक जीव सर्वविशुद्ध हैं ॥ १७२ ॥

असाता वेदनीयके त्रिस्थानानुभागबन्धकोंकी अपेक्षा उसके ही द्विस्थानानुभागबन्धक जीव मन्दकपायवाले हैं, यह सूत्रका अभिप्राय है ।

त्रिस्थानबन्धक जीव संक्लिष्टतर हैं ॥ १७३ ॥

असाताके द्विस्थानानुभागबन्धकोंकी अपेक्षा उसके ही त्रिस्थानानुभागबन्धक जीव अति उत्कट संक्लेशसे संयुक्त होते हैं, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है ।

चतुःस्थानबन्धक जीव संक्लिष्टतर हैं ॥ १७४ ॥

असाताके त्रिस्थानानुभागबन्धकोंकी अपेक्षा उसके ही चतुःस्थानानुभागबन्धकोंकी कपाय अतिशय बहूल होती है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । संक्लेशकी वृद्धि होनेपर साता आदिक शुभ प्रकृतियोंका अनुभागबन्ध हीन होता है और असाता आदिक अशुभ

१ संक्लिष्टपरिणामास्तु द्विस्थानगतम् । क. प्र. (म. टी.) १, ९१. । २ अ-आ-काप्रतिषु 'संकिलेसेव' इति पाठः । ३ ये पुनस्तद्योग्यमूमिकानुसारेण सर्वविशुद्धा परावर्तमाना अशुभप्रकृतीर्वघ्नन्ति ते तासु द्विस्थानगत रसं निवर्तयन्ति क. प्र. (म. टी.) १, ९१ । ४ मध्यमपरिणामत्रिस्थानगतम् । क. प्र. (म. टी.) १, ८१. । ५ संक्लिष्टपरिणामास्तु चतुःस्थानगतम् । क. प्र. (म. टी.) १, ९१. ।

सुहपयडीणमणुभागबंधो वड्ढदि, असादादीणं असुहपयडीणमणुभागबंधो हायदि ति उत्तं होदि ।

सादस्स चउट्टाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहणियं
ट्टिदिं बंधंति' ॥ १७५ ॥

णाणावरणगहणं जेण देसामासियं तेण णाणावरणादीणं^२ धुवबंधीणमसुहपयडीणं सव्वासिं जहणियं ट्टिदिं बंधंति ति धेत्तव्वं । जे जे सादस्स चउट्टाणाणुभागबंधया जीवा ते ते णाणावरणादीणं जहणियं चेष ट्टिदिं बंधंति ति णावहारणं^३ कीरदे, चउट्टाणबंधएसु णाणावरणादीणमजहणणट्टिदीणं पि बंधदंसणादो । जेण कसाओ ट्टिदिबंधस्स कारणं तेण मंदकसाइणो सादस्स चउट्टाणबंधया जीवा णाणावरणीयस्स जहणियं ट्टिदिं बंधंति ति भणिदं ।

सादस्स तिट्टाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स अजहण-
अणुक्कस्सियं ठिदिं बंधंति' ॥ १७६ ॥

ण ताव उक्कस्सियं ट्टिदिं बंधंति, असादजोग्गुक्कस्सिसंकिलेसेहि विणा णाणावरणी-
प्रकृतियोंका अनुभागबन्ध बढ़ता है । संक्लेशकी हानि होनेपर साता आदिक शुभ प्रकृतियोंका अनुभागबन्ध बढ़ता है और असाता आदिक अशुभ प्रकृतियोंका अनुभाग-
बन्ध हीन होता है, यह अभिप्राय है ।

सातावेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिको
बाँधते हैं ॥ १७५ ॥

चूँकि ज्ञानावरणका ग्रहण देशामर्शक है, अतः उससे ज्ञानावरणादिक ध्रुवबन्धी सब अशुभ प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिको बाँधते हैं; ऐसा ग्रहण करना चाहिये । जो जो साता वेदनीयके चतुस्थानानुभागबन्धक जीव हैं वे वे ज्ञानावरणादिकोंकी जघन्य ही स्थितिको बाँधते हैं, ऐसा अवधारण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि, चतुःस्थानबन्धकोंमें ज्ञानावरणादिकोंकी अजघन्य स्थितियोंका भी बन्ध देखा जाता है । चूँकि स्थितिबन्धका कारण कषाय है, अतः सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक मन्दकषायी जीव ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिको बाँधते हैं; ऐसा कहा गया है ।

साताके त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थितिको
बाँधते हैं ॥ १७६ ॥

ये जीव ज्ञानावरणीयकी उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बाँधते हैं, क्योंकि, असाताके योन्य

१ ये सर्वविशुद्धा शुभप्रकृतीना चतुःस्थानगतं रसं वघ्नन्ति ते ध्रुवप्रकृतीनां जघन्यां स्थितिं निवर्तयन्ति । क. प्र. (म. टी.) १, ११. । २ ताप्रतौ ' णाणावरणीयादीण ' इति पाठः । ३ अ-आ-काप्रतिपु ' ध्रुववड्ढीणमसुह—' ताप्रतौ ' ध्रुववड्ढीए असुह—' इति पाठः । ४ अ-आ-काप्रतिपु ' णाणावहारणं ' इति पाठः । ५ परावर्तमानशुभप्रकृतीनां त्रिस्थानगतस्य रसस्य ये बन्धकास्ते ध्रुवप्रकृतीनामजघन्या मध्यमां स्थितिं वघ्नन्ति । क. प्र. (म. टी.) १, १२. । ६ काप्रतौ ' सागरकस्स ', अ-आ प्रत्योः ' सागरकस्स ' ताप्रतौ ' सागर (?) कस्स—' इति पाठः ।

यस्सं [उक्कस्स] द्विदिवंधासंभवादो । ण जहण्णयं पि बंधंति, उक्कट्टविसोहीए अभावादो । तम्हा सादस्स तिट्ठाणबंधा जीवा णाणावरणादीणमजहण्णमणुक्कस्सियं द्विदिं बंधंति त्ति उत्तं ।

सादस्स विट्ठाणबंधा जीवा सादस्स चैव उक्कस्सियं द्विदिं बंधंति ॥ १७७ ॥

सादस्स विट्ठाणबंधया जीवा जेण उक्कट्टसंकिलेसा तेण सादस्स उक्कस्सियं द्विदिं बंधंति, णे णाणावरणीयस्स; ओधुक्कस्ससंकिलेसाभावादो । ण च सादबंधपाओग्गउक्कस्ससंकिलेसेण णाणावरणीयस्स उक्कस्सद्विदिं^३ बंधदि, विरोहादो । ण च सादस्स विट्ठाणबंधया सव्वे वि सादुक्कस्सद्विदिं पण्णारससागरोवमकोडाकोडिमेत्तं बंधंति^४, तत्थे अणुक्कस्सद्विदिवंधस्स वि उवलंभादो । तम्हा अजोगववच्छेदो एत्थ कायव्वो । अत्रोपयोगिनौ श्लोकौ विशेषण-विशेष्याभ्यां क्रियया च सहोदितः । पार्थो धनुर्धरो नीलं सरोजमिति वा यथा ॥७॥ अयोगमपरैर्योगमत्यन्तायोगमेव च । व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरेचकः ॥ ८ ॥

उत्कृष्ट संक्लेशके विना ज्ञानावरणीयके [उत्कृष्ट] स्थितिवन्धकी सम्भावना नहीं है । उसकी जघन्य स्थितिको भी नहीं बांधते हैं, क्योंकि उनके उत्कृष्ट विशुद्धिका अभाव है । अतएव त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणादिकोंकी अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थितिको बांधते हैं, ऐसा कहा गया है ।

साताके द्विस्थानबन्धक जीव सातावेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिको बांधते हैं ॥१७७॥

सातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक जीव चूंकि उत्कृष्ट संक्लेशसे संयुक्त होते हैं अतः वे साता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिको बांधते हैं, न कि ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिको; क्योंकि, यहां सामान्य उत्कृष्ट संक्लेशका अभाव है । साताके बन्ध योग्य उत्कृष्ट संक्लेशके ज्ञानावरणीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि, इसमें विरोध है । दूसरे, साता वेदनीयके द्विस्थानबन्धक सभी जीव सातावेदनीयकी पन्द्रह कोडाकोडि सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिको नहीं बांधते हैं, क्योंकि उनमें उसका अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध भी पाया जाता है । इस कारण यहां अयोगव्यवच्छेद करना चाहिये । यहां उपयोगी दो श्लोक—

निपात अर्थात् एवकार व्यतिरेचक अर्थात् निवर्तक या नियामक होता है । विशेषण, विशेष्य और क्रियाके साथ कहा गया निपात क्रमसे अयोग, अपरयोग (अन्ययोग)

१ अ-का-ताप्रतिषु 'संकिलेसेहि वि णाणावरणीयस्स' इति पाठः । २ अ-आ-का-ताप्रतिषु 'ण' इत्येतत्पद नास्ति, मप्रतौ त्वस्ति तत् । ३ प्रतिषु 'उक्कस्सद्विदी' इति पाठः । ४ आप्रतौ 'सागरोवममेत्तं कोडाकोडी बध्नन्ति' इति पाठः । ५ अप्रतौ 'तस्स' इति पाठः । ६ ताप्रतौ 'वामथा (?)' इति पाठः । ७ अ-काप्रत्योः '-योगमेव' इति पाठः । ८ प्रमाणवार्तिक ४-१९० ।

असादस्स वेट्टाणबंधा जीवा सत्थाणेणं णाणावरणीयस्स
जहणियं द्विदिं बंधंति ॥ १७८ ॥

असादबंधएसु वेट्टाणबंधया जीवा अइविसुद्धा मंदकसाइत्तादो जहण्णट्टिदिकारण-
परिणामेहि संजुत्ता, तेण णाणावरणीयस्स जहणियं द्विदिं बंधंति । जहण्णट्टिदिं बंधंता वि
ओघजहणियं द्विदिं ण बंधंति त्ति जाणावणट्टं सत्थाणेण णाणावरणीयस्स जहणियं द्विदिं
बंधंति त्ति भणिदं । सत्थाणेण णाणावरणीयस्स का जहण्णट्टिदी णाम ? असादेण सह

और अत्यन्तायोगका व्यवच्छेद करता है । जैसे—‘पार्थो धनुर्धरः’ और ‘नीलं सरोजम्’
इन वाक्योंके साथ प्रयुक्त एवकार ॥ ७-८ ॥

विशेषार्थ—विशेषणके साथ प्रयुक्त एवकार अयोगव्यवच्छेदका बोधक होता है ।
जैसे—‘पार्थो धनुर्धरः एव’ अर्थात् पार्थ धनुषधारी ही है, इस वाक्यमें प्रयुक्त एवकार
पार्थमें अधनुर्धरत्वकी आशंकाको दूरकर धनुर्धरत्वका विधान करता है । अतः वह
अयोगव्यवच्छेदका बोधक है । विशेष्यके साथ प्रयुक्त एवकार अन्ययोगव्यवच्छेदका बोधक
होता है । जैसे—‘पार्थ एव धनुर्धरः’ अर्थात् अर्जुन ही एक मात्र धनुर्धर है, इस
वाक्यमें प्रयुक्त एवकार अर्जुनमें जो अन्य धनुर्धरोंकी अपेक्षा सातिशय धनुर्धरत्व विद्यमान
है उसका अन्य पुरुषोंमें निषेध करता है । अतएव वह अन्ययोगव्यवच्छेदका बोधक है ।
क्रियापदके साथ प्रयुक्त एवकार अत्यन्तायोगव्यवच्छेदका बोधक होता है । जैसे—
‘नीलं सरोजं भवत्येव’ अर्थात् सरोज नील होता ही है, इस वाक्यमें प्रयुक्त एवकार
सरोजमें नीलत्वके अत्यन्ताभावका व्यवच्छेदक होनेसे अत्यन्तायोगव्यवच्छेदका बोधक
है । (देखिये न्यायकुमुदचन्द्र भा. २ पृ. ६९३)

असातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक जीव स्वस्थानसे ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिको
बाँधते हैं ॥ १७८ ॥

असातबन्धकोंमें द्विस्थानबन्धक जीव अतिशय विशुद्ध होते हुए, मन्दकपायी होनेसे
चूँकि जघन्य स्थितिके कारणभूत परिणामोंसे संयुक्त हैं, इसीलिये वे ज्ञानावरणकी जघन्य
स्थितिको बाँधते हैं । जघन्य स्थितिको बाँधते हुए भी वे ओघ जघन्य स्थितिको नहीं
बाँधते हैं, इस बातके ज्ञापनार्थ ‘स्वस्थानसे ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिको बाँधते हैं’
ऐसा कहा गया है ।

शंका—स्वस्थानसे ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थिति किसे कहते हैं ।

१ अ-आ-काप्रतिषु ‘संठाणेण’ इति पाठः । २ तथा इतरासां परावर्तमानाशुमप्रकृतीनां ये
द्विस्थानगतं रसं वदन्ति ते ध्रुवप्रकृतीना जघन्या स्थितिं स्वस्थाने, स्वविशुद्धिभूमिकानुसारेणेत्यर्थः, वदन्ति ।
परावर्तमानाशुमप्रकृतिसत्कद्विस्थानगतरसबन्धहेतुविशुद्धयनुसारेण जघन्या स्थितिं वदन्ति, न त्वतिबंधन्या-
मित्यर्थः । जघन्यस्थितिवन्धो हि ध्रुवप्रकृतीनामेकान्तविशुद्धौ सम्भवति, न च तदानीं परावर्तमानाशुम-
प्रकृतीनां बन्धा सम्भवन्ति । क. प्र. (म. टी.) १, ५२. । ३ प्रतिषु ‘संजुत्तं’ इति पाठः ।

बंधपाओग्गा णाणावरणीयस्स सव्वजहण्णद्विदी सा सत्थाणजहण्णा णाम । तिस्से बंधया ति उत्तं होदि

असादस्स तिट्ठाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स अजहण्ण-
अणुक्कस्सियं द्विदि बंधंति ॥ १७९ ॥

कुदो ? ण ताव उक्कस्सियं द्विदि बंधंति, उक्कस्ससंकिलेसाभावादो । ण जहण्णियं पि, अइविसुद्धपरिणामाभावादो । तम्हा णाणावरणीयस्स अजहण्ण-अणुक्कस्सियं चैव द्विदि असादतिट्ठाणबंधा जीवा बंधंति ति सिद्धं ।

असादस्स चउट्ठाणबंधा जीवा असादस्स चैव उक्कस्सियं
द्विदि बंधंति ॥ १८० ॥

जेण असादस्स चउट्ठाणबंधया जीवा तिक्कसंकिलेसा तेण असादस्स उक्कस्सियं द्विदि बंधंति । एत्थ चैव सद्दो अवि-सद्दहे वट्ठे । तेण णाणावरणादीणं पि उक्कस्सियं द्विदि बंधंति ति घेतत्तं, अण्णहा तदुक्कस्सट्ठिदीणं बंधकारणाभावप्पसंगादो । एवं

समाधान—असातावेदनीयके साथ बन्धके योग्य जो ज्ञानावरणीयकी सबसे जघन्य स्थिति है वह स्वस्थान जघन्य स्थिति कही जाती है ।

उक्त जीव उसी स्थितिके बन्धक हैं, यह अभिप्राय है ।

असातावेदनीयके त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिको बांधते हैं ॥ १७९ ॥

कारण यह कि वे उत्कृष्ट स्थितिको तो बांधते नहीं हैं, क्योंकि, उनके उत्कृष्ट संक्लेशका अभाव है । न जघन्य स्थितिको भी बांधते हैं, क्योंकि, उनके अत्यन्त विशुद्ध परिणामोंका अभाव है । इस कारण असाताके त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थितिको ही बांधते हैं, यह सिद्ध है ।

असाता वेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव असातावेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिको बांधते हैं ॥ १८० ॥

चूँकि असाता वेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव तीव्र संक्लेशसे संयुक्त होते हैं, अतएव वे असाता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिको बांधते हैं । यहाँ सूत्रमें प्रयुक्त 'चैव' शब्द 'अपि' शब्दके अर्थमें वर्तमान है । इसीलिये वे ज्ञानावरणादिकोंकी भी उत्कृष्ट स्थितिको बांधते हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इसके विना उनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके कारणोंके अभावका प्रसंग आवेगा । इस प्रकार साता व असाता वेदनीयके

१ ये पुनः परावर्तमानशुभप्रकृतीना त्रिस्थानगतस्य रसस्य बन्धकास्ते ध्रुवप्रकृतीनामजघन्या स्थितिं ब्रह्मन्ति । क. प्र. (म. टी.) १, ९२. । २ तथा ये परावर्तमानाशुभप्रकृतीना चतु स्थानगतं रसं ब्रह्मन्ति ते ध्रुवप्रकृतीनामुत्कृष्टां स्थितिं निवर्तयन्ति । क. प्र. (म. टी.) १, ९२ ।

सादासादाणं चउट्टाण-तिट्टाण-विट्टाणाणुभागबंधेषु ट्टिदीणं संकिलेस-विसोहीणं च पमाणं पस्सुविय संपहि ट्टिदीयो आधारं कादूण तत्थ ट्टिदजीवाणं सेडिपस्सुवणट्टमुत्तरसुत्तं भणदि—

तेसिं दुविहा सेडिपस्सुवणा अणंतरोवणिधा परंपरो-
वणिधा ॥ १८१ ॥

एदं सुत्तं देसामासियं, सेडिपस्सुवणं भणिट्टणं पस्सुवणा-पमाण-अवहार-भागाभाग-अप्पावहुगाणं सूचयत्तादो । तेण ताव पस्सुवणादीणं पणवणा कीरदे । तं जहा- सादस्स चउट्टाणबंधया तिट्टाणबंधया विट्टाणबंधया असादस्स विट्टाणबंधया तिट्टाणबंधया चउट्टाणबंधया णाणावरणीयस्स सग-सगजहणियाए ट्टिदीए अत्थि जीवा विदियाए ठिदीए अत्थि जीवा एवं णेयव्वं जाव अप्पप्पणो उक्कस्सट्टिदि ति । पस्सुवणा गदा ।

सादस्स चउट्टाण-तिट्टाण-विट्टाणबंधया असादस्स विट्टाण-तिट्टाण-चउट्टाणबंधया णाणावरणीयस्स सग-सगजहणियाए ट्टिदीए जीवा पदरस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता, विदियाए ठिदीए पदरस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता, एवं णेदव्वं जाव अप्पप्पणो उक्कस्सट्टिदि ति । सादविट्टाणिय जवमज्झादो असादचउट्टाणियजवमज्झादो च उवरिमट्टिदीसु कत्थ वि सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ता जीवा किण्ण होंति ति उत्ते- ण होंति । किं कारणं ? अप्पप्पणो

चतुःस्थान, त्रिस्थान और द्विस्थान रूप अनुभागबन्धोंमें स्थितियों एवं संक्लेश व विशुद्धिके प्रमाणकी प्ररूपणा करके अब स्थितियोंका आश्रय करके उनमें स्थित जीवोंकी श्रेणिप्ररूपणा करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

उनकी श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकार है—अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा ॥१८१॥

यह सूत्र देशामर्शक है, क्योंकि, वह श्रेणिप्ररूपणाको कहकर प्ररूपणा, प्रमाण, अवहार, भागाभाग और अलंबवहुत्व अनुयोगद्वारोंका सूत्रक है । अतएव पहिले प्ररूपणा आदिक अनुयोगद्वारोंका प्रज्ञापन किया जाता है । यथा—सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और द्विस्थानबन्धक तथा असातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक त्रिस्थानबन्धक और चतुस्थानबन्धक ज्ञानावरणीयकी अपनी अपनी जघन्य स्थितिमें जीव हैं । द्वितीय स्थितिमें जीव हैं । इस प्रकार अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिये । प्ररूपणा समाप्त हुई ।

सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और द्विस्थानबन्धक तथा असाता वेदनीयके द्विस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और चतुःस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी अपनी अपनी जघन्य स्थितिमें जगप्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । द्वितीय स्थितिमें जीव प्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । इस प्रकार अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिये ।

शंका—साता वेदनीयके द्विस्थानिक यवमध्यसे तथा असातावेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यसे ऊपरकी स्थितियोंमें कहींपर भी जगश्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण जीव क्यों नहीं होते ?

जहण्णाट्टिदीए जीवेहि समाणजवमज्झउवरिमट्टिदिजीवा पदरस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता, तमरासिम्मि तिण्णिगुणहाणिगुणिदपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण भागे हिदे सेडीए असंखेज्ज-दिभागमेत्तसेडीणमुवलंभादो । ण च एदेसु पदरस्स असंखेज्जदिभागमेत्तजीवेषु पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तद्धानं गंतुण अद्धजेणं ज्झीयमाणेषु अवसाणे सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्तं होदि, उवरिमअण्णोण्णम्भत्यरासिणा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण पदरस्स असंखेज्ज-दिभागे भागे हिदे असंखेज्जसेडिमेत्तजीवोवलंभादो । उवरिमणाणागुणहाणिसलागाओ सेडिछेदणाहितो चहुगाओ ति के वि आइरिया भणंति । तेसिमाइरियाणमहिप्पाएण सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ता जीवा उवरि तपाओग्गासंखेज्जगुणहाणीयो गंतुण होंति । ण च एवं, वक्खाणे अण्णोण्णम्भत्यरासिस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागत्तुवलंभादो । पमाणपरूवणा गदा ।

अणंतरोवणिधाए सादस्स चउट्टाणबंधा तिट्टाणबंधा जीवा असादस्स विट्टाणबंधा तिट्टाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहण्णियाए ट्टिदीए जीवा थोवा ॥ १८२ ॥

समाधान—उक्त शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि वे श्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण नहीं होते हैं । कारण यह कि अपनी अपनी जघन्य स्थितिके जीवोंके समान यवमध्यसे उपरिम स्थितियोंके जीव प्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं, क्योंकि, त्रस राशिमें तीन गुणहानियोंसे गुणित पत्योपमके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर श्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण जगश्रेणियों लब्ध होती हैं । परन्तु प्रतरके असंख्यातवें भाग मात्र इन जीवोंके पत्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र अध्वान जाकर अर्ध-अर्ध भागसे हीन होनेपर अन्तमें उनका प्रमाण श्रेणिके असंख्यातवें भाग मात्र रहता है, क्योंकि, पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण उपरिम अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रतरके असंख्यातवें भागमें भाग देनेपर असंख्यात श्रेणियों प्रमाण जीव उपलब्ध होते हैं ।

ऊपरकी नानागुणहानिशलाकार्ये श्रेणिके अर्धच्छेदोंसे बहुत हैं, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं । उन आचार्योंके अभिप्रायसे श्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण जीव आगे तत्प्रायोग्य असंख्यात गुणहानियां जाकर हैं । परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि, इस व्याख्यानमें अन्योन्याभ्यस्त राशि पत्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण पायी जाती है । प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई ।

अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा साता वेदनीयके चतुःस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव, असातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव तथा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके जीव स्तोक हैं ॥ १८२ ॥

१ अ-आ-का-प्रतिपु 'अद्धेण' इति पाठः । २ ताप्रतौ 'पदरस्स असंखेज्जदिभागे' इत्येतावान् पाठो नास्ति । आप्रतौ 'असखे० भागेण भागे हिदे' काप्रतौ 'असखेज्जदिभागे हिदे' इति पाठः ।

३ ताप्रतौ 'विट्टाणतिट्टाणबंधा' इति पाठः । ४ थोवा जहण्णियाए होंति विसेसाहिओ दहिसयाइं ।

सादस्स चउट्टाणाणुभागबंधपाओग्गट्टिदीयो सागरोवमसदपुधत्तमेत्ताओ । ताओ बुद्धीए पुध ट्टविय, तिट्टाणाणुभागबंधपाओग्गाओ सागरोवमसदपुधत्तमेत्ताओ, एदाओ वि पुध ट्टविय; एवमसादस्स विट्टाणतिट्टाणाणुभागबंधपाओग्गसागरोवमसदपुधत्तमेत्ताट्टिदीयो च पुध ट्टविय, तत्थ एदेसिं चट्टुण्णं पि पंतीणं^१ णाणावरणीयस्स जहणियाए ट्टिदीए जीवा थोवा; तसरासिस्स संखेज्जदिभागमेक्केक्कट्टिदिपंतिअन्मंतरे ट्टिदजीवरासिं तिण्णिगुणहाणिगुणिदपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण भागे हिदे जहण्णट्टिदिजीवाणं पमाणुवलंभादो ।

विदियाए ट्टिदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८३ ॥

कुदो ? एगगुणहाणियद्धानमसंखेज्जपलिदोवमपढमवग्गमूलमेत्तं विरलिय जहण्णट्टिदि- जीवे समखंडं करिय विरलणस्सवं पडि दाट्टण तत्थ एगखंडमेत्तेण अहियत्तुवलंभादो । एगगुणअद्धानं चैव भागहारो होदि ति कथं णव्वदे ? पक्खेवाणं दुगुणत्तुवलंभादो । तं पि कुदो ? अण्णहा जवमज्झभावाणुववतीदो ।

साता वेदनीयकी चतुःस्थानानुभागबन्धके योग्य शतपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण स्थितियां हैं । उनको बुद्धिसे पृथक् स्थापित करके उसीकी त्रिस्थानानुभागबन्धके योग्य जो शतपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण स्थितियां हैं इनको भी पृथक् स्थापित करके, इसी प्रकार असाता वेदनीयकी द्विस्थान व त्रिस्थान रूप अनुभागबन्धके योग्य शतपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण स्थितियोंको पृथक् स्थापित करके उनमें इन चारों ही कर्माकी पंक्तियोंके ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके जीव स्तोक हैं, क्योंकि, त्रस राशिके संख्यातवें भाग एक एक पंक्तिके भीतर स्थित जीवराशिमें तीन गुणहानिगुणित पल्योपमके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण उपलब्ध होता है ।

द्वितीय स्थितिके जीव विशेष अधिक हैं ॥ १८३ ॥

इसका कारण यह है कि पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण एकगुणहानि- अध्वानका विरलन करके जघन्य स्थितिके जीवोंको समखण्ड करके प्रत्येक विरलन रूपके ऊपर देकर उनमेंसे एक खण्डके प्रमाणसे उनमें अधिकता पायी जाती है ।

शंका—एकगुणहानिअध्वान ही भागहार होता है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—प्रक्षेपोंमें दुगुणताकी उपलब्धि होनेसे जाना जाता है कि एक गुणहानिअध्वान ही भागहार होता है ।

शंका—वह भी कहाँसे जाना जाता है ?

जीवा विसेसहीणा उदहिसयपुहत्त मो जाव ॥ एवं तिट्टाणकरा विट्टाणकरा य आ सुभुक्कोसा । असुभाणं विट्टाणे ति—चउट्टाणे य उक्कोसा ॥ क. प्र. १, ९३-९४. । परावर्तमानाना शुभप्रकृतीना चतुस्थानगतरस- बन्धका सन्तो ज्ञानावरणीयादीना ध्रुवप्रकृतीनां जघन्यस्थितौ बन्धकत्वेन वर्तमाना जीवा स्तोकाः (म. टी.) ।

१ अप्रतौ 'पि कम्माणं पत्तीण' इति पाठः । २ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-का-ताप्रतिपु 'जीवरासी- तिण्णि', आप्रतौ 'जीवरासितिण्णि' इति पाठः ।

तदियाए ट्टिदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८४ ॥

केत्तियमेत्तेण ? एगविसेसमेत्तेण । एवं उवरिं पि एगेगजीवविसेसमहियं कादूण णेदव्वं ।

एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरोवमसदपुधत्तं ॥१८५॥

सागरोवमसदपुधत्तवयणेण चदुण्णं पि जवमज्झाणं हेट्टिमअद्धानपमाणं जाणाविदं । एत्थ विसेसो अणवट्टिदो दट्टव्वो, गुणहारिं पडि दुगुणक्कमेण विसेसाणं वड्ढिदंसणादो ।

तेण परं विसेसहीणा विसेसहीणा जाव सागरोवमसद-
पुधत्तं ॥ १८६ ॥

एदेण सागरोवमसदपुधत्तवयणेण चदुण्णं जवमज्झाणं उवरिमअद्धानपमाणं जाणा-
विदं । जवमज्झउवरिमगुणहाणीयो वि हेट्टिमगुणहाणीहि अद्धानपमाणेण समाणाओ ।
जीवविसेसा पुण अणवट्टिदा; अद्दक्कमेण गुणहारिं पडि तेसिं गमणुवलंभादो ।

समाधान—चूँकि इसके बिना यवमध्यपना घनता नहीं है, इसलिये उनका दुगुणत्व निश्चित होता है ।

तृतीय स्थितिमें जीव विशेष अधिक हैं ॥ १८४ ॥

कितने प्रमाणसे वे अधिक हैं ? वे एक विशेष मात्रसे अधिक हैं । इसी प्रकार आगे भी एक एक जीवविशेषको अधिक करके ले जाना चाहिये ।

इस प्रकार शतपृथक्त्व सागरोपमों तक विशेष अधिक विशेष अधिक ही हैं ॥ १८५ ॥

‘शतपृथक्त्व सागरोपम’ के कहनेसे चारों ही यवमध्योंके अधस्तन अध्वानका प्रमाण घतलाया गया है । यहां विशेषको अनवस्थित समझना चाहिये, क्योंकि, प्रत्येक गुणहानिके प्रति दुगुणे क्रमसे विशेषोंकी वृद्धि देखी जाती है ।

उसके आगे शतपृथक्त्व सागरोपमों तक विशेष हीन विशेष हीन हैं ॥ १८६ ॥

इस ‘सागरोपमशतपृथक्त्व’ के कहनेसे चारों यवमध्योंके उपरिम अध्वानका प्रमाण घतलाया गया है । यवमध्यसे ऊपरकी गुणहानियां भी अध्वानप्रमाणकी अपेक्षा नीचेकी गुणहानियोंके समान हैं । परन्तु जीवविशेष अनवस्थित हैं, क्योंकि, प्रत्येक गुणहानिके प्रति उनकी आधे आधे क्रमसे प्रवृत्ति देखी जाती है ।

१ ततो द्वितीयस्यां स्थितौ विशेषाधिकाः । ततोऽपि तृतीयस्यां स्थितौ विशेषाधिकाः । एव तावद्विशेषाधिका वक्तव्या यावत्प्रभूतानि सागरोपमशतान्यतिक्रान्तानि भवन्ति । ततः पर विशेषहीना विशेषहीनास्तावद्वक्तव्या यावद्विशेषहानावपि ‘उददिसयपुहुत्तत्ति’ प्रभूतानि सागरोपमशतानि भवन्ति । ‘मो’ इति पादपूरणे । पृथक्त्वशब्दोऽत्र बहुत्ववाची । यदाह चूर्णिकृत्—पुहुत्तसदो बहुत्तवाचीति ।’ इति । क. प्र. (म. टी.) १, ९३. ।

सादस्स विट्ठाणबंधा जीवा असादस्स चउट्ठाणबंधा जीवा
णाणावरणीयस्स जहणियाए ट्टिदीए जीवा थोवा ॥ १८७ ॥

कुदो ? जहण्णट्ठाणजीवेहिंतो विसेसाहियकमेण उवरिमट्टिदिजीवाणं वड्ढिसणादो ।

विदियाए ट्टिदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८८ ॥

केत्तियमेत्तो विसेसो ? एगजीवविसेसमेत्तो । को पडिभागो ? एगदुगुणवड्ढिअद्धाणं ।

तदियाए ट्टिदीए जीवा विसेसाहिया ॥ १८९ ॥

को विसेसो ? रूवाहियगुणहाणीए खंडिदएगखंडमेत्तो ।

एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरोवमसद-
पुधत्तं ॥ १९० ॥

एदेण सागरोवमसदपुधत्तणिद्देसेण जवमज्झाणं हेट्टिमअद्धाणं जाणाविदं । एत्थ
गुणहाणिअद्धाणाणं पमाणमवट्टिदं । जीवविसेसा पुण अणवट्टिदा, गुणहाणिं पडि दुगुण-
दुगुणक्कमेण तेसिं वड्ढिसणादो ।

तेण परं विसेसहीणा विसेसहीणा जाव सादस्स असादस्स
उक्कस्सिया ट्टिदि त्ति ॥ १९१ ॥

साताके द्विस्थानबन्धक जीव और असाताके चतुःस्थानबन्धक जीव ज्ञाना-
वरणीयकी जघन्य स्थितिमें स्तोक हैं ॥ १८७ ॥

इसका कारण यह है कि जघन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा उपरिम स्थितियोंके
जीवोंके विशेष अधिक क्रमसे वृद्धि देखी जाती है ।

द्वितीय स्थितिमें जीव विशेष अधिक है ॥ १८८ ॥

विशेष कितना है ? वह एक जीवविशेषके बराबर है । प्रतिभाग क्या है ? एक
दुगुणवृद्धिअध्वान प्रतिभाग है ।

तृतीय स्थितिमें जीव विशेष अधिक हैं ॥ १८९ ॥

विशेष क्या है ? एक अधिक गुणहानिका द्वितीय स्थितिमें भाग देनेपर जो एक
भाग प्राप्त हो उतना विशेषका प्रमाण है ।

इस प्रकार शतपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण स्थिति तक जीवोंका प्रमाण विशेष
अधिक विशेष अधिक होता गया है ॥ १९० ॥

‘शतपृथक्त्व सागरोपम’ इस निर्देशसे यवमध्वोंके अधस्तन अध्वानको बतलाया
गया है । यहाँ गुणहानिअध्वानोंका प्रमाण अवस्थित है । परन्तु जीव विशेष अनवस्थित
हैं, प्रत्येक गुणहानिके अनुसार उनके दुगुण-दुगुण वृद्धि देखी जाती है ।

इसके आगे साता व असाता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थिति तक वे विशेष हीन विशेष
हीन होते गये हैं ॥ १९१ ॥

एदेसिं दोण्णं जवमज्झाणं पुध परुवणा किमट्ठं कदा ? पुव्विल्लुचदुण्णं जवमज्झाणं जवमज्झादो हेट्ठिम-उवरिमअद्धाणाणि सागरोवमसदपुधत्तमेत्ताणि चेव, एदेसिं दोण्णं जवमज्झाणं हेट्ठिमअद्धाणाणि सागरोवमसदपुधत्तमेत्ताणि, उवरिमअद्धाणाणि पुण पण्णारस-तीससागरोवमकोडाकोडिमेत्ताणि त्ति जाणावणट्ठं पुध परुवणा कदा । एत्थ छण्णं पि जवमज्झाणं एगेगुणहाणिअद्धाणं समाण । कुदो । गुरुवएसादो । णाणागुणहाणिसला-गाओ पुण असमाणाओ,^१ जवमज्जे हेट्ठिमउवरिमअद्धाणाणं अण्णोणसमाणत्ताभावादो । एत्थ संदिट्ठी एसा १६।२०।२४।२८।३२।४०।४८।५६।६४।७२।८०।८८।९६।१०४।११२।१२०।१२८।१३६।१४४।१५२।१६०।१६८।१७६।१८४।१९२।२००।२०८।२१६।२२४।२३२।२४०।२४८।२५६।२६४।२७२।२८०।२८८।२९६।३०४।३१२।३२०।३२८।३३६।३४४।३५२।३६०।३६८।३७६।३८४।३९२।४००।४०८।४१६।४२४।४३२।४४०।४४८।४५६।४६४।४७२।४८०।४८८।४९६।५०४।५१२।५२०।५२८।५३६।५४४।५५२।५६०।५६८।५७६।५८४।५९२।६००।६०८।६१६।६२४।६३२।६४०।६४८।६५६।६६४।६७२।६८०।६८८।६९६।७०४।७१२।७२०।७२८।७३६।७४४।७५२।७६०।७६८।७७६।७८४।७९२।८००।८०८।८१६।८२४।८३२।८४०।८४८।८५६।८६४।८७२।८८०।८८८।८९६।९०४।९१२।९२०।९२८।९३६।९४४।९५२।९६०।९६८।९७६।९८४।९९२।१०००।

परंपरोवणिधाए सादस्स चउट्ठाणबंधा तिट्ठाणबंधा जीवा असादस्स विट्ठाणबंधा तिट्ठाणबंधा णाणावरणीयस्स जहण्णियाए ट्ठिदीए जीवेहिंतो तदो पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणवड्ढिदां ॥ १९२ ॥

तदो जहण्णट्ठाणजीवेहिंतो त्ति [उत्तं] होदि । जहण्णट्ठाणजीवेहिंतो दुगुणत्तं

शंका—इन दो यवमध्योंकी पृथक् प्ररूपणा किसलिये की गई है ?

समाधान—पूर्व चार यवमध्यों सम्बन्धी यवमध्यसे नीचे व ऊपरके अध्वान शतपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण ही हैं, परन्तु इन दो यवमध्योंके नीचेके अध्वान शतपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण और उपरिम अध्वान पन्द्रह व तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण हैं, इस बातको बतलानेके लिये उनकी पृथक् प्ररूपणा की गई है ।

यहां छहों यवमध्योंकी एक एक गुणहानिका अध्वान समान है, क्योंकि, ऐसा गुरुका उपदेश है । परन्तु नानागुणहानिशलाकार्यें असमान हैं, क्योंकि, यवमध्यमें नीचे व ऊपरके अध्वानोंके परस्पर समानता नहीं है । यहां उनकी संदृष्टि यह है—(मूलमें देखिये) इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई ।

परम्परोपनिधाकी अपेक्षा साताके चतुस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव तथा असाताके द्विस्थानबन्धक व त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा उनसे पल्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते हैं ॥ १९२ ॥

‘तदो’ पदका अर्थ ‘जघन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा’ है । अर्थात् वे जघन्य

१ ताप्रज्ञी ‘असमाणाओ त्ति’, इति पाठः । २ पल्लासंखियमूलानि गंतु दुगुणा य दुगुणहीणा य । नाणंतराणि पल्लस्स मूलभागो असंखतमो ॥ क. प्र. १, ९५ । पल्ल त्ति—परावर्तमानशुभप्रकृतीनां चतु स्थानगतसंबन्धका भ्रुवप्रकृतीनां जघन्यस्थितौ बन्धकत्वेन वर्तमाना ये जीवास्तदपेक्षया जघन्यस्थितेः परतः पल्योपमस्यासंख्येयानि वर्गमूलानि—पल्योपमस्यासंख्येयेषु वर्गमूलेषु यावन्तः समयास्तावत्प्रमाणाः स्थित्तीरतिक्रम्यान्तरे स्थितिस्थाने द्विगुणा भवन्ति (म. टी.) ।

पडिवज्जमाणा । कं पेक्खिद्वूण दुगुणत्ते पुच्छिदे जहण्णट्ठिदीए जीवेहितो त्ति भणिदं होदि । एदेसिं ज्वमज्झाणं गुणागुणहाणिसलागाहि अप्पप्पणो अद्धाने भागे हिदे एगगुणहाणि-अद्धानं होदि त्ति घेत्तव्वं । ज्वमज्झस्स हेट्ठा एक्का चेव गुणहाणी ण होदि, अणेगाओ होति त्ति जाणावणट्ठमुत्तरसुत्तं भणदि—

एवं दुगुणवद्धिदा दुगुणवद्धिदा जाव ज्वमज्झं ॥ १९३ ॥

अवट्ठिदमद्धानं गंतूण दुगुणवद्धी होदि त्ति जाणावणट्ठमेवमिदि णिदेसो कदो । ज्वमज्झस्स हेट्ठा गुणहाणीयो बहुगाओ होति त्ति जाणावणट्ठं विच्छाणिहेसो' कदो ।

**तेण परं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुण-
हीणा ॥ १९४ ॥**

ज्वमज्झादो उवरिमगुणहाणीयो आयामेण हेट्ठिमगुणहाणीहि समाणाओ । सेसं सुगमं ।

एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सागरोवमसदपुधत्तं ॥ १९५ ॥

एदेसिं चदुण्णं ज्वमज्झाणं हेट्ठिमभागो व्व उवरिमभागो सागरोवमसदपुधत्तमेत्तो चेव होदि त्ति जाणावणट्ठं सागरोवमसदपुधत्तगहणं कदं । सेसं सुगमं ।

स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते हैं । किसकी अपेक्षा वे दुगुणे हैं, ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हैं कि वे जघन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा दुगुणे हैं, यह अभिप्राय निकलता है । इन यवमध्योंकी नानागुणहानिशलाकाओंका अपने अपने अध्वानमें भाग देनेपर एक गुणहानिअध्वान प्राप्त होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । यवमध्यके नीचे एक ही गुणहानि नहीं होती, किन्तु वे अनेक होती हैं; इस बातका ज्ञापन करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

इस प्रकार यवमध्य तक वे दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ १९३ ॥

अवस्थित अध्वान जाकर दुगुणी वृद्धि होती है, इस बातका परिज्ञान करानेके लिये 'पवं' पदका निर्देश किया गया है । यवमध्यके नीचे गुणहानियां बहुत होती हैं, इस बातके ज्ञापनार्थ 'दुगुणवद्धिदा दुगुणवद्धिदा' यह वीप्सा (द्विरुक्ति) का निर्देश किया है । इसके आगे पल्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर वे दुगुणी हानिको प्राप्त होते हैं ॥ १९४ ॥

यवमध्यसे ऊपरकी गुणहानियां आयामकी अपेक्षा समान हैं । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार शतपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण स्थितितक दुगुणी दुगुणी हानिको प्राप्त होते गये है ॥ १९५ ॥

इन चार यवमध्योंके अधस्तन भागके समान उपरिम भाग भी शतपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण ही है, इस बातका परिज्ञान करानेके लिये सूत्रमें 'सागरोपमशतपृथक्त्व' का ग्रहण किया है । शेष कथन सुगम है ।

१ प्रतिषु 'मिच्छाणिहेसो' इति पाठ ।

सादस्स बिट्ठाणबंधा जीवा असादस्स चउट्ठाणबंधा जीवा
णाणावरणीयस्स जहणियाए ट्टिदीए जीवेहितो तदो पलिदोवमस्स
असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणवड्ढिढदा ॥ १९६ ॥

सुगममेदं ।

एवं दुगुणवड्ढिढदा दुगुणवड्ढिढदा जाव सागरोवमसद-
पुधत्तं ॥ १९७ ॥

एदं पि सुगमं ।

तेण परं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुण-
हीणा ॥ १९८ ॥

एदं पि सुगमं ।

एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सादस्स असादस्स
उक्कस्सिया ट्टिदि ति ॥ १९९ ॥

एदं पि सुगमं ।

एगजीव-दुगुणवड्ढि-हाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जाणि पलिदोवम-
वग्गमूलाणि ॥ २०० ॥

पुवं गुणहाणीए आयामो सामण्णेण परुविदो, विसेसेण विणा पल्लस्स असंखेज्जदि-

सातावेदनीयके द्विस्थानबन्धक जीव व असातावेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव
ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके जीवोंकी अपेक्षा उससे पल्योपमके असंख्यातवें भाग
जाकर दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते गये हैं ॥ १९६ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

इस प्रकार शतपृथक्त्व सागरोपमों तक दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त होते
गये हैं ॥ १९७ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

इसके आगे पल्योपमका असंख्यातवां भाग जाकर वे दुगुणी हानिको प्राप्त होते
गये हैं ॥ १९८ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

इस प्रकार साता व असाता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थिति तक दुगुणे दुगुणे हीन होते
गये हैं ॥ १९९ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

एकजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर पल्योपमके असंख्यात वर्गमूल प्रमाण है ॥ २०० ॥

पहिले सामान्य रूपसे गुणहानिके आयामकी प्ररूपणा की गई है, क्योंकि, वह

भागो ति उवइहृत्तादो । संपधि तस्स अद्धानस्स विसेसो एदेण सुत्तेण पस्विदो । असखेज्जाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि ति भणिदे असंखेज्जा पलिदोवमपढमवग्गमूलाणि ति घेतत्वं, विदियादिवग्गमूलेसु वग्गिदेसु पलिदोवमाणुप्पत्तीदो ।

णाणाजीव-दुगुणवड्ढि-हाणिट्ठाणंतराणि पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २०१ ॥

पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदि भागमेत्ताओ णाणागुणहाणिसलागाओ होंति ति जदि वि सामण्णेण उत्तं तो वि पलिदोवमअद्धछेदणएहितो थोवाओ ति घेतत्वं । कुदो ? एदेसिमण्णेण्णभत्थरासी पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ति गुरुवदेसादो ।

णाणाजीव-दुगुणवड्ढि-हाणिट्ठाणंतराणि थोवाणि ॥ २०२ ॥

कुदो ? पलिदोवमादो असंखेज्जाणि वग्गट्ठाणाणि हेट्ठा ओसरिय उप्पणत्तादो ।

एग्गजीव-दुगुणवड्ढि-हाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जगुणं ॥ २०३ ॥

कुदो ? असंखेज्जपलिदोवमपढमवग्गमूलपमाणत्तादो । कम्मपदेसगुणहाणीदो एसा जीवगुणहाणी किं सरिसा किमसरिसा ति पुच्छिदे एदं ण जाणिज्जदे । कुदो ? सुत्ताभावादो । एवं सेडिपस्सवणा समत्ता ।

विशेषके विना पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, ऐसा उपदिष्ट है । इस समय इस सूत्रके द्वारा उस अध्वानका विशेष घतलाया गया है । 'असंखेज्जाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि' ऐसा कहनेपर पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलोंको ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, द्वितीयादि वर्गमूलोंका वर्ग करनेपर पल्योपम उत्पन्न नहीं होता है ।

नानाजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर पल्योपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ॥ २०१ ॥

यद्यपि पल्योपमके वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण नानागुणहानिशलाकार्ये होती हैं, ऐसा सामान्य रूपसे कहा गया है, तो भी वे पल्योपमके अर्धच्छेदोंसे स्तोक हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इनकी अन्योन्याभ्यस्त राशि पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, ऐसा गुरुका उपदेश है ।

नानाजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर स्तोक हैं ॥ २०२ ॥

क्योंकि, वे पल्योपमसे असंख्यात वर्गस्थान नीचे हटकर उत्पन्न हुए हैं ।

एकजीवदुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ २०३ ॥

क्योंकि, वह पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलोंके वरावर है । कर्मप्रदेशोंकी गुणहानिकी अपेक्षा यह जीवगुणहानि क्या सदृश है या विसदृश है, ऐसा घूळनेपर उसका उत्तर ज्ञात नहीं होता, क्योंकि, उसकी प्ररूपणा करनेवाला कोई सूत्र नहीं है । इस प्रकार श्रेणिप्ररूपणा समाप्त हुई ।

जवमज्जजीवपमाणेण सव्वजीवा केवचिरेण कालेण अपहिरिजंति ? तिण्णिगुणहाणि-
ट्ठाणंतरेण । छणं जवाणं जीवे अप्पप्पणो जवमज्जजीवपमाणेण कदे किंच्चणतिण्णिगुणहाणि-
मेत्ता होंति । संदिट्ठीए सव्वदव्वमट्ठतीसाहियछस्सदमेत्तं ६३८ । किंच्चणतिण्णिगुणहाणीओ
एदाओ ३१९।३२ । एदाहि सव्वदव्वे भागे हिदे जवमज्जजीवपमाणं होदि ६४ ।

पुणो छणं जवाणं जवमज्जस्स हेट्ठिमजहण्णट्ठिदिजीवपमाणेण सव्वजीवा केवचिरेण
कालेण अवहिरिजंति ? तिण्णिगुणहाणिगुणिदपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तेण । तं जहा-
जीवजवमज्जस्स हेट्ठिमणाणागुणहाणिसलागाओ (२) विरलिय विगुणिय अण्णोण्णम्भत्ये
कदे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो उप्पज्जदि (४) । पुणो एदेण किंच्चणतिसु गुणहाणीसु
गुणिदासु पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तगुणहाणिपमाणं होदि (३१९।८) । पुणो
एदेण सव्वदव्वे भागे हिदे जहण्णट्ठिदिजीवपमाणं होदि (१६) । पुणो एदं परिहाणिं कादूण
णेदव्वं जाव पढमगुणहाणिचरिमट्ठिदिजीवेत्ति ।

पुणो विदियगुणहाणिपढमट्ठिदिजीवपमाणेण सव्वट्ठिदिजीवा केवचिरेण कालेण
अवहिरिजंति ? जहण्णट्ठिदिजीवभागहारादो अद्धमेत्तेण । कुदो ? एगदुगुणवट्ठिं चडिदो
त्ति एगरूवं विरलिय विगुणिय अण्णोण्णम्भत्यं कादूण पुव्वभागहारे ओवट्ठिदे तदद्दुपत्तीदो -

यवमध्यके जीवोंके प्रमाणसे सब जीव कितने कालके द्वारा अपहत होते हैं ? उक्त
प्रमाणसे वे तीन गुणहानिस्थानान्तरकालके द्वारा अपहत होते हैं । छह यवोंके जीवोंको
अपने अपने यवमध्यजीवोंके प्रमाणसे करनेपर वे कुछ कम तीन गुणहानियोंके बराबर
होते हैं । संदृष्टिमें सब द्रव्यका प्रमाण छह सौ अठतीस (६३८) है । कुछ कम तीन गुणहा-
नियोंके हैं— $\frac{638}{319} = 2$ । इनका सब द्रव्यमें भाग देनेपर यवमध्यके जीवोंका प्रमाण होता है—
 $638 \div 319 = 2$ । छह यवोंके यवमध्यसे नीचेकी जघन्य स्थितिके
जीवोंके प्रमाणसे सब जीव कितने कालके द्वारा अपहत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे तीन
गुणहानियोंसे गुणित पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र कालके द्वारा अपहत होते हैं ।
यथा जीवयवमध्यके नीचेकी नानागुणहानिशलाकाओं (२) का विरलन करके द्विगुणित
कर परस्पर गुणित करनेपर पल्योपमका असंख्यातवां भाग ($2 \times 2 = 4$) उत्पन्न होता है ।
इसके द्वारा कुछ कम तीन गुणहानियोंको गुणित करनेपर पल्योपमके असंख्यातवें भाग
मात्र गुणहानियोंका प्रमाण होता है— $\frac{638}{4} = 159.5$ । इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर
जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता है— $638 \div 4 = 159.5$ । इसकी हानि
करके प्रथम गुणहानि सम्बन्धी अन्तिम स्थितिके जीवों तक ले जाना चाहिये ।

द्वितीय गुणहानिकी प्रथम स्थितिके जीवोंके प्रमाणसे सब स्थितियोंके जीव कितने
कालके द्वारा अपहत होते हैं ? वे उक्त प्रमाण से जघन्य स्थिति सम्बन्धी जीवोंके
भागहारके अर्ध भाग मात्रसे अपहत होते हैं, क्योंकि, एक दुगुणवृद्धि आगे गये हैं, अतः
एक अंकका विरलन करके दुगुणा करके परस्पर गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उससे पूर्व

३१९।१६। पुणो एदेण सव्वदव्वे भागे हिदे विदियगुणहाणिपढमट्टिदिजीवपमाणं होदि
 ३२। पुणो परिहाणिं कादूण णेदव्वं जाव छणं जवाणं सागरोवमसदपुधत्तमेत्तमुवरि चट्टिदण
 ट्टिदजवमज्झजीवपमाणं पत्तं ति । पुणो तस्स भागहारो किंचूणतिणिगुणहाणीयो
 ३१९। ३२। पुणो एदस्सुवरि पक्खेवं कादूण णेदव्वं जाव छणं जवाणं चरिमट्टिदिजीव-
 पमाणं पत्तं ति । पुणो तप्पमाणेण अवहिरिज्जमाणे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तगुण-
 हाणिट्ठाणंतरेण कालेण अवहिरिज्जंति । तं जहा—जवमज्झाणमुवरिमणाणागुणहाणिसलागाणं
 (४) अण्णोण्णन्मत्थरासिणा (१६) तिणिगुणहाणीयो गुणिय किंचूणे कदे पलिदोवमस्स
 असंखेज्जदिभागमेत्तगुणहाणीयो भागहारो होदि ति (६३८।५) । पुणो एदेण सव्वदव्वे
 भागे हिदे चरिमट्टिदिजीवपमाणमागच्छदि (५) । एवं भागहारपरूवणा गदा ।

छणं जवाणं जवमज्झजीवा सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? असंखेज्जदिभागो । को
 पडिभागो ? किंचूणतिणिगुणहाणीयो । एवं जवमज्झस्स हेट्टोवरिं जाणिदण भागाभाग-
 परूवणा कायव्वा । भागाभागपरूवणा गदा ।

सव्वथोवा छणं जवाणं चरिमट्टिदिजीवा ५ । तेसिं जहण्णट्टिदिजीवा असंखेज्ज-
 गुणा । को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कुदो ? जवमज्झस्स उवरिम-

भागहारको अपवर्तित करनेपर उसका अर्ध भाग उत्पन्न होता है— $1 \times 2; \frac{2}{2} \div 2 = \frac{2}{4}$ ।
 इसका सब द्रव्यमें भाग देनेपर द्वितीय गुणहानिकी प्रथम स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता
 है— $638 - \frac{2}{4} = 32$ । इतनी हानि करके छह यवोंके शतपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण आगे
 जाकर स्थित यवमध्य सम्बन्धी जीवोंका प्रमाण प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये । उसका
 भागहार कुछ कम तीन गुणहानिया है— $\frac{2}{4}$ । इसके आगे प्रक्षेप करके छह यवोंकी
 अन्तिम स्थिति सम्बन्धी जीवोंका प्रमाण प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये । उस प्रमाणसे
 अपहृत करनेपर वे पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र गुणहानिस्थानान्तरकालके द्वारा
 अपहृत होते हैं । यथा—यवमध्योंकी उपरिम नानागुणहानिशलाकाओं (४) की
 अन्योन्याभ्यस्त राशि (१६) से तीन गुणहानियोंको गुणित करके कुछ कम करनेपर
 पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र गुणहानियां भागहार होती हैं $\frac{2}{4}$ । इसका सब
 द्रव्यमें भाग देनेपर अन्तिम स्थितिके जीवोंका प्रमाण (५) आता है । इस प्रकार
 भागहारप्ररूपणा समाप्त हुई ।

छह यवोंके यवमध्यके जीव सब जीवोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं ? वे सब जीवोंके
 असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । प्रतिभाग क्या है ? प्रतिभाग कुछ कम तीन गुणहानियां हैं ।
 इसी प्रकार यवमध्यके नीचे व ऊपर भी जानकर भागाभागकी प्ररूपणा करना चाहिये ।
 भागाभागकी प्ररूपणा समाप्त हुई ।

छह यवोंकी अन्तिम स्थितिके जीव सबसे स्तोक है (५) । उनकी जघन्य स्थितिके
 जीव उनसे असंख्यातगुणे हैं । गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग

जहण्णट्टिदिजीवसमाणं जीवट्टिदीदो उवरिमणाणागुणं हाणिसलागाओ (२) विरलिय विगं करिय अण्णोण्णन्मत्थं कादृण किंचूणे कदे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तगुणगाररासिससु-
प्पत्तीदो १६।५। एदेण चरिमट्टिदिजीवे गुणिदे^१ जहण्णट्टिदिजीवपमाणं होदि १६।
जवमज्जजीवा असंखेज्जगुणा। को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। कुदो ?
जवमज्जस्सुवरिमजहण्णट्टिदिसमाणजीवाणं^२ च हेट्टिम (२) णाणागुणहाणिसलागाओ विरलिय
विगं करिय अण्णोण्णन्मत्थरासिस्स गुणगारभूदस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तत्तुव-
लंभादो^३ ४। एदेण जहण्णट्टिदिजीवे गुणिदे जवमज्जजीवा होति ६४। केत्तियासु
ट्टिदीसु जवमज्जं ? एक्किस्से चैव। जवमज्जप्पहुडि हेट्टिमजीवा असंखेज्जगुणा। को
गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, किंचूणदिवङ्कुगुणहाणीयो ति उत्तं होदि।
३९।८। एदेण जवमज्जजीवे गुणिदे जवमज्जेण सह हेट्टिमजीवपमाणं होदि ३१२^४।
जवमज्जस्स उवरिमजीवा विसेसाहिया। वंधविसेसाहियकारणं उच्चदे। तं जहा—जव-
मज्जहेट्टिमआयामादो^५। ततो उवरिमदीहपमाणं संखेज्जगुणं। पुणो जवमज्जस्स हेट्टा

हे, क्योंकि, उपरिम जघन्य स्थितिके जीवोंके समान जीवस्थितिसे ऊपरकी नानागुणहानि-
शलाकाओंका विरलन करके हुना कर परस्पर गुणन करनेपर जो प्राप्त हो उसमें कुछ कम
करनेपर पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण गुणकार राशि उत्पन्न होती है—१६।
इससे अन्तिम स्थितिके जीवोंको गुणित करनेपर जघन्य स्थितिके जीवोंका प्रमाण होता
है—१६। उनसे यवमध्यके जीव असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योप-
मका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, यवमध्यसे ऊपरकी और जघन्य स्थितिके समान
जीवोंके नीचेकी नानागुणहानिशलाकाओंका विरलन करके द्विगुणित कर परस्पर गुणा
करनेपर जो गुणकारभूत राशि प्राप्त होती है वह पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण
पायी जाती हैं—४। इससे जघन्य स्थितिके जीवोंको गुणित करनेपर यवमध्यके जीव
होते हैं—६४।

शंका—कितनी स्थितियोंमें यवमध्य होता है ?

समाधान—एक ही स्थितिमें होता है।

यवमध्यसे लेकर नीचेके जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है ? गुणकार
पल्योपमका असंख्यातवां भाग अर्थात् कुछ कम डेढ गुणहानियां हैं, यह अभिप्राय है—
३५। इससे यवमध्यजीवोंको गुणित करनेपर यवमध्यके साथ नीचेके जीवोंका प्रमाण
होता है—३१२। यवमध्यसे ऊपरके जीव विशेष अधिक हैं। उनके विशेष अधिक होनेका
कारण बतलाते हैं। वह इस प्रकार है—यवमध्यके अधस्तन आयामकी अपेक्षा उससे
ऊपरकी दीर्घताका प्रमाण संख्यातगुणा है। यवमध्यके नीचे जितना अध्वान है उतना

१ अ काप्रत्योः '—समासाण-', ताप्रतौ 'समासाण' इति पाठः। २ प्रतिषु 'जीवगुणिदे' इति पाठः।
३ ताप्रतौ 'जहण्णट्टिदिसमएण जीवाणं' इति पाठः। ४ अ-आ-काप्रतिषु 'मेत्तुवलभादो' इति पाठः।
५ मप्रतिपाठोऽयम्। अ-आ-का-ताप्रतिषु १२ इति पाठः। ६ अप्रतौ 'जवमज्जहेट्टिमजीवेहि सरिसं
होदि आयामादो' इति पाठः।

जत्तियमद्धाणं तत्तियमेत्तमुवरि गंठणं द्विद्विदीणं जीवपमाणं जवमज्झहेट्टिमजीवेहि सरिसं होदि । पुणो वि उवरिमट्टिदिदीहपमाणं संखेज्जगुणमत्थि । तासु ट्टिदीसु ट्टिदसव्वजीवा जवमज्झहेट्टिमजीवाणमसंखेज्जदिभागमेत्ता । तेसिं पमाणमेदं ७८ । पुणो एदम्मि एत्थ ३१२ पक्खित्ते जवमज्झहेट्टिमजीवाणमसंखेज्जदिभागमेत्तेण उवरिमजीवा अहिया होंति ३९० । सव्वासु ट्टिदीसु जीवा विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? जवमज्झहेट्टिमजीवपक्खित्तमेत्तेण ६३८ । अधचा, पुणरवि अण्णेण पयारेण अप्पावहुअं भणिस्सामो । तं जहा—सव्वल्योवा छण्णं जवाणं उक्कस्सियाए ट्टिदीए जीवा । अप्पण्णो जहणियाए ट्टिदीए जीवा पुव पुध असंखेज्जगुणा । अजहण्णं-अणुक्कस्सियासु ट्टिदीसु जीवा असंखेज्जगुणा । पढ्मासु ट्टिदीसु जीवा विसेसाहिया । अचरिमासु ट्टिदीसु जीवा विसेसाहिया । सव्वासु ट्टिदीसु जीवा विसेसाहिया । एदाओ ट्टिदीओ णाणोवजोगेण वज्झंति, एदाओ च दंसणोवजोगेण वज्झंति ति जाणावणट्टमुत्तरसुत्तं भणदि—

**सादस्स असादस्स य विट्ठाणयम्मि णियमा अणागारपाओग्ग-
ट्ठाणाणि ॥ २०४ ॥**

अणागारउवजोगपाओग्गट्टिदिवंधट्ठाणाणि णियमा णिच्छएण सादासादाणं विट्ठा-

मात्र ऊपर जाकर स्थित स्थितियोंके जीवोंका प्रमाण यवमध्यसे नीचेके जीवोंके समान होता है । फिर भी उपरिम स्थितियोंकी दीर्घताका प्रमाण संख्यातगुणा है । उन स्थितियोंमें स्थित सब जीव यवमध्यके अधस्तन जीवोंके असंख्यातवें भाग मात्र हैं । उनका प्रमाण यह है—७८ । इसको इसमें (३१२) मिलानेपर यवमध्यसे नीचेके जीवोंके असंख्यातवें भाग मात्रसे ऊपरके जीव अधिक होते हैं—३१२+७८=३९० । सब स्थितियोंमें जीव विशेष अधिक हैं । कितने मात्रसे अधिक हैं ? यवमध्यके नीचेके जीवोंके प्रक्षिप्त मात्रसे वे अधिक हैं—६३८ ।

अथवा फिरसे भी दूसरे प्रकारसे अल्पबहुत्वको कहते हैं । वह इस प्रकार है—छह यवोंकी उत्कृष्ट स्थितिमें जीव सबसे स्तोक हैं । अपनी अपनी जघन्य स्थितिमें पृथक् पृथक् असंख्यातगुणे हैं । अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितियोंमें जीव असंख्यातगुणे हैं । प्रथम स्थितियोंमें जीव विशेष अधिक हैं । अचरम स्थितियोंमें जीव विशेष अधिक हैं । सब स्थितियोंमें जीव विशेष अधिक हैं । ये स्थितियाँ ज्ञानोपयोगसे बँधती हैं और ये स्थितियाँ दर्शनोपयोगसे बँधती हैं, यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

साता व असाता वेदनीयके द्विस्थानिक अनुभागमें निश्चयसे अनाकार उपयोग योग्य स्थान होते हैं ॥ २०४ ॥

अनाकार उपयोग योग्य स्थितिबन्धस्थान नियम अर्थात् निश्चयसे साता व असाता

१ प्रतिषु 'अजहण्णा—' इति पाठः । २ अणागारपाठग्गा विट्ठाणगयाउ दुविहपगदीणं । सागारा सव्वरथ वि...॥ क. प्र. १, ९६. ।

णियम्मि अणुभागे बज्जमाणे होति, ण अण्णत्थ; दंसणोवजोगकाले अइसंकिलेसविसोहीण-
मभावादो । को दंसणोवजोगो णाम ? अंतरंगउवजोगो^१ । कुदो ? आगारो णाम कम्म-
कत्तारभावो, तेण विणा जा उवलद्धी^२ सो अणागारउवजोगो । अंतरंगउवजोगे^३ वि
कम्म-कत्तारभावो अत्थि त्ति णासंकणिज्जं, तत्थ कत्तारादो दव्व-खेत्तेहि फट्ठकम्माभावादो ।
एवं सते सुद-मणपज्जवणाणाणं पि दंसणोवजोगपुरंगमत्तं पसज्जदि त्ति उत्ते, ण, मदिणाण-
पुरंगमाणं तेसिं दोण्णं पि दंसणोवजोगपुरंगमत्तविरोहादो । तदो^४ बज्जत्थगहणसंते
विसिट्ठसगसरूवसंवेयणं दंसणमिदि सिद्धं । ण च बज्जत्थगहणुम्मुहावत्था चेव दंसणं,
किंतु बज्जत्थगहणुवसंहरणपढमसमयप्पहुडि जाव बज्जत्थअगहणचरिमसमओ त्ति दंसणुव-
जोगो त्ति घेत्तच्चं, अण्णहा दंसण-णाणोवजोगवदिरित्तस्स वि जीवस्स अत्थित्तप्पसंगादो ।

सागारपाओग्गट्ठाणाणि सव्वत्थ ॥ २०५ ॥

वेदनीयके द्विस्थानिक अनुभागका बन्ध होनेपर होते हैं, अन्यत्र नहीं होते, क्योंकि,
दर्शनोपयोगके समयमें अतिशय संक्लेश और विशुद्धिका अभाव होता है ।

शंका—दर्शनोपयोग किसे कहते हैं ?

समाधान—अन्तरंग उपयोगको दर्शनोपयोग कहते हैं । कारण यह कि आकारका
अर्थ कर्मकर्तृत्व है, उसके विना जो अर्थोपलब्धि होती है उसे अनाकार उपयोग
कहा जाता है ।

अन्तरंग उपयोगमें भी कर्मकर्तृत्व होता है, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये;
क्योंकि, उसमें कर्ताकी अपेक्षा द्रव्य व क्षेत्रसे स्पष्ट कर्मका अभाव है ।

शंका—ऐसा होनेपर श्रुतज्ञान और मनःपर्यय ज्ञानके भी दर्शनोपयोगपूर्वक
होनेका प्रसंग आवेगा ?

समाधान—नहीं आवेगा, क्योंकि, वे दोनों ज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होते हैं, अतः
उनके दर्शनोपयोगपूर्वक होनेमें विरोध है । इस कारण बाह्य अर्थका ग्रहण होनेपर जो
विशिष्ट आत्मस्वरूपका वेदन होता है वह दर्शन है, यह सिद्ध होता है ।

बाह्य अर्थके ग्रहणके उन्मुख होने रूप जो अवस्था होती है वही दर्शन हो, ऐसी
बात भी नहीं है, किन्तु बाह्यार्थग्रहणके उपसंहारके प्रथम समयसे लेकर बाह्यार्थके
अग्रहणके अन्तिम समय तक दर्शनोपयोग होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि,
इसके विना दर्शन व ज्ञानोपयोगसे भिन्न भी जीवके अस्तित्वका प्रसंग आता है ।

साकार उपयोगके योग्य स्थान सर्वत्र बँधते हैं ॥ २०५ ॥

१ ताप्रती 'णाम ? अंतरोवजोगो अंतरंगउवजोगो' इति पाठः । २ अप्रती 'जाउवाउवलद्धी'
इति पाठः । ३ ताप्रती 'अंतरंगउवजागो' इति पाठः । ४ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-काप्रतिषु 'फट्ठि',
ताप्रती 'फट्ठ (!)' इति पाठः । ५ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु 'कुदो' इति पाठः ।

सागारो णाणोवजोगे, तत्थ कम्म-कत्तारभावसंभवादो । तस्स सागारस्स पाओग्गाणि
ट्टिदिवंधट्टाणाणि सव्वत्थ अत्थि । भावत्थो—जाणि ट्टिदिवंधट्टाणाणि दंसणोवजोगेण
सह वज्झंति ताणि णाणोवजोगेण वि वज्झंति । जाणि दंसणोवजोगेण ण वज्झंति^१
ट्टिदिवंधट्टाणाणि ताणि^२ वि णाणोवजोगेण वज्झंति त्ति उत्तं होदि । एदेसिं छण्णं
जवाणं हेट्टिम-उवरिमभागाणं थोववहुत्तजाणावणट्टमणागारैपाओग्गट्टाणाणं पमाणजाणावणट्टं
च उवरिल्लमप्पावहुगसुत्तमागदं—

सादस्स चउट्टाणियंजवमज्झस्स हेट्टदो ट्टाणाणि
थोवाणि^३ ॥ २०६ ॥

कुदो ? सागरोवमसदपुधत्तपमाणत्तादो ।

उवरि संखेज्जगुणाणि^४ ॥ २०७ ॥

जवमज्झादो उवरिमट्टिदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । किं कारणं ? अइविसुद्ध-
ट्टिदीहितो मंदविसुद्धट्टिदीणं बहुत्ताविरोहादो ।

साकारसे अभिप्राय ज्ञानोपयोगका है, क्योंकि, उसमें कर्म और कर्तृत्वकी सम्भावना
है । उक्त साकार उपयोगके योग्य स्थितिवन्धस्थान सर्वत्र होते हैं । भाषार्थ—जो स्थिति-
बन्धस्थान दर्शनोपयोगके साथ बंधते हैं वे ज्ञानोपयोगके साथ भी बंधते हैं ।
जो स्थितिवन्धस्थान दर्शनोपयोगके साथ नहीं बंधते हैं वे भी ज्ञानोपयोगके साथ बंधते
हैं, यह उसका अभिप्राय है ।

इन छह यवोंके अधस्तन और उपरिम भागोंके अल्पवहुत्वको बतलानेके लिये तथा
अनाकार उपयोगके योग्य स्थानोंके प्रमाणको भी बतलानेके लिये आगेका अल्पवहुत्वसूत्र
प्राप्त होता है—

साता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान स्तोक हैं ॥ २०६ ॥

कारण कि वे शतपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण हैं ।

उपरिम स्थान उनसे संख्यातगुणे हैं ॥ २०७ ॥

यवमध्यसे ऊपरके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं, क्योंकि, अति विशुद्ध

१ ताप्रतौ 'जाणि दंसणोवजोगेण ण वज्झंति' इत्येतावानयं पाठस्त्रुटितोऽस्ति । २ मप्रतिपाठोऽयम् ।
अ-आ-काप्रतिषु 'तिणि' इति पाठः । ३ प्रतिषु 'अणगार' इति पाठः (काप्रतौ त्रुटितोऽत्र पाठः) ।
४ ताप्रतौ 'चउट्टाणिया जव—' इति पाठः । ५...दिट्ठा थोवाणि जवमज्झा ॥ ठाणाणि चउट्टाणा संखेज्ज-
गुणाणि उवरिमेवन्ति (एव) । तिट्ठाणे विट्ठाणे सुमाणि एगतमीसाणि ॥ उवरिं मिस्साणि जहन्नगो सुमाणं
तओ विसेसहिओ । होइ सुमाण जहण्णो संखेज्जगुणाणि ठाणाणि ॥ विट्ठाणे जवमज्झा हेट्टा एगत
मीसगाणुवरिं । एवं ति-चउट्टाणे जवमज्झाओ य डायठिई ॥ अंतोकोडाकोडी सुमविट्ठाण जवमज्झओ
उवरिं । एगंतगा विसिट्ठा सुमजिट्ठा डायट्टिइजेट्टा ॥ क. प्र. १,९६—१००, परावर्तमानशुभप्रकृतीनां
चतुःस्थानकरसयवमध्यादधः स्थितिस्थानानि सर्वस्तोकानि (म. टी. १,९६) । ६ तेम्यऋतुःस्थान-
करसयवमध्यस्यैवोपरि स्थितिस्थानानि संखेयगुणानि (२) । क. प्र. (म. टी.) १,९७ ।

सादस्स तिट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्टदो ट्ठाणाणि संखेज्ज-
गुणाणि^१ ॥ २०८ ॥

कुदो ? चउट्ठाणियअणुभागवंधपाओग्गअज्झवसाणेहिंतो सादतिट्ठाणियजवमज्झहेट्टि-
मअणुभागवंधपाओग्गअज्झवसाणाणमसुहत्तदंसणादो ।

उवरि संखेज्जगुणाणि^२ ॥ २०९ ॥

कुदो ? सादतिट्ठाणियजवमज्झहेट्टिमअज्झवसाणेहिंतो उवरिमअज्झवसाणाणमसुहत्त-
दंसणादो । मंदविसोहीहि परिणममाणा जीवा बहुगा होंति, तासिं पाओग्गट्टिदीयो वि
बहुगीयो ति उत्तं होदि । कुदो ? जं तेणं वि मंदविसोहीणमुप्पत्तीदो ।

सादस्स विट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्टदो एयंतसागारंपाओग्ग-
ट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि^३ ॥ २१० ॥

कुदो ? सादतिट्ठाणियजवमज्झस्स उवरिमट्टिसंकिलेसादो सादविट्ठाणियजव-

स्थितियोंकी अपेक्षा मन्द विशुद्ध स्थितियोंके बहुत होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

साता वेदनीयके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान उनसे असंख्यातगुणे हैं ॥ २०८ ॥

कारण यह कि चतुःस्थानिक अनुभागवन्धके योग्य परिणामोंकी अपेक्षा साताके
त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके अनुभागवन्धके योग्य परिणाम अशुभ देखे जाते हैं ।

यवमध्यसे ऊपरके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २०९ ॥

कारण कि साताके त्रिस्थानिक यवमध्यके अधस्तन परिणामोंकी अपेक्षा उपरिम
परिणाम अशुभ देखे जाते हैं । मन्द विशुद्धियों रूप परिणमन करनेवाले जीव बहुत है
तथा उनके योग्य स्थितियां भी बहुत हैं, यह अभिप्राय है । इसका कारण यह है कि उससे
भी मन्द विशुद्धियां उत्पन्न होती हैं ।

साता वेदनीयके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचेके एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य
स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१० ॥

इसका कारण यह है कि साता वेदनीयके त्रिस्थानिक यवमध्यके ऊपरके स्थितिवन्ध-

१ अ-आ-काप्रतिपु 'असंखेज्जगुणाणि' इति पाठः । २ तेभ्योऽपि त्रिस्थानकरसयवमध्यस्योपरि
स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि ४ । क. प्र. (म. टी.) १, ९७ । तेभ्योऽपि परावर्तमानशुभप्रकृतीनां
त्रिस्थानकरसयवध्यादधः स्थितिस्थानानि संख्येयगुणाणि ३ । क. प्र. (म. टी.) १, ९७ । ३ अ-आ-का-
प्रतिपु 'जुत्तेण' इति पाठः । ४ अप्रतौ 'सायर', आ-काप्रत्योः 'सागर' इति पाठः । ५ तेभ्योऽपि
परावर्तमानशुभप्रकृतीनां द्विस्थानकरसयवमध्यादधःस्थितिस्थानानि एकान्तसाकारोपयोगयोग्यानि संख्येय-
गुणानि ५ । क. प्र. (म. टी.) १, ९७ ।

मज्झस्स हेट्ठिमट्ठिदिवंधट्ठाणाणं सागारोवजोणेणव वज्झमाणाणं संकिलेसस्स असुहत्तदंस-
णादो । दीसइ च सुहवजादिपाओग्गट्ठाणेहिंतो असुहपत्थरादिपाओग्गट्ठाणाणमइवहुत्तं ।

मिस्सयाणि संखेज्जगुणाणि ॥ २११ ॥

सागार-अणागारउवजोगाणं जाणि पाओग्गाणि सादवेट्ठाणियजवमज्झादो हेट्ठिमाणि
ट्ठिदिवंधट्ठाणाणि ताणि संखेज्जगुणाणि । कुदो ? हेट्ठिमअज्झवसाणेहिंतो एदेसिमज्झव-
साणाणं असुहत्तुवलंभादो । मोक्खकारणादो संसारकारणेण वहुएण होदच्चं, अण्णहा देव-
मणुस्सोहिंतो तिरिक्खाणमणंतगुणत्ताणुववत्तीदो ।

**सादस्स चेव^३ विट्ठाणियजवमज्झस्स उवरि मिस्सयाणि
संखेज्जगुणाणि ॥ २१२ ॥**

कारणं हेट्ठिमअज्झवसाणेहिंतो उवरिमअज्झवसाणाणं सुट्ठु असुहत्तं ।

**असादस्स विट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्ठदो एयंतसायारपाओग्ग-
ट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि ॥ २१३ ॥**

स्थानोंके संक्लेशकी अपेक्षा सातां वेदनीयके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचेके साकार
उपयोगसे बंधनेवाले स्थितिवन्धस्थानोंका संक्लेशान अशुभ देखा जाता है । वज्र आदिके
योग्य शुभ स्थानोंकी अपेक्षा अशुभ पत्थर आदिके योग्य स्थान अत्यन्त बहुत देखे
भी जाते हैं ।

मिश्र स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २११ ॥

साकार व अनाकार उपयोगके योग्य जो साता वेदनीयके द्विस्थानिक यवमध्यके
नीचेके स्थितिवन्धस्थान हैं वे संख्यातगुणे हैं, क्योंकि नीचेके अध्वसानोंकी अपेक्षा ये
अध्वसान अशुभ देखे जाते हैं । मोक्षके कारणकी अपेक्षा संसारका कारण बहुत होना
चाहिये, क्योंकि, अन्यथा देख और मनुष्योंकी अपेक्षा तिर्यक्षोंका अनन्तगुणत्व बन
नहीं सकता ।

साताके ही द्विस्थानिक यवमध्यके ऊपर मिश्र स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१२ ॥

इसका कारण अघस्तन अध्वसानोंकी अपेक्षा उपरिम अध्वसानोंका अत्यन्त
होना है ।

असाताके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचे एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य स्थान
संख्यातगुणे हैं ॥ २१३ ॥

१ ताप्रतौ 'वज्जदि' इति पाठः । २ तेभ्योपि द्विस्थानकरसयवमध्यादध पाश्चात्येभ्य ऊर्ध्व
स्थितिस्थानानि मिश्राणि साकारानाकारोपयोगयोग्यानि संख्येयगुणानि ६ । क. प्र. (म. टी.) १, ९७. ।
३ अप्रतौ 'सादस्सेव' इति पाठः । ४ तेभ्योऽपि द्विस्थानकरसयवमध्यस्योपरि मिश्राणि स्थिति-
स्थानानि संख्येयगुणानि ७. । क. प्र. १, ९८. । ५ ताप्रतौ 'असंखेज्जगुणानि इति पाठः । ततोऽप्यशुभ-
परावर्तमानप्रकृतीनामेव द्विस्थानकरसयवमध्यादध एकान्तसाकारोपयोगयोग्यानि स्थितिस्थानानि संख्येय-
गुणानि १० । क. प्र. (म. टी.) १, ९९ ।

कुदो ? सादविट्ठाणियजवमज्झस्स उवरि सागाराणागारपाओग्गट्ठिदिवंधज्झवसाणे-
हिंतो असादविट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्ठिमएयंतसागारपाओग्गट्ठिदिवंधज्झवसाणट्ठाणाण-
मसुहत्तुवलभादो ।

मिस्सयाणि संखेज्जगुणाणि^१ ॥ २१४ ॥

कारणं सुगमं ।

**असादस्स चैव विट्ठाणियजवमज्झस्सुवरि मिस्सयाणि संखेज्ज-
गुणाणि^२ ॥ २१५ ॥**

एदेसिं ट्ठिदिवधट्ठाणाणं संखेज्जगुणत्तस्स कारणं पुच्चं परुविदमिदि णेह परुविज्जंदे ।
सादस्स सागाराणागारपाओग्गट्ठिदिवंधट्ठाणप्पहुडिविट्ठाण-तिट्ठाण-चउट्ठाणपाओग्गादि-
हेट्ठिमासेसट्ठिदीहिंतो संखेज्जगुणमद्धानमुवरि गंतुण असादस्स विट्ठाणजवमज्झस्स सागार-
अणागारपाओग्गट्ठाणाणि होति । कुदो ? पयडिविसेसेण तदो संखेज्जगुणं गंतुण
तदुप्पत्तिविरोहाभावादो ।

एयंतसागारपाओग्गट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि^३ ॥ २१६ ॥

कारणं सुगमं ।

इसका कारण यह है कि साताके द्विस्थानिक यवमध्यके ऊपरके साकार व अनाकार
उपयोगके योग्य स्थितिवन्धाध्यवसानोंकी अपेक्षा असाताके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचेके
सर्वथा साकार उपयोगके योग्य स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान अशुभ पते जाते हैं ।

मिश्र स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१४ ॥

इसका कारण सुगम है ।

ऊपर मिश्र स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१५ ॥

इन स्थितिवन्धस्थानोंके संख्यातगुणे होनेका जो कारण है उसकी प्ररूपणा पहिले
की जा चुकी है, अतः वह यदां फिरसे नहीं की जा रही है । साता वेदनीयके साकार
और अनाकार उपयोगके योग्य स्थितिवन्धस्थानोंको लेकर द्विस्थान त्रिस्थान एवं
चतुस्थान योग्य इत्यादि नीचेकी समस्त स्थितियोंसे संख्यातगुणे अध्वान आगे जाकर
असातावेदनीयके द्विस्थान यवमध्यके साकार व अनाकार उपयोग योग्य स्थान होते हैं,
क्योंकि, प्रकृतिविशेषके कारण उनसे संख्यातगुणे स्थान आगे जाकर उनके उत्पन्न होनेमें
कोई विरोध नहीं है ।

एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१६ ॥

इसका कारण सुगम है ।

१ ततस्तासामेव परावर्तमानाशुभप्रकृतीनां द्विस्थानकरसयवमध्यादधः पाश्चात्येभ्य ऊर्ध्वं मिश्राणि
स्थितिस्थानानि संख्येयगुणाणि ११ । क. प्र. (म. टी.) १, ९९. । २ तेभ्योऽपि तासामेवाशुभपरावर्तमान-
प्रकृतीनां द्विस्थानकरसयवमध्यादुपरि स्थितिस्थानानि मिश्राणि संख्येयगुणानि १२ । क. प्र. (म. टी.) १, ९९.
३ तेभ्योऽप्युपरि एकान्तसाकारोपयोगयोग्यानि स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि १३ । क. प्र. (म. टी.) १, ९९. ।

असादस्स तिट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्टदो ट्ठाणाणि संखेज्ज-
गुणाणि^१ ॥ २१७ ॥

कुदो ? हेट्टिमसंकिलेसेहितो एदेसिं संकिलेसाणमसुहत्तदंसणादो ।

उवरि संखेज्जगुणाणि^२ ॥ २१८ ॥

कारणं सुगमं ।

असादस्स चउट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्टदो ट्ठाणाणि संखेज्ज-
गुणाणि^३ ॥ २१९ ॥

कारणं सुगमं ।

सादस्स जहण्णओ ट्टिदिबंधो संखेज्जगुणो^४ ॥ २२० ॥

कुदो ? असादस्स चउट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्टिमट्टिदिवंधट्ठाणाणि सागरोवमसदपुध-
त्तमेत्ताणि । सादस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो पुण अंतोकोडाकोडिआवाधृणा । तेण असादस्स
चउट्ठाणियजवमज्झहेट्टिमट्टाणेहितो सादस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो जादो ।

जट्टिदिवंधो विसेसाहिओ ॥ २२१ ॥

असाता वेदनीयके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१७ ॥

कारण यह कि नीचेके संक्लेश परिणामोंकी अपेक्षा ये संक्लेश परिणाम अशुभ
देखे जाते हैं ।

उसके ऊपरके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१८ ॥

इसका कारण सुगम है ।

असाता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २१९ ॥

इसका कारण सुगम है ।

सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ॥ २२० ॥

कारण कि असाता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थितिवन्धस्थान
शतपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण हैं । परन्तु सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध आबाधासे
हीन अन्त-कोडाकोडि सागरोपम प्रमाण है । इसीलिये असाताके चतुःस्थानिक यवमध्यके
नीचेके स्थानोंकी अपेक्षा साता वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हो जाता है ।

ज-स्थितिवन्ध उससे विशेष अधिक है ॥ २२१ ॥

१ तेभ्योऽपि तासामेव परावर्तमानाशुभप्रकृतीना त्रिस्थानकरसयवमध्यादधः स्थितिस्थानानि
संख्येयगुणानि १४ । क. प्र. (म. टी.) १,९९. । २ तेभ्योऽपि तासामेव परावर्तमानाशुभप्रकृतीनां
त्रिस्थानकरसयवमध्यम्योपरि स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि १५ । क. प्र. (म. टी.) १,९९. ।
३ तेभ्योऽप्यशुभपरावर्तमानप्रकृतीनामेव चतुःस्थानकरसयवमध्यादधःस्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि १६ ।
क. प्र. (म. टी.) १,९९. ४ तेभ्योऽपि शुभानां परावर्तमानप्रकृतीनां जघन्यः स्थितिवन्धः,
संख्येयगुणः ८ । क. प्र. (म. टी.) १,९८.

जट्टिदिवंधो णाम आबाहाए सहिदजहण्णट्टिदिवंधो, पहाणीकयकालत्तादो । जहण्ण-
बंधो णाम आबाध्णजहण्णबंधो, पहाणीकयणिसेगट्टिदित्तादो । तेण जहण्णट्टिदिवंधादो
जट्टिदिवंधो विसेसाहिओ । केत्तियमेत्तेण ? सगअंतोमुहुत्तजहण्णावाहामेत्तेण ।

असादस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो विसेसाहिओ ॥ २२२ ॥

केत्तियमेत्तेण ? संखेज्जसागरोवममेत्तेण ।

जट्टिदिवंधो^२ विसेसाहिओ ॥ २२३ ॥

केत्तियमेत्तेण ? जहण्णावाहामेत्तेण ।

जत्तो उक्कस्सयं दाहं गच्छदि सा ट्टिदी संखेज्जगुणां ॥२२४॥

दाहो णाम संकिलेसो । कुदो ? इह-परभवसंतावकारणत्तादो । उक्कस्सदाहो णाम
उक्कस्सट्टिदिवंधकारणउक्कस्ससंकिलेसो । जिस्से ट्टिदीए ठाइदूण उक्कस्ससंकिलेसं गत्तण
उक्कस्सट्टिदिं^३ वंधदि सा ट्टिदी संखेज्जगुणा त्ति उत्तं होदि ।

अंतोकोडाकोडी संखेज्जगुणां ॥ २२५ ॥

आबाधासे सहित जघन्य स्थितिबन्धको ज-स्थितिबन्ध कहा जाता है, क्योंकि,
वहां कालकी प्रधानता है । आबाधासे हीन जघन्य स्थितिबन्ध जघन्य बन्ध कहलाता है,
क्योंकि, उसमें निषेकस्थितिकी प्रधानता है । इसीलिये जघन्य स्थितिबन्धसे ज-स्थितिबन्ध
विशेष अधिक है । कितने मात्रसे वह अधिक है ? वह अपनी अन्तर्मुहूर्त मात्र जघन्य
आबाधाके प्रमाणसे अधिक है ।

असातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ २२२ ॥

वह कितने मात्रसे अधिक है । वह संख्यात सागरोपम मात्रसे अधिक है ।

ज-स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ॥ २२३ ॥

कितने मात्रसे अधिक है ? वह जघन्य आबाधा मात्रसे अधिक है ।

जिसके कारण प्राणी उत्कृष्ट दाहको प्राप्त होता है वह स्थिति संख्यातगुणी है ॥२२४॥

दाहका अर्थ संक्लेश है, क्योंकि, वह इस भव और पर भवमें सन्तापका कारण
है । उत्कृष्ट दाहका अर्थ उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कारणभूत उत्कृष्ट संक्लेश है । जिस
स्थितिमें स्थित होकर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हो जीव उत्कृष्ट स्थितिको बांधता है वह
स्थिति संख्यातगुणी है, यह अभिप्राय है ।

अन्तःकोडाकोडिका प्रमाण संख्यातगुणा है ॥ २२५ ॥

१ ततोऽप्यश्रुमपरावर्तमानप्रकृतीनां जघन्यः स्थितिबन्धः विशेषाधिकः ९ । क. प्र. (म. टी.)
१, ९८. । २ अ आ-काप्रतिषु ' जहण्णट्टिदिवंधो ' इति पाठः । ३ तेभ्योऽपि यवमध्याहुपरि डायस्थिति-
संख्येयगुणः १७ । यतः स्थितिस्थानादपवर्तनाकरणवशेनोत्कृष्टां स्थितिं याति तावती स्थितिर्द्वयस्थितिः
रिस्युच्यते । क. प्र. (म. टी.) १, ९९ ४ ताप्रतौ ' उक्कस्सट्टिदी ' इति पाठः । ५ ततोऽपि सागरोपमा-
णामन्त कोटाकोटी संख्येयगुणा १८ । क. प्र. (म. टी.) १, १०० ।

पुव्विल्लद्विदी अंतोकोडाकोडिमेत्ता, एसा वि द्विदी' अंतोकोडाकोडिमेत्ता चेव ।
किंतु एसा णिव्वियप्पा, तेण संखेज्जगुणा ति भणिदा ।

सादस्स बिट्ठाणियजवमज्झस्स उवरि एयंतसागारपाओ-
ग्गट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि^१ ॥ २२६ ॥

कुदो ? अंतोकोडाकोडीए ऊणपण्णारससागरोवमकोडाकोडिपमाणत्तादो ।

सादस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो^२ विसेसाहिओ^३ ॥ २२७ ॥

केत्तियमेत्तेण ? सादअणागारपाओग्गट्ठाणप्पहुडि हेट्ठिमआवाधुणअंतोकोडाकोडि-
णिसेयद्विदिमेत्तेणं ।

जद्विदिबंधो विसेसाहियो ॥ २२८ ॥

केत्तियमेत्तेण ? सगआवाधामेत्तेण ।

दाहद्विदी विसेसाहियाँ ॥ २२९ ॥

पूर्वोक्त स्थितिका प्रमाण अन्तःकोडाकोडि मात्र है, यह स्थिति भी अन्तःकोडाकोडि
प्रमाण ही है । किन्तु यह स्थिति निर्विकल्प है, इसीलिये संख्यातगुणो कही गई है ।

साता वेदनीयके द्विस्थानिक यवमध्यके ऊपरके एकान्ततः साकार उपयोगके योग्य
स्थान संख्यातगुणे हैं ॥ २२६ ॥

क्योंकि, वे अन्तःकोडाकोडिसे हीन पन्द्रह कोडाकोडि सागरोपम प्रमाण हैं ।

साता वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ २२७ ॥

वह कितने मात्रसे अधिक है ? साताके अनाकार उपयोगके योग्य स्थानोंको लेकर
नीचे आवाधासे रहित अन्तःकोडाकोडि सागरोपम निषेकास्थितियोंके प्रमाणसे वह
अधिक हैं ।

ज-स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ २२८ ॥

कितने मात्रसे वह अधिक है ? वह अपनी आवाधाके प्रमाणसे अधिक है ।

दाहस्थिति विशेष अधिक है ॥ २२९ ॥

१ अ-आ-काप्रतिषु 'एसा दि द्विदि' इति पाठः । २ ततोऽपि परावर्तमान शुभप्रकृतीनां द्विस्थान-
करसयवमध्यस्योपरि यानि मिश्राणि स्थितिस्थानानि तेषु मुख्यैकान्तमाकारोपयोगयोग्यानि स्थितिस्थानानि
संख्येयगुणानि १९ । क. प्र. (म. टी.) १, १००. ३ अ-आ-काप्रतिषु 'उक्कस्सद्विदिबंधो' इति पाठः ।
४ तेभ्योऽपि परावर्तमानशुभप्रकृतीनामुत्कृष्टः स्थितिवन्धो विशेषाधिकः २० । क. प्र. (म. टी.)
१, १००. ५ मप्रतिगठोऽयम् । अ-आ-का-ताप्रतिषु 'मेत्तो' इति पाठः । ६ अ-आ-काप्रतिषु
'जहण्णद्विदिबंधो' इति पाठः । ७ ततोऽप्यशुभ- (१) परावर्तमानशुभप्रकृतीना ब्रह्मा डायस्थितिर्विशेषा-
धिका २१ । यतः स्थितिस्थानात् मांझकच्छतिन्यायेन डाय फालं दत्त्वा या या स्थितिर्वध्यते तत. प्रभृति

दाहो उक्कस्सद्विदिपाओग्गसंकिलेसो तस्स दाहस्स कारणभूदद्विदी दाहद्विदी णाम, कारणे कज्जुवयारादो । तत्थ जहण्णदाहद्विदिपहुडि जाव उक्कस्सदाहद्विदि ति एदासिं सन्वासिं जादिदुवारेण एयत्तमावण्णाण दाहद्विदि ति सण्णा । सा पण्णारससागरोवम-कोडाकोडीयो पेविखद्वण विसेसाहिया, किंचणतीससागरोवमकोडाकोडिपमाणत्तादो ।

असादस्स चउट्टाणियजवमज्झस्स उवरिमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ॥ २३० ॥

केत्तियभेत्तेण ? असादचउट्टाणियजवमज्झादो उवरिमजहण्णदाहद्विदीदो हेद्विम-अंतोकोडाकोडिसागरोवममेत्तेण ।

असादस्स उक्कस्सद्विदिवंधो विसेसाहिओ' ॥ २३१ ॥

केत्तियभेत्तेण ? अंतोकोडाकोडीए ।

जद्विदिवंधो विसेसाहिओ ॥ २३२ ॥

केत्तियभेत्तेण ? तिण्णिवाससहस्समेत्तेण ।

एदेण अट्टपदेण सव्वत्थोवा सादस्स चउट्टाणबंधा जीवां ॥२३३॥

दाहका अर्थ उत्कृष्ट स्थितिके योग्य संकलेश है । उस दाहकी कारणभूत स्थिति कारणमें कारिका उपचार करनेसे दाहस्थिति कही जाती है । उसमें जघन्य दाहस्थितिसे लेकर उत्कृष्ट दाहस्थितिपर्यन्त जातिके द्वारा एकताको प्राप्त हुई इन सब स्थितियोंकी दाहस्थिति संग्रहा हैं । वह पन्द्रह कोड़ाकोड़ि सागरोपमोंकी अपेक्षा विशेष अधिक है, क्योंकि, वह कुछ कम तीस कोड़ाकोड़ि सागरोपम प्रमाण है ।

असाता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपरके स्थान विशेष अधिक हैं ॥२३०॥

वे कितने मात्रसे अधिक हैं ? असाता वेदनीयके चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपरकी जघन्य दाहस्थितिसे नीचेके अन्तः कोड़ाकोड़ि सागरोपम मात्रसे अधिक हैं ।

असाता वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ २३१ ॥

वह कितने मात्रसे अधिक है ? वह अन्तःकोड़ाकोड़ि सागरोपम मात्रसे अधिक है ।

ज-स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ॥ २३२ ॥

वह कितने मात्रसे अधिक है ? वह तीन हजार वर्ष मात्रसे अधिक है ।

इस अर्थपदसे सातावेदनीयके चतुःस्थानवन्धक जीव सबसे स्तोक हैं ॥ २३३ ॥

तदन्ता तावती स्थितिर्नद्धा डायस्थितिरिहोच्यते । सा चोक्कपंतोऽन्तःसागरोपमकोटिकोटथूना सकलकर्मस्थिति-प्रमाणा वेदितव्या । तथाहि—अन्तःसागरोपमकोटिकोटिप्रमाणं स्थितिवन्ध कृत्वा पर्याप्तसक्षिपंचेन्द्रिय उत्कृष्टा स्थिति वभ्रतीति, नान्यथा । क. प्र. (म. टी.) १, १००.

१ तनेऽपि पगवर्तमानाश्रमप्रकृतीनामुत्कृष्टः स्थितिवन्धो विशेषाधिक इति २२ । क. प्र. (म. टी.) १, १००. २ सखेज्जुणा जीवा कमसो एएसु द्विदिहपगईण । अमुभाण तिहाणे सव्वुवरि विसेसओ अहिया ।

एदमत्थमाहारं काऊण छण्ण जवाणं जीवाणमपावहुगं भणिस्सामो । तम्हि भण्णमाणे सादस्स चउट्टाणवंधा जीवा थोवा । कुदो ? थोवद्धानत्तादो ।

तिट्ठाणबंधा जीवा संखेज्जगुणा ॥ २३४ ॥

कुदो ? सादचउट्टाणाणुभागवंधपाओग्गट्टिदीहितो तिट्ठाणाणुभागवंधपाओग्गट्टिदिविसेसाणं संखेज्जगुणत्तुवलभादो ।

विट्ठाणबंधा जीवा संखेज्जगुणा ॥ २३५ ॥

कुदो ? सादावेदणीयतिट्ठाणाणुभागवंधपाओग्गट्टिदिविसेसेहितो तस्मेव विट्ठाणाणुभागवंधपाओग्गट्टिदिविसेसाणं संखेज्जगुणत्तुवलभादो ।

असादस्स विट्ठाणबंधा जीवा संखेज्जगुणा २३६ ॥

सादावेदणीयविट्ठाणाणुभागवंधपाओग्गट्टिदिविसेसेहितो असादावेदणीयविट्ठाणाणुभागवंधपाओग्गट्टिदिविसेसा संखेज्जगुणहीणा । कुदो ? अंतोकोडाकोडिऊणपण्णारससागरोवमकोडाकोडिमेत्तसादविट्ठाणाणुभागवंधपाओग्गट्टिदीहितो सागरोवमसदपुधत्तट्टिदिविसेसाणं संखेज्जगुणहीणत्तुवलभादो । तदो असादस्स विट्ठाणबंधा जीवा संखेज्जगुणा ति ण

इस अर्थको आधार करके छह यवोंके जीवोंके अल्पवहुत्वको कहते हैं । उसका कथन करनेमें साता वेदनीयके चतुस्थानबन्धक जीव स्तोक हैं, क्योंकि, उनका अध्वान स्तोक है ।

त्रिस्थानबन्धक जीव उनसे संख्यातगुणे हैं ॥ २३४ ॥

इसका कारण यह है कि साता वेदनीयके चतुस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितियोंकी अपेक्षा त्रिस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे पाये जाते हैं ।

द्विस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ॥ २३५ ॥

कारण कि सातावेदनीयके त्रिस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेषोंकी अपेक्षा उसके ही द्विस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे पाये जाते हैं ।

असाता वेदनीयके द्विस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ॥ २३६ ॥

शंका—साता वेदनीयके द्विस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेषोंसे असाता-वेदनीयके द्विस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे हीन हैं, क्योंकि, अन्त.कोडाकोडिसे हीन पन्द्रह कोडाकोडि सागरोपम प्रमाण साता वेदनीयके द्विस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितियोंकी अपेक्षा शतपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण स्थितिविशेष संख्यातगुणे हीन पाये जाते हैं । अतएव असाताके द्विस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं, यह कहना उचित नहीं है ?

क. प्र. १, १०१. सर्वस्तोकाः परावर्तमानशुभप्रकृतीना चतुस्थानकरसबन्धका जीवाः तेभ्योऽपि त्रिस्थान-करसबन्धकाः संख्येयगुणाः । तेभ्योऽपि द्विस्थानकरसबन्धका संख्येयगुणा. (म. टी.)

१ तेभ्योऽपि परावर्तमानशुभप्रकृतीना द्विस्थानकरसबन्धकाः संख्येयगुणाः । तेभ्योऽपि चतुस्थानकरस-बन्धका संख्येयगुणाः । तेभ्योऽपि त्रिस्थानकरसबन्धका विशेषाधिकाः । क. प्र. (म. टी.) १, १०१. । २ ताप्रतौ ' सादावेदणीणं विट्ठाणाणु—' इति पाठः । ३ ताप्रतौ ' विट्ठाणाणुबन्ध ' इति पाठः ।

जुञ्जदि ? ण, सादावेदणीयबंधगद्धादो संखेज्जगुणाए असादावेदणीयबंधगद्धाए संचिदाणं संखेज्जगुणत्तेण विरोहाभावादो संखेज्जगुणत्तं जुञ्जदे ।

चउट्टाणबंधा जीवा संखेज्जगुणा ॥ २३७ ॥

कुदो ? असादचिट्ठाणुभागबंधपाओग्गट्टिदिविसेसेहिंतो तस्सेव चउट्टाणाणुभागबंध-पाओग्गट्टिदिविसेसाणं संखेज्जगुणत्तुवलंभादो ।

तिट्ठाणबंधा जीवा विसेसाहिया ॥ २३८ ॥

असादस्स चउट्टाणाणुभागबंधपाओग्गट्टिदिविसेसेहिंतो तस्सेव तिट्ठाणाणुभागबंध-पाओग्गट्टिदिविसेसा संखेज्जगुणहीणा । तदो तिट्ठाणबंधजीवाणं विसेसाहियत्तं [ण] जुञ्जदि त्ति ? ण एस दोसो, सुक्कुक्कस्सपरिणामेसु बहुट्टिदिविसेसेसु वट्टमाणजीवेहिंतो थोवट्टिदिविसेसेसु मज्झिमपरिणामेसु च वट्टमाणजीवाणं बहुत्त पडि विरोहाभावादो । ण च बहुसं-किलेसविसोहीसु खल्लविल्लसंजोगो व्व चुट्ठीए^१ समुप्पज्जमाणासु जीवबहुत्तं^२ संभवदि, तहा-णुवलंभादो । संखेज्जगुणा ण होत्ति, विसेसाहिया चेव होत्ति^३ त्ति कथं णव्वदे ? एदम्हादो

समाधान—नहीं, क्योंकि, सातावेदनीयके बन्धककालकी अपेक्षा संख्यातगुणे असाता वेदनीयके बन्धक कालमें संचित जीवोंके संख्यातगुणत्वसे कोई विरोध न होनेके कारण उनको संख्यातगुणा कहना उचित ही है ।

चतुःस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ॥ २३७ ॥

कारण कि असाता वेदनीयके द्विस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेषोंकी अपेक्षा उसके ही चतुःस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे पाये जाते हैं ।

त्रिस्थानबन्धक जीव विशेष अधिक हैं ॥ २३८ ॥

शंका—असाता वेदनीयके चतुःस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेषोंकी अपेक्षा उसके ही त्रिस्थान अनुभागबन्धके योग्य स्थितिविशेष संख्यातगुणे हीन हैं । इस कारण त्रिस्थानबन्धक जीवोंको उनसे विशेष अधिक कहना उचित [नहीं] है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, शुक्ललेश्याके उत्कृष्ट परिणामोंमें बहुत स्थितिविशेषोंमें वर्तमान जीवोंकी अपेक्षा स्तोक स्थितिविशेषों और मध्यम परिणामोंमें वर्तमान जीवोंके बहुत होनेमें कोई विरोध नहीं है । खल्व-बिल्वसंयोग (खल्व्वाट और बिल्व फलके संयोग) के समान श्रुटिसे अर्थात् यदा कदाचित् उत्पन्न होनेवाले बहुत संक्लेश व बहुत विशुद्धिमें जीवोंकी अधिकता सम्भव नहीं है, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता ।

शंका—वे संख्यातगुणे नहीं हैं, विशेष अधिक ही हैं, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—वह इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

१ अप्रती 'खल्लविल्लसंतो व्व चुट्ठीए', आ-काप्रत्यो. 'खल्लविल्लसंजो व्व चुट्ठीए' इति पाठः ।
२ अ-आ-काप्रतिपु 'जव्वहुत्त' इति पाठः । ३ ताप्रती 'विसेसाहिया होत्ति' इति पाठः ।

चेव सुत्तादो । विसंवादिसुत्तं^१ किण्ण जायदे ? ण, विसंवादकारणसयलदोसुम्मुक्कभृदवल्लि-
यण-विणिग्गयस्स सुत्तस्स विसंवादित्तैविरोहादो । एसो जीवसमुदाहारो वीइदिय-तीइंदिय-
चउरिंदिय-असण्णिपंचिंदियपज्जत्तापज्जत्तएसु सण्णिअपज्जत्तएसु च जोजेयव्वो । णवरिं ट्टिदि-
विसेसो णायव्वो । वादर-सुहुमेइंदियपज्जत्तापज्जत्तेसु वि एव चेव वत्तव्वो । णवरि एदेसु
सव्वेसु वि सादासादाणं विट्ठाणजवमज्झं चेव, तत्थ तिट्ठाण-चउट्ठाणाणुभागाणं चंधा-
भावादो । णवरि वादर-सुहुमेइंदियपज्जत्तापज्जत्तएसु एक्केविकस्से ट्टिदीए अणंता जीवा ।
पढमट्टिदिवंधजीवप्पहुडि कमेण विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-
भागेण खंडिदमेत्तेण । पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणवड्ढिदा दुगुणवड्ढिदा जाव
जवमज्झं । तेण परं विसेसहीणा । सेसं जाणिदूण वत्तव्वं । एसो जीवसमुदाहारो बहुमेदो
वि संतो संखेवेण एत्थ पस्सविदो । एवं जीवसमुदाहारो समत्तो ।







शंका—यह सूत्र विसंवाद सहित क्यों नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जो भूतवलि भट्टारक विसंवादके कारणभूत समस्त
दोषोंसे रहित हैं उनके मुखसे निकले हुए सूत्रके विसंवादी होनेमें विरोध है ।

इस जीवसमुदाहारको डीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंजी पंचेन्द्रिय
पर्याप्तक अपर्याप्तक तथा संजी अपर्याप्तक जीवोंमें जोड़ना चाहिये । विशेष इतना है कि
उक्त जीवोंके स्थितिभेदको जानना चाहिये । वादर व सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक
जीवोंमें भी इसी प्रकार कहना चाहिये । विशेष इतना है कि इन सभी जीवोंमें साता व
असाताका द्विस्थानिक अनुभाग रूप यवमध्य ही होता है, क्योंकि, उनमें त्रिस्थानिक और
चतुःस्थानिक अनुभागोंके बन्धका अभाव है । विशेषता यह है कि वादर व सूक्ष्म
एकेन्द्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक जीवोंमें एक एक स्थितिमें अनन्त जीव होते हैं । वे क्रमशः
प्रथम स्थितिवन्धके जीवोंसे लेकर विशेष अधिक है । कितने मात्रसे वे अधिक हैं ?
उनको पल्योपमके असंख्यातवे भागसे भाजित करनेपर जो एक भाग लब्ध हो उतने
मात्रसे भी अधिक हैं । पल्योपमके असंख्यातवे भाग जाकर यवमध्य तक दुगुणी दुगुणी
वृद्धिसे वृद्धिगत होते गये हैं । आगे वे विशेष हीन हैं । शेष कथन जानकर कना
चाहिये । बहुत भेदोंसे संयुक्त होनेपर भी इस जीवसमुदाहारकी यहां संक्षेपसे
प्ररूपणा की गई है । इस प्रकार जीवसमुदाहार समाप्त हुआ ।

१ अ-आ-काप्रतिपु ' विसंवादीसुत्त', ताप्रतौ ' विसंवादी सुत्त' इति पाठः । २ प्रतिपु ' विसंवादत्त-
इति पाठः । ३ ताप्रतौ ' ट्टिदिविसेसो वत्तव्वो' इत्येतावानय पाठस्त्रुटितोऽस्ति ।

(संदृष्टियां)



पयडिसमुदाहारे^१ ति तत्थ इमाणि दुवे^२ अणियोगद्वाराणि
पमाणानुगमो अप्पावहुए ति^३ ॥ २३९ ॥

परूवणाए सह तिणिअणियोगद्वाराणि किण्ण परूविदाणि ? ण, एदसु चैव
परूवणाए अंतम्भूदत्तादो । ण च परूवणाए विणा पमाणादीण संभवो अत्थि,
विरोहादो । तेण एत्थ ताव परूवणं वत्तइस्सामो । तं जहा—अत्थि णाणावरणादीणं
पयडीणं द्विदिवंधज्जवसाणट्टाणाणि । परूवणा गदा ।

पमाणानुगमे णाणावरणीयस्स असंखेज्जा लोगा द्विदिवंधज्ज-
वसाणट्टाणाणि ॥ २४० ॥

णाणावरणीयस्स द्विदिवंधकारणअज्जवसाणट्टाणाणि सच्चाणि एगट्ठं काट्टण एसा
परूवणा परूविदा । ठिदिं पडि अज्जवसाणट्टाणाणमेसा पमाणपरूवणा ण होदि. उवरि
द्विदिसमुदाहारे द्विदिं पडि अज्जवसाणपमाणस्स परूविज्जमाणत्तादो ।

एवं सत्तणं कम्माणं ॥ २४१ ॥

जहा णाणावरणीयस्स द्विदिवंधज्जवसाणट्टाणाणमव्वोगाट्ठेण पमाणपरूवणा कदा

अव प्रकृतिसमुदाहारका अधिकार है । उसमें दो अनुयोगद्वार हैं—प्रमाणानुगम
और अल्पवहुत्व ॥ २३९ ॥

शंका—प्ररूपणाके साथ यहां तीन अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इनमें ही प्ररूपणाका अन्तर्भाव हो जाता है । कारण कि
प्ररूपणाके विना प्रमाणादिकोंकी सम्भावना ही नहीं है, क्योंकि, उसमें विरोध है ।

इसी कारण यहां पहिले प्ररूपणाको कहते हैं । वह इस प्रकार है—ज्ञानावरणादिक
प्रकृतियोंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान है । प्ररूपणा समाप्त हुई ।

प्रमाणानुगमके अनुसार ज्ञानावरणीयके असंख्यात लोक प्रमाण स्थितिवन्धाध्यव-
सानस्थान हैं ॥ २४० ॥

ज्ञानावरणीयके स्थितिवन्धमें कारणभूत सब अध्यवसानस्थानोंको इकट्ठा करके यह
प्रमाणप्ररूपणा कही गई है । प्रत्येक स्थितिके अध्यवसानस्थानोंकी यह प्रमाणप्ररूपणा
नहीं है, क्योंकि, आगे स्थितिसमुदाहारमें प्रत्येक स्थितिके आश्रयसे अध्यवसानस्थानोंके
प्रमाणकी प्ररूपणा की जानेवाली है ।

इसी प्रकार शेष सात कर्मोंकी प्रमाणप्ररूपणा है ॥ २४१ ॥

जिस प्रकार ज्ञानावरणीयके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी अव्वोगाह स्वरूपसे

१ आपत्तौ 'समुदाहारो' इति पाठः । २ अ आपत्त्योः 'इमा दुवो' इति पाठः । ३ सप्रति
प्रकृतिसमुदाहार उच्यते । तत्र च द्वे अनुयोगद्वारे । तद्यथा—प्रमाणानुगमः अल्पवहुत्वं च । तत्र प्रमाणानु-
गमं ज्ञानावरणीयस्स सर्वेषु स्थितिवन्धेषु कियन्त्यध्यवसानस्थानानि ? उच्यते—असंख्येयलोकाकाशप्रदेश-
प्रमाणानि । एवं सर्वकर्मणामपि द्रष्टव्यम् । क प्र. (म. टी) १, ८८. ।

तथा सेससत्तण्णं कम्माणं पमाणपरुवणा कायच्चा । एव पमाणाणुगमे त्ति समत्तमणियोगहारं ।

अप्पाबहुए त्ति सब्वत्थोवा आउअस्स द्विदिबधञ्जवसाण-
ट्टाणाणि ॥ २४२ ॥

कुदो ? चटुण्णमाउआणं सच्चोदयवियप्पगहणादो । कसायउदयट्टाणेसु उच्चिदूणं गहिदञ्जवसाणट्टाणाणमाउअवंधपाओग्गाणं किण्ण [परुवणा] कीरदे ? ण, सगट्टिदिबंध-
ट्टाणहेदुभृदसोदयट्टाणाणं परुवणाए अण्णपयडिउदयट्टाणेहि पओजणाभावादो ।

णामा-गोदाणं द्विदिबंधञ्जवसाणट्टाणाणि दो वि तुल्लाणि
असंखेज्जगुणाणि ॥ २४३ ॥

कुदो ? साभावियादो । णामा-गोदाणमुदयस्सेव आउओदयस्स संसारावत्थाए
सब्वत्थ संभवे संते द्विदिबंधञ्जवसाणट्टाणाणं थोवत्तं कत्तो णव्वदे ? ठिदिबंधट्टाणाणं थोव-

प्रमाणप्ररूपणा की गई है उसी प्रकार श्रेय सात कर्मोंकी प्रमाणप्ररूपणा भी करना चाहिये ।
इस प्रकार प्रमाणानुगम अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारके अनुसार आयुकर्मके स्थितिवन्धाध्यवसान ' सबसे
स्तोक हैं ॥ २४२ ॥

कारण कि चारों आयुओंके सब उदयविकल्पोंका यहां ग्रहण किया गया है ।

शंका—कपायोदयस्थानोंमेंसे चुनकर ग्रहण किये गये आयुबन्धके योग्य अध्यव-
सानस्थानोंकी प्ररूपणा यहां क्यों नहीं की जाती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अपने स्थितिवन्धस्थानोंके हेतुभूत अपने उदयस्थानोंकी
प्ररूपणामें दूसरी प्रकृतियोंके उदयस्थानोंका कोई प्रयोजन नहीं है ।

नाम व गोत्रके स्थितिवन्धस्थान दोनोही तुल्य असंख्यातगुणे हैं ॥ २४३ ॥

कारण कि पेसा स्वभात्रसे है ।

शंका—जिस प्रकार संसार अवस्थामें नाम व गोत्रका उदय सर्वत्र सम्भव है, उसी
प्रकार आयुके उदयकी भी सर्वत्र सम्भावना होनेपर उसके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी
स्तोकता कहाँसे जानी जाती है ?

१ ठिइदीह्याए त्ति—स्थितिदीर्घतया क्रमशः क्रमेणाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयगुणानि वक्तव्यानि ।
यस्य यतः क्रमेण दीर्घा स्थितिस्तस्य ततः क्रमेणाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयगुणानि वक्तव्यानीत्यर्थः । तथाहि
—सर्वस्तोकान्यायुषः स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानानि । क. प्र. (म. टी.) १, ८९. १ २ प्रतिषु ' उच्चिदूणं '
इति पाठः । ३ तेभ्योऽपि नाम-गोत्रयोरसंख्येयगुणानि । नन्वायुषः स्थितिस्थानेषु यथोत्तरमसंख्येयगुणा वृद्धिः,
नाम-गोत्रयोस्तु विशेषाधिका, तत्कथमायुरपेक्षया नाम-गोत्रयोरसंख्येयगुणानि भवन्ति ? उच्यते—आयुषो
जघन्यस्थितावध्यवसायस्थानान्यतीव स्तोकानि, नाम-गोत्रयोः पुनर्जघन्यायां स्थितौ अतिप्रभूतानि, स्तोकानि
चायुष स्थितिस्थानानि, नाम-गोत्रयोस्त्यतिप्रभूतानि, ततो न कश्चिदोषः । क. प्र. (म. टी.) १, ८९. १

त्तादो । द्विदिवंधट्टाणाणं पहाणत्ते इच्छिज्जमाणे गुणगारो पल्लिवमस्स असंखेज्जदिमागो होदि । होदु णाम, असंखेज्जलोगभेत्तो चेवेत्ति गुणगारे अम्हाणं पमाणणियमाभावादो । णामा-गोदज्जवसाणट्टाणाणं कथं तुल्लत्तं ? ण, द्विदिं वंधंताण समाणत्तण्ण तत्तुल्लत्तावगमादो ।

णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीयअंतराइयाणं द्विदिवंध-ज्जवसाणट्टाणाणि चत्तारि वि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि ॥ २४४ ॥

णामा-गोदेहितो चत्तारि वि कम्माणि मिच्छत्तासंजम-कसायपञ्चएहि सरिसाणि । तेण णामा-गोदाणं अज्जवसाणेहितो चटुण्णं कम्माणं अज्जवसाणट्टाणाणि असंखेज्ज-गुणाणि त्ति ण वड्ढे । णामा-गोदाणं द्विदिवंधट्टाणेहितो चटुण्णं कम्माणं द्विदिवंधट्टाणाणि विसेसाहियाणि त्ति असंखेज्जगुणत्तं ण जुज्जदे । हेद्विमवेतिमागद्विदिवंधट्टाणपायोगकसा-एहितो उवरिमतिमागद्विदिवंधट्टाणपायोगकसाउदयट्टाणाणं असमाणाणमणुवलंमेण

समाधान—चूंकि उसके स्थितिवन्धस्थान स्तोक हैं, अतः इसीसे उसके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी स्तोकताका भी परिज्ञान हो जाता है ।

स्थितिवन्धस्थानोंकी प्रधानताके अभीष्ट होनेपर गुणकार पल्योपमका असंख्यातवां भाग होता है ।

शंका—यदि पल्योपमक असंख्यातवां भाग गुणकार है तो, हो, क्योंकि असंख्यात लोक मात्र ही गुणकार होता है, ऐसा हमारे पास उसके प्रमाणका कोई नियम नहीं है ।

शंका—नाम व गोत्रके स्थितिवन्धस्थानोंके परस्पर समानता कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि स्थितिवन्धस्थानोंकी समानतासे उनकी समानता भी निश्चित है ।

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इन चारों ही कर्मोंके स्थितिवन्धस्थान तुल्य व असंख्यातगुणे हैं ॥ २४४ ॥

शंका—चारों ही कर्म मिथ्यात्व, असंयम और कपाय रूप प्रत्ययोंकी अपेक्षा चूंकि नाम-गोत्रके समान हैं इसी कारण नाम-गोत्रके अध्यवसानस्थानोंकी अपेक्षा चारों कर्मोंके अध्यवसानस्थानोंको असंख्यातगुणा बतलाना संगत नहीं है । दूसरे, नाम-गोत्रके स्थितिवन्धस्थानोंकी अपेक्षा चार कर्मोंके स्थितिवन्धस्थान चूंकि विशेष अधिक हैं, इसलिये भी उनके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंको असंख्यातगुणा बतलाना उचित नहीं ? इसके अतिरिक्त चूंकि नीचेके दो त्रिभाग मात्र स्थितिवन्धस्थानोंके योग्य कपायो-दयस्थानोंकी अपेक्षा ऊपरके एक त्रिभाग मात्र स्थितिवन्धस्थानोंके योग्य कपायोदय-स्थानोंके असमान न पाये जानेसे भी उनका असंख्यातगुणत्व घटित नहीं होता ?

१ नाम-गोत्रयोः सत्कस्थितिवन्धाध्यवसायस्थानेष्वो ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीय-वेदनीयान्तरायाणं स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयगुणानि । कथमिति चेदुच्यते—इह पल्योपमासंख्येयभागमात्राहु स्थिति-ध्वतिक्रान्तासु द्विगुणवृद्धिरुपलब्धा । तथा च सत्यैकैकस्यापि पल्योपमस्यान्तेऽसंख्येयगुणानि लभ्यन्ते, किं पुनर्दर्शसागरोपमकोटीकोट्यन्ते इति । क. प्र. (म. टी.) १,८९. ।

असंखेज्जगुणत्ताणुववत्तीदो ? ण एस दोसो, णामा-गोदाणमुदयट्टाणेहिंतो चदुण्णं कम्माणं उदयट्टाणवहुत्तेण असंखेज्जगुणत्ताविरोहादो । कधं चदुण्णं कम्माणं पयडिअज्झवसाणाण अण्णोण्णं समाणत्तं ? ण, सोदयादिवियप्पेहि तेसिं भेदाभावादो ।

**मोहणीयस्स द्विदिवंधज्झवसाणट्टाणाणि असंखेज्ज-
गुणाणि ॥ २४५ ॥**

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । कुदो ? चदुण्णं कम्माणमुद-
यट्टाणेहिंतो मोहणीयस्स उदयट्टाणाणमसंखेज्जगुणत्तादो । एव पगडिसमुदाहारो समत्तो ।

**ठिदिसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्वाराणि
पगणणा अणुकट्ठी तिव्व-मंददा त्ति ॥ २४६ ॥**

तत्थ पगणणा णाम इमिस्से इमिस्से द्विद्वीए वंधकारणभूदाणि द्विदिवंधज्झवसाण-
ट्टाणाणि एत्तियाणि एत्तियाणि होत्ति त्ति द्विदिवंधज्झवसाणट्टाणाण पमाणं परूवेदि । तत्थ
अणुकट्ठी णाम द्विदिं पडिं द्विदिवंधज्झवसाणट्टाणाणं समाणत्तमसमाणत्तं च परूवेदि ।
तिव्व-मंददा णाम तेसिं जहण्णुक्कस्सपरिणामाणमविभागपडिच्छेदाणमप्पावहुगं परूवेदि ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि, नाम गोत्रके उदयस्थानोंकी अपेक्षा
चार कर्मोंके उदयस्थानोंके बहुत होनेसे उनके असंख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

शंका—चार कर्मोंके प्रकृतिअध्यवसानस्थानोंके परस्पर समानता कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि स्वोदयादिक विकल्पोंकी अपेक्षा उनमें कोई भेद नहीं है ।

मोहनीयके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सख्यातगुणे हैं ॥ २४५ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार पल्योपमका असंख्यातवा भाग है, क्योंकि, चार कर्मोंके
उदयस्थानोंकी अपेक्षा मोहनीयके उदयस्थान असंख्यातगुणे हैं । इस प्रकार प्रकृतिसमुदाहार
समाप्त हुआ ।

अब स्थितिसमुदाहारका अधिकार है । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार है—प्रगणना,
अनुकृष्टि और तीव्रमन्दता ॥ २४६ ॥

इनमें प्रगणना नामक अनुयोगद्वार अमुक अमुक स्थितिके बन्धके कारणभूत
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान इतने इतने होते हैं, इस प्रकार स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंके
प्रमाणकी प्ररूपणा करता है । अनुकृष्टि अनुयोगद्वार प्रत्येक स्थितिके स्थितिवन्धाध्यव-
सानस्थानोंकी समानता व असमानताको बतलाता है । तीव्रमन्दता अनुयोगद्वार उनके
जघन्य व उत्कृष्ट परिणामोंके अविभाग प्रतिच्छेदोंके अल्पहृत्वकी प्ररूपणा करता है ।

१ तेभ्योऽपि कथायमोहनीयस्य स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयगुणानि । तेभ्योऽपि दर्शनमोहनी-
यस्य स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयगुणानि । क. प्र. (म टी.) १, ८९ । २ तत्र स्थितिसमुदा-
हारेऽपि त्रीण्यनुयोगद्वाराणि । तत्रथा—प्रगणना १, अनुकृष्टिः २, तीव्रमन्दता ३ च । तत्र प्रगणना
प्ररूपणार्थमाह—क प्र. (म. टी.) १, ८७ गथाया उत्थानिका । ३ मप्रतिपातोऽयम् । अ आ-का ताप्रतिष्ठ
' पयडि ' इति पाठः ।

तिणिण चैव अणियोगद्वाराणि किमट्टं पस्विदाणि ? ण, चउल्यादिअणियोगद्वाराणं संभवाभावादो ।

पगणणाए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए ट्टिदीए ट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणाणि असंखेज्जा लोगा ॥ २४७ ॥

जहण्णट्टिदी णाम ध्रुवट्टिदी, तत्तो हेट्टा ट्टिदिवधाभावादो । तत्थ ट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणाणि असंखेज्जलोगमेत्ताणि अणंतभागवट्टि-असंखेज्जभागवट्टि-संखेज्जभागवट्टि-संखेज्जगुणवट्टि-असंखेज्जगुणवट्टि-अणंतगुणवट्टीहि णिपण्णअसंखेज्जलोगमेत्तछट्टाणाणि होति । कधमेक्कस्स जहण्णट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणस्स अणंतो सव्वजीवरासी भागहारो कीरदे ? ण, जहण्णट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणे वि असंतसव्वजीवरासिमेत्तअविभागपडिच्छेदुवलंभादो ।

विदियाए ट्टिदीए ट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणाणि असंखेज्जा लोगा ॥ २४८ ॥

विदियाए ट्टिदीए त्ति वुत्ते समउत्तरमवट्टिदी वेत्तन्वा । कधं तिस्से विदियत्त ? ण,

शंका—तीन ही अनुयोगद्वार किस लिये कहे हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि चतुर्थादिक अन्य अनुयोगद्वारोंकी सम्भावनाका अभाव है ।

प्रगणना अनुयोगद्वारका अधिकार है । ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं ॥ २४७ ॥

जघन्य स्थितिका अर्थ ध्रुवस्थिति है, क्योंकि, उसके नीचे स्थितिवन्धका अभाव है । उसमें स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं । वे अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि, इन छह वृद्धियोंसे उत्पन्न असंख्यात लोक मात्र छह स्थानोंसे संयुक्त होते हैं ।

शंका—अनन्त सर्व जीव राशिको एक जघन्य स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानका भागहार कैसे किया जा रहा है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि एक जघन्य स्थितिवन्धाध्यवसानमें भी अनन्त सब जीवराशि प्रमाण अविभागप्रतिच्छेद पाये जाते हैं ।

द्वितीय स्थितिमें स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं ॥ २४८ ॥

‘विदियाए ट्टिदीए’ ऐसा कहनेपर एक समय अधिक अवस्थितिका ग्रहण करना चाहिये ।

शंका—इसको द्वितीय स्थिति कहना कैसे उचित है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ध्रुवस्थितिसे एक समय अधिक स्थिति पृथक् पायी

१ ठिइवधे ठितिवधे अज्झवसाणाणसंख्या लोगा । हस्सा वे (वि) सेसवुट्टी आऊणमसंखगुणवट्टी ॥

धुवट्टिदीदो समउत्तरट्टिदीए पुधत्तुवलंभादो । तिस्से ट्टिदीए वंधपाओग्गज्झवसाणट्टाणाणि असंखेज्जलोगमेत्तच्छट्टाणाणि होति त्ति भणिदं होदि ।

तदियाए ट्टिदीए द्विदिवंधज्झवसाणट्टाणाणि असंखेज्जा लोगा ॥ २४९ ॥

अणंतभागवट्टीए अंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्तद्धानं गंतूण सइमसंखेज्जभागवट्टी होदि । पुणो वि तेत्तियमेत्तं चेव अणंतभागवट्टीए अट्टाणं गंतूण विदियाअसंखेज्जभागवट्टी होदि । एवं कंदयमेत्तअसंखेज्जभागवट्टीओ कंदयवर्ग-कंदयमेत्तअणंतभागवट्टीयो च गंतूण सइं संखेज्जभागवट्टी होदि । पुणो वि एत्तियमेत्तं चेव अट्टाणं पुव्वविहाणेण गंतूण विदिया संखेज्जभागवट्टी होदि । एवमेदेण विहाणेण कंदयमेत्तसंखेज्जभागवट्टीसु गदासु समयाविरोहेण सइं संखेज्जगुणवट्टी होदि । एदेण कमेण कंदयमेत्तसंखेज्जगुणवट्टीसु गदासु सइमसंखेज्जगुणवट्टी होदि । पुणो समयाविरोहेण कंदयमेत्तअसंखेज्जगुणवट्टीसु गदासु सइमणंतगुणवट्टी होदि । एदं सव्वं पि एग छट्टाणं त्ति भण्णदि । एरिसाणि असंखेज्जदिलोगमेत्तच्छट्टाणाणि धेत्तूण तदियाए ट्टिदीए द्विदिवंधज्झवसाणट्टाणाणि होति ।

एवमसंखेज्जा लोगा असंखेज्जा लोगा जाव उक्कस्सट्टिदि त्ति ॥ २५० ॥

जाती है ।

उक्त स्थितिके बन्धके योग्य अध्यवसानस्थान असंख्यात लोक मात्र छह स्थानोंसे संयुक्त होते हैं, यह अभिप्राय है ।

तृतीय स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं ॥ २४९ ॥

अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र अनन्तभागवृद्धिके स्थानोंके वीतनेपर एक वार असंख्यात भागवृद्धि होती है । फिरसे भी उतना ही अनन्तभागवृद्धिका अध्वान जाकर द्वितीय असंख्यातभागवृद्धि होती है । इस प्रकारसे काण्डक प्रमाण असंख्यातभागवृद्धियों, काण्डक वर्ग और काण्डक प्रमाण अनन्तभागवृद्धियोंके वीतनेपर एक वार संख्यातभागवृद्धि होती है । फिरसे भी पूर्वोक्त रीतिसे इतने मात्र स्थान जाकर द्वितीय संख्यातभागवृद्धि होती है । इस प्रकार इस रीतिसे काण्डक प्रमाण संख्यातभागवृद्धियोंके वीतनेपर आगमाविरोधसे एक वार संख्यातगुणवृद्धि होती है । इस क्रमसे काण्डक प्रमाण संख्यातगुणवृद्धियोंके वीत जानेपर एक वार असंख्यातगुणवृद्धि होती है । पश्चात् आगमाविरोधसे काण्डक प्रमाण असंख्यातगुणवृद्धियोंके वीतनेपर एक वार अनन्तगुणवृद्धि होती है । यह सभी एक पट्स्थान कहा जाता है । ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण पट्स्थान ग्रहण करके तृतीय स्थितिमें स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान होते हैं ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक असंख्यात लोक असंख्यात लोक प्रमाण स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान होते हैं ॥ २५० ॥

१ प्रतिपु 'कंदयवर्गो कंदय —' इति पाठ ।

जहा पुव्विर्लीण तिण्णं द्विदीणं अज्झवसाणट्टाणाणि पमाणेण असंखेज्जलोगमेत्ताणि तहा उवरिमसव्वद्विदीणं पि द्विदिवंधज्झवसाणट्टाणाणं पमाणं होदि त्ति जाणावणट्टमेवमिदि णिद्देशो कदो ।

एवं सत्तणं कम्माणं ॥ २५१ ॥

जहा णाणावरणीयस्स द्विदिं पडि' द्विदिवंधज्झवसाणट्टाणाणं पमाणपरूवणा कदा तथा सेससत्तणं पि कम्माणं परूवेदव्वं, असंखेज्जलोगपमाणत्तं पडि भेदाभावादो । एवं पमाणपरूवणा गदा ।

एत्थ संतपरूवणा किण्ण परूविदा ? ण, तिस्से पमाणंतम्भावादो । कदो ? पमाणेण विणा संताणुववत्तीदो ।

**तेसिं दुविधा सेडिपरूवणा अणंतरोवणिधा परंपरोव-
णिधा ॥ २५२ ॥**

जत्थ णिरंतं थोववहुत्तपरिक्खा कीरदे सा अणंतरोवणिधा । जत्थ दुगुण-चदुगुणा-दिपरिक्खा कीरदि सा परंपरोवणिधा । एवं सेडिपरूवणा दुविहा चैव, तदियादिपयारा-

जिस प्रकार पूर्वोक्त तीन स्थितियोंके अध्यवसानस्थान प्रमाणसे असंख्यात लोक मात्र हैं, उसी प्रकार आगेकी सब स्थितियोंके भी स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंका प्रमाण होता है, यह बतलानेके लिये सूत्रमें ' एवं ' पदका निर्देश किया गया है ।

इसी प्रकार सात कर्मोंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ २५१ ॥

जिस प्रकार ज्ञानावरणीयकी प्रत्येक स्थितिसम्बन्धी स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार शेष सात कर्मोंकी भी स्थितियोंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी प्ररूपणा करना चाहिये, क्योंकि, उनमें असंख्यात लोक प्रमाणकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है । इस प्रकार प्रमाणप्ररूपणा समाप्त हुई ।

शंका—यहां सत्प्ररूपणाकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उसका प्रमाण अनुयोगद्वारमें अन्तर्भाव हो जाता है, कारण कि प्रमाणके विना सत्त्व घटित ही नहीं होता है ।

उक्त स्थानोंकी श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकार है—अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा ॥ २५२ ॥

जहांपर निरन्तर अल्पबहुत्वकी परीक्षा की जाती है वह अनन्तरोपनिधा कही जाती है । जहांपर दुगुणत्व और चतुर्गुणत्व आदिकी परीक्षा की जाती है वह परम्परोपनिधा कहलाती है । इस प्रकार श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकार ही है, क्योंकि, और तृतीयादि प्रकारोंकी

१ मप्रतिपाठोऽयम् । अ-आ-का-प्रतिषु ' णाणावरणीयस्स पडि ', ताप्रतौ ' णाणावरणीयस्स पयडि ' इति पाठः ।

संवादो । एत्थ संदिट्ठी बालजणबुद्धिविष्कारणहं ठवेदच्चा—१६।२०।२४।२८।
३२।४०।४८।५६।६४।८०।९६।११२।१२८।१६०।१९२।
२२४।२५६।

अणंतरोवणिधाए णाणावरणीयस्स जहणियाए द्विदीए
द्विदिबंधञ्जवसाणट्टाणाणि थोवाणि ॥ २५३ ॥

केहितो थोवाणि त्ति बुत्ते उवरिमट्टिदिवंधञ्जवसाणट्टाणोहितो । कधमेदं णव्वदे ?
हेट्ठा द्विदिबंधट्टाणाभावेण द्विदिबंधञ्जवसाणट्टाणाभावादो ।

बिदियाए द्विदीए द्विदिबंधञ्जवसाणट्टाणाणि विसेसा-
हियाणि ॥ २५४ ॥

केत्तियमेत्तेण ? असंखेज्जलोगमेत्तेण । जहण्णाद्विदिअञ्जवसाणट्टाणाणं विसेसागमणहं
को भागहारो ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एगगुणहाणिअट्टाणमिदि बुत्तं होदि ।

सम्भावना नहीं है । यहांपर अज्ञानी जनोकी बुद्धिको विकसित करनेके लिये संदृष्टिकी
की स्थापना करना चाहिये (मूलमें देखिये)

अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यव-
सानस्थान स्तोक हैं ॥ २५३ ॥

शंका—किनकी अपेक्षा स्तोक हैं ?

समाधान—इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि वे ऊपरके स्थितिबन्धाध्यवसान-
स्थानोंकी अपेक्षा स्तोक हैं ।

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—चूंकि नीचे स्थितिबन्धस्थानोंके न होनेसे स्थितिबन्धाध्यवसान-
स्थानोंका अभाव है; अतः इसीसे ज्ञात होता है कि वे ऊपरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंकी
अपेक्षा स्तोक हैं ।

द्वितीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं ॥ २५४ ॥

कितने मात्रसे अधिक हैं ? असंख्यात लोक मात्रसे वे अधिक हैं ।

शंका—जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके विशेषको लानेके लिये भागहार
क्या है ?

१ अत्र द्वेषा प्ररूपणा । तद्यथा—अनन्तरोपनिघया परंपरोपनिघया च तत्र । अनन्तरोपनिघया
प्रमाणमाह—हस्सा वे (नि) सेसवट्ठी आयुर्वर्जानां कर्मणां हृत्वाज्जघन्यात् स्थितिबन्धात् परतो
द्वितीयादिपु स्थितिस्थानबन्धेषु विशेषवृद्धिः विशेषाधिका वृद्धिरवसेया । तद्यथा—ज्ञानावरणीयस्य जघन्य-
स्थितौ तद्बन्धहेतुभूता अध्यवसाया नानाजीवापेक्षयाऽसख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणाः । ते चान्यापेक्षया
सर्वस्तोका । क. प्र. (म. टी.) १,८७. । २ ततो द्वितीयस्थितौ विशेषाधिकाः । ततोऽपि तृतीयस्थितौ
विशेषाधिकाः । एवं तावद्दान्यं यावदुत्कृष्टा स्थितिः । एव सर्वेष्वपि कर्मसु वान्यम् । क. प्र. (म. टी.) १,८७. ।

संदिष्टीए एत्थ गुणहाणिपमाणं चत्तारि ४ । एदं विरलेदूण जहण्णट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणाणि सोलसः समखंडं कादूण दिण्णे, विरलणस्खवं पडि एगेगपक्खेवपमाणं पावदि । एत्थ एगपक्खेवं घेतूण जहण्णट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणेसु पक्खित्ते विदियट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणाणि होति ति घेतव्वं ।

तदियाए [ट्टिदीए] ट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणाणि विसेसाहियाणि ॥ २५५ ॥

केत्तियमेत्तेण ? एगपक्खेवमेत्तेण । एत्थ जाव पढमगुणहाणिचरिमसमओ ति अवट्टिदो पक्खेवो । कुदो ? वट्टिदएगेगपक्खेवाणं ट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणाणमेगेगस्खाहियगुणहाणिभागहास्खलंभादो ।

एवं विसेसाहियाणि विसेसाहियाणि जाव उक्कस्सिया ट्टिदि ति ॥ २५६ ॥

एवं सव्वट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणाणि । अणंतराणंतरेण विसेसाहियकमेणं गच्छंति जाव उक्कस्सट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणे ति । णवरि गुणहाणिं पडि पक्खेवो दुगुण-दुगुणो होदि । कुदो ? दुगुण-दुगुणकमेण ट्टिदिगुणहाणिचरिमट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणाणमवट्टिदएगगुणहाणिभागहारदंसणादो ।

समाधान—भागहार पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । अभिप्राय यह कि एकगुणहानिअध्वान भागहार है ।

यहां संदष्टिमें गुणहानिका प्रमाण चार (४) है । इसका विरलन करके जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाण सोलहको समखण्ड करके देनेपर एक एक विरलनरूपके ऊपर एक प्रक्षेपका प्रमाण प्राप्त होता है । यहां एक प्रक्षेपको ग्रहण करके जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंमें मिलानेपर द्वितीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका प्रमाण होता है, ऐसा जानना चाहिये ।

तृतीय स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं ॥ २५५ ॥

कितने मात्रसे वे विशेष अधिक हैं ? एक प्रक्षेपके प्रमाणसे वे विशेष अधिक हैं । यहां प्रथम गुणहानिके अन्तिम समय तक अवस्थित प्रक्षेप है, क्योंकि एक प्रक्षेपसे वृद्धिको प्राप्त हुए स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका उत्तरोत्तर एक एक अंकसे अधिक गुणहाणि भागहार पाया जाता है ।

इस प्रकार वे उत्कृष्ट स्थितिक विशेष अधिक विशेष अधिक हैं ॥ २५६ ॥

इस प्रकार सब स्थितियोंके अध्यवसानस्थान अनन्तर-अनन्तर क्रमसे उत्कृष्ट स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंतक उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते गये हैं । विशेष इतना है कि प्रक्षेप प्रत्येक गुणहानिके अनुसार दूना दूना होता गया है । कारण कि दूने दूने क्रमसे स्थित गुणहानियोंमें अन्तिम स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंका अवस्थित एक गुणहानि भागहार देखा जाता है ।

१ ताप्रतौ 'अवट्टिदो । कुदो' इति पाठः ।

एवं छण्ण कम्माणं ॥ २५७ ॥

जहा णाणावरणीयस्स अणंतरोवणिधा परूविदा तहा छण्णं कम्माणं आउव्वजाणं परूवेदव्वा, विसेसाहियत्तं पडि भेदामावादो ।

आउअस्स जहणियाए द्विदीए द्विदिबंघज्झवसाणट्टाणाणि थोवाणि ॥ २५८ ॥

कुदो ? आउअस्स असंखेज्जदिलोगमेत्तद्विदिबंघज्झवसाणट्टाणाणमसंखेज्जदिभागमेत्ताणं चेव जहण्णद्विदिपाओग्गत्तादो ।

विदियाए द्विदीए द्विदिबंघज्झवसाणट्टाणाणि असंखेज्ज- गुणाणि ॥ २५९ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कुदो ? जहण्णद्विदिबंघकारणादो समउत्तरद्विदिबंघकारणाणं वहुत्तुवलंभादो ।

तदियाए द्विदीए द्विदिबंघज्झवसाणट्टाणाणि असंखेज्ज- गुणाणि ॥ २६० ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कारणं पुव्वं व वत्तव्वं ।

इसी प्रकार छह कर्मोंकी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ २५७ ॥

जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्मकी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार आयुको छोड़कर शेष छह कर्मोंकी अनन्तरोपनिधाकी प्ररूपणा करना चाहिये, क्योंकि, उसमें विशेष अधिकताकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है ।

आयु कर्मकी जघन्य स्थितिमें स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान स्तोक् हैं ॥ २५८ ॥

इसका कारण यह है कि आयु कर्मके असंख्यात लोक प्रमाण स्थितिवन्धाध्यवसान-स्थानोंमें उनके असंख्यातवें भाग मात्र ही जघन्य स्थितिके योग्य हैं ।

द्वितीय स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ २५९ ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवलिका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, जघन्य स्थितिवन्धके कारणोंकी अपेक्षा एक एक समय अधिक स्थितिवन्धके कारण बहुत पाये जाते हैं ।

तृतीय स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं ॥ २६० ॥

गुणकार क्या है ? गुणकार आवलिका असंख्यातवां भाग है । इसके कारणका कथन पहिलेके ही समान करना चाहिये ।

१ आऊणमसंखगुणवड्डी । आयुषा जघन्यस्थितेरारभ्य प्रतिस्थितिवन्धमसंख्येयगुणवृद्धिर्वक्तव्या । तद्यथा—आयुषो जघन्यस्थितौ तद्वन्धहेतुभूता अध्यवसाया असंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणाः । ते च सर्वस्तोकाः । ततो द्वितीयस्थितौ असंख्येयगुणाः । ततोऽपि तृतीयस्थितावसंख्येयगुणाः । एव तावद्वाच्यं यावद्दुष्कृष्टा स्थितिः । क. प्र. (म. टी.) १, ८७. ।

एवमसंखेज्जगुणाणि असंखेज्जगुणाणि जाव उक्कसिया
ट्टिदि त्ति ॥ २६१ ॥

एवं ठिदिं पडिं^१ ट्टिदिं पडि आवलियाए असंखेज्जदिभागगुणगारेण सच्चट्टिदिवंध-
ज्जवसाणट्टाणाणि णेदव्वाणि जाव उक्कस्सट्टिदि त्ति । एवमणंतरोवणिधा समत्ता ।

परंपरोवणिधाए णाणावरणीयस्स जहणियाए ट्टिदीए
ट्टिदिवंधज्जवसाणट्टाणेहिंतो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं
गंतूण दुगुणवड्ढिदा ॥ २६२ ॥

कुदो ? विरलणमेत्तपक्खेवेसु जहण्णट्टिदिवंधज्जवसाणट्टाणेषु वड्ढिदेसु दुगुणज्जवसाण-
ट्टाणसमुप्पत्तीदो ।

एवं दुगुणवड्ढिदा दुगुणवड्ढिदा जाव उक्कसिया ट्टिदि
त्ति ॥ २६३ ॥

एवमवट्टिदमेत्तियमट्टाणं गंतूण सच्चदुगुणवड्ढीओ उप्पजंति त्ति वत्तन्नं ।

एवं ट्टिदिवंधज्जवसाणदुगुणवड्ढिदाहाणिट्टाणंतरं पलिदोवमस्स
असंखेज्जदिभागो^२ ॥ २६४ ॥

इस प्रकार वे उत्कृष्ट स्थिति तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे होते
गये हैं ॥ २६१ ॥

इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितितक एक एक स्थितिके प्रति सब स्थितिवन्धाध्यवसान
स्थानोंकी आवलिके असंख्यातवें भाग गुणकारसे ले जाना चाहिये । इस प्रकार
अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई ।

परम्परोपनिधाकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसान-
स्थानोंकी अपेक्षा उनसे पत्योपमके असंख्यातवें भाग जाकर वे दुगुणी वृद्धिको
प्राप्त हैं ॥ २६२ ॥

इसका कारण यह है कि जघन्य स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंमें विरलन
राशिके बराबर प्रक्षेपोंकी वृद्धिके होनेपर दुगुणे अध्यवसानस्थानोंकी उत्पत्ति होती है ।

इस प्रकार वे उत्कृष्ट स्थिति तक दुगुणी दुगुणी वृद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ २६३ ॥

इस प्रकार इतना मात्र अध्वान जाकर सब दुगुणवृद्धियां उत्पन्न होती हैं, पेसा
कहना चाहिये ।

एक स्थितिसम्बन्धी अध्यवसानोंके दुगुण-दुगुणवृद्धिहानिस्थानोंके अन्तर पत्योपमके
असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ॥ २६४ ॥

१ अ-आ-का-प्रतिषु 'पयडि' इति पाठः । २ पल्लासंखियभागं गतुं दुगुणाणि जाव उक्कोसा क.प्र. १,८८.

कुदो ? णाणागुणहाणिसलागाहि पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताहि संखेज्ज-
पल्लिदोवमेसु भागे हिदेसु असंखेज्जपल्लिदोवमपढमवग्गमूलुवलंभादो । एवमेदेण सुत्तेण एगगुण-
हाणिअद्धानपमाणं परूविदं । णाणागुणहाणिसलागाणं पमाणपरूवणट्ठमुत्तरसुत्तं भणदि—

**णाणाट्ठिदिबंधज्जवसाणदुगुणवड्ढिहाणिट्ठानंतराणि अंगुल-
वग्गमूलच्छेदणाणामसंखेज्जदिभागो ॥ २६५ ॥**

अंगुलवग्गमूलमिदि वुत्ते सूचीअंगुलपढमवग्गमूलं घेतत्तव्वं । तस्स अद्दछेदणाणं
असंखेज्जदिभागमेत्ताओ णाणागुणहाणिसलागाओ होंति । होंताओ वि मोहणीयट्ठिदिपदेस-
णाणागुणहाणिसलागाहिंतो थोवाओ, ताणि पल्लिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताओ
त्ति पमाणमभणिदूण अंगुलवग्गमूलच्छेदणाणं असंखेज्जदिभागो त्ति परूविदत्तादो । होंताओ
वि असंखेज्जगुणहीणाओ पुच्चं विहज्जमाणरासीदो संपहि विहज्जमाणरासीए असंखेज्जगुण-
हीणत्तादो ।

**णाणाट्ठिदिबंधज्जवसाणदुगुणवड्ढिहाणिट्ठानंतराणि
थोवाणि ॥ २६६ ॥**

कारण कि पल्योपमके असंख्यातवें भाग मात्र नानागुणहानिशलाकाओंका संख्यात
पल्योपमोंमें भाग देनेपर पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल लब्ध होते हैं । इस प्रकार
इस सूत्रके द्वारा एक गुणहानिअध्वानके प्रमाणकी प्ररूपणा की गई है । नानागुणहानि-
शलाकाओंके प्रमाणकी प्ररूपणाके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

नानास्थितिवन्धाध्यवसानों सम्बन्धी दुगुण-दुगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर अंगुलसम्बन्धी
वर्गमूलके अर्धच्छेदोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ॥ २६५ ॥

‘अंगुलवर्गमूल’ ऐसा कहनेपर सूचीअंगुलके प्रथम वर्गमूलको ग्रहण करना
चाहिये । उसके अर्धच्छेदोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण नानागुणहानिशलाकायें होती हैं ।
इतनी होकरके भी मोहनीय कर्मके स्थितिप्रदेशोंकी नानागुणहानिशलाकाओंसे स्तोक हैं,
क्योंकि, ‘वे पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं’ ऐसा उनका प्रमाण न बतलाकर
‘वे अंगुलके वर्गमूलसम्बन्धी अर्धच्छेदोंके संख्यातवें भाग हैं’ ऐसी प्ररूपणा की गई है ।
असंख्यातगुणी हीन होती हुई भी पूर्वमें विभज्यमान राशिसे इस समयकी विभज्यमान
राशि असंख्यातगुणी हीन है ।

नानास्थितिवन्धाध्यवसानदुगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर स्तोक हैं ॥ २६६ ॥

१ नाणतराणि अंगुलमूलच्छेयणमसंखतमो ॥ क. प्र. १,८८., नानाद्विगुणवृद्धिस्थानानि चांगुलवर्ग-
मूलच्छेदनकासंख्येयतमभागप्रमाणाणि । एतदुक्तं भवति—अंगुलमात्रक्षेत्रगतप्रदेशराशेर्यत्प्रथम वर्गमूलं
तन्मनुष्यप्रमाणहेतुराशिपणवतिच्छेदनविधिना तावच्छिद्यते यावद् भागं न प्रयच्छति । तेषां च छेदनका-
नामसंख्येयतमे भागे थावन्ति छेदनकानि तावत्सु यावानाकाशप्रदेशराशिस्तावत्प्रमाणाणि नानाद्विगुण-
स्थानानि भवन्ति (म. टी.) । २ अ-आ-काप्रतिष्ठु ‘तासि व पल्लिदोवम—’ इति पाठः ।

कुदो ? पलिदोवमपढमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागपमाणत्तादो ।

**एयट्टिदिवंधज्जवसाणदुगुणवड्ढिहाणिट्ठाणंतरमसंखेज्ज-
गुणं ॥ २६७ ॥**

कुदो ? असंखेज्जपलिदोवमपढमवग्गमूलपमाणत्तादो । कधमेदं णव्वदे ? णाणागुण-
हाणिसलागाहि कम्मट्टिदीए ओवट्टिदाए एगगुणहाणिपमाणुवलंमादो ।

एवं छण्णं कम्माणमाउववज्जाणं ॥ २६८ ॥

जहा णाणावरणीयस्स परंपरोवणिधा पस्सविदा तहा छण्णं कम्माणं पस्सवेदव्वं,
विसेसाभावादो । आउअस्स एसा पस्सवणा, णत्थि, ठिदिं पडि असंखेज्जगुणक्रमेण ट्टिदि-
बंधज्जवसाणट्ठाणाणं वड्ढिदंसणादो ।

संपहि सेडिपस्सवणाए सूचिदाणं अवहार-भागाभाग-अप्पाचहुगाणं पस्सवणं कस्सामो ।
तं जहा—जहणियाए ट्टिदीए ट्टिदिवंधज्जवसाणट्ठाणपमाणेण सव्वट्टिदिवंधज्जवसाणट्ठाणाणि
केवचिरेण कालेण अवहिरिज्जंति ? असंखेज्जदिवद्धुगुणहाणिट्ठाणंतरेण कालेण अवहिरिज्जंति ।
तं जहा—उक्कस्सट्टिदिवंधज्जवसाणट्ठाणपमाणेण सव्वट्टिदिवंधज्जवसाणेसु कदेसु किंवृण-

क्योंकि, वे पल्योपम सम्बन्धी प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं ।

एक स्थितिवन्धाध्यवसानदुगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ॥ २६७ ॥

क्योंकि, वह पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलोंके बराबर है ।

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—चूँकि कर्मस्थितिमें नानागुणहानिशलाकाओंका भाग देनेपर एक
गुणहानिका प्रमाण लब्ध होता है, इसीसे जाना जाता है कि वह पल्योपमके असंख्यात
प्रथम वर्गमूलोंके बराबर है ।

इसी प्रकार आयुको छोड़कर छह कर्मोंकी प्ररूपणा करना चाहिये ॥ २६८ ॥

जिस प्रकार ज्ञानावरणीयकी परंपरोपनिधाकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार छह
कर्मोंकी परंपरोपनिधाकी भी प्ररूपणा करना चाहिये, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता
नहीं है । आयु कर्मके सम्बन्धमे यह प्ररूपणा लागू नहीं होती, क्योंकि, उसके
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रत्येक स्थितिके अनुसार असंख्यातगुणितक्रमसे वृद्धि देखी
जाती है ।

अब श्रेणिप्ररूपणाके द्वारा सूचित अवहार, भागाभाग और अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा
करते हैं । यथा—जघन्य स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे सब
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान कितने कालके द्वारा अपहृत होते हैं ? उक्त प्रमाणसे वे
असंख्यात डेढ गुणहानिस्थानान्तरकालके द्वारा अपहृत होते हैं । यथा—सब
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंको उत्कृष्ट स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे करनेपर वे
कुछ कम डेढ गुणहानि प्रमाण होते हैं । वहाँ संदृष्टिमें सब अध्यवसानस्थानोंका प्रमाण

दिवङ्गुणहाणिमेत्तं होदि तत्थ संदिट्ठीए सव्वज्जवसाणट्ठाणपमाणमेदं १५६० । पुणो एदम्मि उक्कस्सट्ठिदिवंघञ्जवसाणेहि भागे हिदे दिवङ्गुणहाणिपमाणमागच्छदि । तं च एदं १९५ । ३२ । पुणो एदं जहण्णट्ठिदिवज्जवसाणभागहारमिच्छामो त्ति सव्वज्जवसाणदुगुणवद्धिहाणिसलागाओ विरलिय विगुणिय अण्णोण्णम्भासे कदे जो उप्पण्णरासी तेण रासिणो १६ दिवङ्गुणहाणीए गुणिदाए जहण्णट्ठिदिवज्जवसाणभागहारो होदि १९५ । २ । पुणो एदेण सव्वज्जवसाणेसु अवहिरिदेसु जहण्णट्ठिदिवज्जवसाणमागच्छदि १६ । पुणो एदस्सुवरि भागहारो विसेसहीणकमेण जाणिदूण णेदव्वो जाव एगदुगुणवद्धिपमाणमेत्तं चडिदो त्ति । पुणो तप्पमाणेण अवहिरिज्जमाणे पुव्वभागहारो अद्धं होदि । कुदो ? एगगुणवद्धि चडिदो त्ति एगस्सुव्वं विरलिय विगं करिय अण्णोण्णम्भत्थं कादूण पुव्वभागहारे ओवट्ठिदे तदद्दुव्वलंभादो १९५ । ४ । पुणो एदस्सुवरि भागहारो जाणिदूण णेदव्वो जाव उक्कस्सट्ठिदिवज्जवसाणे त्ति । पुणो तप्पमाणेण सव्वदव्वे अवहिरिज्जमाणे किंच्चणदिवङ्गुणहाणिट्ठाणंतरेण अवहिरिज्जदि ।

एवं छण्णं कम्माणं भागहारपरुवणा परुवेदव्वा । एवं आउअस्स वि वत्तव्वं । णवरि जहण्णट्ठिदिवज्जवसाणपमाणेण सव्वज्जवसाणट्ठाणाणि असंखेज्जलोगमेत्तकालेण अवहिरिज्जंति तं जहा—आउअस्स अज्जवसाणगुणगारो अवट्ठिदो त्ति के वि आइरिया भणंति ।

यह है—१५६० । इसमें उत्कृष्ट स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंका भाग देनेपर डेढ गुणहानि प्रमाण आता है । वह यह है— $\frac{1560}{2} = 780$ । इस जघन्य स्थितिसम्बन्धी अध्यवसानोंके भागहारको लानेकी इच्छासे सब अध्यवसानस्थानोंकी दुगुणवृद्धि-हानिशलाकाओंका विरलन करके दुगुणित कर परस्पर गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो (१६), उससे डेढ गुणहानिको गुणित करनेपर जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंका भागहार होता है— $\frac{1560}{2} \times 16 = 12480$ । इसका सब अध्यवसानस्थानोंमें भाग देनेपर जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंका प्रमाण आता है— $12480 \div 16 = 780$ । इसके आगे एक दुगुणवृद्धि प्रमाण मात्र जाने तक भागहारको विशेषहीन क्रमसे जानकर ले जाना चाहिये । फिर उक्त प्रमाणसे अपहृत करनेपर पूर्व भागहार आधा होता है, क्योंकि, एक गुणहानि आगे गये हैं, अतः एक अंकका विरलन करके दुगुणा कर परस्पर गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उससे पूर्व भागहारको अपवर्तित करनेपर उसका अर्ध भाग लब्ध होता है— $780 \div 2 = 390$ । फिर इसके आगे उत्कृष्ट स्थितिके अध्यवसानस्थानोंतक भागहारको जानकर ले जाना चाहिये । उसके प्रमाणसे सब द्रव्यको अपहृत करनेपर वह कुछ कर्म डेढ गुणहानिस्थानान्तरकालसे अपहृत होता है ।

इस प्रकार छह कर्मोंके भागहारकी प्ररूपणा करना चाहिये । इसी प्रकार आयुकर्मके भी भागहारकी प्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना है कि सब अध्यवसानस्थान जघन्य स्थितिसम्बन्धी अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे असंख्यात लोक मात्र कालके द्वारा

तेसिमाहिप्याएण भागहारो बुच्चदे—अंतोमुहुत्तूणतेत्तीससागरोवमाणि गच्छं कादूण “अद्धं शून्यं रूपेषु गुणम्” इति गणितन्यायेन जं लद्धं तं ठविय “रूपोनमादिसंगुणमेकोणगुणोन्मथितमिच्छा” एदेण सुत्तेण रूव्वणं काउण असंखेज्जलोगमेत्तआदिणा गुणिय रूव्वणगुणगारेण आवलियाए असंखेज्जदिभागेण भागे हिदे सव्वज्जवसाणपमाणं होदि । एदम्मि जहण्णट्टिदिज्जवसाणपमाणेणोवट्टिदे असंखेज्जा लोगा लब्भंति । तेण जहण्णट्टिदिअज्जवसाणपमाणेण अवहिरिज्जमाणे सव्वज्जवसाणट्टाणाणि असंखेज्जलोगमेत्तकालेण अवहिरिज्जंति । एवं उवरिमट्टिदिअज्जवसाणाणं पि असंखेज्जलोगभागहारो वत्त्वो । णवरि सव्वत्थ एसो चेव भागहारो होदि त्ति णियमो णत्थि, कत्थ वि घणलोग-जगपदर-सेडि-सागर-पल्ल-आवलिया-तदसंखेज्जदिभागमेत्तभागहारुवलंभादो । उक्कस्सट्टिदिअज्जवसाणपमाणेण सव्वज्जवसाणाणि सादिरैगएगरूव्वपमाणेण अवहिरिज्जंति । एत्थ कारणं जाणिदूण वत्त्वं । एवं भागहारपरूव्वणा समत्ता ।

जहण्णियाए ट्टिदीए अज्जवसाणट्टाणाणि सव्वट्टिदिअज्जवसाणट्टाणाणं केवडिओ भागो ? असंखेज्जदिभागो । को पडिभागो ? असंखेज्जाणि गुणहाणिट्टाणंतराणि । एवं णेदव्वं जाव उक्कस्सट्टिदिअज्जवसाणट्टाणे त्ति । एवं छणं कम्माणं । आउअस्स वि एवं अपहृत होते हैं । यथा—आयु कर्मके अध्यवसानोंका गुणकार अवस्थित है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं । उनके अभिप्रायसे भागहारका कथन करते हैं—अन्तर्मुहूर्त कम तेतीस सागरोपमोंको गच्छ करके “अद्धं शून्यं रूपेषु गुणम्” इस गणितन्यायसे जो लब्ध हो उसको स्थापित करके ‘रूपोनमादिसंगुणमेकोनगुणोन्मथितमिच्छा’ इस सूत्रके अनुसार एक रूप कम करके असंख्यात लोक मात्र आदिसे गुणितकर एक अंकसे रहित आवलिके असंख्यातवें भाग मात्र गुणकारका भाग देनेपर सब अध्यवसानोंका प्रमाण होता है । इसमें जघन्य स्थितिके अध्यवसानोंका जो प्रमाण हो उसका भाग देनेपर असंख्यात लोक लब्ध होते हैं । इसी कारण जघन्य स्थितिके अध्यवसानोंका जो प्रमाण है उससे सब अध्यवसानस्थानोंको अपहृत करनेपर वे असंख्यात लोक मात्र कालसे अपहृत होते हैं । इसी प्रकार आगेकी स्थितियोंके भी अध्यवसानस्थानोंका भागहार असंख्यात लोक मात्र कहना चाहिये । विशेष इतना है कि सभी जगह यही भागहार हो, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि, कहींपर घनलोक, जगप्रतर, जगश्रेणि, सागर, पल्ल, आवलि और उनके असंख्यातवें भाग मात्र भागहार पाया जाता है । उत्कृष्ट स्थितिके अध्यवसानोंके प्रमाणसे सब अध्यवसान साधिक एक रूपके प्रमाणसे अपहृत होते हैं । यहां कारण जानकर बतलाना चाहिये । इस प्रकार भागहार प्ररूपणा समाप्त हुई ।

जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थान सब स्थितियोंके अध्यवसानस्थानोंके कितनेवें भाग प्रमाण हैं ? वे उनके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । प्रतिभाग क्या है ? प्रतिभाग असंख्यात गुणहानिस्थानान्तर हैं । इस प्रकार, उत्कृष्ट स्थितिके अध्यवसानस्थानोंतक ले जाना चाहिये ? इसी प्रकार छह कर्मोंके सम्बन्धमें भागाभागकी प्ररूपणा करना चाहिये ।

१ अप्रतो ‘परूवण’ इति पाठः ।

चेव वत्तव्वं । णवरि उक्कस्सट्टिदिअज्जवसाणट्टाणाणि सव्वज्जवसाणट्टाणाणमसंखेज्जा भागा होंति । एवं भागाभागपरूवणा समत्ता ।

सव्वत्थोवाणि णाणावरणीयस्य जहणियाए ट्टिदीए द्विदिवंधज्जवसाणट्टाणाणि १६ । उक्कस्सियाए ट्टिदीए द्विदिवंधज्जवसाणाणि असंखेज्जगुणाणि । को गुणगारो ? अणोण्णन्नत्तरासी १६ । अजहण्ण-अणुक्कस्सट्टिदिवंधज्जवसाणट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । को गुणगारो ? किञ्चणदिवङ्गुणहाणीयो । तस्स पमाणमेदं १६३ । ३२ । पुणो एदेण उक्कस्सट्टिदिअज्जवसाणट्टाणेषु गुणिदेसु अजहण्ण-अणुक्कस्सट्टिदिवंधज्जवसाणट्टाणपमाणं होदि १३०४ । अणुक्कस्सियासु ट्टिदीसु द्विदिवंधज्जवसाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? जहण्णट्टिदिअज्जवसाणमेत्तेण १३२० । अजहणियासु ट्टिदीसु द्विदिवंधज्जवसाणट्टाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? जहण्णट्टिदिअज्जवसाणेहि परिहीणउक्कस्सट्टिदिअज्जवसाण-मेत्तेण १५६०^१ । सव्वासु ट्टिदीसु अज्जवसाणट्टाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? जहण्णट्टिदिअज्जवसाणमेत्तेण १५७६ ।

आउववज्जाणं छण्णं पि कम्माणं एवं चेव वत्तव्वं । आउअस्स जहणियाए ट्टिदीए द्विदिवंधज्जवसाणट्टाणाणि थोवाणि । अजहण्णअणुक्कस्सियासु ट्टिदीसु द्विदिवंधज्जवसाणट्टा-
आयुके विषयमें भी इसी प्रकार ही कथन करना चाहिये । विशेष इतना है कि आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी अध्यवसान समस्त अध्यवसानस्थानोंके असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । इस प्रकार भागाभाग प्ररूपणा समाप्त हुई ।

ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थिति सम्बन्धी स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैं (१६) । उत्कृष्ट स्थितिसम्बन्धी स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । गुणकार क्या है ? गुणकार अन्योन्याभ्यस्त राशि है (१६) । अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । गुणकार क्या है ? गुणकार कुछ कम डेढ गुणहानियां हैं । उसका प्रमाण यह है— $1\frac{1}{2}$ । इसके द्वारा उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी अध्यवसानस्थानोंको गुणित करनेपर अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंका प्रमाण होता है— $2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} = 1\frac{1}{2}$ । अनुत्कृष्ट स्थितियोंमें स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । कितने मात्रसे वे विशेष अधिक हैं ? जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे वे अधिक हैं । $1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 1\frac{1}{2}$ अजघन्य स्थितियोंमें स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । कितने मात्रसे अधिक हैं ? जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंसे हीन उत्कृष्ट स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे वे अधिक है— $1\frac{1}{2} + (2\frac{1}{2} - 1\frac{1}{2}) = 1\frac{1}{2}$ । सब स्थितियोंमें अध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । कितने मात्रसे अधिक हैं । जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे विशेष अधिक है— $1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 1\frac{1}{2}$ ।

आयु कर्मको छोड़कर छह कर्मोंके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा इसी प्रकारसे करना चाहिये । आयु कर्मकी जघन्य स्थितिमें स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान स्तोक हैं । अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थितियोंमें स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यात-

१ प्रतिपु १०६०५ एवंविधात्र संदृष्टिः ।

णाणि असंखेज्जगुणाणि । को गुणगारो ? असंखेज्जा लोका । अणुक्कस्सियासु द्विदीसु द्विदिवंधज्जवसाणट्टाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? जहण्णट्टिदिवंधज्जवसाणमेत्तेण । उक्कस्सियाए द्विदीए द्विदिवंधज्जवसाणट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । अजहण्णियासु द्विदीसु द्विदिवंधज्जवसाणट्टाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? अजहण्ण-अणुक्कस्सट्टिदिवंधज्जवसाणट्टाणमेत्तेण । सव्वासु द्विदीसु द्विदिवंध-ज्जवसाणट्टाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ? जहण्णट्टिदिवंधज्जवसाणट्टाणमेत्तेण । एवं पगण्णा त्ति समत्तमणिओगद्धारं ।

अणुकट्टीए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए द्विदीए जाणि द्विदिवंधज्जवसाणट्टाणाणि ताणि विदियाए द्विदीए वंधज्जवसाण-ट्टाणाणि अपुव्वाणि' ॥ २६९ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थे भण्णभाणे संदिट्टी उच्चदे । तं जहा—जहण्णट्टिदीए विणा उक्कस्सट्टिदिपमाणं सत्त ७ । धुवट्टिदिपमाणं पंच ५ । धुवट्टिदीए सह उक्कस्सट्टिदिपमाणमेदं १२ । पुणो एदिस्से समयचरणं काट्ठण धुवट्टिदिप्पहुडि उवरिमसव्वट्टिदिविसेसेसु सव्वज्ज-

गुणे हैं । गुणकार क्या है ? गुणकार असंख्यात लोक हैं । अनुत्कृष्ट स्थितियोंमें स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । कितने मात्रसे अधिक हैं ? जघन्य स्थिति सम्बन्धी अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे अधिक हैं । उत्कृष्ट स्थितिमें स्थितिवन्धाध्यवसान-स्थान असंख्यातगुणे हैं । गुणकार क्या है ? गुणकार आवलिका असंख्यातवां भाग है । अजघन्य स्थितियोंमें स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । कितने मात्रसे अधिक हैं ? अजघन्य-अनुत्कृष्ट स्थितियोंके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे वे अधिक हैं । सब स्थितियोंमें स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैं । कितने मात्रसे अधिक हैं ? अजघन्य स्थितियोंके अध्यवसानस्थानोंके प्रमाणसे वे अधिक हैं । इस प्रकार प्रगणना अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

अनुकृष्टिकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिमें जो स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान हैं द्वितीय स्थितिमें वे स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान हैं और अपूर्व स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान भी हैं ॥ २६९ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते समय संदृष्टि कही जाती है । वह इस प्रकार है—जघन्य स्थितिके बिना उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण सात (७) है । ध्रुवस्थितिका प्रमाण पांच (५) है । ध्रुवस्थितिके साथ उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण यह है—१२ । इसके समयोंकी

१ सांप्रतमनुकृष्टिश्चिन्त्यते । सा च न विद्यते । तथा हि—ज्ञानावरणीयस्य जघन्यस्थितिवन्धे यान्यध्यवसायस्थानानि, तेभ्यो द्वितीयस्थितिवन्धेऽन्यानि, तेभ्योऽपि तृतीयस्थितिवन्धेऽन्यानि, एवं तावद्वाच्यं यावदुत्कृष्टा स्थितिः । एवं सर्वेषामपि कर्मणा दृष्टव्यम् (१-२) । क. प्र. (म. टी.) १,८८. ।

वसाणाणमसंखेज्जलोगमेत्ताणं तिरिच्छेण रचना कायव्वा । एवं रचणं कादूण सव्वट्ठिदि-
विसेसट्ठिदअज्जवसाणट्टाणाणं णिव्वग्गणाकंदयमेत्तखंडाणि कादव्वाणि । किं पमाणं
णिव्वग्गणकंदयं ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । संदिट्ठीए तस्स पमाणं चत्तारि ४ ।
एदाणि खंडाणि किं समाणि, आहो विसमाणि ? ण होंति समाणि, विसमाणि^१ चेव ।
कधं णव्वदे ? परमाइरियोवदेसादो । तं जहा—पढमखंडादो विदियखंडं विसेसाहियं
असंखेज्जलोगमेत्तेण । विदियखंडादो वदियखंडं विसेसाहियं असंखेज्जलोगमेत्तेण ।
तदियखंडादो चउत्थखंडं विसेसाहियमसंखेज्जलोगमेत्तेण । एवं णेदव्वं जाव चरिमखंडं ति ।
णवरि पढमखंडादो वि चरिमखंडं विसेसाहियं चेव । कुदो ? परमाइरियोवदेसादो
वाहाणुवलंभादो च । एत्थ संदिट्ठी^२ ।

एवं ठविय एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुच्चदे-णाणावरणीयस्स जहणियाए ट्ठिदीए जाणि

रचना करके ध्रुवस्थितिको आदि लेकर आगेके सब स्थितिविशेषोंमें रहनेवाले असंख्यात
लोक प्रमाण सब अध्यवसानस्थानोंकी तिरछे रूपसे रचना करना चाहिये । इस प्रकार
रचना करके सब स्थितिविशेषोंमें स्थित अध्यवसानस्थानोंके निर्वर्गणाकाण्डक प्रमाण
खण्ड करना चाहिये ।

शंका—निर्वर्गणाकाण्डकका प्रमाण कितना है ?

समाधान—वह पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

संदृष्टिमें उसका प्रमाण चार (४) है ।

शंका—ये खण्ड क्या सम हैं, अथवा विषम ?

समाधान—वे सम नहीं होते, विषम ही होते हैं ।

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—यह श्रेष्ठ आचार्योंके उपदेशसे जाना जाता है । जैसे—प्रथम खण्डकी
अपेक्षा द्वितीय खण्ड असंख्यात लोक मात्रसे विशेष अधिक है । द्वितीय खण्डकी अपेक्षा
तृतीय खण्ड असंख्यात लोक मात्रसे विशेष अधिक है । तृतीय खण्डकी अपेक्षा चतुर्थ
खण्ड असंख्यात लोक प्रमाणसे विशेष अधिक है । इस प्रकार अन्तिम खण्ड तक ले
जाना चाहिये । विशेष इतना है कि प्रथम खण्डकी अपेक्षा भी अन्तिम खण्ड विशेष
अधिक ही है, क्योंकि, ऐसा ही उत्कृष्ट आचार्योंका उपदेश है, तथा उसमें कोई बाधा भी
नहीं पायी जाती है । यहां संदृष्टि—(पृष्ठ ३४५ पर देखिये) इस प्रकार स्थापित करके इस
सूत्रका अर्थ कहते हैं—ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थितिमें जो स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान

१ अ-आ-काप्रतिपु ' विसमाणि ण होंति विसमाणि ', ताप्रतौ ' विसमाणि ण होंति ? विसमाणि '
इति पाठः । २ अत्रोपलभ्यमाना संदृष्टयः ३४५ तमे पृष्ठे द्रष्टव्याः ।

द्विदिवंधज्ज्ञवसाणट्टाणाणि ताणि च विदियाए द्विदीए द्विदिवंधज्ज्ञवसाणट्टाणाणि होंति, अपुव्वाणि च । कधमपुव्वाणं संभवो ? ण, विदियद्विदीए द्विदिवंधज्ज्ञवसाणट्टाणचरिम-खंडज्ज्ञवसाणट्टाणाणं धुवट्टिदिअज्ज्ञवसाणेसु अभावादो । ण च जहण्णट्टिदिसव्वज्ज्ञवसाणाणि विदियद्विदिअज्ज्ञवसाणट्टाणेसु अत्थि, जहण्णट्टिदिपढमखंडज्ज्ञवसाणट्टाणाणं विदियद्विदिअज्ज्ञवसाणट्टाणेसु अणुवलंभादो । जाणि विदियाए द्विदीए द्विदिवंधज्ज्ञवसाणट्टाणाणि ताणि तदियाए द्विदीए द्विदिवंधज्ज्ञवसाणट्टाणेसु होंति त्ति ण धेत्तव्वं, पढमखंडज्ज्ञवसाणट्टाणाणं तदियद्विदिअज्ज्ञवसाणट्टाणेसु अणुवलंभादो । कधमेदं णव्वदे ? ताणि सव्वाणि होंति त्ति णिद्देसाभावादो । अपुव्वाणि त्ति वुत्ते अपुव्वाणि चेव वत्तव्वं, च-सट्ठेण विणा-समुच्चयावगमाभावादो । जदि एवं तो सुत्ते च-सट्ठो किण्ण पस्सविदो ? ण, च-सट्ठणिद्देसेणं विणा वि तदट्ठ्यावगमादो ।

एवमपुव्वाणि अपुव्वाणि जाव उक्कस्सिया द्विदि त्ति ॥२७०॥

हैं वे भी स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिमें हैं, तथा अपूर्व भी स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान हैं ।

शंका—अपूर्व स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंकी सम्भावना कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि द्वितीय स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंके अन्तिम खण्ड सम्बन्धी अध्यवसानस्थान ध्रुवस्थितिके अध्यवसानस्थानोंमें नहीं हैं, तथा जघन्य स्थितिके सब अध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिके अध्यवसानस्थानोंमें नहीं हैं; कारण कि जघन्य स्थितिसम्बन्धी प्रथम खण्डके अध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिके अध्यवसानस्थानोंमें नहीं पाये जाते हैं । जो स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान द्वितीय स्थितिमें हैं वे तृतीय स्थितिके अध्यवसानोंमें होते हैं, ऐसा नहीं ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि द्वितीय स्थितिके प्रथम खण्ड सम्बन्धी अध्यवसानस्थान तृतीय स्थितिके अध्यवसानस्थानोंमें नहीं पाये जाते हैं ।

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि, 'वे सभी होते हैं, ऐसा सूत्रमें निर्देश नहीं किया गया है, इसीसे उसका ज्ञान हो जाता है ।

सूत्रमें जो 'अपुव्वाणि' ऐसा निर्देश किया है उससे 'अपुव्वाणि चेव' अर्थात् अपूर्व भी होते हैं, ऐसा कथन करना चाहिये, क्योंकि, च शब्दके विना समुच्चयका ज्ञान नहीं होता है ।

शंका—यदि ऐसा है तो सूत्रमें च शब्दका निर्देश क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि च शब्दके निर्देशके विना भी उक्त अर्थका ज्ञान हो जाता है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक अपूर्व अपूर्व स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान होते हैं ॥२७०॥

१ अ-काप्रत्योः '—णिद्देसोण' इति पाठः ।

एवं उत्तविधाणेण अपुच्चाणि अपुच्चाणि चैव द्विदिवधञ्जवसाणट्टाणाणि सच्च-
द्विदिवसेसेसु होदूण गच्छंति जाव उपकस्सट्टिदि ति । सच्चद्विदिवसेसेसु पुच्चद्विदि-
बंधञ्जवसाणट्टाणाणि वि अत्थि, ताणि च अभणिदूण अपुच्चाणि चैव अत्थि ति किमट्टं
बुच्चदे ? ण, एवमिदि वयणादो चैव पुच्चाणं अत्थित्तिसिद्धीदो । एवं वयणादो चैव पुच्चाणं
पि अत्थित्तिसिद्धीए संतीए अपुच्चाणं णिद्वेसो किमट्टं कदो ? ण, अपुच्चपरिणामअत्थित्तपओ-
जणत्तेण तप्पदुप्पायणे दोसाभावादो ।

जहण्णट्टिदीए पढमखंडं उवरि केण वि सरिसं ण होदि । विदियखंडं समउत्तर-
जहण्णट्टिदीए पढमञ्जवसाणखंडेण सरिसं । तदियखंडं दुसमउत्तरजहण्णट्टिदीए पढमखंडेण
सरिसं । चउत्थखंडं तिसमउत्तरजहण्णट्टिदीए पढमखंडेण सरिसं । एवं णेयव्वं जाव
णिव्वगगणकंदयचरिमसमओ ति । तदो उवरिमसमए जहण्णट्टिदिअञ्जवसाणाणमणुकट्टी
वोच्छिज्जदि, तथ एदेहि सरिसपरिणामाभावादो । एवं सच्चद्विदिवसेसच्चञ्जवसाणाणं
पादेकमणुकट्टिवोच्छेदो परूवेदव्वो ति भावत्थो ।

इस प्रकार उक्त प्रक्रियासे उत्कृष्ट स्थितितक सब स्थितिविशेषोंमें होकर अपूर्व ही
अपूर्व स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान होते जाते हैं ।

शंका—सब स्थितिविशेषोंमें जब पूर्व स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान भी हैं, तब उन्हें
न कहकर ' अपूर्व ही हैं ' ऐसा किसलिये कहा जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ' एवं ' अर्थात् ' इसी प्रकार ' ऐसा कहनेसे ही पूर्व
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है ।

शंका—यदि ' एवं ' पदका निर्देश करनेसे ही पूर्व स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंका
अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, तो फिर अपूर्व स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानोंका निर्देश किसलिये
किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यहां अपूर्व परिणामोंके अस्तित्वका प्रयोजन होनेसे
उनके कहनेमें कोई दोष नहीं है ।

जघन्य स्थितिका प्रथम खण्ड आगे किसीके भी सदृश नहीं है । उसका द्वितीय
खण्ड एक समय अधिक जघन्य स्थितिके प्रथम अध्यवसानखण्डके सदृश होता है ।
जघन्य स्थितिके अध्यवसानोंका तृतीय खण्ड दो समय अधिक जघन्य स्थितिके प्रथम
अध्यवसानखण्डके सदृश होता है । चतुर्थ खण्ड तीन समय अधिक जघन्य स्थितिके
प्रथम अध्यवसानखण्डके सदृश होता है । इस प्रकार निर्वर्गणाकाण्डके अन्तिम समय
तक ले जाना चाहिये । उससे आगेके समयमें जघन्य स्थितिके अध्यवसानस्थानोंके
अनुकृष्टिका व्युच्छेद हो जाता है, क्योंकि, वहां इनके सदृश परिणामोंका अभाव है । इस
प्रकारसे सब स्थितिविशेषोंके सब अध्यवसानोंमेंसे प्रत्येकमें अनुकृष्टिके व्युच्छेदकी
प्ररूपणा करना चाहिये । यह उक्त कथनका भावार्थ है ।

संपहि अपुणरूत्तज्झवसाणपरूवणा कीरदे । तं जहा—जहण्णट्टिदिमादिं कादृण जाव दुचरिमट्टिदि ति ताव सव्वट्टिदिविसेससव्वज्झवसाणाणं सव्वपढमखंडाणि अपुणरूत्ताणि । उक्कस्सट्टिदीए सव्वखंडाणि अपुणरूत्ताणि चेव । सेस-दुचरिमादिट्टिदीणं चिदियादिखंडाणि पुणरूत्ताणि, एदेहि समाणपरिणामाणमपुणरूत्तपरिणामेसु उवलंभादो ।

एवं सत्तणं कम्माणं ॥ २७१ ॥

जहा णाणावरणीसस्स अणुकट्टी परूविदा तहा सत्तणं कम्माणं परूवेदव्वं । णवरि आउ-अस्स जहण्णट्टिदीए णिव्वग्गणमेत्तअज्झवसाणखंडाणि पुव्वं व पढमखंडपहुडि विसेसाहियाणि होति । समउत्तरजहण्णट्टिदिप्पहुडिसव्वज्झवसाणखंडाणि अण्णोण्णं पेक्खिदृण जहाकमेण विसेसाहियाणि चेव । किंतु तत्थ समयाहियजहण्णट्टिदीए दुचरिमखंडादो चरिमखंड-मायामेण असंखेज्जगुणं । तदुवरिमट्टिदीए पुण तिचरिमखंडादो दुचरिमखंडमसंखेज्जगुणं । तदो चरिमखंडमसंखेज्जगुणं । एवं णेदव्वं जाव णिव्वग्गणकंदयदुचरिमसमओ ति । पुणो तदुवरिमट्टिदिप्पहुडि जाव उक्कस्सट्टिदि ति ताव सव्वखंडाणि अण्णोण्णं पेक्खिदृण आयामेण असंखेज्जगुणाणि होति ति वेत्तव्वं । एत्थ वि अणुकट्टिवोच्छेदो पुव्वं व परूवेदव्वो । एवमणुकट्टी समत्ता ।

तिव्व-मंददाए णाणावरणीयस्स जहणियाए ट्टिदीए जहणयं

अव अपुनरुक्त अध्यवसानोंकी प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—जघन्य स्थितिको आदि लेकर द्विचरम स्थिति तक सब स्थितिचिन्तोंके सभी अध्यवसानस्थान सम्बन्धी सब प्रथम खण्ड अपुनरुक्त हैं । उक्तष्ट स्थितिके सब खण्ड अपुनरुक्त ही हैं । शेष द्विचरम आदि स्थितियोंके द्वितीयादिक खण्ड पुनरुक्त हैं, क्योंकि, इनके समान परिणाम अपुनरुक्त परिणामोंमें पाये जाते हैं ।

इसी प्रकार शेष सात कर्मोंके विषयमें अनुकृष्टिका कथन करना चाहिये ॥ २७१ ॥

जिस प्रकार ज्ञानावरणीयके विषयमें अनुकृष्टिकी प्ररूपणा की है, उसी प्रकार अन्य सात कर्मोंके सम्बन्धमें अनुकृष्टिकी प्ररूपणा करना चाहिये । विशेष इतना है कि आयुकी जघन्य स्थितिके निर्वर्गणाकाण्डक प्रमाण अध्यवसानखण्ड पूर्वके ही समान प्रथम खण्डको आदि लेकर उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते हैं । एक समय अधिक जघन्य स्थितिको आदि लेकर सब अध्यवसानखण्ड परस्परकी अपेक्षा यथाक्रमसे विशेष अधिक ही हैं । परन्तु उनमें एक समय अधिक जघन्य स्थितिके द्विचरम खण्डसे अन्तिम खण्ड आयामकी अपेक्षा असंख्यातगुणा है । उससे आगेकी स्थितिके त्रिचरम खण्डकी अपेक्षा द्विचरम खण्ड असंख्यातगुणा है । उससे अन्तिम खण्ड असंख्यातगुणा है । इस प्रकार निर्वर्गणाकाण्डके द्विचरम समय तक ले जाना चाहिये । फिर उससे आगेकी स्थितिसे लेकर उक्तष्ट स्थिति तक सब खण्ड एक दूसरेकी अपेक्षा आयामसे असंख्यात गुणे होते हैं, ऐसा समझना चाहिये । यहां भी अनुकृष्टिके व्युच्छेदकी पूर्वके ही समान प्ररूपणा करना चाहिये । इस प्रकार अनुकृष्टिका कथन समाप्त हुआ ।

तीव्र-मन्दताकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी जघन्य स्थिति सम्बन्धी जघन्य स्थिति-

१ ताप्रती 'सव्वट्टिदिविसेसस्स' इति पाठः ।

द्विदिवंधज्झवसाणट्टाणं सव्वमंदाणुभागं ॥ २७२ ॥

सव्वट्टिदीसु पुणरुत्तद्विदिवंधज्झवसाणट्टाणाणि अवणिय अपुणरुत्ताणि^२ घेतूण एद-
मप्पावहुगं बुच्चदे । सव्वमंदाणुभागमिदि बुत्ते सव्वजहण्णसत्तिसंजुत्तमिदि घेतत्त्वं । सेसं सुगमं ।

तिस्से चैव उक्कस्समणंतगुणं ॥ २७३ ॥

तिस्से चैव जहण्णट्टिदीए पढमखंडस्स अपुणरुत्तस्स उक्कस्सपरिणामो अणंतगुणो,
असंखेज्जलोगमेत्तछट्टाणाणि उवरि चडिदूण द्विदत्तादो । चरिमखंडुक्कस्सपरिणामो ण गहिदो
त्ति कधं णव्वदे ? जहण्णट्टिदिउक्कस्सपरिणामादो समयाहियजहण्णट्टिदीए जहण्णपरिणामो
अणंतगुणो त्ति सुत्तणिहेसादो णव्वदे ।

विदियाए ट्टिदीए जहण्णयं द्विदिवंधज्झवसाणट्टाणमणंतगुणं ॥ २७४ ॥

पुव्विल्लउक्कस्सपरिणामो उव्वंको, एसो जहण्णपरिणामो अट्टंको त्ति काऊण
हेट्टिमउक्कस्सपरिणामं सव्वजीवरासिणा गुणिदे उवरिमट्टिदिजहण्णपरिणामो होदि, तेण
अणंतगुणत्तं ण विरुज्जदे । उवरिं पि उक्कस्सपरिणामादो जत्थ जहण्णपरिणामो अणंतगुणो
त्ति बुच्चदि तत्थ एदं चैव कारणं वत्त्वं ।

वन्धाध्यवसानस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला है ॥ २७२ ॥

सब स्थितियोंमें पुनरुक्त स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंको छोड़कर और अपुनरुक्तोंको
ग्रहण करके यह अल्पवहुत्व कहा जा रहा है । 'सव्वमंदाणुभाग' ऐसा कहनेपर सबसे
जघन्य शक्तिसे संयुक्त है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

उसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अनन्तगुणा है ॥ २७३ ॥

उसी जघन्य स्थितिके अपुनरुक्त प्रथम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है,
क्योंकि वह असंख्यात लोक मात्र छहस्थान आगे जाकर स्थित है ।

शंका—अन्तिम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम नहीं ग्रहण किया गया है, यह कैसे
जाना जाता है ?

समाधान—जघन्य स्थितिके उत्कृष्ट परिणामसे एक समय अधिक जघन्यस्थितिका
परिणाम अनन्तगुणा है, ऐसा सूत्रमें निर्देश किया जानेसे उसका परिज्ञान होता है ।

द्वितीय स्थितिका जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अनन्तगुणा है ॥ २७४ ॥

पूर्वका उत्कृष्ट परिणाम ऊर्वक और यह जघन्य परिणाम अष्टांक है, ऐसा करके
अधस्तन उत्कृष्ट परिणामको सर्व जीवराशिसे गुणित करनेपर आगेकी स्थितिका जघन्य
परिणाम होता है, इसी कारण उसके अनन्तगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं है । आगे भी
जहांपर उत्कृष्ट परिणामकी अपेक्षा जघन्य परिणाम अनन्तगुणा है, ऐसा कहा जाता है
वहां पर भी यही कारण बतलाना चाहिये ।

१ सप्रति स्थितिसमुदहारे या प्राक् तीव्र-मन्दता नोक्ता साभिधीयते—अणंतेत्यादि । तद्यथा—
ज्ञानावरणीयस्य जघन्यस्थितौ जघन्यस्थितिबन्धाध्यवसायस्थानं सर्वमन्दानुभावम् । ततस्तस्यामेव जघन्यस्थितौ
उत्कृष्टमध्यवसायस्थानमनन्तगुणम् । ततोऽपि द्वितीयस्थितौ जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानमनन्त-
गुणम् । ततोऽपि तस्यामेव द्वितीयस्थितौ उत्कृष्टमनन्तगुणम् । एवं प्रतिस्थिति जघन्यमुत्कृष्टं च स्थितिबन्धाध्य-
वसायस्थानमनन्तगुणतया तावद्वक्तव्यं यावदुत्कृष्टायां स्थितौ चरमं स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानमनन्तगुणम्
(१-३) । क. प्र. (म. टी.) १, ८९. । २ अ-आ-काप्रतिषु—'पुणरुत्ताणि' इति पाठः ।

तिस्से चैव उक्कस्समणंतगुणं ॥ २७५ ॥

असंखेज्जलोगमेत्तच्छट्टाणाणि उवरि चड्ढिद्वूण द्विदत्तादो ।

तदियाए द्विदीए जहण्णयं द्विदिवंधज्जवसाणट्टाणमणंतगुणं ॥ २७६ ॥

कारणं सुगमं, पुव्वं पस्सविदत्तादो ।

तिस्से चैव उक्कस्सयमणंतगुणं ॥ २७७ ॥

असंखेज्जलोगमेत्तच्छट्टाणाणि उवरि चड्ढिद्वूण द्विदत्तादो ।

एवमणंतगुणा जाव उक्कस्सद्विदि त्ति ॥ २७८ ॥

एवं पुव्वुत्तकमेण अणंतगुणाए सेडीए णेदव्वं जाव उक्कस्सद्विदि त्ति । णवरि उक्कस्सियाए द्विदीए जहण्णादो उक्कस्समणंतगुणमिदि वुत्ते चरिमखंडुक्कस्सपरिणामो अणंतगुणो त्ति धेत्तव्वं ।

एवं सत्तण्णं कम्मणं ॥ २७९ ॥

जहा णाणावरणीयस्स तिव्वमंददाए अप्पाचहुगं पस्सविदं तथा सत्तण्णं कम्मणं पस्सवेदव्वं, विसेसाभावादो । एवं तिव्व-मंददा त्ति समत्तमणियोगद्वारं । एवं द्विदिसमुदाहारो समत्तो । एवं द्विदिवंधज्जवसाणपस्सवणा समत्ता । एवं वेयणकालविहाणे त्ति समत्तमणियोगद्वारं ।

उसी स्थितिका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है ॥ २७५ ॥

क्योंकि, वह जघन्य परिणामसे असंख्यात लोक प्रमाण छह स्थान आगे जाकर स्थित है ।

उससे तृतीय स्थितिका जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अनन्तगुणा है ॥ २७६ ॥

इसका कारण सुगम है, क्योंकि, वह पूर्वमें बतलाया जा चुका है ।

उसी स्थितिका उत्कृष्ट परिणाम उससे अनन्तगुणा है ॥ २७७ ॥

क्योंकि, वह उससे असंख्यात लोक मात्र छह स्थान आगे जाकर स्थित है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक वे अनन्तगुणे अनन्तगुणे हैं ॥ २७८ ॥

इस प्रकार अर्थात् पूर्वोक्त क्रमसे उत्कृष्ट स्थिति तक अनन्तगुणित श्रेणिसे ले जाना चाहिये । विशेष इतना है कि उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य परिणामकी अपेक्षा उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है, ऐसा कहनेपर अन्तिम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

इसी प्रकार शेष सात कर्मोंके विषयमें तीव्र-मन्दताके अल्पबहुत्वको कहना चाहिये । २७९ ।

जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्मके विषयमें तीव्र-मन्दताके अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार शेष सात कर्मोंके विषयमें कहना चाहिये, क्योंकि वहां उसमें कोई विशेषता नहीं है । इस प्रकार तीव्रमन्दता अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । इस प्रकार स्थितिसमुदाहार समाप्त हुआ । इस प्रकार स्थितिबन्धाध्यवसान प्ररूपणा समाप्त हुई ।

इस प्रकार वेदनकालविधान अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

वेदणाखेत्तविहाणसुत्ताणि

सूत्र सख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र सख्या	सूत्र	पृष्ठ
१	वेयणखेत्तविहाणे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओगहाराणि णाद- व्वाणि भवति ।	१	१६	अण्णदरस्स केवलिस्स केवलि- समुग्घादेण समुहदस्स सब्वलोगं गदस्स तस्स वेदणीयवेदणा खेत्तदो उक्कसा ।	२९
२	पदमीमांसा सामित्तं अप्पावहुए त्ति ।	३	१७	तव्वदिरित्ता अणुक्कस्सा ।	३०
३	पदमीमांसाए णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो किं उक्कस्सा किमणुक्कस्सा किं जहण्णा किमजहण्णा ?	॥	१८	एवमाउव-णामा-गोदाणं ।	३३
४	उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा जहण्णा वा अजहण्णा वा ।	४	१९	सामित्तेण जहण्णपदे णाणावर- णीयवेयणा खेत्तदो जहण्णिया कस्स ?	॥
५	एव सत्तण्णं कम्माणं ।	११	२०	अण्णदरस्स सुहुर्माणगोदजीवअप- जत्तयस्स तिसमयआहारयस्स तिसमयतम्भवत्थस्स जहण्ण- जोगिस्स सब्वजहण्णियाए सरीरो- गाहणाए वट्टमाणस्स तस्स णाणा- वरणीयवेयणा खेत्तदो जहण्णा ।	॥
६	सामित्तं दुविहं जहण्णपदे उक्कस्सपदे ।	॥	२१	तव्वदिरित्तमजहण्णा ।	३६
७	सामित्तेण उक्कस्सपदे णाणावरणीय- वेयणा खेत्तदो उक्कस्सिया कस्स ?	१४	२२	एवं सत्तण्णं कम्माणं ।	५३
८	जो मच्छो जोयणसहस्सिओ सयंभु- रमणसमुहस्स बाहिरिल्लए तडे अच्छिदो ।	१५	२३	अप्पावहुए त्ति । तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओगहाराणि जहण्णपदे उक्कस्सपदे जहण्णुक्कस्सपदे ।	॥
९	वेयणसमुग्घादेण समुहदो ।	१८	२४	जहण्णपदे अट्टण्णं पि कम्माणं वेयणाओ तुल्लाओ ।	॥
१०	कायलेस्सियाए लग्गो ।	१९	२५	उक्कस्सपदे णाणावरणीय-दंस- णावरणीय-मोहणीय-अंतराइयाणं वेयणाओ खेत्तदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ थोवाओ ।	५४
११	पुणरवि मारणंतियसमुग्घादेण समुहदो तिण्णि विग्गहकंदयाणि काट्टण ।	२०	२६	वेयणीय-आउअ-णामा-गोदवेयणाओ खेत्तदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ असंखेज्जगुणाओ ।	॥
१२	से काले अघो सत्तमाए पुढवीए णेरएप्सु उप्पज्जिहिदि त्ति तस्स णाणावरणीयवेयणा खेत्तदो उक्कस्सा	॥	२७	जहण्णुक्कस्सपदेण अट्टण्णं पि कम्माण वेदणाओ खेत्तदो जह- ण्णियाओ तुल्लाओ थोवाओ ।	५५
१३	तव्वदिरित्ता अणुक्कस्सा ।	२३			
१४	एवं दंसणावरणीय-मोहणीय- अंतराइयाणं ।	२९			
१५	सामित्तेण उक्कस्सपदे वेदणीय- वेदणा खेत्तदो उक्कस्सिया कस्स ?	॥			

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
२८	णाणावरणीय-दंशणावरणीय- मोहणीय अंतराश्रयत्रेयणाश्रो खेत्तदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ असंखेज्जगुणाओ ।	५५	४१	णिगोअपदिट्ठिअपज्जत्तयस्स जह- णिण्या ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।	५८
२९	वेयणाय-आउअ-णामा-गोदत्रेय- णाओ खेत्तदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ असंखेज्ज- गुणाओ ।	"	४२	वाअरअण-अदिकाअयपत्तेयसरीर- अपज्जत्तयस्स जहणिण्या ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।	"
३०	एत्तो सब्बजीवेषु ओगाहणमहा- दंडओ कायव्वो भवदि ।	५६	४३	वीइंदियअपज्जत्तयस्स जहणिण्या ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।	"
३१	सव्वत्योवा सुहुमणिगोदजीवअप- ज्जत्तयस्स जहणिण्या ओगाहणा ।	"	४४	तीइंदियअपज्जत्तयस्स जहणिण्या ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।	"
३२	सुहुमवाउक्काअयअपज्जत्तयस्स जहणिण्या ओगाहणा असंखेज्ज- गुणा ।	"	४५	चउरिदियअपज्जत्तयस्स जहणिण्या ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।	५९
३३	सुहुमतेउकाअयअपज्जत्तयस्स जहणिण्या ओगाहणा असंखेज्ज- गुणा ।	"	४६	पंचिदियअपज्जत्तयस्स जहणिण्या ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।	"
३४	सुहुमवाउक्काअयअपज्जत्तयस्स जहणिण्या ओगाहणा असंखेज्ज- गुणा ।	"	४७	सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तय- स्स जहणिण्या ओगाहणा असं- खेज्जगुणा ।	"
३५	सुहुमपुढविकाअयअपज्जत्तय- स्स जहणिण्या ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।	५७	४८	तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ।	"
३६	वाअरवाउक्काअयअपज्जत्तयस्स जहणिण्या ओगाहणा असंखेज्ज- गुणा ।	"	४९	तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ।	६०
३७	वाअरतेउक्काअयअपज्जत्तयस्स जह- णिण्या ओगाहणा असंखेज्जगुणा	"	५०	सुहुमवाउक्काअयअपज्जत्तयस्स जह- णिण्या ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।	"
३८	वाअरआउक्काअयअपज्जत्तयस्स जहणिण्या ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।	"	५१	तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ।	"
३९	वाअरपुढविकाअयअपज्जत्तयस्स जहणिण्या ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।	"	५२	तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ।	"
४०	वाअरणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स जह- णिण्या ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।	५८	५३	सुहुमतेउक्काअयअपज्जत्तयस्स जहणिण्या ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।	"
			५४	तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ।	६१
			५५	तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्क- स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ।	"
			५६	सुहुमवाउक्काअयअपज्जत्तयस्स जहणिण्या ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।	"

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	पृष्ठ	पृष्ठ
८८	वाटरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीर- णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ।	६७	९४	पंचिदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्क- स्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ।	६२
८९	पंचिदियणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ।	६८	९५	सुहुमादो सुहुमस्स ओगाहणगुणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।	॥
९०	तेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्क- स्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ।	॥	९६	सुहुमादो वादरस्स ओगाहणगुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।	॥
९१	अउरिंदिय णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ।	॥	९७	वादरादो सुहुमस्स ओगाहणगुणगारो आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।	॥
९२	वेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्क- स्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ।	॥	९८	वादरादो वादरस्स ओगाहणगुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।	७०
९३	वादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीर- णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ।	॥	९९	वादरादो वादरस्स ओगाहणगुणगारो संखेज्जा समया ।	॥

वेयणकालविहाणसुत्ताणि

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	
१	वेयणकालविहाणे त्ति । तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्वाराणि णादव्वाणि भवन्ति ।	७५		पज्जत्तयदस्स कम्मभूमियस्स अकम्मभूमियस्स वा कम्मभूमिप- डिभागस्स वा संखेज्जवासा- उअस्स वा असंखेज्जवासाउअस्स वा देवस्स वा मणुस्सस्स वा तिरि- क्खस्स वा णेरइयस्स वा इत्थि- वेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णउंसयवेदस्स वा जलचरस्स वा थलचरस्स वा खगचरस्स वा सागार-जागार-सुदोवजोगजुत्तस्स उक्कस्सियाए द्विदीए उक्कस्सद्विदि- संकिलेसे वट्टमाणस्स, अधवा ईसिमज्झिमपरिणामस्स तस्स णाणा- वरणीयवेयणा कालदो उक्कस्सा ।	८८	
२	पदमीमांसा-सामित्तमप्पावहुए त्ति ।	७७		९	तद्वदिरिच्चमणुक्कस्सा ।	९१
३	पदमीमांसाए णाणावरणीयवेयणा कालदो किमुक्कस्सा किमणुक्कस्सा किं जहण्णा किमजहण्णा ?	७८		१०	पदं छण्णं कम्मणं ।	११२
४	उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा जहण्णा वा अजहण्णा वा ।	॥				
५	पदं सत्तण्णं कम्मणं ।	८५				
६	सामित्तं दुविहं जहण्णपदे उक्कस्स- पदे	॥				
७	सामित्तेण उक्कस्सपदे णाणावरणीय- वेयणा कालदो उक्कस्सिया कस्स ?	८७				
८	अण्णदरस्स पंचिदियस्स सण्णिस्स मिच्छाइद्विस्स सव्वाहि पज्जत्तीहि					

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
११	सामित्तेण उक्कस्सपदे आउअ- वेयणा कालदो उक्कस्सिया कस्स ? ११२		२५	अप्पावड्डुए त्ति । तत्थ इमाणि त्तिणिण अणिओगहाराणि—जहण्णपदे उक्कस्सपदे जहण्णुक्कस्सपदे । १३६	
१२	अण्णदस्स मणुस्सस्स वा पंचिदिय- तिरिक्खजोणियस्स वा सण्णिस्स सम्माइट्ठिस्स वा [मिच्छाइट्ठिस्स वा] सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्त- यदस्स कम्मभूमियस्स वा कम्म- भूमिपडिभागस्स वा संखेज्जवासाउ- अस्स इत्थिवेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णउंसयवेदस्स वा जलचरस्स वा थलचरस्स वा सागार-जागारतप्पा- ओग्गसंकिलिट्ठस्स वा [तप्पाओग्ग- विशुद्धस्स वा] उक्कस्सियाए आवाधाए जस्स तं देव-णिरयाउअं पढमसमए वंधंतस्स आउअवेयणा कालदो उक्कस्सा । ११३		२६	जहण्णपदेण अट्ठणं पि कम्माण वेयणाओ कालदो जहण्णियाओ तुल्लाओ । १३७	
१३	तव्वदिरित्तमणुक्कस्सा । ११६		२७	उक्कस्सपदेण सव्वत्थोवा आउअ- वेयणा कालदो उक्कस्सिया । ”	
१४	सामित्तेण जहण्णपदे णाणावरणीय- वेदणा कालदो जहण्णिया कस्स ? ११८		२८	णामा-गोदवेयणाओ कालदो उक्क- स्सियाओ दो वि तुल्लाओ संखेज्ज- गुणाओ । ”	
१५	अण्णदस्स चरिमसमयछदुमत्थस्स तस्स णाणावरणीयवेयणा कालदो जहण्णा । ११९		२९	णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेय- णीय-अंतराइयवेयणाओ कालदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ । १३८	
१६	तव्वदिरित्तमजहण्णा । १२०		३०	मोहणीयस्स वेयणा कालदो उक्क- स्सिया संखेज्जगुणा । ”	
१७	एवं दंसणावरणीय-अंतराइयाणं । १२२		३१	जहण्णुक्कसपदे अट्ठणं पि कम्माणं वेयणाओ कालदो जहण्णियाओ तुल्लाओ थोवाओ । ”	
१८	सामित्तेण जहण्णपदे वेयणीयवेयणा कालदो जहण्णिया कस्स ? ”		३२	आउअवेयणा कालदो उक्कस्सिया असंखेज्जगुणा । १३९	
१९	अण्णदस्स चरिमसमयभवसिद्धि- यस्स तस्स वेयणीयवेयणा कालदो जहण्णा । ”		३३	णामा-गोदवेयणाओ कालदो उक्कस्सियाओ दो वि तुल्लाओ असंखेज्जगुणाओ । ”	
२०	तव्वदिरित्तमजहण्णा । १३३		३४	णाणावरणीय-दंसणावरणीय- वेयणीय-अंतराइयवेयणाओ कालदो उक्कस्सियाओ चत्तारि वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ । ”	
२१	एवं आउअ-णामा-गोदाणं । १३४		३५	मोहणीयवेयणा कालदो उक्क- स्सिया संखेज्जगुणा । ”	
२२	सामित्तेण जहण्णपदे मोहणीय- वेयणा कालदो जहण्णिया कस्स ? १३५		(१ चूलिया)		
२३	अण्णदस्स खवगस्स चरिमसमय- सकसाइयस्स मोहणीयवेयणा कालदो जहण्णा । १३६		३६	एत्तो मूलपयडिड्ढिवंधे पुव्वं गम- णिज्जे तत्थ इमा ण चत्तारि अणि- योगदारणि—ट्ठिदिवधट्ठाणपरूवणा णिसेयरूवणा आवाधाकंदयपरू- वणा अप्पावड्डुए त्ति । ”	
२४	तव्वदिरित्तमजहण्णा । ”				

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
७१	बादरेइंदियअपज्जत्तयस्स उक्क- स्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	२३०	८८	तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	२३४
७२	सुहुमेइंदियपज्जत्तयस्स उक्क- स्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	"	८९	तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	"
७३	बादरेइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	२३१	९०	संजदस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो	"
७४	वीइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो ।	"	९१	संजदासंजदस्स जहण्णओ द्विदि- वंधो संखेज्जगुणो ।	२३५
७५	तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	"	९२	तस्सेव उक्कस्सओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो ।	"
७६	तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	"	९३	असजदसम्मादिद्विपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो	"
७७	तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	२३२	९४	तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो ।	"
७८	तीइंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	"	९५	तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो ।	२३६
७९	तीइंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	"	९६	तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो ।	"
८०	तस्सेव उक्कस्सद्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	"	९७	सण्णिमिच्छइद्विपंचिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो ।	"
८१	तीइंदियपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	"	९८	तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो ।	२३७
८२	चउरिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	२३३	९९	तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो ।	"
८३	तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	"	१००	तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो ।	"
८४	तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	"	१०१	णिसेयपरूवणदाए तथ इमाणि दुवे अणियोगहारणि अणंत- रोवणिधा परंपरोवणिधा ।	"
८५	तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	"	१०२	अणंतरोवणिधाए पंचिंदियाणं सण्णीणं मिच्छाइद्वीणं पज्जत्त- याणं णाणावरणीय-दंसणावर- णीय वेयणीय-अंतराहयाणं तिण्णि वाससहस्साणि आबाधं मोत्तूणं जं पढमसमए पदेसगं णिसिप्तं तं षड्गं, जं विदियसमए-	"
८६	असण्णिपंचिंदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो ।	२३४			
८७	तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो विसेसाहिओ ।	"			

पदेसगं णिसित्तं तं विसेसहीणं,
जं तदियसमए पदेसगं णिसित्तं
तं विसेसहीणं, एव विसेसहीणं
विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण तीसं
सागरोवमकोडीयो त्ति ।

२३८

१०३ पंचिदियाणं सण्णीणं मिच्छाद्द्वीणं
पज्जत्तयाणं मोहणीयस्स सत्त-
वाससहस्साणि आवाहं मोत्तूण
ज पढमसमए पदेसगं णिसित्तं
तं बहुअं, ज विदियसमए पदेसगं
णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदिय-
समए पदेसगं णिसित्तं तं विसे-
सहीणं, एवं विसेसहीणं विसे-
सहीणं जाव उक्कस्सेण सत्तरि-
सागरोवमकोडाकोडि त्ति ।

२४२

१०४ पंचिदियाणं सण्णीणं सम्मादि-
द्वीणं वा मिच्छाद्द्वीणं वा
पज्जत्तयाणमाउअस्स पुव्वकोडि-
तिभागमावाधं मोत्तूण जं पढम-
समए पदेसगं णिसित्तं तं बहुअं,
जं विदियसमए पदेसगं णिसित्तं
तं विसेसहीणं, जं तदियसमए
पदेसगं णिसित्तं तं विसेसहीणं,
एवं विसेसहीणं विसेसहीणं
जाव उक्कस्सेण तेतीससागरो-
वमाणि त्ति ।

२४५

१०५ पंचिदियाणं सण्णीणं मिच्छाद्द्वी-
द्वीणं पज्जत्तयाणं णामा-गोदाणं
वेवाससहस्साणि आवाधं मोत्तूण
पढमसमए पदेसगं णिसित्तं तं
बहुअं, जं विदियसमए पदेसगं
णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं
तदियसमए पदेसगं णिसित्तं तं
विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं
विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण
धीसं सागरोवमकोडीयो त्ति ।

,,

१०६ पंचिदियाणं सण्णीणं मिच्छाद्द्वी-
द्वीणमपज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्मा-

णमाउअवज्जाणमंतोमुहुत्तमावाधं
मोत्तूण जं पढमसमए पदेसगं
णिसित्तं तं बहुअं, जं विदिय-
समए पदेसगं णिसित्तं तं
विसेसहीणं, जं तदियसमए पदे-
सगं णिसित्तं तं विसेसहीणं,
एवं विसेसहीणं विसेसहीणं
जाव उक्कस्सेण अंतोकोडा-
कोडीयो त्ति ।

२४९

१०७ पंचिदियाणं सण्णीणमसण्णीणं
चउरिंदिय-तीइंदिय-वीइंदियाणं
धादरेइंदियअपज्जत्तयाणं सुहुमे-
इंदियपज्जत्तापज्जत्ताणमाउअस्स
अंतोमुहुत्तमावाधं मोत्तूण ज
पढमसमए पदेसगं णिसित्तं तं
बहुअं, जं विदियसमए पदेसगं
णिसित्तं तं विसेसहीणं, जं तदिय-
समए पदेसगं णिसित्तं तं विसे-
सहीणं, एवं विसेसहीणं विसे-
सहीणं जाव उक्कस्सेण पुव्वको-
डीयो त्ति ।

२५८

१०८ पंचिदियाणमसण्णीणं चउरिंदि-
याणं तीइंदियाणं वीइंदियाणं
वादरेइंदियपज्जत्तयाणं सत्तण्णं
कम्माणं आउअवज्जाणं अंतो-
मुहुत्तमावाधं मोत्तूण जं पढम-
समए पदेसगं णिसित्तं तं बहुअं,
जं विदियसमए पदेसगं णिसित्तं
तं विसेसहीणं, जं तदियसमए
पदेसगं णिसित्तं तं विसेसहीणं
एवं विसेसहीणं विसेसहीणं
जाव उक्कस्सेण सागरोवमसह-
स्सस्स सागरोवमसदस्स सागरो-
वमपण्णासाए सागरोवमपण्णी-
साए सागरोवमस्सतिण्णि सत्त
भागा सत्त-सत्त-भागा वेसत्त
भागा पड्डिण्णा त्ति ।

२५९

सूत्र संख्या

सूत्र

पृष्ठ सूत्र संख्या

पृष्ठ

पृष्ठ

- १०९ पंचिदियाणमसण्णीणं चउरिंदि-
याणं तीइंदियाणं वीइंदियाणं
वादरएइंदियपज्जत्तयाणमाउअस्स
पुव्वकोडित्तिभागं वेमासं सोल-
सरादिदियाणि सादिरेयाणि
चत्तारिवासाणि सत्तवाससह-
स्साणि सादिरेयाणि आवाहं
मोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गं
णिसित्तं तं बहुगं, जं विदियसमए
पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं,
जं तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं
विसेसहीणं, एवं विसेसहीणं
विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो
पुव्वकोडि त्ति । २५१
- ११० पंचिदियाणमसण्णीणं चउरिंदि-
याणं तीइंदियाणं वीइंदियाणं
वादरेइंदियअपज्जत्तयाणं सुहु-
मेइंदियपज्जत्तअपज्जत्तयाणं
सत्तण्हं कम्माणमाउववज्जाणमंतो-
मुहुत्तमावाध मोत्तूण जं पढम-
समए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं,
जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं
तं विसेसहीणं, जं तदियसमए
पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं,
एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव
उक्कस्सेण सागरोवमसदस्स
सागरोवमपण्णासाए सागरोवम-
पणुवीसाए सागरोवमस्स तिण्णि
सत्तभागा, सत्त-सत्तभागा, वे
सत्तभागा पलिदोवमस्स संखेज्ज-
दिभागेण ऊणया पलिदोवमस्स
असंखेज्जदिभागेण ऊणया त्ति । २५२
- १११ परंपरोवणिधाए पंचिदियाण
सण्णीणमसण्णीणं पज्जत्तयाणं
अट्टणं कम्माणं जं पढमसमए
पदेसग्गं तदो पलिदोवमस्स

- असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणहीणा,
एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव
उक्कस्सिया द्विदि त्ति । २५३
- ११२ एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरं असं-
खेज्जाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि । २५५
- ११३ णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि
पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखे-
ज्जदिभागो । २५६
- ११४ णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि
थोवाणि । २५७
- ११५ एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखे-
ज्जगुणं । ”
- ११६ पंचिदियाणं सण्णीणमसण्णीण-
मपज्जत्तयाणं चउरिंदिय-तीइ-
दिय-वीइंदिय-एइंदिय-वादर-सुहु-
मपज्जत्तापज्जत्तयाणं सत्तण्णं
कम्माणमाउववज्जाणं जं पढम-
समए पदेसग्गं तदो पलिदोव-
मस्स असंखेदज्जदिभागं गंतूण
दुगुणहीणा, एवं दुगुणहीणा
दुगुणहीणा जाव उक्कस्सिया
द्विदि त्ति । ”
- ११७ एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखे-
ज्जाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि । ”
- ११८ णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि
पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखे-
ज्जदिभागो । २५८
- ११९ णाणापदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि
थोवाणि । ”
- १२० एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसं-
खेज्जगुणं । ”
- १२१ आधाधाकंदयपरुवणदाए । २६६
- १२२ पंचिदियाणं सण्णीणमसण्णीण
चउरिंदियाणं तीइंदियाणं वीइं-
दियाणं एइंदियवादर सुहुम-
पज्जत्त-अपज्जत्तयाणं सत्तण्णं
कम्माणमाउववज्जाणमुक्कस्सि-

सूत्र सख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र सख्या	सूत्र	पृष्ठ
	यात्रो द्विदीदो समए समए पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- भागमेत्तमोसरिदूण एयमावाहा- कंदयं करेदि । एस कमो जाव जहणिया द्विदि त्ति ।	२६७	१४०	उक्कस्सओ द्विदिवधो विसेसा- हियो ।	२७५
१२३	अप्पावहुए त्ति ।	२७०	१४१	पंचिदियाण सण्णीणमसण्णीण- मपज्जत्तयाणं चउरिंदियाण तीइंदियाणं वीइंदियाणं एइंदिय- वादर—सुहुमपज्जत्तापज्जत्तया- णमाउअस्स सव्वत्थोवा जहणिया आवाहा ।	”
१२४	पंचिदियाणं सण्णीणं मिच्छाह- ट्ठीण पज्जत्तापज्जत्ताण सत्तणं कम्माणमाउववज्जाण सव्वत्थोवा जहणिया आवाहा ।	”	१४२	जहणओ द्विदिवधो संखेज्जगुणो । ”	”
१२५	आवाहट्टाणाणि आवाहाकंदयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । ”	”	१४३	आवाहट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । ”	”
१२६	उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया । २७१	”	१४४	उक्कस्सिया आवाहा विसेसा- हिया ।	२७६
१२७	णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ।	”	१४५	ठिदिवंधट्टाणाणिसंखेज्जगुणाणि । ”	”
१२८	एयपदेसगुणहाणिट्टाणंतरमसंखे- ज्जगुण ।	”	१४६	उक्कस्सओ द्विदिवधो विसेसा- हियो ।	”
१२९	एयमावाहाकंदयमसंखेज्जगुण ।	२७२	१४७	पंचिदियाणमसण्णीणं चउरिदि- याणं तीइंदियाणं पज्जत्त-अपज्जत्त- याणं सत्तणं कम्माणं आउव- वज्जाणमावाहट्टाणाणि आवाहा- कंदयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि । ”	”
१३०	जहणओ द्विदिवधो असंखेज्ज- गुणो ।	”	१४८	जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । २७७	”
१३१	द्विदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । ”	”	१४९	उक्कस्सिया आवाहा विसेसा- हिया ।	”
१३२	उक्कस्सओ द्विदिवधो विसेसा- हियो ।	२७३	१५०	णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ।	”
१३३	पंचिदियाणं सण्णीणमसण्णीणं पज्जत्तयाणमाउअस्स सव्वत्थोवा जहणिया आवाहा ।	”	१५१	एयपदेसगुणहाणिट्टाणंतरमसंखेज्ज- गुणं ।	”
१३४	जहणओ द्विदिवधो संखेज्जगुणो । ”	”	१५२	एयमावाहाकंदयमसंखेज्जगुणं । ”	”
१३५	आवाहाट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ”	”	१५३	ठिदिवंधट्टाणाणि असंखेज्ज- गुणाणि ।	२७८
१३६	उक्कस्सिया आवाहा विसेसा- हिया ।	२७४	१५४	जहणओ द्विदिवधो संखेज्जगुणो । ”	”
१३७	णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ।	”	१५५	उक्कस्सओ द्विदिवधो विसेसाहियो । ”	”
१३८	एयपदेसगुणहाणिट्टाणंतरमसंखे- ज्जगुणं ।	”	१५६	एइंदियवादर—सुहुम-पज्जत्त- अपज्जत्तयाणं सत्तण्हं कम्माणं आउववज्जाणमावाहट्टाणाणि	”
१३९	ठिदिवंधट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । ”	”			

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	आवाहाकदयाणि च दो वि तुह्याणि योवाणि ।	२७८	१७३	तिट्टाणबंधा जीवा संकिलिद्धदरा ।	३१५
१५७	जहणिया आवाहा असंखेज्जगुणा ।,		१७४	चउट्टाणबंधा जीवा संकिलिद्धदरा ।,	
१५८	उक्कस्सिया आवाहा विसेसाहिया ।	२७९	१७५	सादस्स चउट्टाणवधा जीवा णाणावरणीयस्स जहणिय द्विदिं बंधंति ।	३१६
१५९	णाणापदेस गुणहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि ।	"	१७६	सादस्स तिट्टाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स अजहण-अणु- क्कस्सियं ठिदिं बंधंति ।	"
१६०	एयपदेसगुणहाणिट्टाणंतरम- संखेज्जगुणं ।	"	१७७	सादस्स विट्टाणबंधा जीवा सादस्स चेव उक्कस्सियं द्विदिं बंधंति ।	३१७
१६१	एयमावाहाकंठ्यमसंखेज्जगुणं ।	"	१७८	असादस्स वेट्टाणबंधा जीवा सत्थाणेण णाणावरणीयस्स जह- णियं द्विदिं बंधंति ।	३१८
१६२	ठिट्ठिवधट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।,		१७९	असादस्स तिट्टाणबंधा जीवा णाणावरणीयस्स अजहण- अणुक्कस्सियं द्विदिं बंधंति ।	३१९
१६३	जहणओ द्विट्ठिवधो असंखेज्ज- गुणो ।	"	१८०	असादस्स चउट्टाणवधा जीवा असादस्स चेव उक्कस्सियं द्विदिं बंधंति ।	"
१६४	उक्कस्सओ द्विट्ठिवधो विसेसाहियो ।,		१८१	तेसिं दुविहा सेट्ठिपरूवणा अणंत- रोवणिधा परंपरोवणिधा ।	३२०
(विद्या चूलिया)			१८२	अणंतरोवणिधाए सादस्स चउ- ट्टाणबंधा तिट्टाणवधा जीवा असादस्स विट्टाणबंधा तिट्टाण- बंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहणियाए द्विदिं जीवा थोवा ।	३२१
१६५	ठिट्ठिवधज्जवसाणपरूवणदाए तस्य इमाणि तिण्णि अणिओग- हाराणि जीवसमुदाहारो पयडि- समुदाहारो द्विट्ठिसमुदाहारो त्ति ।	३०८	१८३	विद्याए द्विदिं जीवा विसे- साहिया ।	३२२
१६६	जीवसमुदाहारे त्ति जे ते णाणा- वरणीयस्स बंधा जीवा ते दुविहा- सादबंधा चेव अमादबंधा चेव ।	३११	१८४	तदियाए द्विदिं जीवा विसे- साहिया ।	३२३
१६७	तस्य जे ते सादबंधा जीवा ते तिविहा-चउट्टाणबंधा तिट्टाणबंधा विट्टाणबंधा ।	३१२	१८५	एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरोवमसदपुधत्त ।	"
१६८	असादबंधा जीवा तिविहा-विट्टा- णवधा तिट्टाणबंधा चउट्टाण- बंधा त्ति ।	३१३	१८६	तेण परं विसेसहीणा विसेसहीणा जाव सागरोवमस पुधत्तं ।	"
१६९	सव्वविमुद्धा सादस्स चउट्टाण- वधा जीवा ।	३१४			
१७०	तिट्टाणबंधा जीवा संकिलिद्धदरा ।,				
१७१	विट्टाणबंधा जीवा संकिलिद्धदरा ।	३१५			
१७२	सव्वविमुद्धा असादस्स विट्टाण- बंधा जीवा ।	"			

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१८७	सादस्स विट्ठाणवंधा जीवा असादस्स चउट्ठाणवंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहणियाए द्विदीए जीवा थोवा ।	३२४	१९८	तेण परं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणहीणा ।	३२७
१८८	विदियाए द्विदीए जीवा विसेसाहिया ।	"	१९९	एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव सादस्स असादस्स उक्कस्सिया द्विदि त्ति ।	"
१८९	तदियाए द्विदीए जीवा विसेसाहिया ।	"	२००	एगजीव-दुगुणवड्ढि-हाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि ।	"
१९०	एवं विसेसाहिया विसेसाहिया जाव सागरोपमसदपुधत्तं ।	"	२०१	णाणाजीव-दुगुणवड्ढि-हाणिट्ठाणंतराणि पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो ।	३२८
१९१	तेण परं विसेसहीणा विसेसहीणा जाव सादस्स असादस्स उक्कस्सिया द्विदि त्ति ।	"	२०२	णाणाजीव-दुगुणवड्ढि-हाणिट्ठाणंतराणि थोवाणि ।	"
१९२	परंपरोवणिधाए सादस्स चउट्ठाणवंधा तिट्ठाणवंधा जीवा असादस्स विट्ठाणवंधा, तिट्ठाणवंधा णाणावरणीयस्स जहणियाए द्विदीए जीवेहितो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणवड्ढिदा ।	३२५	२०३	एगजीव-दुगुणवड्ढि-हाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जगुणं ।	"
२९३	एवं दुगुणवड्ढिदा दुगुणवड्ढिदा जाव जममज्झं ।	३२६	२०४	सादस्स असादस्स य विट्ठाणयम्मि णियमा अणागरपाओग्गट्ठाणाणि ।	३३२
१९४	तेण परं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणहीणा ।	"	२०५	सागारपाओग्गट्ठाणाणि सव्वत्थ ।	"
१९५	एवं दुगुणहीणा-दुगुणहीणा जाव सागरोवमसदपुधत्तं ।	"	२०६	सादस्स चउट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्ठदो ट्ठाणाणि थोवाणि ।	३३४
१९६	सादस्स विट्ठाणवंधा जीवा असादस्स चउट्ठाणवंधा जीवा णाणावरणीयस्स जहणियाए द्विदीए जीवेहितो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणवड्ढिदा ।	३२७	२०७	उवरि संखेज्जगुणाणि ।	"
१९७	एवं दुगुणवड्ढिदा दुगुणवड्ढिदा जाव सागरोवमसदपुधत्तं ।	"	२०८	सादस्स तिट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्ठदो ट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि	३३५
			२०९	उवरि संखेज्जगुणाणि ।	"
			२१०	सादस्स विट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्ठदो एयंतसागारपाओग्गट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि ।	"
			२११	मिस्सयाणि संखेज्जगुणाणि	३३६
			२१२	सादस्स चैव विट्ठाणियजवमज्झस्स उवरि मिस्सयाणि संखेज्जगुणाणि ।	"
			२१३	असादस्स विट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्ठदो एयतासायारपाओग्गट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि ।	"

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
२१४	मिस्सयाणि संखेज्जगुणाणि ।	३३७	२३४	तिट्ठाणबंधा जीवा संखेज्जगुणा ।	३४२
२१५	असादस्स चैव विट्ठाणियजवमज्झ- स्सुवरि मिस्सयाणि संखेज्ज- गुणाणि ।	”	२३५	विट्ठाणबंधा जीवा संखेज्जगुणा ।	”
२१६	एयंतासागारपाओग्गट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि ।	”	२३६	असादस्स विट्ठाणबंधा जीवा संखेज्जगुणा ।	”
२१७	असादस्स तिट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्ठदो ट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि ।	३३८	२३७	चउट्ठाणवधा जीवा संखेज्जगुणा ।	३४३
२१८	उवरि संखेज्जगुणाणि ।	”	२३८	तिट्ठाणवन्धा जीवा विसेसाहिया ।	”
२१९	असादस्स चउट्ठाणियजवमज्झस्स हेट्ठदो ट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि ।	”	२३९	पयडिसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगहाराणि पमाणाणुगमो अप्पाबहुए त्ति ।	३४६
२२०	सादस्स जहण्णओ ट्ठिदिवंधो संखेज्जगुणो ।	”	२४०	पमाणाणुगमे णाणावरणीयस्स असंखेज्जा लोगा ट्ठिदिवंधज्झव- साणट्ठाणाणि ।	”
२२१	जट्ठिदिवंधो विसेसाहियो ।	”	२४१	एवं सत्तणं कम्माणं ।	”
२२२	असादस्स जहण्णओ ट्ठिदिवंधो विसेसाहियो ।	३३२	२४२	अप्पाबहुए त्ति सव्वत्थोवा आउ- अस्स ट्ठिदिवंधज्झवसाण- ट्ठाणाणि ।	३४७
२२३	जट्ठिदिवंधो विसेसाहियो ।	”	२४३	णामा-गोदानं ट्ठिदिवंधज्झवसा- णट्ठाणाणि दो वि तुल्लाणि असं- खेज्जगुणाणि ।	”
२२४	जत्तो उक्कस्सयं दाहं गच्छदि सा ट्ठिदी संखेज्जगुणा ।	”	२४४	णाणावरणीय-दंसणावरणीय- वेयणीय-अंतराइयाणं ट्ठिदिवंध- ज्झवसाणट्ठाणाणि चत्तारि वि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि ।	३४८
२२५	अंतोकोडाकोडी संखेज्जगुणा ।	”	३४५	मोहणीयस्स ट्ठिदिवंधज्झवसा- णट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।	३४९
२२६	सादस्स विट्ठाणियजवमज्झस्स उवरि एयंतासागारपाओग्गट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि ।	३४०	२४६	ठिदिसमुदाहारे त्ति इत्थ इमाणि त्तिण्णि अणियोगहाराणि पगणणा अणुकट्ठी तिब्ब-मददा त्ति ।	”
२२७	सादस्स उक्कसओ ट्ठिदिवंधो विसेसाहियो ।	”	२४७	पगणणाए णाणावरणीयस्स जहण्णियाए ट्ठिदीए ट्ठिदिवंधज्झ- वसाणट्ठाणाणि असंखेज्जा लोगा ।	३५०
२२८	जट्ठिदिवंधो विसेसाहियो ।	”	२४८	विदियाए ट्ठिदीए ट्ठिदिवंधज्झ- वसाणट्ठाणाणि असंखेज्जा लोगा ।	”
२२९	दाहट्ठिदी विसेसाहिया ।	”	२४९	तदियाए ट्ठिदीए ट्ठिदिवंधज्झ- वसाणट्ठाणाणि असंखेज्जा लोगा ।	३५१
२३०	असादस्स चउट्ठाणियजवमज्झस्स उवरिमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि ।	३४१			
२३१	असादस्स उक्कस्सट्ठिदिवंधो विसेसाहियो ।	”			
२३२	जट्ठिदिवंधो विसेसाहियो ।	”			
२३३	एवेण अट्ठपवेण सव्वत्थोवा सादस्स चउट्ठाणवधा जीवा ।	”			

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
२५०	एवमसंखेज्जा लोगा असंखेज्जा लोगा जाव उक्कस्सट्ठिदि त्ति ।	३५०	२६४	एवं द्विदिवंधज्जवसाण दुगुण- वड्ढिहाणिट्ठानंतरं पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।	३५०
२५१	एवं सत्तण्णं कम्माणं ।	३५२	२६५	णाणाट्ठिदिवंधज्जवसाण-दुगुण- वड्ढिहाणिट्ठानंतराणि अगुल- वग्गमूलछेदणाणमसंखेज्जदि- भागो ।	३५१
२५२	तेसिं दुविधा सेडिपरूवणा अणत- रोवणिधा परपरोवणिधा ।	३५३	२६६	णाणाट्ठिदिवंधज्जवसाणदुगुण- वड्ढिहाणिट्ठानंतराणि थोवाणि ।	३५२
२५३	अणंतरोवणिघाए णाणावरणी- यस्स जहणियाए ट्ठिदीए ट्ठिदि- बंधज्जवसाणट्ठानाणि थोवाणि	३५३	२६७	एयट्ठिदिवंधज्जवसाणदुगुणव- ड्ढिहाणिट्ठानंतरमसंखेज्जगुणं ।	३५३
२५४	विदियाए ट्ठिदीए ट्ठिदिवंधज्ज- वसाणट्ठानाणि विसेसाहियाणि ।	३५४	२६८	एवं छण्णं कम्माणमाउववज्जाणं ।	३५४
२५५	तदियाए [ट्ठिदीए] ट्ठिदिवंधज्ज वसाणट्ठानाणि विसेसाहियाणि ।	३५५	२६९	अणुकट्ठीए णाणावरणीयस्स जहणियाए ट्ठिदीए जाणि ट्ठिदि- बंधज्जवसाणट्ठानाणि ताणि विदियाए ट्ठिदीए बंधज्जवसाण- ट्ठानाणि अपुव्वाणि ।	३५५
२५६	एवं विसेसाहियाणि विसेसा हियाणि जाव उक्कस्सिया ट्ठिदि त्ति ।	३५६	२७०	एवमपुव्वाणि अपुव्वाणि जाव उक्कस्सिया ट्ठिदि त्ति ।	३५६
२५७	एवं छण्ण कम्माणं ।	३५७	२७१	एवं सत्तण्णं कम्माणं ।	३५७
२५८	आउअस्स जहणियाए ट्ठिदीए ट्ठिदिवंधज्जवसाणट्ठानाणि थोवाणि ।	३५८	२७२	तिव्वमंददाए णाणावरणीयस्स जहणियाए ट्ठिदीए जहणयं ट्ठिदिवंधज्जवसाणट्ठानं सव्व- मंदाणुभाग ।	३५८
२५९	विदियाए ट्ठिदिवंधज्जवसाण- ट्ठानाणि संखेज्जगुणाणि ।	३५९	२७३	तिस्से चेव उक्कस्समणतगुणं ।	३५९
२६०	तदियाए ट्ठिदीए ट्ठिदिवंधज्जवसा- णट्ठानाणि असंखेज्जगुणाणि ।	३६०	२७४	विदियाए ट्ठिदीए जहणयं ट्ठिदिवंधज्जवसाणट्ठानमणंतगुणं	३६०
२६१	एवमसंखेज्जगुणाणि असंखेज्ज- गुणाणि जाव उक्कस्सिया ट्ठिदि त्ति ।	३६१	२७५	तिस्से चेव उक्कस्समणंतगुणं ।	३६१
२६२	परंपरोवणिघाए णाणावरणी- यस्स जहणियाए ट्ठिदीए ट्ठिदि- बंधज्जवसाणट्ठानेहितो तदो पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणवड्ढिदा ।	३६२	२७६	तदियाए ट्ठिदीए जहणयं ट्ठिदि- बंधज्जवसाणट्ठानमणंतगुणं ।	३६२
२६३	एवं दुगुणवड्ढिदा दुगुणवड्ढिदा जाव उक्कस्सिया ट्ठिदि त्ति ।	३६३	२७७	तिस्से चेव उक्कस्सयमणंतगुणं ।	३६३
			२७८	एवणंतगुणा जाव उक्कस्सट्ठिदि त्ति ।	३६४
			२७९	एवं सत्तण्ण कम्माणं ।	३६५

२ अवतरण-गाथा-सूची

क्रमसंख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहीं
	(वेदणा-क्षेत्रविधान)		
१	अवगयनिवारणद्व	१	प्रमाणवार्तिक ४-१९०
	(वेदणा-कालविधान)		
५	अच्छेदनस्य राशेः	१२४	पंचा. १००
८	अयोगमपरैर्योग—	३१७	गो. जी. ५६९
४	कालो त्ति य वषणसो	७६	प. खं. पु ६ पृ. १५८, पु १० पृ. ४८५
१	कालो परिणामभवो	७५	गो. जी. ५८८
२	णय परिणमइ सयं सो	७६	
६	प्रक्षेपकसंक्षेपेण	२४१	
३	लोगागासपदेसे	७६	
७	विशेषणविशेषाम्याम्	३१७	

३ ग्रन्थोल्लेख

१ छेदसूत्र

१ ण च द्विवित्थि-णस्यवेदाणं चेलादिचागो अत्थि, छेदसुत्तेण सह विरोहादो । ११४
२ तत्त्वार्थसूत्र (१-२०)

१ ण च पुव्वसहो कारणत्थभावेण अप्पसिद्धो, “ मदिपुव्वं सुदं ” (विशेषा १०५) इच्छेत्थ कारणे वट्टमाणपुव्वसहुवलंभादो । १४१

३ प्रदेशविरचितअल्पबहुत्व

१ तं कधं णव्वदे ? चरिमगुणहाणिदव्वादो पढमणिसेयो असंखेज्जगुणो त्ति पदेसविरइयअप्पावहुगादो । २५६

४ मूलाचार

१ ण च तेण सह तस्स वंधो, आपंचमी त्ति सिंहा इत्थीओ जंति छट्ठिपुढवि त्ति (१२-१२३) । ११४

२ ण च देवाणं उक्कस्साउअं द्विवित्थिवेदेण सह वज्झइ, णियमा णिगंथलिंणेण (१२-१३४)

५ संतकम्मपाहुड

१ संतकम्मपाहुडे पुण णिगोदेसु उप्पाइदो । २१

६ अनिर्दिष्टनाम

१ “ अद्धे शून्यं रूपेण गुणम् ” इति गणितन्यायेन ज लद्धं तं ठविय “ रूवोनमादिसं-गुणमेकोनगुणोन्मथितमिच्छा ” पदेण रूवूणं कारुण सव्वज्झवसाणपमाणं होदि । ३६०

४ पारिभाषिक शब्द-सूची

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अ		अनन्तगुणवृद्धि	३५१
अकर्मभूमि	८९	अनन्तभागवृद्धि	३५२
अचित्तकाल	७६	अनन्तरोपनिधा	३४९
अत्यन्तायोगव्यवच्छेद	३१८	अनुकृष्टि	१९
अद्वाकाल	७७	अन्धकाकलेश्या	५६
		अन्ययोगव्यवच्छेद	२४५, ३१८
		अप्रधानकाल	७६
		अयोगव्यवच्छेद	२४५, ३१७
		अलोक	२
		अवगाहनादण्डक	५६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अन्वोगाहअल्पवहुत्व	१४७, १६३, १७७	चतुर्थस्थान अनुभागबन्ध	१४०	प्रधानद्रव्यकाल	७५
असंख्यातगुणवृद्धि	३५१	चतुःस्थानबन्धक	१४०	प्रमाणकाल	७७
असंख्यातभागवृद्धि	३५१	चूलिका	१४०	भ	
असंख्येयवर्षायुष्क	८९, ९०	छ		भावजघन्य	८५
असातबन्धक	३१२	छेदगुणकार	१२८	भावतः आदेशजघन्य	१२
आ		छेदभागहार	१२५	भावतः उत्कृष्ट	१३
आगमभावकाल	७६	ज		ल	
आगमभावक्षेत्र	२	जघन्यबन्ध	३३९	लब्धमत्स्य	१५, ५१
आगमभाव जघन्य	१२	जघन्यस्थिति	३५०	लोक	२
आदेश उत्कृष्ट	१३	ज-स्थितिवन्ध	३३९	लोकोत्तरसमाचारकाल	७६
आदेश जघन्य	१२	जलचर	९०, ११५	लौकिकसमाचारकाल	११
आदेशतः काल जघन्य	१२	ज्ञानोपयोग	३३४	व	
आवाधा	९२, २०२, २६२	त		विग्रह	२०
आवाधा काण्डक	९२, २६६	तृतीयस्थान	३१३	विशुद्धता	३१४
आवाधा स्थान	१६२, २७१	त्रिस्थानबन्धक	३३३	विशुद्धि	२०९
उ		द		विशुद्धिस्थान	२०८, ३०९
उत्कृष्ट दाह	३३९	दर्शनोपयोग	३३३	वीचारस्थान	१११
उत्कृष्ट स्थितिसंकलेश	९१	दाह	३३९	वेदना	२
ए		दाहस्थिति	३४१	वेदनाक्षेत्रविधान	१८
एकस्थान	३१३	द्रव्य उत्कृष्ट	१३	वेदनासमुद्घात	१८
ओ		द्रव्य जघन्य	१२, ८५	स	
ओघ उत्कृष्ट	१३	द्रव्यतः आदेश जघन्य	१२	सचित्तकाल	७६
ओघ जघन्य	१२	द्वितीय स्थान	३१३	समभागहार	१२७
क		द्विस्थानबन्धक	३३३	समाचारकाल	७६
कर्मक्षेत्र उत्कृष्ट	१३	ध		समुदाहार	३०८
कर्मक्षेत्र जघन्य	१२	ध्रुवस्थिति	३५०	संकलेश	२०९, ३०२
कर्मभूमिप्रतिभाग	८९	न		संकलेशस्थान	२०८
काकलेइया	१९	निर्वर्गणकाण्डक	३६३	संख्यातगुणवृद्धि	३५१
काक जघन्य	८५	निपेक	२३७	संख्यातभागवृद्धि	३५१
कालतः उत्कृष्ट	१३	नोआगमभावकाल	७७	संख्येयवर्षायुष्क	८९
क्षेत्र	२	नोआगमभावक्षेत्र	२	सातबन्धक	३१२
क्षेत्र जघन्य	८५	नोआगमभावजघन्य	१३	सिक्थमत्स्य	५२
क्षेत्रतः आदेशजघन्य	१२	नोकर्मक्षेत्र उत्कृष्ट	१२	स्थलचर	९०, ११५
ख		नोकर्मक्षेत्रजघन्य	१२	स्थिवन्धस्थान	१४२, १५२, २०५, २२५
खगचर	९०, ११५	प		स्थितिवन्धाध्यवसान	३१०
च		पञ्जिका	३०३	स्वस्थानजघन्यस्थिति	३१९
चतुर्थस्थान	३१३	परम्परोपनिधा	३५२		

